

## BOOKS BY GANDHIJI

An Autobiography	7 0 0
Satyagraha in South Africa	4 8 0
Hind Swaraj	0 8 0
Cent Per Cent Swadeshi	2 0 0
Constructive Programme — Its Meaning & Place	0 6 0
Non-violence in Peace and War Vol. I	7 0 0
Women & Social Injustice	3 0 0
Gandhiji's Correspondence with the Government (1942-44)	2 8 0
From Yeravda Mandir	0 8 0
Self-Restraint v. Self-Indulgence	2 0 0
Delhi Diary	3 0 0
The Nation's Voice	3 0 0
Key to Health	0 10 0
Christian Missions — Their Place in India	
Economics of Khadi	
Indian States' Problem	

NAVAJIVAN PUBLISHING HOUSE  
AHMEDABAD

गुजरात विद्यापीठ ग्रंथावलि पुस्तक नं. ४१

# गांधी साहित्य सूचि GANDHIANA

(A Bibliography of Gandhian Literature)

संयोजक

पांडुरंग गणेश देशपांडे

Compiled by

P. G. DESHPANDE



NAVAJIVAN PUBLISHING HOUSE  
AHMEDABAD

मुद्रक और प्रकाशक  
जीवणजी डाह्याभाभी देसाभी  
नवजीवन मुद्रणालय, कालुपुर, अहमदावाद

पहली वार, प्रति ५,०००

दो गांधीभक्त  
महादेवभायी देसायी  
और

जयशंकर पी. त्रिवेदीसाहब को  
जिन्होंने मेरे अिस काममें काफी दिलचस्पी ली

To  
MAHADEV DESAI  
AND

JAYSHANKAR P. TRIVEDI

Two *Bhaktas* of Gandhiji who took keen  
interest in this my work





## प्रकाशकका निवेदन

हमें इस बातकी बड़ी खुशी है कि गांधी साहित्य सूचिकी यह आवृत्ति हम प्रकाशित कर रहे हैं । इस सूचिका कुछ संक्षिप्त इतिहास पाठकोंको बता देना उचित होगा । गांधीजीके हीरकमहोत्सवके अवसर पर गूजरात विद्यापीठने अेक खादी प्रदर्शन किया था । उसमें अेक विभाग गांधीसाहित्यका था । उस विभागमें गांधीजीकी अपनी लिखी हुआ, और उनके जीवन और कार्यसे संबंध रखनेवाली अन्य लेखकोंकी पुस्तकें अिकठ्ठी की गयी थीं । उन सब पुस्तकोंकी यादी लगभग आठ पृष्ठकी बनी थी । वह इस सूचिकी अेक छोटीसी शुरूआत ही कही जायगी । इसके बाद गूजरात विद्यापीठ ग्रंथालयके ग्रंथपाल श्री पांडुरंग गणेश देशपांडेने गांधीसाहित्यकी संपूर्ण सूचि तैयार करनेका काम विशेष रूपसे अपना लिया । और तबसे वे इसमें बड़ी लगनसे जुटे रहे हैं ।

१९४१में अहमदावादमें गूजरात पुस्तकालय सम्मेलन हुआ । उसके संचालकोंने गांधीसाहित्यकी अेक प्रदर्शनी भरना चाहा और साथ ही गूजरात विद्यापीठ ग्रंथालयके ग्रंथपालकी सहायता और सहयोगसे उस साहित्यकी अेक पूरी सूचि प्रकाशित करना चाही । विद्यापीठने उनका यह प्रस्ताव स्वीकार किया और श्री देशपांडे तथा पुस्तकालय सम्मेलनके एक मंत्री श्री कीकुभाई देसाजी, जिन दोनोंके नामसे तब तकके गांधी साहित्यकी पूरी सूचि प्रकाशित की गयी । वह सूचि हमारी अपेक्षासे बहुत जल्दी विक गयी और तबसे उसकी माँग बराबर चली आ रही है । यह देखकर श्री देशपांडेको अपने काममें उत्साह मिला और दूसरे महायुद्धके कठिन समयके बावजूद उन्होंने अपना काम जारी रखा । यह सूचि उनकी, उस मेहनतका फल है । इस संस्करणमें हिन्दुस्तानकी भाषाओंमेंसे हिन्दी, गुजराती, मराठी, बंगला, उर्दू, कन्नड़, संस्कृत और सिन्धी तथा अंग्रेज़ीकी अब तककी सब किताबें दर्ज करनेकी पूरी कोशिश की गयी है ।

यहाँ इस सूचिकी पुस्तकोंके बारेमें भी कुछ कह देना जरूरी है । इस सूचिमें गांधीजीका अपना प्रकाशित किया हुआ साहित्य तथा उनके जीवन, कार्य और तत्त्वज्ञान सम्बन्धी पुस्तकें तो हैं ही; साथ ही इसमें औसी पुस्तकें भी दी गयी हैं जिन्हसे उनके व्यक्तित्व, जीवन, कार्य और तत्त्वज्ञानको

समझनेमें सहायता मिलती है। जिस तरह पाठक देखेंगे कि टॉलस्टॉय, रस्किन, थोरो, श्रीमद् राजचन्द्र, वगैरह लेखकोंकी पुस्तकें जिसमें हैं। देशकी आजादीके आन्दोलन और खुसकी वर्तमान समस्याओं सम्बन्धी पुस्तकें भी इसमें शामिल की गयी हैं। राष्ट्रीय महासभा, गांधीसेवा संघ और जिस प्रकारकी अन्य संस्थाओंकी रिपोर्टें, इन्डियन अन्वुअल रजिस्टर और इण्डिया जैसे वार्षिक और दूसरे कुछ सामयिक भी जिसमें लिये गये हैं।

पुस्तकें भाषावार दी गयी हैं और उनका वर्गीकरण जिस तरहसे किया गया है :

- |  |                      |
|--|----------------------|
| १. गांधी चरित्र                        | ६. अर्थशास्त्र       |
| २. सत्याग्रह, अहिंसा, गांधीवाद इत्यादि | अ. खादी              |
| अ. सत्याग्रहोंका इतिहास                | आ. प्रामोयोग         |
| ३. धर्म और नीति                        | ७. शिक्षण            |
| ४. समाज विषयक प्रश्न ( सामान्य )       | ८. राष्ट्रभाषा       |
| अ. अप्रसूयता-निवारण                    | ९. आरोग्य            |
| आ. क्रांती लेखना                       | १०. साहित्य          |
| ५. राजनीति                             | ११. आधुनिक इतिहास    |
|  | १२. सामयिक और संग्रह |

जिरादा तो यह था कि दक्षिणकी चारों भाषाओंकी किताबें जिस आवृत्तिमें शामिल की जायें। किन्तु संयोजकोंका अफसोस है कि कन्नड़की कुछ किताबोंके नाम देनेके सिवा जिस दिशामें अधिक कुछ नहीं किया जा सका। दक्षिणके कुछ मित्रोंमें जिस सम्बन्धमें प्रार्थना की भी थी कि वे अपनी अपनी भाषाओंके गांधीसाहित्यकी सूचियां भेज दें, लेकिन अभी तक वहाँसे कुछ भी नहीं मिल पाया। हम तो अभी भी दक्षिणके गांधी प्रेमियोंमें प्रार्थना करते हैं कि वे अपनी अपनी भाषाओंके गांधी साहित्यकी पुस्तकोंके नाम भेज दें, जिससे हम जिस पुस्तककी बादकी आवृत्तिमें उन्हें शामिल कर दें।

जिस किस्मके संग्रहके सम्बन्धमें यह दावा करना कि वह पूर्ण है, अगर असम्भव नहीं, तो मुश्किल इस्तर है। लेकिन फिर भी हम यह कह सकते हैं कि श्री देशपांडेजीकी पूरी कोशिश रही है कि यह सूचि जहाँ तक हो सके पूर्ण हो। और जिस दिशामें जो कोश भी उनकी सहायता करेगा उसे वे कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार करेंगे।

संयोजकोंके किताबोंके लेखक और प्रकाशकोंके नाम, प्रकाशकका स्थान और समय, पृष्ठोंकी संख्या, कीमत वगैरह दी है। वे चाहते थे कि पाठककी जानकारीके लिये हर किताबका थोड़ा विवरण दिया जाय। लेकिन मित्रोंकी सहायता और

काफी अवकाश मिलने पर ही हमारे लिये यह काम करना सम्भव था। दूसरे, अगर हम अितना करने जाते तो यह सूचि, जिसकी माँग दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है, प्रकाशित करनेमें और भी देर हो जाती। गांधीजीके चले जानेके बाद देश-विदेशकी अिस माँगकी ओर लपरवाह रह कर हम अपने अरमान पूरे करनेमें लगे रहते तो निश्चित था कि हम अव्यावहारिक अुत्साहके दोषके पात्र बन जाते। अिसी वजहसे संयोजकके पास जो कुछ सामग्री तैयार थी वह देकर हमने मनको तसल्ली दे ली है। शेष किताबोंके लिये पाठकोंको दूसरी आवृत्तिका अिन्तजार करना होगा। गांधीजीके साहित्यके अभ्यासियोंसे प्रार्थना है कि वे शेष किताबों पर नोट भेजकर हमारी सहायता करें।

बहुतसी भारतीय भाषाओंकी किताबोंके अन्तमें 'वि' निशान किया है और अंग्रेजी किताबोंके अन्तमें 'V' निशान किया है। अिन निशानियोंका मतलब यह है कि ये किताबें गूजरात विद्यापीठ ग्रंथालयमें मौजूद हैं। अिस सूचिमें दी हुअी किताबोंकी कुल संख्या २८००के करीब है। वह भाषावार अिस तरहसे है : हिन्दी ४१२, गुजराती ५००, मराठी २८७, बंगला ११७, अुर्दू ५४, कन्नड़ ५६, संस्कृत १२, सिन्धी ४ और अंग्रेजी करीब १४००। गांधीजीके विषयमें यह अेक काफी बड़ा संग्रह है। और जैसे जैसे समय बीतता जायगा, वैसे वैसे हमें विश्वास है कि यह संग्रह और भी कअी तरहसे विकास करेगा। अेक खास महत्त्वकी दिशा, जिधर संग्रहकर्ता ध्यान नहीं दे सके, या यों कहें कि वे अकेले हिम्मत ही नहीं कर सकते हैं, वह है देश-विदेशके कअी सामयिकोंमें समय समय पर लिखा गया गांधीजी-विषयक साहित्य। यह साहित्य तितर-बितर विखरा पड़ा है और साथही लोगोंकी पहुँचके बाहर है। अिसकी भी सूचि तो बनाअी जा सकती है, लेकिन हालमें वह अेक आदमीकी ताकतके बाहर है। अिस साहित्यमेंसे खास महत्त्वका भाग तो कभी न कभी पुस्तक रूपमें प्रकाशित हो ही जायगा और तब अुसे अिस तरहकी सूचिमें लेना मुश्किल नहीं होगा। गांधीसाहित्यकी दृष्टिसे कुछ महत्त्वके सामयिकोंके नाम तो अिस सूचिमें भी ले लिये गये हैं।

हमें विश्वास है कि गांधीजी जैसे महापुरुषके जीवन और कार्यसे सम्बन्ध रखनेवाली यह सूचि प्रकाशित करके हम अेक बहुत बड़ी कमीकी पूर्ति कर रहे हैं। अिससे हमारी सिर्फ अितनी ही अुम्मीद है कि जो शान्ति, प्रेम और मेलजोलका सन्देश लेकर आये थे, अुनके साहित्यके अभ्यासियोंके लिए यह सूचि बहुत कामकी साबित होगी। और साथही अुनमें अुन्हीं असूलोंकी प्रेरणा करेगी जिनके लिए गांधीजी जीये और मरे।



## PUBLISHER'S NOTE

It is with very great pleasure that we issue this edition of the Bibliography of Gandhian Literature. The story of its compilation may be briefly noted here. The Gujarat Vidyapith had organized a Khadi Exhibition on the occasion of the Diamond Jubilee of Gandhiji. One of the sections in the Exhibition was Gandhian Literature. Books by, on or about Gandhiji and related to or having a bearing on his life and work, were collected together in that section. A list recording all these books covered about 8 foolscap pages. This may be said to be the modest beginning of the present edition of the bibliography. Since then Shri Pandurang Deshpande, the Librarian of the Gujarat Vidyapith Granthalaya, has made the work of the compilation of the Gandhian Bibliography his own and has assiduously worked at it all these years.

In 1941 the Gujarat Library Conference met in Ahmedabad. They desired to hold an exhibition of Gandhian Literature and publish its full bibliography with the co-operation and help of the Librarian of the Gujarat Vidyapith. The Vidyapith accepted their proposal and an upto-date bibliography was published in 1941 under the joint names of Shri Deshpande and Shri Kikubhai Desai, who was one of the secretaries of the Library Conference, as compilers. To our surprise, the edition sold out more rapidly than expected; and there has been a persistent demand since then. This enthused Shri Deshpande to continue his work, and in spite of the troubled years of the second World War, he has devotedly worked at it. The present edition is the result. It brings the list upto-date and includes books in Hindi, Gujarati, Marathi, Bengali, Urdu, Kannad, Sanskrit and Sindhi among the Indian languages as also in English.

A few words regarding the contents of the bibliography. The published writings of Gandhiji, together with books dealing with or bearing on his life, work and philosophy have, of course, been included in this catalogue. Such books as are useful or necessary to understand Gandhiji's personality, his life, work and philosophy have also been included in this bibliography. Thus books by Tolstoy, Ruskin, Thoreau, Shrimad Rajachandra and such others find a place here. Literature concerning the Indian freedom movement and current Indian problems has also been included. Reports of institutions like the Indian National Congress, the Gandhi Seva Sangh, annuals like the Indian Annual Register and India (1919 To 1934-35) and some important periodicals and journals have also been noted.

The books are arranged language-wise and are classified under the following chief heads:

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. Biography.                  | 7. Education.  |
| 2. Satyagraha, Pacifism, etc.  | 8. The National Language,  |
| 2A. Satyagraha Struggles.      | 9. Health and Dietetics.   |
| 3. Religion.                   | 10. Literature.  |
| 3A. Social Ethics.             | 11. Current History.   |
| 4. Sociology.                  | 12. Collections (General)<br>of Gandhiji's Writings<br>and Speeches. |
| 4A. Removal of Untouchability. | 13. Journals and Periodicals.  |
| 4B. The Communal Problem.      | 14. Reference and Allied<br>Books.                                   |
| 5. Politics.                   |  |
| 6. Economics.                  |  |
| 6A. Labour.                    |  |
| 6B. Khadi.                     |  |
| 6C. Village Industries.        |  |

It was proposed to include books in the four South Indian languages also. But the compiler is sorry to report that barring a few entries in Kannad nothing more could be accomplished in that direction. Some South Indian friends were approached to supply us with the lists; but till now we have not been able to get them. The request still stands and South Indian lovers of Gandhiji may give the lists even now, so that they may find their due place in the bibliography later on.

In a compilation like this it is difficult, if not impossible, to claim exhaustiveness. This may however be said that Shri Deshpande has tried his very best to be as exhaustive as one can be in a work of this nature. And he would very much appreciate and welcome all help in that direction.

The compiler notes the names of the author and the publishers, date and place of publication, number of pages, price, etc. of books entered here. He had wished to give short notes also to introduce every book to the reader. That could be done with the help of friends and provided there was sufficient time for work. That would have meant more delay in the publication which has been in so great a demand for years now. With Gandhiji away from us, this demand, both in our country and from abroad, cannot be ignored without being charged with impractical over-zealousness. The compiler has, therefore, been content with giving the notes that were ready with him. For the remaining ones readers will have to wait till the new edition; and all students of Gandhiji who can help us by sending such notes on the remaining books are hereby invited to do so.

Most of the entries are followed by वि in the case of books in the Indian languages, and by V in the case of those in English; they indicate that those books are available in the Gujarat Vidyapith Granthalaya.

The total number of books listed in this bibliography is about 2800. Taken language-wise they are as follows: Hindi — 412, Gujarati — 500, Marathi — 287, Bengali — 117, Urdu — 54, Kannad — 56, Sanskrit — 12, Sindhi — 4 and English — about 1400. This is a fairly large library on Gandhiji, and as years go by, we are sure, it is going to increase in many more ways than hitherto. One noteworthy branch of literature in which the compiler could not, and we may say, he alone dares not, go is the great mass of periodical literature on Gandhiji that lies scattered and buried in various journals here and abroad. This may also be catalogued; but for the present it should be taken as beyond the competence of a single individual. The more important of it may be expected to go into book-form



sooner or later. It will then easily find its place in such a compilation as this. Some at least of the most important of the journals from the point of view of Gandhian literature have already been included here.

We believe, in publishing this bibliography about the life and work of a man like Gandhiji, we are meeting a very great need. Our only hope is that it may help the readers to study this great and unique man of peace and love and concord on earth, and inspire them to live the life that he stood and died for.

2-11-'48

Ahmedabad

# अनुक्रमणिका

## CONTENTS

प्रकाशकका निवेदन . . . . .	५
Publisher's Note . . . . .	ix
हिन्दी पुस्तकें . . . . .	१
Hindi Books . . . . .	1
गुजराती पुस्तकें . . . . .	२५
Gujarati Books . . . . .	25
मराठी पुस्तकें . . . . .	५७
Marathi Books . . . . .	57
बंगाली पुस्तकें . . . . .	७५
Bengali Books . . . . .	75
उर्दू पुस्तकें . . . . .	८०
Urdu Books . . . . .	80
कन्नड़ पुस्तकें . . . . .	८३
Kannad Books . . . . .	83
संस्कृत पुस्तकें . . . . .	८५
Sanskrit Books . . . . .	85
सिन्धी पुस्तकें . . . . .	८६
Sindhi Books . . . . .	86
अंग्रेजी पुस्तकें . . . . .	८७
English Books . . . . .	87
पूति . . . . .	१८८
Supplement . . . . .	188
अंशनाम सूचि . . . . .	१९१
Title Index . . . . .	191



# हिन्दी पुस्तकें

## १. गांधी-चरित्र

अग्रवाल, रुद्रनारायण और व्यास, दीनानाथ - टॉलस्टॉय और गांधी (संसारके दो महापुरुषोंकी तुलनात्मक आलोचना) दिल्ली, साहित्य मण्डल, रु. २-८-०, ३-०-०, १९३६, पृ. ८ + ३८१. वि

अरोड़ा, नारायणप्रसाद - मेरे गुरुजन. कानपुर, भीम बॅण्ड ब्रदर्स, रु. १-०-०, १९४५, पृ. १२८. वि

अिसमें दिये हुअे कुल १२ भारतीय महापुरुषोंके चरित्रोंमें गांधीजीका चरित्र पृ. ११२ से १२८ तक है।

शुभाश्याय, हरिभाबू और बाणेंद, चन्द्रगुप्त - विश्वकी विभूतियाँ. प्रयाग, हिन्दी नन्दिर, रु. १-८-०, १९४५, पृ. ४ + १४९. वि

अिसमें कुल १६ चरित्र हैं। गांधीजीका चरित्र पृ. १ से ८ तक।

कन्हैयालाल, बाबू - सत्याग्रही महात्मा गांधी. पटना

खट्टेवाल, दामोदरदास - बापूकी बात. चिरगांव (झांसी), साहित्य सदन, रु. १-०-०, सं. २००४, पृ. ४ + ९६. वि

गांधी, प्रभुदास छ. - महात्मा गांधी क्या हैं? क्या कहते हैं? क्या चाहते हैं? आसफपुर (बदायूँ), गांधी सेवा सदन, आधा आना, १९३७, पृ. २२

गांधी, मोहनदास क. (अनु. हरिभाबू शुभाश्याय) - आत्मकथा खण्ड १, २. अजमेर, सस्ता साहित्य मण्डल। खण्ड १ - १० आने, १ आ. १९२८, पृ. ४१३

+ ३; खण्ड २ - रु. १-४-०, १ आ. १९२८, पृ. ६ + ५०९. वि

दोनों खण्ड भेक जिल्दमें रु. १-२२-०, ७ आ. १९४६, पृ. १६ + ५७७। दिल्लीसे प्रकाशित। अिसका दूसरा नाम 'सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा' भी है।

- भारतके प्राण महात्मा गांधीकी जीवन-कथा (आत्मकथाका संपूर्ण सारांश). बिलाहावाड, राममोहनलाल, १२ आने, १९३१, पृ. ८ + २२० (गुटका). वि

- मेरा जीवन. देखो विभाग २ अ.

- मेरे जेलके अनुभव. कानपुर, १९३९

- (सं. महादेव देसाभी और हरिभाबू शुभाश्याय) - संक्षिप्त आत्मकथा [महात्मा गांधीकी आत्मकथाका संक्षिप्त विवरण]. दिल्ली, सस्ता साहित्य, ८ आने, १ आ. १९३९, पृ. ८ + २४८. वि

- सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा. देखो अपूर 'आत्मकथा.'

गांधी साहित्य संग्रह (प्र.) - गांधीजीके फोटोग्राफ (आल्बम). सावरमती, गां. सा. संग्रह, रु. १४०-०-०, मर्यादित आवृत्ति गुप्त, सियारामशरण - बापू (काव्य). चिरगांव (झांसी), साहित्य सदन, ८ आने, २ आ. १९३९, पृ. ८ + ७३. वि

गोयल, हनुमानप्रसाद - संसारके चुने हुअे रत्न. बनारस सिटी, भार्गव पुस्तकालय, रु. २-८-०, १९३८, पृ. ८ + ४०८

त्रिपाठी, कमलापति शास्त्री - बापू और भारत [गांधीका व्यक्तित्वदर्शन और भारत-

को बापूकी देन] बनारस, सरस्वती मन्दिर,  
 रु. ४-८-०, १९४५, पृ. ८+३८०. वि  
 -बापू और मानवता. बनारस, सरस्वती मन्दिर,  
 रु. ४-८-०, १९४५, पृ. ८+४१०. वि  
 त्रिपाठी, रामनरेश-गांधीजी कौन हैं ?  
 प्रयाग, १९२१

त्रिपाठी, सुन्दरलाल - लंदनमें लँगोटीवाला.  
 वस्त्राधी, सुन्दरलाल त्रिपाठी, ५ आना,  
 १९३२, पृ. ५०

दूसरी राशुण्ड टेबल कॉन्फरन्सके वक्त  
 गांधीजी लंदन गये खुस यात्राका बयान  
 दवे, जुगताराम (अनु: काशिनाथ त्रिवेदी)  
 -गांधीजी अहमदाबाद, नवजीवन,  
 ८ आना, १ आ. १९४१, पृ. ७+१५६. वि  
 देसायी, महादेवभाजी (अनु: शंकरलाल  
 वर्मा) - अंग्लैंडमें महात्माजी. अजमेर  
 सस्ता साहित्य, रु. १-०-०, १ आ.  
 सं. १८८९, पृ. ६+३१७. वि

'नेशनल वॉरिस'के अंतरार्थका  
 हिन्दी अनुवाद। पूर्वार्थ 'राष्ट्रवाणी'के  
 नामसे अनुवादित और प्रकाशित हुआ है।  
 द्विवेदी, सोहनलाल (मं) - गांधी  
 अभिनंदन ग्रंथ [महार्थ गांधीजीके  
 नेत्रधर्म विहित अनेक भाषाओंके प्रतिनिधि  
 कवियोंका काव्यसंग्रह]। लखनभू, गांधी  
 अभिनंदन ग्रंथ कार्यालय - अवध पब्लिशिंग  
 हाउस, रु. १०-०-०, १ आ. १९४४,  
 पृ. १०+१३७+५७ सचित्र, श्री सर्वपल्ली  
 राधाकृष्णन् लिखित भूमिका सहित। वि  
 परोख, इनमाला और नय्यर, सुशीला  
 (अनु: काशिनाथ त्रिवेदी) - हमारी वा  
 (अनुकी जीवन-कहानी)। अहमदाबाद,  
 नवजीवन: रु. २-०-०; १९४६; पृ.  
 ७+२१३. वि

महात्मा गांधीजीके प्रस्तावना सहित।  
 राष्ट्रिय, छविनाथ (मं) - संस्कारका सर्वश्रेष्ठ  
 पुस्तक. लखनवा, १९२३

फड़के, कृष्ण विनायक - बालदर्शन. कानपुर,  
 भीष्म अण्ड ब्रदर्स; रु. १-०-०; १९४६;  
 पृ. १२८. वि

'वक्त्रोंके गांधीजी' पृ. ९७-१०१.  
 फिशर, लुभी (अनु: सुदर्शन और कुलभूपग)  
 - गांधीजीके साथ सात दिन. वनभी  
 वीरा अण्ड कंपनी; रु. २-०-०; १९४५;  
 पृ. ४+१३०. वि

घाघेरलाल, महाबलसिंह - गांधी गौरव.  
 पनासी, १९३०

बिड़ला, घनश्यामदास - डायरीके कुछ  
 पन्ने (दूसरी गोलमेज परिषदमें गांधीजीके  
 साथ). नयी दिल्ली; सस्ता साहित्य,  
 शही आवृत्ति, श्यामलाल बेम्. अ. (ध).  
 रु. १-८-०. पृ. १२+१३४; २ आवृत्ति,  
 १२ आने; १९४१; पृ. १६०. वि

-बापू. दिल्ली, सस्ता साहित्य मण्डल; रु.  
 १-८-०; १ आ. १९४०; पृ. १८+  
 २०३। १३ चित्र. श्री महादेव देसायीके  
 'आदिवचन' सहित। वि

२० प्रकरणमें गांधीजीके जीवनके कुछ  
 प्रसंग, चरित्रनिरूपण और उनके विचारोंका  
 विवरण और कचित् समालोचना।

भण्डारी, सुखसंपत्तिराय - महात्मा गांधी.  
 अन्तर्, १९१८. वि

भवानीदास - सत्याग्रही महात्मा गांधी.  
 प्रयाग, १९१९

भाये, विनोबा - गांधीजीको श्रद्धाञ्जलि.  
 नयी दिल्ली, सस्ता साहित्य, ६ आने,  
 १९४८, पृ. ४८. वि

मालवीय, पं. राधाकिशोर - महात्मा  
 गांधीकी नोआखान्सी-यात्रा. अलाहाबाद,  
 आदमी हिन्दी पुस्तकालय; रु. ३-०-०,  
 १ सं. १९४७, पृ. ८+२१८, सचित्र. वि

राधाकृष्णन्, सर्वपल्ली (मं.) (अनुवाद  
 सत्यनक - श्री वैद्यनाथ कुमार) - महात्मा  
 गांधी: अभिनंदन ग्रंथ [७१में अन्त

दिवसकी भेंट]. दिल्ली, सस्ता साहित्य; रु. १-८-०, १९३९, पृ. १२ + २७०. वि श्री राधाकृष्णन् अित्यादि करीब ६०के अपुर हिन्दी और परदेशी विख्यात व्यक्तियोंके गांधीजीके जीवन, 'कार्य और फिल्मनुफीके बारेमें लिखे हुये लेखोंका संग्रह ।

रामचन्द्रन्, जी. - गांधी-गाथा. बम्बयी, हिन्दू किताबज, रु. १-०-०, १९४८, पृ. ८ + ४९. राजगोपालाचार्यकी प्रस्तावना ।

रामनाथ 'सुमन' - गांधीवादकी रूपरेखा. देखो विभाग २में ।

-महात्मा गांधी [जीवनकी शक्तियाँ और चरित्रचित्रण]. दिल्ली, सस्ता साहित्य; ६ आने; १ आ. १९३९, पृ. २ + १५४. वि - युगाधार गांधी [जीवनचरित्र, जीवनका अध्ययन तथा संस्मरण]. अिलाहाबाद, साधनासदन, रु. २-०-०, १९४७, पृ. ८ + १८०. वि

-हमारे राष्ट्रनिर्माता [जीवन, अध्ययन और शक्तियाँ]. अजमेर, सस्ता साहित्य; रु. २-८-०; १९३३; पृ. ६६४. वि इसमें तिलक, नेहरू (पिता-पुत्र), गांधीजी, अित्यादि १० नेताओंके चरित्र दिये हैं । गांधीजीका चरित्र पृ. २७७ से ४३० तक । सहायक सामग्रीकी सूचि और 'भारतीय राष्ट्रीयताका विकास' सहित ।

रोलाँ, रोसाँ - महात्मा गांधी : विश्वके अद्वितीय पुरुष. अिलाहाबाद, सेंट्रल बुक डीपो; रु. २-०-०, १९४७, पृ. ४ + १०३. वि अंग्रेजीसे अनुवादित.

रोस्टर, म्यूरिअल - गांधीजीकी यूरोप-यात्रा. बम्बयी, वॉरा अॅन्ड कां., रु. २-४-०  
वर्मा, सुकुन्दीलाल - कर्मदार गांधी. प्रयाग - श्रद्धास्पद मोहनदास कर्मचन्द गांधीका जीवनचरित्र. प्रयाग, अभ्युदय प्रेस; ८ आने; पृ. १० + १६०

वर्मा, रामचन्द्र - महात्मा गांधी [जीवन और व्याख्यान]. बम्बयी, १९२२

विद्यार्थी, प्रभुदयाल - गांधीजी

विशाल भारत-गांधी अंक अक्टूबर १९३८. कलकत्ता, प्रवासी प्रेस; रु. १-०-०; १९३८; पृ. ३७७ से ४९६. सचित्र. वि गांधीजीके जीवन और विविध प्रवृत्तियाँ और विचारसृष्टि-विषयक मूल्यांकन और समालोचना करते हुये लेखोंका अच्छा संग्रह इस अंकमें मिलता है ।

शर्मा, गोकुलचन्द्र - गांधी गौरव. कानपूर, १९२१

शर्मा, विश्वंभरप्रसाद - राष्ट्रमाता कस्तूरबा. नागपुर, नवयुग प्रकाशन; रु. १-८-०; ३ सं. १९४६; पृ. १२८

शुक्ल, चन्द्रशंकर प्रा. (सं) (अनुवादक: दर्शन) - गांधीजीके संपर्कमें. बम्बयी, वॉरा अॅन्ड कंपनी; रु. ३-४-०; १९४०; पृ. २२४. वि

शुक्ल, विद्या भास्कर - जगमगाते हीरे. प्रयाग

सत्यदेव विद्यालंकार - हमारे राष्ट्रपति [सन १८८५ से १९३६ तकके काँग्रेस सभापतिओंके जीवन-परिचय]. दिल्ली, सस्ता साहित्य; रु. १-०-०; १९३६; पृ. ३८१; वि

प्रस्तावना वावू राजेन्द्रप्रसाद । गांधीजीका चरित्र पृ. २३९ से २८० तक.  
संतराम बी. अ. - भारतके महापुरुष लाहौर, हिन्दी भवन रु. १-४-०; १९४६; पृ. ६ + १५७. वि

असमें कुल १२ भारतीय महापुरुषोंके चरित्र हैं । गांधीजीका चरित्र पृ. १३९ से १५७ तक

साहित्य मन्दिर (प्र.) - महात्मा गांधीका विश्वव्यापी प्रभाव. प्रयाग; १० आने; पृ. १५८. वि

को बापूकी देन]. बनारस, सरस्वती मन्दिर,  
रु. ४-८-०, १९४५, पृ. ८ + ३८०. वि  
-बापू और मानवता. बनारस, सरस्वती मन्दिर,  
रु. ४-८-०, १९४५, पृ. ८ + ४१०. वि  
त्रिपाठी, रामनरेश-गांधीजी कौन हैं ?  
प्रयाग, १९२१

त्रिपाठी, सुन्दरलाल - लंदनमें लँगोटीवाला.  
बम्बई, सुन्दरलाल त्रिपाठी, ५ आना,  
१९३२, पृ. ५०

दूसरी राशुण्ड टेबल कॉन्फरन्सके वक्त  
गांधीजी लंदन गये अुस यात्राका वयान  
देवे, जुगताराम (अनु: काशिनाथ त्रिवेदी)  
- गांधीजी अहमदाबाद, नवजीवन,  
८ आना, १ आ. १९४१, पृ. ७ + १५६. वि  
देसायी, महादेवभाजी (अनु: शेकरलाल  
वर्मा) - अिग्लैंडमें महात्माजी. अजमेर  
सस्ता साहित्य, रु. १-०-०, १ आ.  
सं. १८८९, पृ. ६ + ३१७. वि

'नेशनस वॉक्स'के अुत्तरार्धका  
हिन्दी अनुवाद। पूर्वार्ध 'राष्ट्रवाणी'के  
नामसे अनुवादित और प्रकाशित हुआ है।  
द्विवेदी, सोहनलाल (सं) - गांधी  
अभिनंदन ग्रंथ [महात्मा गांधीजीके  
संबंधमें लिखित अनेक भाषाओंके प्रतिनिधि  
कवियोंका काव्यसंग्रह]. लखनभू, गांधी  
अभिनंदन ग्रंथ कार्यालय - अवध पब्लिशिंग  
हायुसं, रु. १०-०-०, १ आ. १९४४,  
पृ. १० + १६७ + ५७ सचित्र, श्री सर्वपल्ली  
राधाकृष्णन लिखित भूमिका सहित। वि  
परोख, वनमाला और नय्यर, सुशीला  
(अनु: काशिनथ त्रिवेदी) - हमारी वा  
(अनुकी जीवन-कस्तूरी). अहमदाबाद,  
नवजीवन; रु. २-०-०; १९४६; पृ.  
७ + २१३. वि

महात्मा गांधीजीकी प्रस्तावना सहित।  
पाण्डेय, छविनाथ (सं) - संसारका सर्वश्रेष्ठ  
पुरुष. कलकता, १९२३

फड़के, कृष्ण त्रिनायक - बालदर्शन. कानपुर,  
भीष्म अॅण्ड ब्रदर्स; रु. १-०-०; १९४६;  
पृ. १२८. वि

'बच्चोंके गांधीजी' पृ. ९७-१०१.  
फिशर, लुभी (अनु: सुदर्शन और कुलभूपग)  
- गांधीजीके साथ सात दिन. बम्बई  
वीरा अॅण्ड कंपनी; रु. २-०-०; १९४५;  
पृ. ४ + १३०. वि  
घाणेलाल, महावल्लि सिंह - गांधी गौरव.  
पनासी, १९३०

विडला, घनश्यामदास - डायरीके कुछ  
पन्ने (दूसरी गोलमेज परिषदमें गांधीजीके  
साथ). नयी दिल्ली; सस्ता साहित्य,  
१ली आवृत्ति, श्यामलाल भेम्. भे. (प्र).  
रु. १-८-०. पृ. १२ + १३४; २ आवृत्ति,  
१२ आने; १९४१; पृ. १६०. वि  
- बापू. दिल्ली, सस्ता साहित्य मण्डल; रु.  
१-८-०; १ आ. १९४०; पृ. १८ +  
२०३। १३ चित्र. श्री महादेव देसायीके  
'आदिवचन' सहित। वि

२० प्रकरणमें गांधीजीके जीवनके कुछ  
प्रसंग, चरित्रनिरूपण और अुनके विचारोंका  
विवरण और कविता समालोचना।

भण्डारी, सुखसंपत्तिराय - महात्मा गांधी.  
अिन्दौर, १९१८. वि

भवानीदयाल - सत्याग्रही महात्मा गांधी.  
प्रयाग, १९१९

भावे, विनोबा - गांधीजीको श्रद्धाञ्जलि.  
नयी दिल्ली, सस्ता साहित्य, ६ आने,  
१९४८, पृ. ४८. वि

मालवीय, पं. राधाकिशोर - महात्मा  
गांधीकी नौआखाली-यात्रा. अिलाहाबाद,  
आदर्श हिन्दी पुस्तकालय; रु. ३-०-०,  
१ सं. १९४७, पृ. ८ + २१८, सचित्र. वि  
राधाकृष्णन्, सर्वपल्ली (सं.) (अनुवाद-  
सम्पादक - श्री जैनेन्द्र कुमार) - महात्मा  
गांधी: अभिनंदन ग्रंथ [७१वें जन्म

दिवसकी भेंट]. दिल्ली, सस्ता साहित्य; रु. १-८-०, १९३९, पृ. १२ + २७०. वि  
श्री राधाकृष्णन् अित्यादि करीब ६०के  
अूर हिन्दी और परदेशी विख्यात व्यक्तित-  
योंके गांधीजीके जीवन, कार्य और  
फिलसुफीके बारेमें लिखे हुअे लेखोंका  
संग्रह ।

रामचन्द्रन्, जी. - गांधी-नाथा. बम्बयी,  
हिन्दू किताबज, रु. १-०-०, १९४८,  
पृ. ८ + ४९. राजगीपालाचार्यकी प्रस्तावना ।  
रामनाथ 'सुमन' - गांधीवादकी रूपरेखा.  
देखो विभाग २में ।

-महात्मा गांधी [जीवनकी झाँकियाँ और  
चरित्रचिंतन]. दिल्ली, सस्ता साहित्य; ६  
आने; १ आ. १९३९; पृ. २ + १५४. वि

-युगाधार गांधी [जीवनचरित्र, जीवनका  
अध्ययन तथा संस्मरण]. अिलाहाबाद,  
साधनासदन, रु. २-०-०, १९४७,  
पृ. ८ + १८०. वि

-हमार राष्ट्रनिर्माता [जीवन, अध्ययन  
और झाँकियाँ]. अजमेर, सस्ता साहित्य;  
रु. २-८-०; १९३३; पृ. ६६४. वि  
अिसमें तिलक, नेहरू (पिता-पुत्र),  
गांधीजी, अित्यादि १० नेताओंके चरित्र  
दिये हैं । गांधीजीका चरित्र पृ. २७७ से  
४३० तक । सहायक सामंतीकी सूचि और  
'भारतीय राष्ट्रीयताका विकास' सहित ।

रोलॉ, रोसॉ - महात्मा गांधी : विश्वके  
अद्वितीय पुरुष. अिलाहाबाद, सेंद्रल बुक डीपो;  
रु. २-०-०, १९४७, पृ. ४ + १०३. वि  
अंग्रेजीसे अनुवादित.

लॉस्टर, म्यूरिअल - गांधीजीकी यूरोप-  
यात्रा. बम्बयी, वॉरा अॅन्ड कां., रु. २-४-०

वर्मा, मुकुन्दीलाल - कर्मवीर गांधी. प्रयाग  
-श्रद्धाश्रद्ध मोहनदास कर्मचन्द्र गांधीका  
जीवनचरित्र. प्रयाग, अभ्युदय प्रेस; ८  
आने; पृ. १० + १६०

वर्मा, रामचन्द्र - महात्मा गांधी [जीवन  
और व्याख्यान]. बम्बयी, १९२२

विद्यार्थी, प्रभुदयाल - गांधीजी

विशाल भारत-गांधी अंक अक्तूबर १९३८.

कलकता, प्रवासी प्रेस; रु. १-०-०;  
१९३८; पृ. ३७७ से ४९६. सचित्र. वि

गांधीजीके जीवन और विविध प्रवृत्तियाँ  
और विचारसृष्टि-विषयक मूल्यांकन और  
समालोचना करते हुअे लेखोंका अच्छा  
संग्रह अिस अंकमें मिलता है ।

शर्मा, गोकुलचन्द्र - गांधी गौरव. कानपूर,  
१९२१

शर्मा, विश्वभरप्रसाद - राष्ट्रमाता कस्तूरबा.  
नागपुर, नवयुग प्रकाशन; रु. १-८-०;  
३ सं. १९४६; पृ. १२८

शुक्ल, चन्द्रशंकर प्रा. (सं) (अनुवादक:  
दर्शन) - गांधीजीके संपर्कमें. बम्बयी,  
वोरा अॅन्ड कंपनी; रु. ३-४-०; १९४०;  
पृ. २२४. वि

शुक्ल, त्रिद्या भास्कर - जगमगाते हीरे.  
प्रयाग

सत्यदेव विद्यालंकार - हमारे राष्ट्रपति  
[सन १८८५ से १९३६ तकके काँग्रेस  
सभापतिओंके जीवन-परिचय]. दिल्ली,  
सस्ता साहित्य; रु. १-०-०; १९३६; पृ.  
३८१; वि

प्रस्तावना वावू राजेन्द्रप्रसाद ।

गांधीजीका चरित्र पृ. २३९ से २८० तक.

संतराम बी. अे. - भारतके महापुरुष  
लाहौर, हिन्दी भवन रु. १-४-०; १९४६;  
पृ. ६ + १५७. वि

अिसमें कुल १२ भारतीय महापुरुषोंके  
चरित्र हैं । गांधीजीका चरित्र पृ. १३९  
से १५७ तक

साहित्य मन्दिर (प्र.) - महात्मा गांधीका  
विश्वव्यापी प्रभाव. प्रयाग; १० आने;  
पृ. १५८. वि



बिस्के ३ भागोंमें क्रमशः गांधीजीकी जीवनी,अनुके संस्मरण और विचार दिये गये हैं।

हाइटन, वनार्ड - दुनियामें सबसे अच्छे आदमी महात्मा गांधी. काशी, १९२१

## २. सत्याग्रह, अहिंसा, गांधीवाद अि.

कालेलकर, द. घा. (सं) - गांधीवाद : समाजवाद [दोनों विचारधारामोंके विचारकों द्वारा तुलनात्मक विवेचन]. दिल्ली, सस्ता साहित्य; १२ आना; २ आ. १९३९, पृ. ८ + २४८. वि

राजेन्द्रबाबूकी प्रस्तावना और काका-साहेबका अपसंहार 'संवर्ष या सहयोग?' कृपलानी, आचार्य - अहिंसक क्रान्ति. अिलाहाबाद, साधना सदन; १० आने; १९४०, पृ. ५५. वि

- गांधी-मार्ग. अिलाहाबाद, साधना सदन; रु. २-८-०

गांधी, मोहनदास क. - खूनका बदला खूनसे नहीं. बनारस, काशी पुस्तक भण्डार; रु. १-८-०

-(अनु: कृष्णलाल वर्मा) - गांधीजीका ध्यान या सत्याग्रह मीमांसा. वम्बभी, ग्रंथभण्डार; ८ आने; १ आ. १९२२, पृ. ८०. वि

पञ्जाबके मामलेकी जाँच करनेके लिये नियुक्त हंटर कमेटीके आगे महात्मा गांधीका दिया हुआ वयान ।

-(सं. ल. ना. गर्दे) - गांधी सिद्धान्त. कलकत्ता, १९२१

- युद्ध और अहिंसा. नयी दिल्ली, सस्ता साहित्य; १२ आने, १९४०, पृ. ६ + २२०. वि

- सत्याग्रह : क्यों, कब और कैसे ? (सत्याग्रहके बारेमें गांधीजीके विचार). दिल्ली, सस्ता साहित्य; ३ आने, १९४०, पृ. ४ + ५५. वि  
सत्याग्रह विषयक गांधीजीके ताले लेखोंका संग्रह । परिशिष्टमें पं. जवाहर-लालजीका सत्याग्रहसंबंधी श्रेक लेख भी दिया है ।

- सत्याग्रह युद्ध [सैनिकोंके लिये जानने योग्य बातें]. अहमदाबाद, नवजीवन; १ आना, १ आ. १९३०; पृ. ६४. वि  
दांडीकृचके कुछ रोज पहले महात्मा गांधीजीका वात्रिसरोंयकी लिखा हुआ पत्र, लाहौर काँग्रेसका स्वराज्यका प्रस्ताव और स्वातंत्र्यदिनकी प्रतिज्ञा अित्यादि इस पुस्तकमें छपे हैं ।

गांधी सेवा संघ - संघके वार्षिक कार्य विवरण. वर्धा, मंत्री, गांधी सेवा संघ १९३६ - पृ. ३८, १९३७, ४ आने. वि १९३७ - पृ. २२, १९३८, ४ आने. वि १९३८ - पृ. २२, १९३९, ४ आने. वि १९३९ - पृ. २२, १९४०, ४ आने. वि

- द्वितीय वार्षिक संमेलन सावली, १९३६, रु. १-०-०, पृ. १६ + ९३. वि

- तृतीय वार्षिक संमेलन हुदली, १९३७, रु. १-०-०, पृ. ६ + ७२ + ३५. वि

- चतुर्थ वार्षिक संमेलन डेलांग, १९३८, रु. १-०-०, पृ. ४ + ९२ + २८. वि

- पञ्चम वार्षिक संमेलन वृन्दावन, १९३९, रु. १-०-०, पृ. ४ + ९२ + २०. वि

- छठ्ठा अधिवेशन मलिकन्दा, १९४०, रु. १-०-०, पृ. ४ + ७२ + १२. वि

- गांधी सेवासंघका विधान तथा नियम २ आने, १९३५, पृ. २२. वि

प्रेग, रिचर्ड बी. - अहिंसाकी शक्ति ['पावर ऑफ् नॉन वायोलन्स'का रूपान्तर]. नयी दिल्ली, सस्ता साहित्य, रु. १-८-०, १९४२, पृ. ६ + १७२. वि

चतुरसेन शास्त्री, आयुर्वेदाचार्य पं. - सत्याग्रह और असहयोग [वर्तमान आन्दोलन पर नयी कल्पना, नये विचार

द्वारा अपूर्व प्रकाश डालनेवाला, बड़ी ओजस्वी भाषामें लिखा हुआ मौलिक ग्रंथ ]।  
 दम्बमी, गांधी हिन्दी-पुस्तक भण्डार,  
 रु. १-१२-०, २-४-०, १ आवृत्ति सं.  
 १९७८, पृ. १२ + २६३. वि

तिवारी, पंडित रामदयाल - गांधी सीमांसा  
 [महात्मा गांधीके व्यक्तित्व, जीवनसिद्धान्त  
 तथा सार्वजनिक कार्यपर भेक आलोचनात्मक  
 दृष्टि] प्रयाग, भिन्डियन प्रेस, रु. ३-०-०,  
 १९४१, पृ. १८ + ८५०. वि

नागर, नरोत्तमप्रसाद - अेक-माता-व्रत  
 [गांधीवादका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण].  
 प्रयाग, अुच्छंखल प्रकाशन, रु. १-८-०,  
 १९३९, पृ. १८८. वि

पालीवाल, श्रीकृष्णदत्त - गांधीवाद और  
 मार्क्सवाद. आगरा, शिवलाल अग्रवाल,  
 रु. ३-०-०, पृ. २६२. वि

फिशर, लुडी - गान्धी और स्टालिन  
 [लडखड़ाती दुनियाके दो मार्गदर्शक]  
 दिल्ली, राजकमल पब्लिकेशन्स, रु. ३-४-०,  
 १९४७, पृ. ६ + २०९. वि

मशरूवाला, किशोरलाल घ. - अहिंसा  
 विवेचन नयी दिल्ली, सस्ता साहित्य,  
 ८ आने, १ आ. १९४२, पृ. ११८.  
 वि

- गांधीविचारदोहन. अजमेर - दिल्ली, सस्ता  
 साहित्य, १२ आने, १ आवृत्ति १९३०,  
 पृ. ८ + २१६. वि

अिसमें गांधीजीके विविध विषयोंके  
 बारेमें विचार खंडशः अलग अलग सूत्रमय  
 भाषामें दिये हैं ।

- निर्भयता. अहमदाबाद, नवजीवन, २ आने,  
 १९४२, पृ. २०. वि

यशपाल - गांधीवादकी शत्रुपरीक्षा (सत्य  
 अहिंसाकी परख) लखनभू, विप्लव कार्यालय,  
 रु. १-१२-०, १९४१, पृ. १७६. वि

रामनाथ 'सुमन' - गांधीवादकी रूपरेखा  
 [महापुरुष गांधी और अुनके तत्त्वज्ञानका  
 विवेचन]. अिलाहाबाद, साधना सदन,  
 रु. १-८-०, सं. १९४४, पृ. २००. वि

सत्याग्रह आश्रमकी नियमावलि -  
 अहमदाबाद, १९२८ पृ. २३. वि

सदानंद भारती - गांधी बनाम साम्यवाद  
 [वर्तमान भारतीय राजनैतिक रंगमंचका  
 सर्वश्रेष्ठ विवेचक ग्रंथ]. काशी, अेस्. अेस्.  
 अिहेता अॅण्ड ब्रथर्स, रु. १-१२-०, २-०-०,  
 १ आ. सं. १९९१, पृ. ८ + २००. वि

महात्मा गांधीका कार्यक्रम वास्तवमें  
 साम्यवादका ही क्रियात्मक रूप मात्र है  
 अैसा कर्ताका मन्तव्य है ।

## २. अ. सत्याग्रहोंका अितिहास

गांधी, मोहनदास क. - अेक सत्यवीरकी  
 कथा याने सुकरातकी सप्रताअी. नयी  
 दिल्ली, सस्ता साहित्य, १ आना, १९४१,  
 पृ. ४०. वि

- (अनु : वैजनाथ महोदय) - दक्षिण अफ्री-  
 काका सत्याग्रह. अजमेर, सस्ता साहित्य;  
 पूर्वार्ध पृ. ६ + २७२; अुत्तरार्ध पृ.  
 २ + २२२; अेरकोके ८ आने. वि

- (सं. पं. रवीन्द्रनाथ अग्निहोत्री) - मेरा  
 जीवन या अहिंसाकी परीक्षा प्रयाग,

मातृभाषा मन्दिर; रु. १-४-०, १९४४,  
 पृ. ६ + १०६. वि

दंसाअी, महादेव (अनु : काशिनाथ त्रिवेदी)  
 - अेक धर्मयुद्ध [अहमदाबादके गिल-  
 मजदूरोंकी लडाअीका अितिहास].  
 अहमदाबाद नवजीवन; ८ आने, १९४१, पृ.  
 ८ + १२७ वि

प्रताप कार्यालय (प्र.) - चम्पारण्यकी  
 जाँच अर्थात् चम्पारण्य कृषीय कमेटीकी  
 रिपोर्ट. कानपुर; प्रताप, १९१८

भवानीदयाल संन्यासी, स्वामी - दक्षिण  
अफ्रीकाके सत्याग्रहका इतिहास  
जिन्दौर, सरस्वती सदन; रु. ३-८-०,  
२ आवृत्ति १९२०, पृ. ३२ + ३८४ +  
३२ चित्र. वि

महोदय, वैजनाथ - विजयी धारडोली  
अजमेर, सस्ता साहित्य, रु. २-०-०,  
१ आ. पृ. ३२ + ४८९ + ५९ चित्र. वि  
राजेन्द्रप्रसाद, बाबू - चम्पारण्यमें महात्मा

गांधी पटना, अनुग्रहनारायण सिंह;  
रु. २-४-०, १ आ. १९२३, पृ. १४ +  
३९४ चित्र. वि

लीस्टर, म्यूरियल - विनाश या किलाज ?  
(यूरोपमें मृत्यु और अहिंसाके प्रयोग)  
दिल्ली, सस्ता साहित्य; १२ आने, १९३८,  
पृ. १६ + १९२ + ३. वि  
संपूर्णानन्द, बाबू - अकालियोंका आदर्श  
सत्याग्रह. बनारस, १९२९

### ३. धर्म और नीति

कालेलकर, द. घा. (अनु: श्रीपाद जोशी)  
- जीवनका काव्य [ हमारे त्योहारोंका  
परिमल ]. अहमदाबाद, नवजीवन; रु.  
२-०-०, १९४७, पृ. ८ + २५४. वि  
सुद्योगमन्दिर (प्र.) - सत्याग्रह आश्रम  
सुद्योगमन्दिरकी विविध प्रार्थनायें.  
सावरमती, सुद्योगमन्दिर; १९२८. वि  
खरे, पं. नारायण मो. (सं) - आश्रम  
भजनावलि. अहमदाबाद, नवजीवन,  
१ आ. १९२३; १५ आ. १९४७, ८ आने,  
पृ. ६४ + १६२. वि

गांधीजीकी प्रस्तावनाके साथ । संस्कृत  
प्रार्थनाओंका हिन्दी अनुवाद और हिन्दुस्तानी  
शब्दकोश भी दिया है ।

गांधी, मोहनदास क. - अनासक्तियोग  
(श्रीमद् भगवद्गीता भाषा टीका). कलकत्ता,  
शुद्ध खादी भण्डार, ३ आना, १ सं. सं.  
१९८७; ४ था १९९०, पृ. २४ + ३२४. वि  
मूल गीताके साथ अनुवाद

- (अनु: काशिनाथ त्रिवेदी) - अनासक्ति-  
योग [ श्रीमद् भगवद्गीताका अनुवाद ].  
अजमेर - दिल्ली, सस्ता साहित्य; २ आना,  
१९३१, पृ. १२ + १८ + १९१. वि

- (अनु: बाबू मृत्युञ्जयप्रसाद) - अनीतिकी  
राहपर अजमेर - दिल्ली, सस्ता साहित्य;  
८ आने, १ आवृत्ति, पृ. ८ + १४४. वि

- कुत्सित जीवन और दाम्पत्यविमर्ग.  
बनारस सिटी, काशी पुस्तक भण्डार; १२  
आने, २ आवृत्ति, सं. १९८९, पृ. १४४. वि  
- गीताबोध [ श्रीमद् भगवद्गीताका तात्पर्य ]  
दिल्ली, सस्ता साहित्य; रु. ०-१-६,  
२ आ. १९३८, पृ. १० + १३६. वि  
- दिल्ली - डायरी [ १०-९-१४७ से  
३०-१-१४८ तकके प्रार्थना प्रवचनोंका  
संग्रह ]. अहमदाबाद, नवजीवन. रु.  
३-०-०, १९४८, पृ. २८ + ४१९. वि  
- धर्मपथ प्रयाग, १९३७

- (सं. प्रभुदास गांधी) - धर्म-पालन  
[ नयी दिल्लीमें दिये गये गांधीजीके प्रार्थना-  
प्रवचन: १ अप्रिलसे १६ जून १९४७ ]  
नयी दिल्ली, सस्ता साहित्य, रु. १-८-०,  
१९४७, पृ. १० + २५३. वि

- धर्म-पालन भाग - २. रु. १-०-०  
- (अनु: कृष्णलाल वर्मा) - नीतिधर्म अथवा  
धर्मनीति बम्बई, गांधी हिन्दी पुस्तक  
भण्डार; ४ आना, १ सं १९२१, पृ.  
८ + ४८. वि

मि. सॉल्टर नामके भेक अंग्रेजी  
लेखककी किताबके गांधीजी लिखित गुजराती  
सारांशका हिन्दी अनुवाद  
- ब्रह्मचर्य [ संवम तथा ब्रह्मचर्यपर गांधीजीके  
लेखनोंका संग्रह ]. लखनभू, सस्ता साहित्य;

- ८ आने, १९३९, पृ. ६ + १९५. वि
- ब्रह्मचर्य और आत्मसंयम [ 'ब्रह्मचर्यके अनुभव'का संशोधित और परिवर्धित संस्करण ] बनारस सिटी, अेस्. अेस्. मेहता अेण्ड ब्रदर्स; १० आने, ३ सं. १९३८, पृ. ९६. वि
- ब्रह्मचर्यके अनुभव प्रयाग, साहित्य मन्दिर; १२ आने, १ सं. १९३२, पृ. २ + ९१. वि
- ब्रह्मचर्यपर महात्मा गांधीजीके अनुभव. प्रयाग, तत्काल भारत ग्रंथावलि कार्यालय; ८ आने, २ सं. १९३६, पृ. ४ + ८२. वि
- भाषियों और बहिनों. (प्रार्थना सभाओंमें गांधीजीके भाषण). दिल्ली, पब्लिकेशन डिविजन, मिनिस्ट्री ऑफ बिन्फ-मैशन अेन्ड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ़ इण्डिया.
- अंक १ - ४आने, पृ. ३२, दिल्ली, तां. १२-९-'४७ से २१-९-'४७ तक. वि
- अंक २ - ४आने, पृ. ३२, ता. २२-९-'४७ से ३०-९-'४७ तक. वि
- अंक ३ - ४आने, पृ. ३२, ता. १-१०-'४७ से ७-१०-'४७ तक वि
- मंगलप्रभात दिल्ली, सस्ता साहित्य, रु. ०-१-६, २ सं. १९३८, पृ. ६ + १०५. वि
- सत्य, अहिंसा अित्यादि आश्रम जीवनके व्रतोंके बारेमें यरवडा जेलसे गांधीजीके लिखे हुअे पत्रोंका संग्रह। 'व्रतविचार' का ही यह नामान्तर है।
- यरवडा मन्दिरसे दिल्ली, १९३१
- विवाह समस्या प्रयाग, मातृभाषा मन्दिर; रु. १-६-०
- व्रतविचार. देखो 'मंगलप्रभात'.
- (अनु : काशिनाथ त्रिवेदी) - सप्त महाव्रत गोरखपुर, गीता प्रेस; १ आना, २ सं. १९३२, पृ. २९. वि
- यरवडा कारामन्दिरसे गांधीजीके भेजे हुअे पत्र-प्रवचनमेंसे सातका संग्रह अिसमें

- है। सब प्रवचन 'मंगल प्रभात' नामसे प्रसिद्ध है।
- (सं. यशपाल जैन) - हृदय मंथनके पाँच दिन [ महात्मा गांधीके शुपवासके दिनोंके ० भाषणोंका संग्रह ]. नबी दिल्ली; सस्ता साहित्य, २ आने, १९४८, पृ. ६ + ५०. वि
- गांधीजीकी प्रस्तावना सहित।
- दक्षिण हिन्दी प्रचार सभा (प्र.) - पूज्य वापूजीकी प्रार्थना मद्रास, द. भा. हिं. प्र. सभा, ३ आने, १९४६, (तामिल और नेलगू लिपि सह) वि
- दिवान, कुन्दर (सं.) - आश्रम संगीत नालवाड़ी-वर्धा, ग्रागसेवा-मंडल; १२ आने, १९४४, पृ. २० + ३३८ + २८. वि
- भावे, आचार्य विनोबा (अनु : हरिभाभू शुपाध्याय) - गीता-प्रवचन नबी दिल्ली, सस्ता साहित्य, रु. २-८-०, १९४७, पृ. ६ + ३०२. वि
- मशरूबाला, कि. घ. (अनु : काशिनाथ त्रिवेदी) - अीशु खिस्त अहमदाबाद, नव-जीवन; १४ आने, १९४६, पृ. १४ + ९२. वि
- (अनु : शंकरलाल वर्मा) - गीतामन्थन दिल्ली, सस्ता साहित्य, रु. १-८-०, १९३९, पृ. १२ + ४२६. वि
- राजचन्द्र, श्रीमद् - श्रीमद् राजचन्द्र : राजचन्द्रजीके विविध लेख, पत्र, प्राभिवेट डायरी आदिका संग्रह। बन्वभी, परमश्रुत प्रभावक मण्डल; रु. ६-०-०, १९३८, पृ. ८१ + ८७४. वि
- सुंदरलाल, पं.- हजरत मुहम्मद और अिसलाम. बिलाहाबाद, विश्ववाणी कार्यालय; रु. १-८-०, १९४१, पृ. २२४ + ३. वि
- गीता और कुरान. बिलाहाबाद, विश्ववाणी कार्यालय, १९४४, पृ. ३२ + १७२. वि

## ४. समाजविषयक - सामान्य

कालेलकर, द. वा. (अनु: मुकुटबिहारी वर्मा) लोकजीवन दिल्ली, सस्ता साहित्य, ८ आने, १ आवृत्ति १९३८, पृ. १२५ १९०. वि

ग्रामसंगठन विषयक लेखोंका संग्रह। अनुवादमें बहुत दोष है।

क्रोपॉटकिन, प्रिन्स - संघर्ष या सहयोग अजमेर, सस्ता साहित्य, रु. १-८-०, १९३३, पृ. १०+४०१. वि

गांधी, मोहनदास क. - वहनोंसे. कलकत्ता, शुद्ध खादी भण्डार, २ पैसे, १९३१, पृ. ४+४०. वि

मद्यपाननिषेध और परदेशी कपड़ेके बहिष्कार और पिकेटिंगके बारेमें लिखे हुए ५ लेखोंका छोटासा संग्रह।

- (अनु: शंकरलाल वर्मा) - रचनात्मक कार्यक्रम (असका रहस्य और स्थान). नयी दिल्ली, सस्ता साहित्य, २ आने, १९४२, पृ. २२. वि

- (अनु: काशिनाथ त्रिवेदी) - रचनात्मक कार्यक्रम (असका रहस्य और स्थान). अहमदाबाद, नवजीवन, ६ आने, २ आवृत्ति, १९४६; पृ. ४४. वि

आखरी संशोधित व परिवर्धित अंग्रेजी आवृत्तिपरसे भाषांतर।

पटनर्धन, अण्णासाहेब (अनु: हरिभाबू शुभाश्वाम) - सेवाधर्म. अिलाहाबाद, साधना-सदन, रु. २-४-०, १९४७, पृ. २१२. वि  
श्री मशरूवालाकी प्रस्तावना अयातो धर्मजिगासा' सहित।

मजूमदार, धीरेन्द्र (सं. रामनाथ 'मुमन') - समग्र ग्रामसेवाकी ओर [ भारतीय ग्राम जीवनकी पुनः रचनाकी समस्ययें और अुनका समाधान ]. अिलाहाबाद, साधना-सदन; रु. ८-०-०, १९४७, पृ. २४+७२८. वि

आचार्य कृपलानीजीकी भूमिका सहित।

महोदय, वैजनाथ - शैतानकी लकड़ी. अजमेर, सस्ता साहित्य, १४ आने, १९२८, पृ. १६+१२६+७७+६४+९८. वि

शराब अथवा मद्य, अफीम, तमाकू, चाय अित्यादि व्यसन और व्यभिचारकी अनिष्टताका विवेचन।

राजेन्द्रप्रसाद बाबू - रचनात्मक कार्यक्रम : कुछ सुझाव. दिल्ली, सस्ता साहित्य, ४ आने, २ सं. १९४५, पृ. ४२. वि

### ४ अ. अस्पृश्यतानिवारण

आनन्द कौसल्यायन, भदन्त - छूत अछूतकी माया. दिल्ली, सस्ता साहित्य, १ आना, १ सं. १९३९, पृ. २+६०. वि

गांधी, मो. क. - हमारा कलंक [ अस्पृश्यतानिवारण पर महात्माजीके लेखोंका संग्रह ]. अजमेर, सस्ता साहित्य, १० आने, १ आ. १९३९, पृ. १६+२८६. वि

परिशिष्टमें थरबडा जेलमें १९३२में जो प्रसिद्ध शुभवास गांधीजीने किया असकी हकीकत और तत्संबंधी निवेदन अि. है।

गांधीजी और अन्य लेखक - मन्दिर-प्रवेश और अस्पृश्यतानिवारण. बनारस, १९३३

जौहरी, चंपालाल - बहिष्कृत भारत. कानपुर, प्रताप कार्यालय, ४ आने, १९२२, पृ. ६ + ४१. वि

दीक्षित, मथुराप्रसाद - मन्दिर-प्रवेश निर्णय. अियावा, मुद्रक: ब्रह्मप्रेस, १२ आने, १९३४, पृ. ११६. वि

भारतवर्षीय अछूतोंद्वारा कमिटीकी रिपोर्ट १९२४-१९२९

त्रियोगी हरि - मन्दिरप्रवेश काशी, १९३१  
 शर्मा, सिद्धेश्वर - अछूतोद्धार और महात्मा  
 गांधी. शिकारपुर

सातवलेकर, श्रीपाद द. - छूत और अछूत  
 आँध, १९२७  
 हरिजन सेवक संघ, दिल्ली - संघकी रिपोर्टें.

## ४ आ. कौमी अेकता

(प्रधानतया हिन्दू-मुस्लिम)

अुपाध्याय, हरिभाअू - स्वामीजीका  
 बलिदान और हमारा कर्तव्य (हिन्दू-  
 मुस्लिम समस्या) अजमेर, सस्ता साहित्य,  
 ५ आने, २ आवृत्ति १९२८, पृ. १२८. वि  
 गांधी, मोहनदास क. - हिन्दू-मुसलमानों-  
 का तनाजा : अुसका कारण और अुपाय.  
 अहमदाबाद, नवनीवन, १ आना, १९२४,  
 पृ. ८ + ४०. वि

खास भूमिकामें गांधीजीने अपने  
 मन्तव्यका सार दिया है ।

- (सं. अेत्. आर्. मेहता) - सांप्रदायिक  
 द्विद्वेषपर बापूके विचार. अलाहाबाद,  
 अिण्डिया पब्लिशर्स, रु. २-०-०

चन्द्रगुप्त वेदालंकार, स्वर्गीय (सं. शास्त्री,  
 जगजुमार) - अखण्ड भारत ('सिंह-  
 कवि'कृत 'पाकिस्तानी पञ्चीसी' सहित).  
 देहली, साहित्य मण्डल, १२ आने; २ सं.  
 १९४६, पृ. ७२. वि

जिन्ना, मुहम्मद अली - स्वराज्य और  
 मुसलमान. प्रयाग, १९१७

दिवाकर, रघुवीरशरण - हिन्दू मुस्लिम  
 समस्या और पाकिस्तान. वर्षा, मानव

साहित्य सदन, रु. १-०-०, १९४३,  
 पृ. १२ + १०६. वि

भगवानदास, बाबू और आज्ञाद सोभानी  
 - हिन्दू मुस्लिम अेकताका प्रश्न (सवाल)  
 काशी, ज्ञानमण्डल यंत्रालय; २ आने, सं.  
 १९८०, पृ. ८२. वि

राजेन्द्रप्रसाद, बाबू - खण्डित भारत  
 बनारस, ज्ञानमण्डल (पुस्तक भंडार),  
 लि. रु. ८-०-०, १९४६, पृ. १० +  
 ६५४ + १२ रेखानित्र

सुन्दरलाल, पण्डित - भारतमें अंग्रेजी  
 राज खंड १-३. अिलाहाबाद, ओंकार प्रेस;  
 रु. १०-०-०, २ सं. १९३८, पृ.  
 ६० + १७८०. वि

अिस पुस्तककी प्रस्तावना अिस  
 विषयमें खास अुपयुक्त है ।

- हिन्दू-मुसलिम अेकता [चार लेक्चर  
 जो पण्डितजीने अक्तूबर १९४४ में  
 रियासत ग्वालियरमें दिये]. ग्वालियर,  
 सेन्ट्रल कन्सलियेटरी बोर्ड; १२ आना,  
 १९४७, पृ. ९८. वि

## ५. राजनीति

अग्रवाल, श्रीमन्नारायण - स्वतंत्र भारतके  
 लिअे गांधीवादी शासन विधान.  
 अिन्दौर, नवयुग साहित्य मन्दिर; रु.  
 १-८-०, १९४६, पृ. ६ + ११२. वि  
 महात्मा गांधीकी भूमिका सहित.

अेक राजनीतिका विद्यार्थी - क्या काँग्रेस  
 नाशतम रही है? [१९१८ से १९३९

तकका अैतिहासिक विवेचन]. लाहौर, लाला  
 मोतीराम; ३ आने, १९४३, पृ. १००  
 केला, भगवानदास (सं. दवाशंकर दुवे)  
 - सरल नागरिक शास्त्र प्रयाग, हिन्दी  
 साहित्य सम्मेलन; रु. ५-०-०, १९४३,  
 पृ. २४ + ६६४. वि

शिक्षा और साहित्य (३०), राष्ट्रीय

आन्दोलन (३१) और राजनीतिक विकास (३२) यह तीन परिच्छेद खास बुल्लेखनीय हैं। अिनमें राष्ट्रीय महासभा और गांधी-जीके प्रभावका बयान है।

गांधी, मो. क. (अनु: कालीचरण पाण्डेय)

- आगाखीं महलसे गांधीजीका पत्र-व्यवहार आगरा, सन्देश प्रेस; १० आने, १ आ. पृ. ११२

- महात्मा गांधीजीके काँग्रेससे अलग होनेका कारण [ १७ ऑगस्ट और १५ ऑक्टोबर १९३४ को प्रकाशित वक्तव्योंका अनुवाद ], दिल्ली, हिन्दुस्तान टाइम्स प्रेस; १ आना, १९३४, पृ. ४८

- स्वराज्यपर गांधीजी. विन्दकी - फनेहपुर, लोकसंग्रह कार्यालय; २ आने, सं. १९७४, पृ. २८. वि

पहली गुजरात राजकीय परिषद गोधरामें सभापतिके नाते गांधीजीका दिया हुआ भाषण (नवंबर १९१७).

- हिन्द-स्वराज्य दिल्ली, सस्ता साहित्य; ३ आने, नवी आवृत्ति १९३८, पृ. १६ + २१६. वि

गांधी, मो. क. और पण्डित जवाहरलाल नेहरू - युरोपीय युद्ध और भारत. नवी दिल्ली, सस्ता साहित्य; ४ आने, १९४७, पृ. ४७. वि

गुसा, श्री प्रियबन्दादेवी - असहयोग तथा हमारी परिस्थितिका सुधार. अलीगढ़, भारतीय भण्डार, १० आने, १ आ. पृ. १० + १०१. वि

देसायी, बालजी गोविन्द - प्रजाद्रोही

राजा वेणु. कलकत्ता, युद्ध खादी भण्डार; २ पैसे, १९३०, पृ. २३. वि

नय्यर, प्यारलाल - देशी राजाओंका दर्जा. नयी दिल्ली, सस्ता साहित्य, ४ आने, १९४१, पृ. ४२. वि

नेहरू, जवाहरलाल - राष्ट्रीय पंचायत. नवी दिल्ली, सस्ता साहित्य; ४ आने, १९४०, पृ. ४ + ५५. वि

- हिन्दुस्तानकी समस्यायें. नवी दिल्ली, सस्ता साहित्य, रु. १-०-०, १९३९, पृ. ८ + २३६. वि

यादवेंद्र, रामनारायण - भारतीय संस्कृति और नागरिक जीवन. नवी दिल्ली, सस्ता साहित्य, रु. १-४-०, १९४२, पृ. १२ + ३१६. सहायक ग्रन्थोंकी सूचिके सहित। वि

लोहिया, राममनोहर - स्वराज्य क्या और कैसे? अलाहाबाद, राममनोहर लोहिया, २ आने, १९३६, पृ. ४ + २७. वि

वर्मा, शान्तिप्रसाद - हमारी राजनैतिक समस्यायें (वैज्ञानिक विरूपणकी दिशामें एक प्रयत्न). अिन्दौर, नवयुग साहित्य सदन, रु. ५-०-०, १९४६, पृ. ८ + २५१. वि

सिंहा, बट्टीप्रसाद - गांधीका मौनी राज्य [ 'दिल्ली किसीकी नहीं' नामक अप्रकाशित पुस्तकका अंतिम भाग ]. प्रयाग, बट्टीप्रसाद सिंहा; रु. ३-०-०, १९४६, पृ. १० + २७७. वि

सुन्दरलाल, पण्डित और कैला, भगवानदास - विश्वसंघकी ओर अलाहाबाद, भारतीय ग्रंथमाला, रु. २-८-०, १९४४, पृ. १० + ३१०. वि

## ६. अर्थशास्त्र

अखिल भारतीय काँग्रेस कमेटी - भारतका सरकारी ऋण. बनारस, १९३२  
अहम्मद, डॉ० जैनुल (अनु. कृष्णचन्द्र विद्या-

लंकार) - अंग्रेजी राजमें हमारी आर्थिक दशा. दिल्ली, सस्ता साहित्य; ८ आना, १९३८, पृ. ६ + १५४. वि

- हमारे किसानोंका सवाल. [ एक सरसरी निगाह ] दिल्ली, सस्ता साहित्य, ४ आने, १ भा. १९३७; २ भा. १९३८, पृ. ६ + १०८ वि

पं. जवाहरलालकी भूमिका ।

कालेकर, व. वा. - स्वदेशी धर्म. बम्बयी, ग्रंथभण्डार माटुंगा; ४ आने, १९२१, पृ. ६ + ३२. वि

कुमारप्पा, जे. सी. (अनु. ललिता देवी) - नियोजित अर्थव्यवस्थाका गांधीवादी मार्ग. मुजफ्फरपुर, अ. भा. ग्रा. बु. संघ, बिहार; ५ आने

-(अनु: रामदास गौड़) - राजस्व और हमारी दरिद्रता [ भारतकी वर्तमान अवस्थाके पैदा करनेमें राजस्वका भाग ]. कलकत्ता, महावीरप्रसाद पोद्दार, ४ आने, १९३१, पृ. १४ + १८५ + ४२. वि

-(अनु: रामनारायण चौधरी) - हिन्दुस्तान और ब्रिटनकी आर्थिक लेन-देन. अहमदाबाद, नवजीवन, ८ आने, १९४८, पृ. ४८. वि

कुमारप्पा, भारतन् - पूँजीवाद, समाजवाद और ग्रामोद्योग. रु. ५-०-०

गांधी, मो. क. (अनु. काशिनार्थ त्रिवेदी) - गोसेवा. अहमदाबाद, नवजीवन रु. १-८-०, १९४६, पृ. १२ + १६८. वि

- नसक-कर. कलकत्ता, शुद्ध खादी भण्डार, ९ पाकी, १९३९, पृ. १०२. वि

बिन्में दो लेख पृ. ७१ से १०२ महादेव देसायी और छगनलाल जीशीके लिखे हुये हैं ।

-(अनु : वैजनाथ महादेव) - यन्त्रोंकी मर्यादा (यन्त्रोंके विषयमें महात्माजीके विचार और लेख). बिन्दौर, साहित्यसदन, ५ आने, १९४६, पृ. १६. वि

-(अनु : कृष्णलाल वर्मा) - सर्वोदय. बम्बयी,

ग्रंथ भण्डार माटुंगा; ४ आने, १ भा. पृ. ३०. वि

- सर्वोदय [ रस्किनके 'अन्टु थिस लास्ट' का सार ] दिल्ली, सस्ता साहित्य, १ आना, २ सं. १९३९, पृ. ६ + ७५. वि

- स्वदेशी और बहिष्कार कलकत्ता गौड़, रामदास - खतरेकी घड़ी या धनवानोंकी चेतावनी ( नवजीवन माला १० ). कलकत्ता, शुद्ध खादी भण्डार, २ आने, पृ. १०३. वि

टॉल्स्टॉय, लीयो (अनु : क्षेमानन्द राहत) - क्या करें ? खण्ड १-२. अजमेर, सस्ता साहित्य; (१) - १० आने, १९२६, पृ. २६२; (२) - रु. १-०-०, १९२९, पृ. ६ + ३१८. वि

-(अनु : शोभालाल गुप्त) - मालिक और मजदूर [ गरीब और अमीरोंकी समस्याओंके निबन्धोंका संग्रह ]. बिन्दौर, नवयुग साहित्य सदन, रु. १-०-०, १९४५, पृ. ६ + ११०. वि  
दत्त, रमेशचन्द्र (अनु : केशवदेव सहारिया) - ब्रिटिश भारतका आर्थिक इतिहास काशी, ज्ञानमण्डल कार्यालय; रु. १-१-०, १९२३, पृ. २१६. वि

देसायी, महादेव - स्वदेशीका नाश कलकत्ता देसायी, वालजीभायी - गोरक्षाकल्पतरु. सावरमती, १९२९

नवरोजी, दादाभायी (अनु : शिवचरणलाल शर्मा) - जब अंग्रेज नहीं आये थे. अजमेर, सस्ता साहित्य, ४ आने, १९२८, पृ. ९६. वि

पारनेरकर, य. म. - वृषभ-सुधार. वर्षा, गो-सेवा-संघ, ५ आने, १९४५, पृ. ३१. वि  
विनोदाकी प्रस्तावना

मशरूवाला, कि. घ. - सोनेकी माथा. नयी दिल्ली, सस्ता साहित्य, १ आना, १९४१, पृ. ६१. वि

मसानी, मीनू (अनु : प्रशान्त) - समाजवादका पुनर्विचार ( संशोधित अंश परि-



वर्धित संस्करण). मन्दसौर, ज्योतिर्लोक; १२  
आने, प्रथम हिन्दी सं. १९४५, पृ. ९६+४. वि  
मैत्रेय, अक्षयकुमार (अनु: रामनाथलाल)  
-जव अंग्रेज आये. अजमेर, सस्ता साहित्य,  
रु. १-६-०, १९३०, पृ. ४०+२७२. वि  
चर्मा, ब्रजमोहनलाल - गौरक्षा. छिन्दवाडा,  
१९२७

सीतारामैया, डॉ. पट्टाभी - भारतका  
आर्थिक शोषण. प्रयाग, मातृभाषा मन्दिर,  
रु. १-४-०. वि  
- महात्मा गांधीका समाजवाद. प्रयाग,  
मातृभाषा मन्दिर, रु. २-०-०  
शुद्ध खादी भण्डार (प्र.) - पैसेकी माया  
कलकत्ता, शु. खा. भण्डार, पृ. ४७. वि

## ६ अ. अर्थशास्त्र : खादी

अखिल भारतीय खादी समाचार विभाग  
(प्र.) - अ. भा. खा. स. विभागकी  
पत्रिकायें १९२३ सावरमती, रु. १-८-०,  
१९२४, पृ. ८+१५४. वि

अखिल भारत चरखा संघ - अ. भा. च.  
संघके वार्षिक विवरण (सालाना रिपोर्ट)  
१९२५ - २६, १९३५, १९३६, १९३७,  
१९३८, अहमदाबाद अं. भा. च. संघ

१७२५-२६	पृ. ४१. वि
१९३५	पृ. ६०. वि
१८३६	पृ. ८१. वि
१९३७	पृ. ४५. वि
१९३८	पृ. ४८. वि

१९३९ का और उसके पीछेके विवरण  
सेवाग्राम-वर्धासे प्रसिद्ध हुअे हैं ।

- वार्षिक विवरण १९३९. वर्षा, १९४०,  
पृ. ४८. वि

असके बादके विवरण 'खादी जगत्'  
में प्रकाशित हुअे हैं ?

- अ. भा. च. संघ - मार्गसूचिका. वर्षा,  
अ. भा. च. संघ, १९४२, भाग १ पृ.  
२+७२, १० आने; भाग २ पृ. ४+  
१२४, १४ आने. वि

- खादी जगत् (मासिक). देखो विभाग  
सामयिकोंका ।

- चरखा संघका नवसंस्करण. सेवाग्राम,  
रु. १-८-०, १९४५, पृ. ६+११७. वि

- मगन चर्खा अमदावाद, अ. भा. च. संघ,  
८ आने, पृ. ५८. वि

गांधी, कृष्णदास (सं.) - खादी जगत्  
(मासिक). देखो सामयिकोंका विभाग ।

गांधी, कृष्णदास - घरेलू कताभीकी आम  
घातें: सवाल जवाब (कुल संख्या १२५).  
सेवाग्राम, अ. भा. च. संघ, रु. १-४-०.  
१९४५, पृ. ८+१२२. वि

- (सं) - महाराष्ट्र खादी पत्रिका  
(मासिक). देखो विभाग सामयिकोंका ।

खादी निवास (प्र.) - खादी निवास, अनन्त  
पुरकी रिपोर्ट अनन्तपुर, १९३०

गांधी, मगनलाल खु. - चर्खाशास्त्र भाग १,  
सावरमती, १९२३

गांधी, मनमोहन पु. - विदेशी कपड़ेका  
मुकाबला कैसे किया जाय? अजमेर,  
सस्ता साहित्य, १० आने, १९३१ पृ.  
२०+१३३. वि

गांधी, मो. क. (सं. कनु गांधी) - अहिंसक  
स्वराज्यसाधना. सेवाग्राम, अ. भा.

चरखा संघ, ४ आने, १९४५, पृ. ४+३१. वि

- अकमात्र जुद्योग - चर्खा. कलकत्ता, शुद्ध  
खादी भण्डार

- गांधीजीके लेख [खादी जगत्में जुलाही  
१९४१ से जून १९४२ तक प्रकाशित  
लेखोंका संग्रह]. वर्षा, अ. भा. च. संघ, ८  
आने, १९४२, पृ. २+६३. वि

गौड़, रामदास - खद्दर ही क्यों? कलकत्ता,  
शुद्ध खादी भण्डार, पृ. २+१४०. वि  
श्री रीचर्ड बी. ग्रेगके 'खद्दरका  
संपत्तिशास्त्र'का सारांश

-खादी गीत. कलकत्ता

-संभले कैसे? कलकत्ता, शुद्ध खादी भण्डार,  
पृ. १६०: वि

-हम कैसे लुटे? कलकत्ता, शुद्ध खादी  
भण्डार, पृ. ३२. वि

ग्रेग, रीचर्ड बी. (शुल्काकार - रामदास गौड़)

-खद्दरका संपत्तिशास्त्र अजमेर, सस्ता  
साहित्य, १५ आने, १९२९, पृ. ८+३२३.  
वि

खद्दरविषयक साहित्यकी सूचि -  
परिशिष्ट ३

दास्ताने, दत्तोबा - नसी तुनाजी. सेवाग्राम-  
वर्धा, खादी विद्यालय, रु. १-८-०, १९४४,  
पृ. ६+९८. वि

दिवाण, प्रभाकर - किसान चरखा. सेवा-  
ग्राम-वर्धा, खादी विद्यालय, रु. १-८-०,  
१९४५, पृ. ८+९४. वि

देवधर, केशव - धनुष तकुवा. सेवाग्राम,  
खादी विद्यालय, ६ आने, १९४४, पृ.  
४+३४. वि

- (अनु: रामनेरेशसिंह) - सरंजाम-परिचय  
मधुदनी, अ. भा. च. संघ, बिहारशाखा;  
रु. १-१२-०, १९४५, पृ. १०+१७६  
+२. वि

नंदा, गुलज़ारीलाल - खादीके कुल पहलू  
अहमदाबाद, अ. भा. च. संघ, ५ आने,  
१९३८, पृ. ४+४३. वि

'Some Aspects of Khadi'  
का अनुवाद

-खादीका महत्त्व. दिल्ली, सस्ता साहित्य,  
दंड आना, १९३९, पृ. ४+९६. वि

'Some Aspects of Khadi'  
का ही यह दूसरा अनुवाद है।

पुणतांवेकर, श्री. वि. और वरदाचारी,  
अनु. अस्. (अनु: रामदास गौड़)  
-हाथकी कताभी बुनाजी (निबन्ध).  
अजमेर, सस्ता साहित्य, १० आने, १९२७,  
पृ. ४+२८०, सूचि. वि

पोद्दार, महावीरप्रसाद - खादी प्रदर्शक.  
कलकत्ता, शुद्ध खादी भण्डार, ४ आने,  
१९२३. वि

भगवतीसिंह - खद्दर शिक्षक. काशी १९२४  
भावे, बिनोबा - खादी और गादीकी  
लड़ाई. दिल्ली, सस्ता साहित्य, २ आने,  
१९३९, पृ. २+१०६. वि

मुख्यतः खादी विषयक १० लेखोंका  
संग्रह जिस छोटी किताबमें है।

मथुरादास पुरुषोत्तमदास - मध्यम पिंजन  
अहमदाबाद, अ. भा. च. संघ, ५ आने,  
१९३८, पृ. ८+८४+१० चित्र. वि

महेता, बालुभाजी - खादीमीमांसा. दिल्ली,  
सस्ता साहित्य, रु. १-८-०, १९४० पृ.  
६+३४३. वि

आधारभूत ग्रंथोंका परिचय स्वतंत्र  
प्रकरणमें दिया है। मराठीसे अनुवादित।

मातृभाषा मन्दिर (प्र.) - चर्खेकी सुप-  
योगिता. प्रयाग

मीरा बहेन - खादी और स्वराज्य. कलकत्ता,  
शुद्ध खादी भण्डार, १९३०. वि

राजेन्द्रप्रसाद, बाबू - खादीका अर्थशास्त्र  
मुजफ्फरपुर, १९२८

वरदाचारी और पुणतांवेकर - हाथकी  
कताभी बुनाजी (निबन्ध). देखो पुणतांवे-  
कर और वरदाचारी

शर्मा, गणेशदत्त - खादीका अितिहास  
बनारस, १९२३

शुद्ध खादी भण्डार (प्र.) - खादी-प्रदर्शक  
कलकत्ता, ४ आने, १९२९, पृ. ८+८६

Khadi Guide का हिन्दी अनुवाद  
सातबड़ेकर, पं. श्रीपाद द. - वेदमें चर्खा

ओंध, स्वाध्याय मण्डल, १९२८, पृ. ८४. वि  
सीतारामदास, साधु - खादी निवास क्षेत्र-  
दर्शन. अनन्तपुर, खादीनिवास, रु. ०-१-९,

१९३३, पृ. १२८. वि

मध्यहिन्दमें अनन्तपुर केन्द्रसे बुसकी  
अर्द्ध-गिर्दमें चलते हुये खादीकार्यका वर्णन।

## ६ आ. अर्थशास्त्र : ग्रामोद्योग

अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ - अ. भा.  
ग्रा. संघकी वार्षिक रिपोर्ट या कार्य-  
विवरण. वर्षा, अ. भा. ग्रा. संघ. १९३५ -  
८ आने, १९३६; पृ. ३४ + १८; १९३६ -  
८ आने, १९३९, पृ. ४२; १९३७ - ८  
आने, १९३८, पृ. ३४; १९३८ - ८ आने,  
१९३९, पृ. ५२; १९३९ - १० आने,  
१९४०, पृ. ६४. वि

- चावल. वर्षा, १२ आने, १९४२ पृ. ६ +  
६०. वि

- हिन्दुस्तानी खाद्य पदार्थोंका आहारतत्त्व  
और उनसे प्राप्त जीवनतत्त्व. वर्षा, ३  
आने, १९४२, पृ. १५. वि

कुमारप्पा, जे. सी. - ग्राम आन्दोलनकी  
आवश्यकता. वर्षा, अ. भा. ग्रा. संघ, ६  
आने, २ सं. १९३८, पृ. १० + १०३. वि

- (सं.) - ग्राम उद्योग पत्रिका (मासिक).  
देखो विभाग सामयिकोंका।

कुमारप्पा, भारतन - ग्रामसंजीवन (ग्राम-  
उद्योग तथा ग्रामपुनर्रचना). वर्षा, अ.  
भा. ग्रा. संघ. २ आने, १९३५ पृ.  
२ + ३४. वि

कॉंग्रेस सुवर्णमहोत्सव पत्रकका अनुवाद

खादी और ग्रामोद्योग प्रदर्शनी संचालक  
- खादी और ग्रामोद्योग प्रदर्शनी कार्य  
विवरण. हरिपुरा महासभा अधिवेशन, हरि-  
पुरा खा. ग्रा. प्रदर्शनी, ८ आने, १९३८,  
पृ. ४८. वि

- खादी और ग्रामोद्योग प्रदर्शनी कार्य  
विवरण. त्रिपुरी महासभा, त्रिपुरी, ६,  
आना, १९३९, पृ. २५. वि

गांधी, मो. क. - ग्राम-सेवा [ग्रामसेवा  
संकेची गांधीजीके लेख]. दिल्ली, सस्ता  
साहित्य, १ आना, १९३८, पृ. ७६. वि  
'गानडानी बहोर'का अनुवाद

- स्वदेशी और ग्रामोद्योग (गांधी साहित्य  
माला १). दिल्ली, सस्ता साहित्य, ८  
आने, १९३९, पृ. ६+१७१. वि

गोसेवा संघ - नकली वी (जमाया हुआ  
तेल). गोपुरी-वर्षा, ६ आने, १९४७, पृ.  
६+४६. विनोवाकी प्रस्तावनाके साथ. वि

गोसेवा संघ - वर्षा गोसेवा कार्यका  
संक्षिप्त अहवाल, जुलाही १९४२ से  
दिसंबर १९४५ तक. गोपुरी-वर्षा, गोसेवा  
संघ, २ आने, १९४६ पृ. २२

गौड़, रामदास - हमारे गांवोंका सुधार  
और संगठन. दिल्ली सस्ता साहित्य, ८  
आने, १९३८, पृ. १६+३१६. वि  
अन्तमें सहायक साहित्यकी सूचि दी है।

- हमारे गांवोंकी कहानी दिल्ली, सस्ता  
साहित्य, ८ आने, १९३८, पृ. १०+१९८  
+५; ३ सं. १९४५, रु. १-८-०. वि

चित्रे, शांताराम मोरेश्वर - मधुमक्खी-  
पालन. वर्षा, अ. भा. ग्रा. संघ, १ आवृत्ति  
१९३९; २ सं. १९४१, ८ आने, पृ.  
६+६८. वि

- मधुमक्खी-पालन. दिल्ली, सस्ता साहित्य,  
२ आना, १ आवृत्ति, १९३९, पृ. ६+९४  
+२. वि

नये सीखनेवालोंके लिये भुपयुक्त  
चौधरी, मुखतारसिंह (सं. कृष्णचंद्र विद्या-  
लंकार) - हमारे गांव और किसान

दिल्ली, सस्ता साहित्य, ८ आने, १९४०,  
पृ. १०+१८२. वि  
जैन, बंसीधरजी - देशी रंगाजी व छपाजी  
(६५ नमूनोंके सहित). सावरमती, अ.  
भा. खादी समाचार विभाग, रु. १-४-०,  
१९२४, पृ. १८+१८१; रंगके नमूने  
अलग वि

जोशी, के. बी. - साबुनसाजी [गृहीचोगके  
रूपमेंकेवल देशी वस्तुओंके उपयोगसे]. वर्षा,  
अ. भा. ग्रा. संघ, १२ आने, १ आ.  
१९३९, पृ. ८+६७, सचित्र. वि

-(अनु: सी. वी. गुप्त) - हाथ कागज़  
(गृहीचोगको द्रष्टिसे). वर्षा, अ. भा. ग्रा.  
संघ, ८ आने, १ आ. १९३८, पृ.  
६+४९, सचित्र. वि

नायक, गजानन - ताड़का गुड़. वर्षा, अ.  
भा. ग्रा. संघ, २ आना, १ आ.

१९३८, पृ. २+१८. वि  
पटेल, झवेरभाजी पु. (संकलनकार)  
- गांवोंका आर्थिक सवाल. दिल्ली,  
सस्ता साहित्य, ३ आना, १ सं. १९३९,  
पृ. ६+१६६. वि  
- तेलघानी वर्षा अ. भा. ग्रा. अ. संघ,  
१ सं. १९३८; ३. सं. १९४३, रु.  
१-८-०, पृ. ६+१७+९६+४२. वि  
- तेलघानीकी पूर्ति. वर्षा, अ. भा. ग्रा. अ.  
संघ, ५ आना, १ आवृत्ति, १९३८, पृ.  
१०+३०, सचित्र. वि  
- सीमेण्ट घानीकी ओखली बनानेका तरीका  
वर्षा, अ. भा. ग्रा. अ. संघ, २ आने, पृ. ६, वि  
शुक्ल, कृष्णकुमार - भारतके देहात :  
बुनका अतीत और भविष्य. कानपुर,  
राष्ट्रीय प्रकाशन मन्दिर, रु. १-०-०,  
१९३९, पृ. ४+१५१ वि

## ७. शिक्षण

आशादेवी (सं.) - नयी तालीम (मास्तिक).  
देखो आगे 'नयी तालीम'

कन्हैयालाल - राष्ट्रीय शिक्षाका इतिहास.  
काशी, काशी विद्यापीठ, रु. २-०-०,  
१९३०, पृ. ८+२९१. वि

कालेकर, दत्तात्रेय बालकृष्ण - काशी  
विद्यापीठके षष्ठ समावर्तनके अवसरपर  
दिया हुआ भाषण. काशी, काशी  
विद्यापीठ, १९३१, पृ. २३. वि

- राष्ट्रीय शिक्षाके आदर्शोंका विकास.  
अहमदाबाद, गुजरात विद्यापीठ, १९२८,  
पृ. २० वि

- सहजीवनकी समस्या [प्रयाग महिला  
विद्यापीठके शुभाषितरणोत्सवके अवसर  
पर दिया हुआ दीक्षान्त भाषण]. अिलाहाबाद  
प्रयाग महिला विद्यापीठ, १९३७, पृ. ३२.

उपलानी, आचार्य - दुनियादी तालीमकी  
पद्धति और आदर्श. सेगांव-वर्षा, हिन्दु-

स्तानी तालीमी संघ, २ आने, १९३९,  
पृ. २४. वि

गांधी, कृष्णदास - कताजी गणित-प्रकरण  
१: गज और तार या सूतकी लंबाओके  
नाप. सेवाग्राम, हिन्दुस्तानी तालीमी संघ,  
८ आने, २ सं. १९४०, पृ. १६+१४६.  
वि

- कताजी गणित-प्रकरण २: सूतका अंक.  
सेवाग्राम, हिं. ता. संघ, ४ आने, १ आवृत्ति  
१९४०, पृ. ४+६०+२. वि

- घरेलू कताजीकी आम गिनतियाँ. सेवा-  
ग्राम, अ. भा. च. संघ, १२ आने, १९४६,  
पृ. ८+७८. वि

गांधी, मगनलाल और ग्रेग, रीचर्ड बी.  
- तकली शिक्षक [सचित्र]. सावरमती,  
शिक्षण विभाग, चर्खा संघ; ६ आने,  
१९२६. पृ. ८+७२. वि  
गांधी, मो. क. (अनु: काशिनाथ त्रिवेदी)

- रचनात्मक कार्यक्रम. देखो विभाग ४.  
- (सं. अनंतप्रसाद विद्यार्थी) -  
विद्याभियोगोंसे (सामयिक समस्याओंका  
विवेचन). पुरास, सोनबानी (बलिया),  
श्री गांधी ग्रंथागार; और दिल्ली, सरस्वती  
पुस्तकालय, रु. ४-०-०, १९४६,  
पृ. १० + ३१२. वि

जाकिरहुसेन समिति - बुनियादी राष्ट्रीय  
शिक्षा : जाकिर हुसेन समितिका कार्य-  
विवरण और विस्तृत पाठ्यक्रम. सेगांव -  
वर्षा, हिन्दुस्तानी तालीमी संघ, ८ आने,  
१९३९, पृ. ४ + २४६ + २. वि  
महात्मा गांधीजीकी प्रस्तावना

दिवान, कुन्दर बलबन्त - तफ़ली. सेवाग्राम-  
वर्षा, हिन्दुस्तानी तालीमी संघ, रु. १-०-०,  
१९४१, पृ. २० + २८६ + ९६ चित्र  
और आकृतियाँ । वि

मराठी किताब 'वस्त्रपूर्णा'का रूपांतर।  
हिन्दुस्तानी बुनियादी स्कूलोंमें शिक्षकों के  
लिखे खास उपबोधि ।

नयी तालीम ( मासिक ) - हिन्दुस्तानी तालीमी  
संघका मुखपत्र. देखो सामयिकोंका विभाग.

परीख, नरहरि द्वा. (अनु: रामनरेश  
त्रिपाठी) - अितना तो जानो. कानपुर,  
सस्ती हिन्दी पुस्तकमाला कार्यालय, ५ आने,  
१ सं. १९२३, पृ. ८ + १४१. वि

देशका प्रचलित राजकारण, धर्मकारण  
अित्यादि प्रश्नोंके बारेमें जानकारी देनेवाली  
छोटीसी पुस्तक।

परीख, नरहरि और देसायी महादेव  
(अनु: काशिनाथ त्रिवेदी) - सयानी  
कन्यासे. अहमदाबाद, नवजीवन, ८ आने,  
१ आ. १९४१, पृ. ६ + १२०. वि

भावे, विनोबा - भूल अद्योग क्रातना  
(शिक्षकोंके लिखे पाठ्यक्रमका स्पष्टीकरण).  
सेगांव, हिन्दुस्तानी तालीमी संघ, १ आ.  
१९३०, पृ. १० + ७२. वि

मिसे, शंकर रामचंद्र और पाटील ह. गो.  
- खेती शिक्षा (मराठीसे अनुवादित)  
सेवाग्राम, हिन्दुस्तानी ता. संघ, १२ आने,  
१ सं. १९४०; २ सं. १९४१, पृ.  
४ + १३०. वि

मारवाड़ी शिक्षा मण्डल (प्र.) - शिक्षामें  
अहिंसक क्रान्ति [वर्षा शिक्षण परिपत्रके  
कार्यविवरणके साथ]. वर्षा, १२ आने,  
१९३७, पृ. ७६ + ११४. वि

मिसनी बाद्री आवृत्ति जाकिर हुसेन  
कमेटीके रिपोर्टके साथ हिन्दुस्तानी तालीमी  
संघ द्वारा प्रकाशित हुयी है। देखो आगे  
संघके प्रकाशनोंमें ।

रघुनाथप्रसाद - भारतीय नवयुवकोंको  
राष्ट्रीय सन्देश. बिन्दौर, सरस्वती सदन,  
१२ आने, १ आवृत्ति १९२०, पृ.  
१६ + ११५. वि

गांधीजीका विद्यार्थियोंको उपदेश. पृ.  
२९ से ४१

शांशी, राजाराम अित्यादि (सं.) - काशी  
विद्यापीठ रजत जयन्ती अभिनन्दन  
ग्रंथ काशी, काशी विद्यापीठ प्रकाशन विभाग,  
रु. १५-०-०, सं. २००३, पृ. १० +  
२४३ + २२ + २२० + चित्र. वि

सत्यन् - ओटना व धुनना. सेवाग्राम, हिं.  
ता. संघ, ६ आने, १९४०, पृ. ४ + ९०. वि  
सिंह, लक्ष्मीश्वर - गत्तेका काम. सेवाग्राम,  
हिं. ता. संघ, रु. १-०-०, १९४०, पृ.  
८ + ९९. वि

हिन्दुस्तानी तालीमी संघ - अेक कदम  
आगे [पहली बुनियादी राष्ट्रीय शिक्षा  
परिपत्र, पूना, अक्टोबर १९३९की रिपोर्ट].  
सेवाग्राम, हिं. ता. संघ, रु. १-४-०,  
१९४०. पृ. २४ + २९०. वि

- बुनियादी तालीमके दो साल [दूसरी  
बुनियादी राष्ट्रीय शिक्षण-परिपत्र, जामिया-  
नगर, दिल्ली १९४१की रिपोर्ट]. सेवाग्राम,

हि. ता. संघ, रु. १-४-०, १९४१, पृ.

४८ + २३२. वि

- शिक्षामें अहिंसक क्रान्ति. सेवाग्राम, हि.  
ता. संघ, २ आवृत्ति, १९४०, पृ. ६ +  
१७२ + १३३ + २४८. वि.

## ८. राष्ट्रभाषा

कालेकर, द. बा. - स्वराज्य-भाषा [ दक्षिण  
भारत हिन्दी प्रचार सभा, मद्रासके प्रथम  
शुधाधिवितरणोत्सवके अवसरपर दिया हुआ  
अभिभाषण ]. मद्रास, हिन्दी प्रचार प्रेस,  
पृ. १३. [ विक्रमों में ।

- सबकी बोली (मासिक) - देखो साम-  
- हिन्दुस्तानीकी नीति. वर्धा, हिं. प्र. सभा,  
१९४७, पृ. ८. वि

- हिन्दुस्तानीके प्रचारक गांधीजी. वर्धा,  
हिं. प्र. सभा, २ आने, १९४८, पृ. १८. वि  
गांधी, मो. क. (अनु: काशिनाथ त्रिवेदी)  
- राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानी. अहमदाबाद,  
नवजीवन, रु. १-८-०, १९४७, पृ.  
१२ + २२४. वि

देसायी, मगनभायी (सं.) - हिन्दुस्तानी-  
गुजराती कोश. अहमदाबाद, नवजीवन,  
रु. ४-०-०, २ आवृत्ति, १९४६, पृ.  
१६ + ३७६. वि

महात्मा गांधीजीकी प्रस्तावना सहित ।

हिन्दुस्तानी शब्द नागरी और शुद्ध दोनों  
लिखावटमें दिये हैं । यह 'राष्ट्रभाषानो  
गुजराती कोश'की ही दूसरी आवृत्ति है ।

मकतबा जामिया(प्र.) - हिन्दुस्तानी. दिल्ली,  
१२ आने, १९४०, पृ. ७५. वि

## ९. आरोग्य

गांधी, मोहनदास क. (अनु: पं. गिरिधर  
शर्मा 'नवरत्न') - आरोग्य-दिग्दर्शन.  
बम्बयी, गांधी हिन्दी पुस्तक भण्डार, ७  
आने, ३ सं. १९२०, पृ. १२+१२८. वि

वर्धा' शिक्षण पद्धति पर गांधीजीके  
विचार, वर्धा शिक्षण, अखिल भारत-  
शिक्षा - परिषद्का विवरण और जाकिर  
हुसेन कमेटीकी रिपोर्ट और बुनियादी  
तालीमका विस्तृत पाठ्यक्रम ।

हिन्दुस्तानीके विषयमें डॉ. ताराचंद,  
डॉ. अब्दुल हक, बाबू राजेन्द्रप्रसाद,  
डॉ. जाकिर हुसेन वगैराके अल रेडियो  
रेडियो परसे बयान ।

शर्मा, पं. पद्मसिंह - हिन्दी, शुद्ध और  
हिन्दुस्तानी. अलाहाबाद, हिन्दुस्तानी  
अकेडेमी, रु. १-०-०, १९३२, पृ. ८ +  
१७३. वि

शर्मा, स्वामीनाथ - भारतकी भाषा.  
बम्बयी, नालन्दा प्रकाशन, रु. १-४-०,  
१९४७, पृ. ४५. वि

शुक्ल, रविशंकर - राष्ट्रभाषाकी समस्या  
और हिन्दुस्तानी आन्दोलन.. लखनशु,  
गंगा पुस्तकमाला, रु. २-८-०, सं. २००२,  
पृ. ८ + २४८ + ४५. वि

सुंदरलाल पंडित (सं) - नया हिन्द.  
नागरी और शुद्ध लिखावटमें प्रसिद्ध  
होनेवाला मासिक ।

देखो सामयिकोंके विभागमें ।

हिन्दुस्तानी प्रचार सभा - हिन्दुस्तानी  
प्रचार क्यों? (अखिल भारत हिन्दुस्तानी  
प्रचार संमेलन, १९४५ वर्धाकी रिपोर्ट)  
वर्धा, हिन्दुस्तानी प्रचार सभा, १२ आने,  
१९४५, पृ. ६०. वि

- आरोग्य-दिग्दर्शन. प्रयाग, १९३५

- आरोग्य-साधन. कलकत्ता, १९२२

दिवान, मनोहर व. - कोढ़ (शुष्का  
कारण और अलाज). नयी दिल्ली, सस्ता

साहित्य, १२ आने, १९४३, पृ. १२+  
१२४. वि  
महेता, बालुभाभी ल. - हमारा आहार.

वर्षा, अ. भा. ग्रा. शु. संघ, ८ आने,  
१९४०, पृ. ८+६३+४. वि

## १०. साहित्य

शुभाश्याय, हरिभाञ्जु - युगधर्म. अजमेर,  
सस्ता साहित्य, रु. १-२-०, १९३१, पृ.  
६+२९४+२. वि

- मनन. अिन्दौर, नवयुग साहित्य सदन,  
रु. १-४-०, १९४६, पृ. ११३. वि

- स्वतंत्रताको ओर. दिल्ली, १९३५. वि  
कालेकर, द. बा. (अनु: हृषीकेश) - कला:  
अेक जीवनदर्शन. दिल्ली, स. सा. मंडल,  
८ आने, १९३७, पृ. ४+१०८. वि

- (अनु: श्रीनिवासाचार्य द्विवेदी) - जीवन-  
साहित्य - खंड १, २. अजमेर स. सा.  
मंडल, ८ आने, ८ आने, १९२७, १९२८,  
पृ. २१८, २००. वि

- (अनु: श्रीपाद जोशी) - जीवनका काव्य.  
अहमदाबाद, नवजीवन, २ रुपये, १९४७,  
पृ. ८+२५४. वि

खरे, बाबू बलदेवप्रसाद - सत्याग्रही प्रल्हाद  
(नाटक). कलकत्ता, निहालचन्द्र अँन्ड  
कंपनी, रु. १-४-०, सं. १९७८, पृ.  
१६+१३१. वि

गांधी, मो. क़. - अमृतवाणी [ जीवनपथका  
प्रदर्शन करनेवाले ९० निजी पत्र ]  
अिलाहाबाद, साधनासदन, रु. १-८-०,  
१९४४, पृ. १५६. वि

- (सं. रामनाथ सुमन) - गांधीवाणी.  
अिलाहाबाद, साधना सदन, रु. १-१२-०,  
१९४२

- तीन रत्न. वम्बडी, मेनेजर, ग्रंथभण्डार, १०  
आने, पृ. ४+८७. वि

अिस पुस्तकमें टॉल्स्टॉयकी तीन  
कथाओंका गांधीजीकृत गुजराती अनुवादका  
हिन्दी भाषांतर दिया है। कथाओं: १.

मूरखराज, २. मनुष्य कितनी ज़मीनका  
मालिक हो सकता है और ३. जीवन-  
दोरी

- पञ्चरत्न. वम्बडी, ग्रंथ भण्डार, रु. १-०-०,  
१ आवृत्ति १९७९, पृ. ८+१९९. वि

पांच रत्न यह हैं: १. पूर्व और पश्चिम;  
२. नीतिधर्म अथवा धर्मनीति; ३.  
अिजिसके महान नेता मुस्तफा कामेल  
पाशाकी जीवनी और शुनका महत्वपूर्ण  
व्याख्यान; ४. अेक सत्यवीरकी कथा  
या सॉक्रेटीसकी सफाई; और ५. महात्मा  
गांधीजीका कोर्टमें दिया हुआ बयान  
१९२२. और कुछ महत्वपूर्ण निबंध भी  
शामिल हैं। गुजरातीसे अनुवादित.

- पूर्व और पश्चिम लोवेज डिकिन्सनको  
किताब 'लेटर्स ऑफ् जॉन चायनार्मेन'  
(चीनकी आवाज)का यह गांधीजी लिखित  
सारांश है। देखो डिकिन्सन।

- (अनु: लक्ष्मीधर वाजपेयी) - महात्मा  
गांधीके निजी पत्र. कानपुर, सस्ती हिन्दी  
पुस्तकमाला ५ आने, १९२३, पृ. ६+  
१२२. वि

गांधीजीके अपने आलीमोंके प्रति  
समय समय पर लिखे हुए ८१ पत्रोंका  
संग्रह (१९०८-१९१७).

- महात्माजीके पत्र. जयपुर, १९३०.  
- स्त्रियोंकी समस्याओं. अिलाहाबाद, साधना  
सदन, रु. १-४-०.

गुप्त, सियारामशरण - जय हिन्द (काव्य).  
चिरगांव (झाँसी), साहित्य सदन, १९४७,  
पृ. १६. वि

- नोआखालीमें (काव्य). चिरगांव (झाँसी),

साहित्यसदन, ८ आने, सं. २००३, पृ.

५१. वि

गुप्ता, रमेश - सावरमतीका संत तथा

अन्य गीत. बम्बयी, हमारा हिन्दीस्तौं,

रु. २-०-०, १९४५, पृ. ६ + ४७. वि

गोविंददास, सेठ - पाकिस्तान नाटक [तीन

अंकोंमें एक नाटक]. अिलाहाबाद, किताब-

महल, रु. ३-०-०, १९४६, पृ. १३७. वि

गौड़, रामदास - राष्ट्रीय गायन. कलकत्ता,

शुद्ध खादी भण्डार, १ आना, १९३०,

पृ. ८०. वि

'चन्द्र' त्यागी - चर्खा नाटक (नवयुग -

दर्शन). अछेजा (जि. मेरठ), राजकिशोर राज,

१२ आने, १९३०, पृ. २० + १७४. वि

नैनेन्द्रकुमार - जड़की घातः कुछ निबंध.

प्रयाग, हिन्दी मन्दिर, रु. २-०-०, १९४६,

पृ. ८ + २१५. वि

लेख २, १३ और १४ राष्ट्रीयता,

अहिंसाकी बुनियाद और गांधीनोति

विषयक हैं ।

दिकिन्सन, लोवेज़ (अनुः वैजनाथ महोदय) -

चोनकी आवाज़. अजमेर, सस्ता साहित्य,

५ आने, १९२७, पृ. १३३. वि

- (सारानुः मो. क. गांधी) - पूर्व और

पश्चिम. देखो गांधीजीके नामपर.

द्विवेदी, सोहनलाल - सेवाप्राम (राष्ट्रीय

कविताओंका संग्रह). प्रयाग, अिडियन प्रेस,

रु. १०-०-०, १९४६, पृ. १४ + २३१. वि

दिहला, घनश्यामदास - बिखरे विचार.

दिल्ली, श्यामलाल, हरिजन कॉलोनी रु.

१-८-०, १९४१, पृ. ६ + २५०. वि

पुस्तकके तीन विभागोंमेंसे दूसरा

गांधीजीके विषयमें है । पृ. ६३ से १५२.

भायें, विनोबा - विचारपोथी. नालवाड़ी

(वर्षा), ग्रामसेवा मंडल, रु. १-८-०,

१९४६, पृ. ८ + १६०. वि

- (अनुः वियोगी हरि) - विनोबा और

अनुके विचार. नयी दिल्ली, स. सा.

मण्डल, ८ आने, १ आ. १९४०,

पृ. १२ + २०४. वि

- विनोबा और अनुके विचार - भाग

२ रा. नयी दिल्ली, स. सा. मण्डल, रु.

१-८-०, १९४६, पृ. ६ + १७२. वि

रघुवीरशरण 'सिंह' - महापुरुष (काव्य).

मेरठ, अ. भा. रा. सा. प्र. प. रु. १-०-०,

१९४६, पृ. ६ + ३९. वि

'संत गांधी' काव्य, पृ. ३-४.

रमावल्लभसिंह (सं) - राष्ट्रीय साहित्य.

खण्ड १ से ४. लहेरियासराय, नवयुग

ग्रंथमन्दिर, रु. १-८-०, १९२२, पृ. ३४३.

- राष्ट्रीय साहित्य - खण्ड ५-६. रु. ३-०-०,

पृ. ६१६

राजगोपालाचार्य, चक्रवर्ती (अनुः शान्ति

भटनागर) - कुब्जा सुंदरी और दूसरी

कहानियाँ. नयी दिल्ली, स. सा. मण्डल,

रु. २-०-०, १९४६, पृ. ६ + १९७. वि

- विमोचन. मद्रास, दक्षिण भारत हिन्दी

प्रचार सभा, ८ आने, १९३६, पृ. ४ + ९२.

राहुल, सांकृत्यायन - दिमागी गुलामी.

पटना, रामनाथ त्रिवेदी, १० आने, १९३८,

पृ. ६ + ९५. वि

गांधीवाद पृ. ११ से २३. गांधीवादमें

वैज्ञानिक वृत्तिका अभाव है, बुद्धिकी जड़ता

है, अित्यादि मन्तव्य सब पुस्तकमें भरे

हुअे हैं ।

विराज - आज़ाद हिंदका तिरंगा झण्डा.

लाहौर, साहित्य भवन, रु. १-४-०,

सं. २००३, पृ. ७९

शास्त्री, कमलापति और टंडन, पुरुषोत्तमदास

- पत्र और पत्रकार. बनारस, ज्ञान

मण्डल (पुस्तक भण्डार) लि. रु. ५-०-०,

१९४४, पृ. १२ + ४५५. वि

सस्ता साहित्य मण्डल (प्र) - राष्ट्रीय गायन.

\*दिल्ली, सस्ता साहित्य, २ आने, १९३९,

पृ. २ + १२३. वि



## ११. आधुनिक अितहास

अखिल भारतीय महासभा समिति -  
भारतीय राष्ट्रीय महासभाके अधि-  
वेदान्तके कार्ये विवरण.

४१वाँ अधिवेशन, गौहाटी, मद्रास,  
महामंत्री, अ. भा. म. समिति, १२ आने,  
१९४०, पृ. ४०. वि

५०वाँ अधिवेशन, फैजपुर, १९३६.  
अिलाहाबाद, १९३७, पृ. ७२+७+xii. वि  
अॅड्रयूज, सी. अेफ. और पियर्सन, डब्ल्यू.  
डब्ल्यू. (अनु: भारतीय हृदय) - फिजीमें  
भारतीय प्रतिज्ञाबद्ध कुलीप्रथा. कानपुर,  
प्रताप कार्यालय, रु. १-२-०, १९१९,  
पृ. २४०. वि

कन्हैयालाल - कांग्रेसके प्रस्ताव (१८८५-  
१९३१). बनारस छावनी, नवयुग प्रकाशन  
मन्दिर, रु. ४-०-०, १९३१, पृ.  
१० + ६४५ + २४. वि

सुपाध्याय, हरिभाभू - साधनाके पथपर  
या अहिंसाके अनुभव. अिन्दौर, नवयुग  
साहित्यसदन, रु. ३-०-० १९४५,  
पृ. १० + २३८. वि

कालेलकर, दत्तात्रेय बालकृष्ण - ज़िन्दा  
बनी. कलकत्ता, शुद्ध खादी भण्डार, १  
आना, १९३०, पृ. ४ + ६८. वि

सत्याग्रह आन्दोलनके वक्तपर लोगोंसे-  
खास करके युवकोंसे-अपील.

कृष्णचन्द्र विद्यालंकार - कांग्रेसका अिति-  
हास (सन् १९३५ से १९३९ तक).  
दिल्ली, सस्ता साहित्य, ५ आना, २ आ.  
१९३९, पृ. ८ + ७६. वि

डॉ. पद्मिनी सीतारामैय्याकी प्रस्तावना।  
अुन्हींके लिखे हुअे अितिहासके अनुसंधानमें  
यह लिखा गया है।

कृष्णदास - स्वतंत्रताके संग्रामके ९० वर्ष  
१८५७-१९४७ अिलाहाबाद, अिडिया  
पब्लिशर्स, रु. ४-८-०, १९४७. वि

केला, भगवानदास - भारतीय जाग्रति.

अलीगढ़, भगवानदास केला, १-०-०,  
१९२०, पृ. १२ + २०२. वि

- भारतीय राष्ट्रनिर्माण. वृन्दावन, प्रेम  
महाविद्यालय, १४ आने, ३ सं. १९२३,  
पृ. १६ + १८४. वि

- भारतीय चिंतन. वृन्दावन, भारतीय  
ग्रंथमाला, १४ आने, १९२३, पृ.  
१२ + १८८. वि

- हमारी राष्ट्रीय समस्याअें. अिलाहाबाद,  
भारतीय ग्रंथमाला ७, वा संकरण, रु.  
१-०-०, पृ. १३६. वि

वेवेल योजना तक

क्षेमचन्द्र सुमन - हमारा संघर्ष [रुद्र  
अेवं सुवीर शैलीमें लिखा हुआ अगस्त  
क्रान्तिका ओजस्वी अितिहास] देहरादून,  
भास्कर प्रेस, रु. ४-०-०, पृ. १६ + ३७०

खुराना, डॉ. लक्ष्मीचन्द्र तथा कृष्णचन्द्र  
विद्यालंकार - वर्तमान जगत. लहौर,  
आत्माराम अॅण्ड सन्स, रु. २ ४-०,  
पृ. ८ + ३२९. वि

आजके युगनिर्मिताओंमेंसे गांधीजीका  
चरित्र व कार्य, पृ. १४८ से १५१;  
गांधीवाद, पृ. १२२ से १२५

गांधी, मो क. - पुण्य स्मृतियाँ [देशी  
तथा विदेशी महात्माओंके प्रति श्रद्धाअलि].  
प्रयाग, छात्र हितकारी पुस्तकमाला, १२ आने,  
१९३७, पृ. ४ + १२८. वि

- महात्मा गांधीका व्याख्यान (११-११-१७).  
मुजफ्फरपुर, तिरहुत पुस्तकभंडार, १९१७,  
पृ. ४ + ९

- युद्ध यात्रामें प्रवचन. कलकत्ता, शुद्ध  
खादी भण्डार, डेढ़ आना, १९३१, पृ.  
४ + १००. वि

आणंदसे दौंडी तक दिये हुअे  
प्रवचनोंमेंसे ८ प्रवचनोंका संग्रह

- राष्ट्रवाणी. दिल्ली, सस्ता साहित्य, १० आने, नवजीवन प्रकाशित 'Nation's Voice' के पूर्वार्धका यह हिन्दी अनुवाद है। जिसमें गांधीजीके दूसरी गोलमेज परिषदमें दिये हुअे भाषणोंका संग्रह है।

- हिन्दुस्तानका राष्ट्रीय झण्डा. अिन्दौर, हिन्दी साहित्य मंदिर, रु. १-०-०, १९२१

- हिन्दुस्तानकी समस्याओं. बनारस, काशी पुस्तक भण्डार, रु. १-८-०.

गुप्त, मन्मथनाथ - अगस्त क्रान्ति और प्रतिक्रान्ति (समीक्षा). प्रयाग, कल्याण साहित्य मन्दिर, रु. २-८-०, १९४६, रु. १८७. वि

गांधीजीने क्रान्तिका विरोध और प्रतिक्रान्ति स्थापन करनेकी चेष्टा की बैसा लेखकका मन्तव्य है।

गोविंदसहाय - सन बयालीसका विद्रोह. अिन्दौर, नवयुग साहित्य सदन, रु. ६-८-०, १९४६, पृ. १४ + ३४३. वि

जयप्रकाश नारायण लिखित भूमिका।

चिंतामणि, सर सी. वाय्. (अनु: केशवदेव शर्मा) - भारतीय राजनीतिके अस्सी वर्ष. अिलाहाबाद, हिन्दुस्तान अँकेडेमी, रु. १-०-०, १९४०, पृ. २२४. वि

जंगबहादुरसिंह - बारडोलीका सिंह. कानपुर, १९२९

जादड़ेकर, श. द. (अनु: हरिभाभू अुपाध्याय) - आधुनिक भारत. अिलाहाबाद, हिन्दी मन्दिर, रु. ४-०-०, १९४४, पृ. ६ + ३३२. वि

नूल नराठी ग्रंथका संक्षिप्त अनुवाद।

त्रिपाठी, कमलापति - बापू और भारत. देखो विभाग १.

- बापू और मानवता. देखो विभाग १.

त्रिपाठी, रामनरेश - देशकी दशा. दिल्ली, १९३०

- सठ जमनालाल बजाज. प्रयाग, १९२७

देवव्रत - गणेश शंकर त्रिघाथी. बनारस, नवयुग प्रकाशन मन्दिर, रु. २-०-०, १९३१, पृ. १२ + २३३. वि

देसायी, महादेव - दो खुदायी खिदमत-गार. दिल्ली, हिन्दुस्तान टाइम्स, १२ आना, १ रुपया, १९३५, पृ. ६ + ९१. वि महात्मा गांधीजी लिखित भूमिका.

द्विवेदी, देवनारायण - देशको वात-कलकत्ता, आदर्श हिन्दी पुस्तकालय, रु. २-८-०, १९२४, पृ. १६ + ४००. वि

पञ्जाबके हत्याकाण्डसे महात्मा गांधीकी ६ सालका दंड हुआ भुस समय तकका अितिहास, पृ. ३५८ से ४००.

नरेन्द्रदेव, आचार्य - भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलनका अितिहास. बनारस छावनी, नवयुग प्रकाशन मन्दिर, ८ आने, १९३१, पृ. ८९. वि

नवजीवन प्रकाशन मन्दिर (प्र.) - लोक-मान्यको श्रद्धाञ्जलि [नवजीवन और हिन्दी नवजीवनमें प्रकाशित लेखोंका संग्रह]. अहमदाबाद, नवजीवन, १९२४, पृ. ४ + १३२. वि

लोकमान्यके संबंधमें गांधीजीके दो लेख जिसमें हैं।

नेहरू, जवाहरलाल - दुनियाका रंगमंच (विश्व अितिहासकी झलककी पूर्ति). नयी दिल्ली, सस्ता साहित्य, ४ आने, १९३९, पृ. ३१. वि

- (अनु: अुपाध्याय) - मेरी कहानी. दिल्ली, सस्ता साहित्य, रु. २-८-०, ३ सं. १९३७, पृ. १६ + १०४५. वि

- युद्ध संकट और भारत. नयी दिल्ली सस्ता साहित्य, ४ आने, १९४० पृ. २ + ६८ वि

- लड़खड़ाती दुनिया. नयी दिल्ली, सस्ता साहित्य, रु. १-८-०, ३ आ. १९४५, पृ. १० + १५०. वि

- विश्व अतिहासकी झलक - भा. १-२.  
नयी दिल्ली, सस्ता साहित्य, रु. ८-०-०,  
१९३८ पृ. १६ + १४९६ + १६. वि

दूसरा हिस्सा खास करके भुपयुक्त है.

- हम कहाँ है ? (देश और कांग्रेसकी वर्तमान  
स्थितिका अवलोकन). दिल्ली, सस्ता  
साहित्य, २ आने, १९३९, पृ. ४+४३. वि

- हिन्दुस्तानकी कहानी (Discovery  
of India का अनुवाद). नयी दिल्ली,  
सस्ता साहित्य, रु. १०-०-०, १९४८,  
पृ. १८ + ७२०. वि

पोलक, हेनरी - स्वराज्य और साम्राज्य  
प्रयाग १९१७.

फिशर, लुथी - महान चुनौती. दिल्ली,  
राजकमल पब्लिकेशन्स

बिड़ला, धनश्यामदास - श्री जमना-  
लालजी. नयी दिल्ली, सस्ता साहित्य,  
६ आने, १९४२, पृ. ७५. वि

भवानीदयाल संन्यासी, स्वामी - प्रवा-  
सीकी कहानी. कलकत्ता, बाल साहित्य  
प्रकाशक समिति, रु. ३-०-०, १९३९,  
पृ. १० + २८०. वि

स्वामीजीकी आत्मकथा । लेखक  
अफ्रीकाके सत्याग्रहमें गांधीजीके अेक  
साथी थे ।

भारतीय हृदय, अेक - प्रवासी भारतवासी.  
अिन्दौर, सरस्वती सदन, रु. ४-४-०,  
१९१८, पृ. ६६ + १९१ + ३११ + ४७.  
वि

- भारत भवत अेड्यूज. वम्बयी, गांधी हिन्दी  
पुस्तक भंडार, रु. २-१२-०, १९२३,  
पृ. ३३२. वि

मिश्र, शिवनारायण (प्र.) - अकाली  
दर्शन : अकाली सिक्खोंका अितिहास  
तथा वर्तमान अकाली आन्दोलन. कानपुर,  
१२ आने, पृ. ८ + १००. वि

मीतल, प्रभुदयाल - राष्ट्रीय आन्दोलन.  
मथुरा, राष्ट्रभाषा पुस्तक भण्डार, रु. १-८-०,  
सं. १९७९, पृ. १२ + ३१६. वि

राजेन्द्रप्रसाद, वाचू - आत्मकथा. पटना,  
साहित्य संसार, रु. १२-०-०, १ आ.  
१९४७, पृ. १४ + ६५७. वि

श्री वल्लभभार्थी पेंड्लेके प्राक्कथनके  
साथ । जनवरी १९४७ तकका अपने जीव-  
नका वयान बिस ग्रंथमें वाचूजीने दिया है ।

रामनाथ 'सुमन' - पण्डित जवाहरलाल  
नेहरू. नयी दिल्ली, सस्ता साहित्य, २ आने,  
१९३९, पृ. ७०. वि

- हमारे राष्ट्रनिर्माता. देखो १ ला विभाग.  
राममनोहरसिंह - आज्ञादीके रोड़े. कलकत्ता,  
अभिनव भारती ग्रंथमाला, रु. २-०-०,  
१९४१, पृ. १४ + १७१ + ३. वि

लाजपतराय, लाला - तरुण भारत. बनारस,  
हिन्दी साहित्य मन्दिर, रु. १-४-०,  
१९२३, पृ. १७७ वि

लुणिया, जोतमल - कराचीकी कांग्रेस.  
अजमेर, १९३१

सत्यदेव विद्यालंकार (सं. अिन्द्र विद्या-  
वाचस्पति) - स्वामी श्रद्धानन्द [अमर  
शहोद स्वामी श्रद्धानन्दजी महाराजकी  
पूर्ण. प्रामाणिक और विस्तृत जीवनी].

दहले, विजय पुस्तक भंडार, रु. ३-८-०,  
१९३३, पृ. २४ + ६४८, सचित्र. वि  
सत्यदेव विद्यालंकार - हमारे राष्ट्रपति.  
देखो विभाग १ ला.

सर्वमान्य कांग्रेसके नेतागण और विद्वान  
- कांग्रेसका सचित्र (अत्यन्त भुपयोगी)  
सन १८८५से १९४६ तकका संपूर्ण  
अितिहास. बनारस सिटी, काशी पुस्तक  
भण्डार, रु. २-८-०, २ सं. १९४६, पृ.  
८ + २६८. वि

सोतारामैया, डॉ. पट्टाभि - कांग्रेसका  
अितिहास (१८८५-१९३५). दिल्ली,

सस्ता साहित्य, १ सं. १९३६, पृ. ३४७;  
४ सं. १९४६, रु. ६-०-०. वि  
स्वागत समिति ५१वीं हिन्दी राष्ट्रीय

महासभा - हरिपुरा अधिवेशनका  
अहवाल. हरिपुरा, रु. २-४-०, १९३८,  
पृ. २२८. वि

## १२. सामयिक और संग्रह

आजकल (बापू अंक) - सं. देवेन्द्र सत्यार्थी.  
दिल्ली, मिनिस्ट्री ऑफ बिस्फमेशन अॅन्ड  
वॉलकास्टिंगका पब्लिकेशनस डिपार्टमेन्ट, १२  
आने, १९४८, पृ. १२८, सचित्र. वि  
खादी जगत (अखिल भारत चर्खा संघका  
मासिक मुखपत्र) - सं. कृष्णदास गांधी  
सेवाग्राम (वर्धा), अ. भा. च. संघ. वार्षिक  
चंदा शुरूमें दो रुपया, बादमें छै रुपया  
हुआ। १९४१ के जुलाबीसे शुरू। आगस्ट  
१९४२ का युद्ध शुरू होने पर बंद रहा।  
फिर चालू है। वि

ग्रामोद्योग पत्रिका (अखिल भारत ग्रामोद्योग  
संघकी मासिक पत्रिका) - सं. जे. सी.  
कुमारप्पा बि. वर्धा, अ. भा. ग्रा. शु.  
संघ. वार्षिक चंदा शुरूमें १२ आने,  
अब २ रु. है। जनवरी १९३७ से शुरू।  
आगस्ट १९४२ के आंदोलन दरनियान  
बंद रहा। अब फिर चालू है। वि

त्यागभूमि [जीवन, जागृति, बल और  
बलिदानकी मासिक पत्रिका] - सं. हरिभाबू  
धुपाध्याय और क्षेमानन्द राहत। अजमेर,  
सरस्ता साहित्य मण्डल। वार्षिक चंदा ४  
रुपया। पृष्ठसंख्या प्रतिवर्ष करीब ८००। शुरू  
विजया दशमी सं. १९८४। १९३०-३२  
का सत्याग्रह युद्ध शुरू होने पर बंद। वि  
नयी तालीम (हिन्दुस्तानी तालीमी संघका  
मासिक मुखपत्र) - सं. आशादेवी बि.  
वर्धा, हिं. ता. संघ. सालका चंदा रु.  
१-०-० शुरूमें था। अब ४ रुपया है।  
शुरू जनवरी १९३९

आगस्ट आन्दोलनके वक्त बंद रहा।  
फिर चालू है। फरवरी १९४८ के अंकके  
साथ पाँच वर्ष पूरे हुअे। वि

नया हिन्द (हिन्दुस्तानी कल्चर सोसायटीका  
मासिक परचा) - संपादक : पं. सुन्दरलाल,  
डॉ. ताराचंद बि०। परचा नागरी और  
युर्दू दोनों लिपियोंमें अेकत्र निकलता है।  
बिलाहावाद, हिं. क. सोसायटी. सालाना  
चंदा छै रुपया। जुलाबी १९४६ से शुरू।  
प्रतिमास करीब ९६ पृष्ठ होते हैं। वि  
प्रेम - सं. असुदमल टे. गिदवानी और गंगोप्रसाद  
भृगुर्व. वृन्दावन, प्रेम महाविद्यालय. वार्षिक  
मूल्य ३ रुपये। सप्टेंबर १९२६ से शुरू।  
गिदवानीजीके समयके परचे गांधी  
साहित्यकी दृष्टिसे अुपयोगी है।

महिला आश्रम पत्रिका (महिला आश्रम  
वर्धाका त्रैमासिक) - सं. भवानी प्रसाद  
मिश्र। वर्धा, महिलाश्रम। वार्षिक मूल्य  
रु. ४-८-०। सं. २००२ की गांधी  
जयंतीसे शुरू। वि

यह पत्रिका प्रायः गांधीजयंती,  
स्वातंत्र्यदिन, जलियोंवाला वाग दिन और  
९ आगस्टकी प्रसिद्ध होती है।

- यंग अिडिया (गांधीजीके लेखोंका संग्रह).  
१९२९। खण्ड १-२. कलकत्ता,

राष्ट्रभाषा (राष्ट्रभाषा प्रचार समितिकी ओरसे  
निकलता हुआ मासिक परचा) - सं.  
श्रीमन्नारायण अग्रवाल. वर्धा. १५ जून,  
१९४१से शुरू। वार्षिक मूल्य रु. १-०-०.  
वि

राष्ट्रभाषाका स्वरूप और लिपिके  
प्रश्नके कारण तीव्र मतभेद होने पर  
गांधीजी, काकासाहब बित्यादिने राष्ट्रभाषा  
प्रचार समितिसे अिस्तिफे दिये, तदसे यह  
पत्रिका केवल देवनागरी हिन्दीका ही  
प्रचार करती है।

विद्यापीठ (काशी विद्यापीठकी त्रैमासिक पत्रिका) - सं. बाबू भगवानदास और नरेन्द्रदेव. काशी. सं. १९८६के आषाढसे शुरू ।

सबकी बोली (मासिक) - सं. काका कालेलकर और श्रीमन्नारायण अग्रवाल, वर्षा. श्री. ना. अग्रवाल. १९४०के दिसम्बरसे श्री काकासाहेब अकेले ही संपादक और प्रकाशक बने । सालाना चंदा रु. १-४-०, पृष्ठसंख्या प्रतिवर्ष करीब ४००के आसपास । आक्टोबर १९३९ से शुरू हुआ । वि राष्ट्रभाषा प्रचार समितिके आश्रयके नीचे यह राष्ट्रभाषाका प्रचार करनेवाला मासिक था । २ वर्षके बाद यह बंद किया गया ।

सर्वोदय (मासिक) - सं. काका कालेलकर और दादा धर्माधिकारी. वर्षा, दादा धर्माधिकारी. सालाना चंदा रु. ३-०-०, पृष्ठसंख्या प्रतिवर्ष करीब ६७२के आसपास । वि

गांधी सेवा संघके आश्रयके नीचे यह बड़ा महत्त्वका मासिक निकलता था । १९४२ आगस्टका आन्दोलन शुरू होनेके

बाद यह बंद हुआ । ४ वर्ष और १ महीना यह चला । जिसमें देशके सर्व प्रमुख गांधीवादियोंके विचारणीय लेख मिले ।

हरिजनसेवक (साप्ताहिक) - सं. वियोगी हरि. दिल्ली, वर्ष १ से ८, १९३३-४०; वर्ष ९ वाँ, अहमदाबाद नवजीवन १९४२ । आगस्ट, १९४२का आन्दोलन शुरू होते ही जप्त हुआ । फिर चालू है । वार्षिक चंदा रु. ६-०-०

शुरुमें सिर्फ हरिजन सेवा, असह्यता-निवारण, और अन्य अराजनैतिक प्रश्नोंकी चर्चा ही जिस परचेमें होती थी । फिर प्रान्तोंमें कांग्रेसके सत्कार, होने पर राष्ट्रीय जीवनके सभी प्रश्नोंकी चर्चा जिसमें शुरू हुआ ।

हिन्दी नवजीवन (साप्ताहिक) - अहमदाबाद, नवजीवन. नवजीवन यंग अिडियाके साथ ही यह निकलता था । १९२१-२२से १९३२ तक चालू रहा । बादमें बंद ।

हिन्दी नवजीवन (जयंती अंक) - सं. हरिभाबू सुपाध्याय। अहमदाबाद, नवजीवन, ४ आने, सं. १९७९, पृ. ४+६४. वि

# ગુજરાતી પુસ્તકો

## ૧ ગાંધી-ચરિત્ર

કવિ, દયાશંકર - કસ્તૂરબા. સુરત, હરિહર પુસ્તકાલય, રૂ. ૧-૮-૦, ૧૯૪૪, પૃ. ૮ + ૧૩૭. વિ

કવિ, નાનાલાલ - ગુજરાતનો તપસ્વી (કાવ્ય). મુંબઈ, સ્વામી આનંદ, ૧૯૧૯ ગાંધીજીના સુવર્ણ મહોત્સવ પ્રસંગે કવિએ રચેલું કાવ્ય.

કૃત્તેશી, હમીદ અને માવલંકર, પુસ્તકોત્તમ ગ. (સં.) - દુનિયાની દૃષ્ટિએ. અમદાવાદ, કૃત્તેશી અને માવલંકર, ૬ આના, ૧૯૪૩, પૃ. ૪૩; ૨ આ. ૧૯૪૮, ગતિ પ્રકાશન લિ., રૂ. ૧-૦-૦. પૃ. ૬૪. વિ

કૃષ્ણમૂર્તિ, વાય. જી. - યુગપુરુષ ગાંધી. મુંબઈ, કિશોર પ્રાણલાલ વૈષ્ણ, રૂ. ૧-૦-૦, ૧૯૪૪, પૃ. ૫૮ વિ

કે.બી.કર, કેશવ સદાશિવ (અનુ: શુદયચંદ વૈષ્ણ) - મહાત્મા ગાંધી. પૂના, કે. સ. કે.બી.કર, ૫ આના, ૧૯૩૨, પૃ. ૪૯, ચિત્ર. વિ

ગાંધી, પ્રમુદાસ છ. - જીવનનું પરોઢ. અમદાવાદ, નવજીવન પ્રકાશન મંદિર, ૧૯૪૮.

થોડા જ વખતમાં વહાર પડશે.

ગાંધી, મોહનદાસ ક. (સંક્ષેપકર્તા: જમુ દાળી) - મારી જીવનકથા खंड ૧લી. મુંબઈ, સી. જમનાદાસની કંપની, ૧૦ આના, ૧ આ. ૧૯૩૩, પૃ. ૧૦ + ૨ + ૧૪૬ + ૧૪. વિ

ગાંધી, મોહનદાસ ક. - આત્મકથા (દેવ-નાગરી લિપિમાં). ૧૪ આના, ૧૯૪૦,

પૃ. ૧૪ + ૬૩૫, સૂચિ. વિ - (સં. વા. ગો. દેસાઈ) - પ્રેમપંથ યોજન ૨ (આત્મકથા : વાલકાંઠ). અમદાવાદ, સસ્તું સાહિત્ય વ. કાર્યાલય, ૪ આના ૧૯૪૭, પૃ. ૯૬. વિ

- પ્રેમપંથ યોજન ૨. નવજીવન પ્રકાશિત આવૃત્તિ, ૪ આના, ૧૯૪૮, પૃ. ૮ + ૮૦ + ૩ ચિત્રો. વિ

- મારો જેલનો અનુભવ. સુરત, ગાંધીવ સાહિત્ય મંદિર, ૫ આના, ૨ આ. ૧૯૨૨, પૃ. ૧૨ + ૧૦૦ વિ

- મારો જેલનો અનુભવ. અમદાવાદ, રાષ્ટ્રીય સાહિત્ય પ્રનારક મંડલ, ૬ આના, ૧ આ. ૧૯૨૧, પૃ. ૭૦. વિ

દક્ષિણ આફ્રિકામાં મહાત્મા ગાંધીએ ચલાવેલા સ્થાયાગ્રહ સમયે અનુભવેલો જેલનો પરિચય.

- યરોડાના અનુભવ. અમદાવાદ, નવજીવન, ૧૨ આના, ૧ આ. ૧૯૨૫, પૃ. ૬ + ૧૫૬. વિ

- સત્યના પ્રયોગો અથવા આત્મકથા. અમદાવાદ, નવજીવન, ૧ આ. खंड ૧ ૧૯૨૭, ૮ આના, પૃ. ૮ + ૪૦૭; खंड ૨, ૧૯૨૯, ૮ આના, પૃ. ૮ + ૪૦૮. વિ

વત્ર खंड ૩ એક ગ્રંથમાં રૂ. ૧-૦-૦ ૧૯૪૦, પૃ. ૧૬ + ૬૮૫. સૂચિ અને ચિત્રો સાથે. નવું મુદ્રણ ફિ રૂ. ૨-૦-૦ વિ

ગુજરાત મહાવિદ્યાલયનું વિદ્યાર્થીમંડલ (પ્ર.) - સાવરમતી (હસ્તલિખિત દ્વે-માસિક) - ગાંધી હીરકમહોત્સવ અંક.

अमदावाद, १९२९, पृ. १५२. वि  
चांपानेरिया, जीवणलाल क. (सं.) - गुफानुं  
कमळ. अमदावाद, प्रस्थान कार्यालय, ३  
आना, १ आ. १९३१, पृ. ६४. वि

१९३२मां जेलवासी सत्याग्रहीभोभे  
भूजवेली रेंटियावारस प्रसंगे लखेला  
गांधीजीनां संस्मरणोनी संग्रह.

चित्तळिया, करसनदास मूळजी - महारमा  
गांधीजी. मुंबधी, १९२७

जॅफेट, अेम. डी. (अनु: चन्द्रकान्त  
महेता) - गांधीजी अने कांप्रेस प्रत्ये  
मासं ऋण. मुंबधी, हमारा हिन्दोस्तां,  
८ आना, १९४६, पृ. ३८. वि

जेसरूपुरा, शिवलाल - जगदंबा कस्तूरवा  
डोक, जोसेफ जे. (अनु: प्राणजीवन  
जगजीवन महेता) - मोहनदास करमचंद  
गांधी (दक्षिण आफ्रिकावाळा हिन्दी  
देशभक्त)नी जन्मवृत्तान्तं. मुंबधी, गुजराती  
प्रिन्टिंग प्रेस, १९१२, पृ. ८+८९+१२१.  
वि

लॉर्डे अॅपहीलनो भुपोद्घात अने  
भाषांतरकारनी विस्तृत (पृ. ८९) प्रस्तावना  
साथे.

तेंडुलकर, डी. जी.; राव, अेल. चलपथी;  
साराभासी, मृदुला; अने झवेरी,  
विठ्ठल (सं.) - गांधीजी: तेमनुं जीवन  
अने कार्य. अमदावाद, लोकप्रकाशन लि.,  
रु. १२-८-०, १ आ. १९४५, पृ. २४  
+ ४०८ चित्रो साथे. वि

मूळ अंग्रेजी ग्रंथ परधी अनुवादित.

दवे, फणिलाप्रसाद महासुखभासी - ओशु  
अने गांधी. अमदावाद, क. म. दवे, ४  
आना, १९३१, पृ. २४. (सचित्र, आर्ट-  
पेपर पर छापेलुं)

- गांधीजीनी लंडनयात्रा. अमदावाद,  
क. म. दवे, रु. १-०-०, १९३२, पृ. ४०.  
सचित्र, आर्टपेपर, डवल क्राथुन साभाश.

दवे, जुगतराम - गांधीजी. अमदावाद,  
नवजीवन, सुधारेलीवधारेली आवृत्ति,  
१९३९; पुनर्मुद्रण १९४७, ७ आना, पृ.  
८ + ११२. वि

‘वाळकोना गांधीजी’नी नवी संवर्धित  
आवृत्ति.

- वाळकोना गांधीजी. मुंबधी, सी-  
जमनादास, २ आना, सं. १९८५, पृ. ७५. वि

दवे, जेठालाल देवशंकर (प्र.) - महात्मा  
गांधी अने हिन्दना महान नररत्नो-  
अमदावाद, भाग्योदय - जे. दे. दवे, १९२१,  
पृ. २१९

आ पुस्तकमां गांधी, तिलक, दास  
वगेरे ११ नेतानां चरित्रो छे गांधीजी  
पृ. १ थी ८८.

दवे, नटवरलाल माणेकलाल (सं.)  
- गोळ्मेजोमां गांधीजी (आखरी फॅतलो  
भाग ४ थो) अमदावाद, गुज्जर ग्रंथरत्न  
कार्यालय, १२ आना, १९३२, पृ.  
८ + २१८. वि

गांधीजीभे गोळ्मेजी परिपदमां आदेशं  
भाषणो; विलायतथी मुंबधी; ना. वाणि-  
सरोय साथेनो पत्र-व्यवहार; कार्यवाहक  
समितिनो ठरावो; छेवटे यरोडा मन्दिरनी  
दीवालो पाछळ.

दिवेटिया, नरसिंह भो. - महात्मा गांधीजीनुं  
जीवन रहस्य. मुंबधी, १९३१

देसाजी, कनु - भारत पुण्यप्रवास. अमदावाद,  
प्रस्थान, रु. १-०-०, १९३१, पृ.  
६ + १२ चित्रो. वि

दसाजी, डाह्याभासी म. - मोहनदास  
करमचंद गांधी. अमदावाद, १९१२  
देसाजी, पांडुराव जी. - कर्मवीर मोहनदास  
क. गांधी. अमदावाद, १९१३

देसाजी, रमणलाल वसंतलाल - तेज  
चित्रो. मुंबधी आर. आर. शेठनी कंपनी,  
रु. ४-०-०, १९४२, पृ. ६ + ३५४. वि

पुस्तकमां जाणीता अजाणीता अेवा  
१३ स्त्री-पुरुषांनां चरित्रो ह्ये. महात्मा  
गांधीनुं चरित्र पृ. २६६ थी ३५३ सुधी.

पटेल, गोविंद ह. - वापुने (काव्य). धर्मज,  
गोरधनभाभी किशोरभाभी, ७४ पावो, सं.  
१९९८, पृ. ४७. वि

काव्यमां ७४ कडो ह्ये.

पटेल, रावजीभाओ म. - गांधीजीनी  
साधना. अमदावाद, नवजीवन, रु.  
१-४-०, १९३९, पृ. २३ + ४८०

सचि तथा कालेलकरनी 'पार्श्वभूमि' साथे. वि  
पटेल, रावजीभाओ म. अने देसाओ,  
परागजी खं. - महात्मा गांधीजीना  
जीवनना केटलाक प्रसंगो. सुरत, कल्याणजी  
विठ्ठलभाओ, ४ आना, १९२२, पृ. ८०.

आमां २३ प्रसंगो रज्जू करवामां  
आव्या ह्ये.

पटेल, सोमाभाओ - महात्मना प्रमुखो:  
दृशां रेखाचित्रो (१८८५-१९३८). मुंबओ,  
सुंदर साहित्य प्रकाशन मन्दिर, रु. १-०-०,  
१९३८, पृ. २०४. वि

गांधीजी, पृ. १४० थी १५२.

पंडित, सुभेदचंद ला. - गांधी मोहनदास  
करमचंद. पूना, १९३२

पंड्या, राजेन्द्र - घापु, तारे चरणे  
(दापुनी ७९ वर्षनी ७९ पुष्पोनी अंजलि).  
बडोदरा, प्रकाशन मन्दिर, ३ आना,  
१९४८, पृ. १९. वि

परीख, घनमाला अने नय्यर, सुशीला  
- अमारं वा [अेमनी जीवन कस्तूरी].  
अमदावाद, नवजीवन, रु. १-८-०, १९४५,  
पृ. ८ + २२२. वि

गांधीजीनी प्रस्तावना.

पाठक, रामनारायण ना. - गांधी घापु.  
तरवटा, सर्वोदय मन्दिर, वे खंडना रु.  
९-०-०, खंड १. १९४६, पृ. ४२०;  
खंड २, १९४७, पृ. ५०४. वि

'युगावतार गांधी' नी नवेसर रखेले  
संबंधित आवृत्ति. जुगतराम दवेनी  
प्रस्तावना साथे.

- युगावतार गांधी. पोरबंदर, भारतीदय  
मण्डळ-लोकूपयोगी सस्ती ग्रंथमाळा. खंड १.  
८ आना, २आ. १९३८, पृ. ८ + १८३;  
खंड २. १२ आना, १आ. १९३६,  
पृ. ८ + २८७; खंड ३, रु. ०-१५-६,  
१आ. १९३८ पृ. ८ + २८४ सचित्र. वि  
श्री महादेव देसाओनी प्रस्तावनासाथे.

पाठक, रामनारायण वि. तथा परोख,  
रसिकलाल छो. (सं.) - गांधी मणि-  
महोत्सव अंक (प्रस्थान मासिक वर्ष ४  
अंक ११मो). अमदावाद, प्रस्थान कार्यालय,  
रु. १-०-०, सं. १९८५, पृ. २९३थी  
४५५, ६ चित्रो. वि

पारेख, हिरालाल त्रि. - अर्वाचीन गुजरातनुं  
रेखादर्शन खंड ३ जो. अमदावाद, गुजरात  
वर्नाक्युलर सोसायटी, १९३७, पृ. २६४,  
रु. १-०-०. वि

गांधीजीविषयक स्वतंत्र प्रकरण  
'जगतनो भेक महान क्रान्तिकारी पुरुष'  
पृ. २३८थी २५२

पोलाक, मीली ग्रॅहाम - गांधीजीना जीवन-  
प्रसंग. मुंबओ, वीरा भेन्ड कंपनी, रु.  
२-४-०, १९४४, पृ. १४१. वि

'मि. गांधी घ मॅन'नो अनुवाद.

- संतनां स्मरणो. अमदावाद, १९४०

'मि. गांधी घ मॅन'नो ज बीजो  
अनुवाद.

प्रस्थान कार्यालय (प्र.) - गांधीकूच  
(आल्बम). अमदावाद, ६ आना, १९३०.  
वि

फिशर, लुओ (अनु: वं. प्रा. शुक्ल)  
- गांधीजी साथे अेक अठवाडियुं.  
मुंबओ, वीरा अने कंपनी, रु. २-०-०,  
१९४४, पृ. ११४. वि



**फुलॉप-मिलर, रेनी** (अनु: र. दे. भट्ट)  
-तारणहार. अमदावाद गुजरात साहित्य  
मंदिर, रु. १-४-०, १९३१, पृ. ३२ +  
१७९ + ४. वि

रा. वि. पाठकनो भुषोद्घात.

**बिडला, घनश्यामदास** - वापु. अमदावाद,  
नवजीवन, १२ आना, १९४१, पृ.  
१६ + १६४. वि

हिन्दी परथी अनुवाद.

**बुच, पुरातन** - आपणां फस्तुरवा. सावरमतो,  
हंस प्रकाशन - पुरातन बुच, १५ आना,  
१९४६, पृ. ४ + ६४. वि

- आपणा गांधोजी. अमदावाद, गूर्जर  
ग्रंथरत्न कार्यालय, रु. १-०-०, १९४६,  
पृ. ४ + ९२. वि

वाळकी माटे टूंजुं जीवनचरित्र.

- गांधोजीनां सांनिध्यमां. भावनगर,  
भारतो प्रकाशन मन्दिर, रु. १-८-०,  
१९४६, पृ. ८ + १४४. वि

- वापुची छायामां. भावनगर, भारती  
प्रकाशन मंदिर, रु. २-०-०. १९४६,  
पृ. १० + १८६. वि

**बोडीवाळा, नंदलाल** (प्र.) - महात्मा  
गांधोजीनी लंडनयात्रा. अमदावाद,  
नंदलाल बोडीवाळा

- (सं.) - महात्मा गांधोजीनुं जीवन-  
वृत्तांत. अमदावाद, नं. चु. बोडीवाळा,  
६ आना, २ आ. पृ. १२५

पांडुराव जीवणलाल देसाभीना लखाण  
परथी संपादित.

**भट्ट, भद्रशंकर मंळाराम** (सं.) - हिन्दुनो  
हुंकार [ गांधोजीनी विलायतनी यात्रा ].  
(स्वदेश ग्रंथमाळा - १). कारांची, स्वदेशी  
कार्यालय - भ. मं. भट्ट, १४ आना,  
१९३२, पृ. १० + १९२. वि

**भसे, प्रभाकर श्रोपत** (अनु: गोवर्धनदास  
क. अमोन) - जगतनो महान पुरुष.

अमदावाद, सस्तुं साहित्य वर्षकू कार्यालय,  
रु. १-४-०, सं. १९७९, पृ. १६ + ३३६.  
वि

गांधोजी विपेना विविध लेखोनो संग्रह.  
माथे परिशिष्टमां गांधोजीना छ महत्सना  
लेखो आपेला छे. मगळी 'पुण्यश्लोक'  
परथी अनुवाद.

**महेता, मनसुखलाल खजीमाओ** -  
गांधोजीनी प्रवृत्तिओ. राजकोट, १९२१  
**माणेक, करसनदास** - कल्याणयात्री (कान्य).  
मुंबजी, नालंदा प्रकाशन, रु. १-४-०,  
१९४५, पृ. २४. वि

गांधोजीनो ७५मी वरसगांठे दिवसे  
तेमने अर्पण करेलुं ७५ पद्योनुं काव्य.  
काकासाहेब कालेकरनी प्रस्तावना सपे.

**मास्तर, कपिलावहेन** - वापूजी अने द्रीजो  
वातो. भावनगर, दक्षिणामूर्ति प्र मन्दिर,  
१० आना, १९३३, पृ. ९०. वि

**मेहेरअली, युसुफ** (अनु: भ. ही. भूखण-  
वाळा) - आपणा नेताओ. वडोदरा  
पत्रजा प्रकाशन, रु १-०-०, १९४७.  
पृ. ६६. वि

गांधोजी पृ. ५ थो १४.

**याज्ञिक, अिन्दुलाल** - महात्मा गांधोजीना  
सहवासमां. मुंबओ, हिन्दुस्तान न्यूसपेपर्स  
लिमिटेड, भाग १, रु. १-८-०, पृ.  
८ + २०८; भाग २, प्र. हिन्दुस्तान प्रेस  
लि. रु. २-०-०, पृ. ८ + ३४५. वि

**राधाकृष्णन, सर्वपल्लो** (सं.) (अनु:  
च. प्रा. शुक्ल) - गांधोजीने जगवंदना.  
मुंबओ. वीरा अने कंपनी, १ आ. १९४३;  
२आ. १९४४, रु. ३-०-०, पृ. ८ +  
२३०. वि

गांधोजीने ७० मी जन्मतिथिने दिवसे  
अर्पण करेला श्री. राधाकृष्णन संपादित  
अभिनंदनग्रंथनो अनुवाद.

- महात्मा गांधो. मुंबओ, वीरा अने कंपनी,

१० आना, १९४२, पृ. ७५. वि  
 'गांधीजीने जगवंदना'मांना श्री  
 राधाकृष्णनना लेखनी अनुवाद.

राय, दिलीपकुमार (अनु: न. ना. पारेख)  
 - तीर्थसलिल [ रोमे रोलां, वर्दीन्ड रसेल,  
 महात्मा गांधी. रवीन्द्रनाथ ठाकुर तथा  
 अरविंद घोष साथेनी वातचीत ]. मुंबयी,  
 महागुजरात कंपनी, १ आ. १९४२;  
 २ आ. १९४७, रू. ४-४-०, पृ. ३० +  
 ३२०. वि

दीजी आवृत्तिमां राधाकृष्णननी  
 प्रस्तावना छे.

रादेरिया, मधुकर - महासभाना महारथीओ  
 [ महासभाना सहयोगीओ, प्रमुखो अने  
 शक्येयाओ : तेमना जीवनकार्यनी रूपरेखा ].  
 जोरावरनगर, लक्ष्मोदास पु. गांधी, रू.  
 ५-०-०, १९४६, पृ. १६ + ३१६. वि  
 महात्मा गांधी, पृ. १५६ थी १६८.

रेस्टर, स्पूरिअेल (अनु: चं. प्रा. शुक्ल)  
 - गांधीजीनी युरोपयात्रा. मुंबयी, अेन.  
 अेन. ठाकर अने कंपनी, रू. २-०-०,  
 १९४५, पृ. १२ + १५२. वि  
 वर्मा, जयकृष्ण नागरदास - महात्मा

गांधीजीनुं जीवन. वडोदरा, विद्रुलभायी  
 आ. ठाकर, रू. ४-०-०, सं. १९७८,  
 पृ. ८ + ३४५. वि

शाह, धीरजलाल धनजीभाओ (सं.)  
 - 'वा'. अमदावाद, गूर्जर ग्रंथरत्न  
 कार्यालय, रू. १-८-०, १९४४, पृ.  
 ५ + १२६. वि

शाह, भोगीलाल न. - महात्मा गांधी  
 अने श्रीमद राजचन्द्र. अमदावाद,  
 अंझा फार्मसी, १९३७

शाह, रमणलाल नानाभाओ - महात्मा  
 गांधी (विद्यार्थी वाचनमाळा). अमदावाद,  
 धीरजलाल टोकरशी शाह, सदा आनो,  
 पृ. २८. वि

शुक्ल, चंद्रशंकर प्रा. (सं.) - गांधीजीना  
 समागममां. वडोदरा, रायचुरा बुक डीपो,  
 रू. २-८-०, १९४५, पृ. २००. वि

- पुण्यश्लोक गांधीजी (गांधीजीना जीवन  
 अने कार्य विषेना जुदा जुदा लेखकोना  
 लेखनी संग्रह). मुंबयी, वीरा अने कंपनी,  
 रू. ४-४-०, १आ. १९४४, पृ.  
 २५६ + २. वि

## २. सत्याग्रह, अहिंसा, गांधीवाद अि.

दोसम्बी, धर्मानन्द - हिन्दी संस्कृति अने  
 अहिंसा. अमदावाद, जी. अ. महेता, रू.  
 २-०-०. १०३७, पृ. ३३१. वि  
 गांधी, जैठालाल जी. (सं.) - जीवनचर्चा.  
 अमदावाद, प्रस्थान, ८ आना, १९३१,  
 पृ. ११८. वि  
 गांधी, गोहनदास क. (सं. बिन्दुलाल  
 पांशिका) - असहकार. जुओ राजकारण  
 विभाग  
 - (सं. नगीनदाम अमुलखराय) - असहकार.  
 (गांधीजीना ज पोताना शब्दोमां). जुओ  
 राजकारण विभाग

- असहकार. अमदावाद; राष्ट्रीय साहित्य  
 प्रकाशन. जुओ राजकारण विभाग  
 - अहिंसा. अमदावाद, नवजीवन, ८ आना,  
 १ आ. १९३४, २ आ. १९४१, पृ.  
 १० + ३३५. वि .  
 - आ ते जीवदया? अमदावाद, नवजीवन,  
 ३ आना, सं. १९८३, पृ. ४ + ३९. वि  
 'आ ते जीवदया?' वाळा नवजीवनना  
 लेखनी चालेली चर्चामां गांधीजीअे अहिंसा  
 शुपर लखेला लेखो.  
 - कायदानी रामे थवानी फरज.  
 अमदावाद, वरलभभाओ पेटेल तथा महादेव

देसायी, सं. १९७९, पृ. १६. वि

थोरोना निबंध परधी लखायेल.

- गांधोजीनी जुवानी (इंटर कमिटि समक्ष अमदावादमां). सावरमती, स्वामी आनंद, सत्याग्रहाश्रम, ६ आना, १९२०, पृ. १००. वि

- धर्मयुद्धं रहस्य [ महासभामां पूर्ण स्वराज्यनो ठराव पसार थया पढी सत्याग्रह युद्धं रहस्य वतावतां जनताने भुदेशीने पू. गांधोजीभे लखेला लेखो तथा आपेलां भाषणोनी संग्रह ]. अमदावाद, प्रस्थान, ६ आना, १ आ. १९३०, पृ. ८०. वि

- (योजकः देसायी वालजी गो.) - प्रेमपंथ योजन १. अमदावाद, सस्तुं साहित्य, ३ आना, १९४६, पृ. ६४. वि

नवजीवन प्रकाशन मंदिर तरफधी पण आ पुस्तक बहार पड्युं छे.

- (अनुः अने सं. मथुरादास त्रिकमजी)

- महात्मा गांधोजीनो विचारसृष्टि. मुंबयी, मथुरादास त्रिकमजी, रू. २-१२-०, सं. १९७५, पृ. ८ + ४१३. वि

महात्मा गांधोजीनां लखाणोमांथो चूटी काढेलां लेखो तथा भाषणोनी वर्गीकृत संग्रह.

- (सं नगीनदास अमुलखराय) - सत्याग्रह (महात्माजीना शब्दोमां) गांधोजिक्षण माला-१, मुंबयी, नगीनदास अमुलखराय, ५ आना, १९२३, पृ. १६ + ७०. वि

प्रेम, रीचर्ड बी. (अनुः चं. प्रा. शुक्ल)

- अहिंसानी तालीम. अमदावाद, नवजीवन, ६ आना, १९४३, पृ. ६२. वि

चतुरसेन शास्त्रो, पं. - सत्याग्रह अने असहयोग. अमदावाद, सस्तुं साहित्य, रू. १-४-०, १९४०, पृ. ६ + ४३२. वि

दर्शक - वे विचारधारा. आंबला, ग्राम-दक्षिणामूर्ति, रू. २-८-०, १आ. १९४५, पृ. १६ + २२२ + २२. वि

गांधीवाद अने समाजवादीनो

तुलनात्मक चर्चा.

देसायी, परागजी खंडुभात्री - सत्याग्रहं रहस्य (स्वराज्य लेखमाळा नं. १२). मुंबयी, हीमरूल लीग थोफिस, १ आनी, पृ. ३०, वि

देसायी, मगनभात्री प्र. - सत्याग्रहो मोमांसा. अमदावाद, नवजीवन, १४ आना, १आ. १९३४, पृ. ३६ + ३२३, सूचि तथा पुस्तक सूचि सहित. वि

श्री काकासाहेबनी प्रस्तावना साथे.

२जी सुधारेली आवृत्ति १९४८, पृ संख्या आदारे ३२०, किमत आदारे रू. २-८-०. टूंकमां बहार पडजे.

नवजीवन प्र. मंदिर (प्र.) - सत्याग्रहाश्रम नियमावलि. अमदावाद, नवजीवन, १९२८, पृ. २४, २ आ १९३१. वि

नहारसिंह - असहकार सुर भाषण. शाहपुरा, १९२२

परीख, नरहरि द्वा. - सत्याग्रहीना स्वातंत्र्य मंत्रो. अमदावाद

मशरूवाळा, किशोरलाल घ. - गांधी-विचारदोहन [ गांधोजीनी संमितपूर्वक ]. अमदावाद, नवजीवन, २ आ ८ आना, १९३५; ३ आः १९४०, १४४, १४ आना, पृ. १६ + २५४. वि

गांधोजीना विचारोने १४ खंडोमां वहेंची जुदा जुदा विषयोने अंगे तेओ शा विचार धरावे छे ते सूत्रमय भाषामां जणाव्या छेः तात्कालिक अवलोकन माटे खास अपुयोगी.

- निर्भयता. अमदावाद, नवजीवन, दोड आनी, १९४२, पृ. १२ + १८४. वि

- सत्यमय जीवन. अमदावाद, प्रस्थान, १० आना, १९३५, पृ. २१०. वि

मोर्ली, जॉन (अनुः महादेव देसायी) - सत्याग्रहो मर्यादा (ऑन कॉन्ग्रिस'नो

અતુવાદ). અમદાવાદ, નવજીવન, રૂ. ૧-૪-૦, સં. ૧૯૮૨, પૃ. ૩૨ + ૩૦૩. વિ

રાજગોપાલાચારીના 'આમુષ' સહિત.

રવાણી, જમુ - અહિંસાનો રાહ.

સમાજશાસ્ત્રી - સત્યાગ્રહ : નિષ્ફળ અને નકામું શસ્ત્ર ભાગ ૧-૨. મુંબઈ, ઍલ્બોવોકેટ

## ૨ અ. સત્યાગ્રહની લડતોનો ઇતિહાસ

નાંધો, મોહનદાસ ક્ર. - એક સત્યવીરનો કથા અથવા સૉક્રેટીસનો વચાવ. અમદાવાદ, નવજીવન, ૧ આનો, ૧૯૪૧, પૃ. ૩૬; ૨ આ. ૧૯૪૪, ૨ આના. વિ - દક્ષિણ આફ્રિકાના સત્યાગ્રહનો ઇતિહાસ, खंड ૧, ૨. અમદાવાદ, નવજીવન, खंड ૧, ૧૨ આના, ૧૯૨૪, પૃ. ૪+૨૭૦; खंड ૨, રૂ. ૧-૦-૦, ૧૯૨૫, પૃ. ૮+૨૦૫. खंड ૨ની ૨જી આવૃત્તિ, ૧૯૪૦. વિ

ગુજરાત પ્રાન્તિક સમિતિ (પ્ર) - ધરાસળાનો કાઢો કેર. અમદાવાદ, ગુ. પ્રાં. સમિતિ, ૩આ. ૧૯૩૦, પૃ. ૨૩+૧૨૦. વિ ધરાસળાના મીઠાના અગરો પરના હુમલાની હકીકત

ડેવે, જુગતરામ (સં.) - ઘારડોલી સત્યાગ્રહ (પંત્રિકાઓ). ઘારડોલી, ૧૯૨૮. જુઓ સામયિકોનો વિભાગ.

દેસાઝી, મહાદેવ - એક ધર્મયુદ્ધ [અમદાવાદના મિલમજૂરોની લડતનો ઇતિહાસ. તા. ૨૨-૨-'૧૮ થી ૨૦-૩-'૧૮]. અમદાવાદ, નવજીવન, ૧ આ. ૧૯૨૦; ૨ આ. ૧૯૪૦, ૬ આના, પૃ. ૮+૧૨૪. વિ

- ઘારડોલોના સત્યાગ્રહનો ઇતિહાસ. અમદાવાદ, નવજીવન, રૂ. ૧-૦-૦, ૧-૧૨-૦, ૧ આ. ૧૯૮૫, પૃ. ૮+૩૮૯, નકામો તથા ચિત્રો. વિ

પટેલ, છોટુભાઝી શુ. - પંચમહાલ જંગલ સત્યાગ્રહ. કાલોલ, ૧૯૩૦. વિ

ઍફ બિંડિયાં પ્રેસ; ભાગ ૧. જો, ૧૨ આના, ૧૯૩૩, પૃ. ૧૩૦; ભાગ ૨ જો, ૧૯૩૪, પૃ. ૧૭૨, રૂ. ૧-૦-૦.

'હિન્દુસ્તાન અને પ્રજામિત્ર' માં લેખકે લખેલા લેખોનો સંગ્રહ.

પટેલ, સરદાર વલ્લભભાઝી - વોરની હાકલ

[સરદાર વલ્લભભાઝીની રણ ગર્જનાઓ] ભાગ ૧, ૨. અમદાવાદ, પ્રસ્થાન, ૧૯૩૦. ભાગ ૧, ૧૨ આના, પૃ ૮ + ૨૧૦; ભાગ ૨, ૩ આના, પૃ. ૪ + ૧૫૬. વિ પંઢ્યા, નર્મદાશંકર ઘા. - ધ્વજારોપણ અથવા ઘારડોલીનો ધનુષ્યટંકાર. સુરત, ૧૯૨૯.

પરોઝ, શંકરલાલ ઢા. - લેઢાની લડત (૨૦-૧૧-'૧૭ થી ૬-૬-'૧૮). અમદાવાદ, રાષ્ટ્રીય સાહિત્ય કાર્યાલય, રૂ. ૧-૮-૦, સં. ૧૯૭૮, પૃ. ૮+૫૬૮. વિ

પાઠક, રામનારાયણ ના. - રાજકોટ - સત્યાગ્રહ. અમદાવાદ, ભારતી સાહિત્ય સંઘ, ૬ આના, ૧૯૩૯, પૃ. ૨૯૧. વિ

વધેકા, ગિરજાશંકર (ગિજુભાઝી) - ઘાર- ઢોલીની હિજરત. અમદાવાદ, પ્રસ્થાન, અઢી આના, ૧૯૩૧. પૃ. ૪૮. વિ

- વોરસઢની વીરાંગનાઓ. અમદાવાદ, પ્રસ્થાન, ૨ આના, ૧૯૩૧, પૃ. ૩૯. વિ ઘ્રાંકવે, ફેનર - અન્ય ઢેશોમાં અસહકાર મુંબઈ, ૧૯૩૦.

રમણલાલ ઢુનોલાલ (સંગ્રાહક) - ભારતનું ઘઢતર ભાગ ૨ જો [લવણ નિઃશલ્લ સત્યાગ્રહ મુક્તિસંગ્રામ]. મુંબઈ, રમણલાલ ઢુનોલાલ, ૭ આના, ૧૯૩૧, પૃ. ૧૬+૨૭૯. વિ

તઢન ઢેઢોઢ અને અલ્લઢારિયું પ્રકાશન. ચિત્રો, કાગઢ, ઢાપકાપ, વધું જ અરોચક લાગે તેવું ઢે.

राजेन्द्रप्रसाद, वायु - चंपारणमां महात्मा  
गांधीजी (ता. १०-४-'१७ थी ४-३-'१८  
सुधी). अमदावाद, युगधर्म, १-४-०,

१-८-०, सं. १९७९, पृ. १६+३०४. वि  
हिन्दी परधी अनुवाद; महादेवभाभीना  
'वे बोल' साथे.

### ३. धर्म अने नीति

कालेलकर, द. वा. - गीताधर्म [गीतानुं  
समाजशास्त्र]. अमदावाद, नवजीवन,  
रु. १-०-०, १९४४, पृ. ४+१७२. वि  
मराठी परधी भाषांतर.

- गीतासार. अमदावाद, सस्तुं साहित्य,  
४ आना, सं. २००३, पृ. ७०. वि

- जोवता तहेवारो. अमदावाद, नवजीवन,  
१ आ. रु. ०-२-६, १९३७, पृ. ७१; ३आ.  
१९४३, १-०-०, पृ. ८ + २६०. वि  
खरे, पं. नारायण मो. (सं.) - आश्रम-  
भजनावलि. जुओ हिन्दी विभागमां.

गांधी, मोहनदास क. - अनासक्तियोग  
[श्रीमद् भगवद्गीतानो अनुवाद]. अमदावाद,  
नवजीवन, १ आ. १९३०, २ आना,  
पृ. २० + १८४. वि

- आश्रमवासी प्रत्ये. सावरमती, सत्या-  
ग्रहाश्रम, १ आ. १९३२, रु. ०-१-९,  
पृ. ८ + १४३. वि

१९३२ ना. जेलवास दरम्यान यरोडा  
जेलमांथी लखेला कागळो.

- गीतापदार्थकोष. अमदावाद, नवजीवन,  
४ आना, १९३६, पृ. १६ + २५६. वि

गांधीजीनी 'वांचनारने विनंति' अने  
काकासाहेबना 'वे शब्दी' साथे.

- गीताबोध. [श्रीमद् भगवद्गीतानुं  
तात्पर्य]. अमदावाद, नवजीवन, १ आ.  
१९३०; ४ मु. १९४६, ३ आना,  
पृ. ८ + ७२. वि

- दयाधर्म [श्रीमद् राजचंद्र जयंती पर  
ता. १५-११-'२१ ने रोज गांधीजीअे  
कोरेलें प्रवचन]. अमदावाद, पूंजाभाभी  
हीराचंद, सं. १९७८, पृ. १४. वि

- दिल्ली डायरी [१०-९-'४७ थी  
३०-१-'४८ सुधीनां प्रार्थना पछीनां  
प्रवचनो]. अमदावाद, नवजीवन, रु.  
३-०-०, १९४८, पृ. २४ + ४६८, सूचि  
सहित. वि

आ प्रवचनोमां जोके अनेक विषयोनी  
चर्चा जोवा मळ्यो, तोपण नेमां सौधी  
वधारे भार जुदी जुदी कोमो के धर्मेना  
लोकी वच्चे सुलह अने संय स्यापवा फ  
मुकायेलो छे.

- (सं. नगीनदास अमुलखराय) - धर्म-  
(गांधीशिक्षण - २, गांधीजीना ज शब्दोमो).  
मुंबयी, नगीनदास अमुलखराय, १२  
आना, १९२४, पृ. १६ + १५४. वि

- धर्ममंथन. अमदावाद, नवजीवन, १२  
आना, २ आ. १९३९, पृ. १६ + ४९४,  
सूचि. वि

- नीतिधर्म अथवा धर्मनीति अने  
सर्वोदय. सुरत, गांडीव, ४, ६ आना.  
१ आ. १९२२, पृ. ८ + ७२. वि

- नीतिधर्म अथवा धर्मनीति. नाताल  
मि. सॉल्टर नामना बेक अंग्रेजना  
पुस्तकनो गुजरातीमां सार. आ सारना ज  
आगळ जतां जुदी जुदी भाषाओमां -  
अंग्रेजीमां पण - भाषांतरो थयां छे.

- मंगळप्रभात. [आश्रमनां जुदां जुदां प्रतो  
विषे गांधीजीअे यरोडा जेलमांथी लखेला  
पत्रो]. अमदावाद, नवजीवन, १ आ.  
१९३०.

पहेली आश्रुति 'प्रतविचार' नाम्थो  
प्रसिद्ध थयी हती. हेतुं ज पाठळ्यी आ  
नाम राखवामां आव्युं.

- बीजी आवृत्तिथी स्वदेशी पर भेक प्रवचन भुमैरायुं छे. काकासाहेबनो प्रस्तावना.
- व्यापक धर्मभावना. अमदावाद, नव-जीवन, १ आ. १९३७, १४ आना, पृ. ५६५. वि
- व्रतविचार. सावरमती, सत्याग्रह आश्रम, नारायणदास खु. गांधी, १ आ. १९३०, दोठ आनो, पृ. ६ + ८१. वि  
आ पुस्तकनी बीजी अने पछीनो आवृत्तिथी 'मंगळप्रभात' नामथी प्रसिद्ध थी छे.
- हिन्दु आचार. जुभो समाज विषयक सामान्य विभाग.
- हिन्दु धर्मनो कसोटी. जुभो समाज विषयक सामान्य विभाग
- द्वे, जुगतराम - गीतागोतमंजरी. अमदा-वाद, नवजीवन, रु. १-०-०, १९४५, पृ. १६ + १६४. वि  
गांधीजीनी प्रस्तावना.
- (सं.) - ग्रामभजनसंडळी. अमदावाद, नवजीवन, २ आना, १ आ. १९३८, पृ. ८ + ९४; २ मु. १९४०. वि
- देसायी, वालजी गो. - अशु चरित. गौडळ, त्रीकुभाथी वालाचंद वेनाणी, सवा आनो, १९३२, पृ. ७२. वि
- प्रुव, आरंभशंकर वापुभायी - आपणो धर्म. अमदावाद, म. रा. जागुटे, १ आ. १९२०; नवी संवर्धित आवृत्ति, प्र. लोलावती लालभाथी, सं. रा. वि. पाळ्य, १९४२, पृ. ५६ + ८५६, रु. ६-०-०. वि
- हिन्दु धर्मनी बाळपोथी. वडोदरा, लक्ष्मी अिलेक्ट्रिक प्रि. प्रेस, ९ आना, १९२०, पृ. १५१. वि
- महात्मा गांधीजीनुं भेक प्रिय पुस्तक. नवजीवन (प्र.) - अशुनुं बलिदान. अमदा-वाद, ६ आना, १९२२, पृ. ८ + ८७. वि

- नानकदेव, सोख आंध गुरु (अनु: म. प्र. देसायी) - जपजी (गुजराती अनुवाद). अमदावाद, नवजीवन, ९ आना, १९३८, पृ. ७२ + ४८. वि  
गांधीजीना 'आदिवचन' साथे.
- पेटेल, गोपाळदास जी. - श्रीमद्भूतो जीवन-यात्रा. अमदावाद, जैन साहित्य प्रकाशन समिति, रु. १-०-०, १ आ. १९३६, पृ. २६२. वि  
२ आवृत्ति. १९४६, रु. ३-८-०, पृ. १२ + ३४४. वि
- बीजी आवृत्ति 'श्री राजचंद्र: जीवन-यात्रा तथा विचाररत्नो' अनामथी प्रसिद्ध करवामां आवी छे; अने तेमां श्रीमद्भूतो विचारोनी पण समावेश करवामां आव्यो छे.
- मशरूवाळा, किशोरलाल घ. - गीताध्वनि [गीतानो समश्लोकी अनुवाद]. अमदावाद, नवजीवन, १ आ. १९३४, ३ आ. १९४६, ६ आना, पृ. २० + १०८. वि
- गीतासंथन. अमदावाद, प्रस्थान, १ आ. १९३५; २ आ. नवजीवन, १९४०, रु. १-४-०, पृ. ८ + ३६६. वि
- संसार अने धर्म. अमदावाद, नवजीवन, रु. २-०-०, १९४८, पृ. २० + २५७. वि  
पूर्तिरूपे श्री नाथजीना त्रण लेखी आपवामां आव्या छे.
- रमण महर्षि, गांधीजी तथा मशरूवाळा - श्रीगीतासंकलन. अमदावाद, सस्तुं साहित्य, ३ आना, १ आ. सं. २००१, पृ. ४५. वि
- राजचन्द्र, श्रीमद् (सं. मनसुख र. मेहेता) - श्रीमद् राजचन्द्र (श्रीमद् रायचंद्र रवजीभायीना पत्रो अने लेखोनो संग्रह). १ आ. सं. १९६१; ६ आ. मुंबयी, हेमचंद्र टोकरशी मेहेता, सं. १९९७, रु. ३-४-०, पृ. २६ + ५९४. वि
- (सं. गोपाळदास पेटेल) - श्रीमद् राज-चंद्रनां विचाररत्नो. अमदावाद, जैन

- साहित्य प्रकाशन समिति, १२ आना,  
१ आ. १९३६, पृ. २०८. वि
- आ पुस्तक गो. जी. पटेल कृत  
'श्रीमदनी जीवनयात्रा' साथे जोडी  
देवामां आन्वुं छे. अुपर जुओ पटेल गो. जी.  
राधाकृष्णन सर्वपल्लो (अनु : चं. प्रा. शुक्ल)  
- धर्मोनुं मिलन. गुंवओ, भारतीय विद्या-  
मुवन, रु. ५-०-०. वि
- हिन्दु जीवनदर्शन. अमदावाद, नवजीवन,  
१० आना, १ आ. १९४२, पृ. ८ + १३६. वि

- साने गुरुजी (अनु : न. मा. दवे) - गीता-  
हृदय. अमदावाद, भारती साहित्य संघ,  
रु. १-४-०, १९४५, पृ. ४ + १२३. वि
- श्री विनोदानां गीता परना प्रवचनो  
परयी साने गुरुजीथे पीतानो भाषामां रच  
करेले सार.
- सुंदरलाल, पंडित (अनु : करीमभाथी वीरा)  
- हजरत महंमद अने अिस्लाम. अम-  
दावाद, नवजीवन, रु. १-०-०, १९४५,  
पृ. ८ + १५२. वि

## ४. समाज विषयक - सामान्य

- कालेलकर, दत्तात्रेय व. - आवती कालना  
प्रश्नो. अमदावाद
- गामडामां जओने शुं करीशुं ?  
अमदावाद
- जीवनसंस्कृति ( सामाजिक अने संस्कृति  
विषयक लेखो ). अमदावाद, नवजीवन,  
१ आ. १९३९; २ आ. १९४६,  
रु. ५-०-०, पृ. १६ + ५९०. वि
- लोकजीवन ( गामडानी प्रजाना प्रश्नोनी  
छणावट अने दिशादर्शन ). अमदावाद, नव-  
जीवन, १२ आना, १९३५, पृ. ३३०. वि
- कोठारो, विठ्ठलदास म. अने पटेल,  
रावजीभाओ ना. - गामगोष्ठी. अमदावाद,  
गुजरात विद्यापीठ, ६ आना, १ आ  
१९४१, पृ. ८ + १०८. वि
- कोर, राजकुमारी अमृत (अनु : करीमभाथी  
वीरा) - बहेनोने. अमदावाद, नवजीवन,  
६ आना, १९४६, पृ. ४६. वि
- क्रॉफोटकीन (अनु : न. द्वा. परीख)  
- सहायवृत्ति. अमदावाद, नवजीवन,  
१९३५, रु. १-४-०, पृ. ४४ + ४०९. वि
- गांधो, मोहनदास क. - गामडानी वहारे.  
अमदावाद, नवजीवन, १ आ. १९३१;  
२ आ. १९३९, २ आना, पृ. ६८. वि
- काकासाहेबनी प्रस्तावना साथे.

- त्यागमूर्ति अने बीजा लेखो ( गांधीजीना  
सामाजिक लेखोनी संग्रह ). अमदावाद,  
नवजीवन, १ आ. १९२२; ४ आ.  
१९३८, १२ आना, पृ. १२ + ४२९,  
सचि. वि
- नीतिनाशने मार्गे. अमदावाद, नवजीवन,  
१ आ. १९२८; ९मुं सं. १९४६,  
६ आना, पृ. ४ + १०८. वि
- पूर्व अने पश्चिम ( जॉन चायनार्मनना  
पत्रोनी सार ). सुरत, कल्याणजी विठ्ठलभाथी,  
४ आना, १९२१, पृ. ५४. वि
- महात्माजीना 'अिडियन ओषोनियन'-  
मांथी पुनमुद्रित.
- महात्माजीना सामाजिक लेखो. अमदा-  
वाद, अमदावादनना दशाश्रीमाळो मेश्री  
वणिक मित्रमंडळ वती नं. चु. बोडोवाळा,  
५ आना, पृ. ४ + १३६. वि
- रचनात्मक कार्यक्रम : तेनुं रहस्य अने  
स्थान. अमदावाद, नवजीवन, १ आ.  
१९४१; ४ आ. १९४६, ६ आना, पृ.  
४४. वि
- अंग्रेजी परयी अनुवाद. पुस्तकोनी सचि  
साथे.
- वर्णव्यवस्था. अमदावाद, नवजीवन, १  
आ. १९३४; २ आ. १९४५, १२ आना,

- પૃ. ૨૪ + ૧૫૦, સચિ. વિ
- સમાજમાં સ્ત્રીઓનું સ્થાન (ગાંધીજીના શબ્દોમાં). ૭૫મી જયંતીના સ્ત્રી-દિન નિમિત્તે પ્રકાશન. અમદાવાદ, મજૂર મહાજન સંઘ, ૧૯૪૪, પૃ. ૨૭. વિ
- (સં. દેસાઝી, મગનભાઈ પ્ર.) - સંપૂર્ણ દારૂનિપેધ. (ગાંધીજીના લેખોનો સંગ્રહ) અમદાવાદ, ગુર્જર ધંધરજ્ઞ, ૮ આના, ૧ આ. ૧૯૩૦, પૃ. ૮ + ૧૮૩, સચિ. વિ
- (સં. નગોનદાસ અમુલ્લખરાય) - સ્ત્રી સ્વાતંત્ર્ય (મહાત્માજીના જ શબ્દોમાં). ગાંધીશિક્ષણ - ૫. મુંબઈ, નગોનદાસ અમુલ્લખરાય, ૪ આના, ૧૯૨૩, પૃ. ૧૬ + ૪૪. વિ
- હિંદુ સ્વરાજ. જુઓ 'રાજકારણ' વિભાગમાં. મૂજરાત વિદ્યાપીઠ - ગ્રામસંગઠન [ નિવંધો અને ચર્ચા ]. અમદાવાદ, મૂજરાત વિદ્યાપીઠ, ૬ આના, ૧૯૩૧, પૃ. ૮ + ૮૮. વિ
- ૧૯૩૧ના એપ્રિલમાં વિદ્યાપીઠમાં ભરાયેલા ગ્રામસેવા સંમેલનમાં ગામડાના જીવનના વિવિધ પ્રશ્નોને ંને અપાયેલાં ભાષણો, વંચાયેલા નિવંધો તથા ચર્ચાની નોંધોનો સંગ્રહ
- ગ્રામસેવા સમિતિ - ગુજરાતનાં ભાંગતાં ગામડાંમાં [ ગ્રામસેવાના પ્રથમ વર્ષનાં મંથનો અને અનુભવો ] : ગ્રામસેવા સમિતિનું સને ૧૯૩૫નું વાર્ષિક નિવેદન. વારડોલી, ગ્રામસેવા સમિતિ, ૧૯૩૬, પૃ. ૧૬ + ૬૮. વિ
- ગાંધીજીના 'જંગમ વિદ્યાપીઠ' પરનાં પ્રવચન તથા કાકાસાહેબના 'ગ્રામસેવાનો કાર્યપદ્ધતિ' નામના લેખ સહિત
- જેક્સ, એલ. પી. (અનુ : ચં. પ્રા. શુક્લ)
- યંત્રો સામે ઢલ્લવો. (એલ. પી. જેક્સનાં ૧૯૩૩ નાં ઈકવર્ટ વ્યાખ્યાનો). અમદાવાદ, નવજીવન, ૧૦ આના, ૧૯૪૮, પૃ. ૮ + ૬૨. વિ
- (અનુ : ગો. જી. પટેલ) - સર્વોદયનો સ્વાવનકલ્પ. (રચનાત્મક નાગરિક ધર્મ).

- અમદાવાદ, જૈન સાહિત્ય પ્રકાશન સમિતિ, રૂ. ૨-૦-૦, ૧૯૪૨, પૃ. ૨૮ + ૩૪૦. વિ
- ટૉલ્સ્ટૉય, લીઓ (અનુ : ન. દ્વા. પરીખ તથા પાં. વિ. વલ્લભે) - ત્યારે કરીશું શું? સાવરમતી, દ. વા. કાલેલકર, પૂર્વાર્ધ : ૧૨-આના, ૧૯૨૫, પૃ. ૨૪૩; અુત્તરાર્ધ : રૂ. ૧-૦-૦, ૧૯૨૬, પૃ. ૨૬૭. વિ
- ત્યારે કરીશું શું? અમદાવાદ, નવજીવન, રૂ. ૧-૦-૦, ૧૯૩૫, પૃ. ૪૩૧. વિ
- અુપરના વત્રે ભાગો પરથી ધોડોક સંક્ષેપ કરીને તૈયાર કરેલો નવી આવૃત્તિ.
- (અનુ : વિ. મ. મટ્ટ) - સ્ત્રી અને પુરુષ. અમદાવાદ, પ્રસ્થાન, રૂ. ૧-૦-૦, ૧૯૩૩, પૃ. ૧૬૬. વિ
- ઠાકુર, રવીન્દ્રનાથ (અનુ : ન. ના. પોરેલ)
- પૂર્વ અને પશ્ચિમ. મુંબઈ, મહાગુજરાત પબ્લિશિંગ કંપની, રૂ. ૧-૧૨-૦, ૧૯૪૨, પૃ. ૨૬૮. વિ
- સ્વદેશી સમાજ. અમદાવાદ, નવજીવન, ૮ આના, ૧૯૩૪; પૃ. ૧૨૫. વિ
- ડિકિન્સન, લૉવેણ (અનુ : ચં. પ્રા. શુક્લ)
- ચીનનો અવાજ. અમદાવાદ, નવજીવન, ૮ આના, સં. ૧૯૮૩, પૃ. ૧૦૨. વિ
- 'પૂર્વ અને પશ્ચિમ' આનો જ સંક્ષેપ છે.
- (સારાનુ : ગાંધી, મો. ક.) - પૂર્વ અને પશ્ચિમ. જુઓ અુપર ગાંધીજીનાં પુસ્તકોમાં.
- દવે, જુગતરામ - હલ્કપતિ - મુક્તિ [ ઠાલ્લો પ્રથા અને મુક્તિદાનની હિલચાલ ]. અમદાવાદ, ૬ આના, ૧૯૪૬, પૃ. ૫૬. વિ
- દારૂનિપેધ પ્રચારખાતું - દારૂનિપેધ શા માટે? મુંબઈ, એસોશિએટેડ એડવર્ટાઈઝિસ અને પ્રિન્ટર્સ, ૧૯૩૯, પૃ. ૩૨. વિ
- મુંબઈ સરકારના દારૂનિપેધ પ્રચાર ખાતા તરફથી વહાર પહેલું છે.
- દેસાઝી, મગનભાઈ પ્ર. - દારૂનિપેધ અને સ્વરાજ. અમદાવાદ, પ્રસ્થાન, ૪ આના, ૧૯૩૦, પૃ. ૭૯. વિ



देसाजी, रमणलाल व. - ग्रामोन्नति.  
मुंबयी, आर. आर. शेठनी कंपनी, १९४०,  
पृ. १६ + २९०. वि

परीख, नरहरि द्वा. - यंत्रनी मर्यादा.  
अमदावाद, गूजरात विद्यापीठ, १ आ.  
१९४०; २ आ. १९४७, पृ. १६१ + ६०. वि  
यंत्रोने अंगे गांधीजीना विचारो अेक  
अलग विभागमां तारवी आप्या छे.

- साम्यवाद अने सर्वोदय तथा वीजा  
लेखो. अमदावाद, प्रस्थान, ६ आना,  
१९३५, पृ. १०७. वि

मशरूवाळा, कि. घ. - समूळी क्रान्ति.  
अमदावाद, नवजीवन, रू. १-८-०, १९४८,  
पृ. ८ + १६४. वि

- स्त्री-पुरुष-मर्यादा. अमदावाद, १ आ.  
प्रस्थान, १९३७; ३ आ. नवजीवन,  
१९४५, १२ आना, पृ. १६ + १३६. वि

महेता, बबलभाजी - मारुं गामडुं.

अमदावाद, गूजरात विद्यापीठ, १ आ.  
१९३९; २ आ. १९४१, १० आना,  
पृ. १४ + १७५. वि

महेता, मनसुखलाल र. - गांधीजीनी  
प्रवृत्तिओ. राजकोट, १९२१

मुकरजी, अेच्. सी. - कोंग्रेसनी केटलीक  
अराजकीय सिद्धिओ. मुंबयी, हमारा  
हिन्दुस्तान, ८ आना, १९४६, पृ.  
४ + २४. वि

राजेन्द्रप्रसाद, घाचू - रचनात्मक कार्यक्रम  
- केटलीक सूचनाओ. अमदावाद, नव-  
जीवन, ३ आना, १९४३, पृ. ३५. वि

राधाकृष्णन, सर्वपल्ली (अनु : न. ना पारेसुं)  
- कल्की अथवा संस्कृतिनुं भावि.  
अमदावाद, गूजरात विद्यापीठ, १० आना,  
१९३९, पृ. ३३ + १२७. वि

व्यास, रविशंकर (महाराज) - ग्रामरचना.  
अमदावाद, सस्तुं साहित्य, रू १-४-०,  
१९४७, पृ २६९. वि

## ४ अ. समाज विषयक

### अस्पृश्यतानिवारण

कोठारी, ककलभाजी (सं) - हडधूत  
हरिजन. राणपुर, १९३३

गांधी, मोहनदास क. (अनु : चं. प्रा. शुक्ल)

- धर्मसंस्थापन. (अनशन सप्ताह  
पछीना गांधीजीना लेखो). मुंबयी, प्रान्तिक  
बोर्ड, अखिल भारत अस्पृश्यतानिवारण  
संघ, ३ आना, १९३२, पृ. ८ + ८८. वि

- महात्माजीनी भीष्म तपश्चर्या.  
अमदावाद, नंदलाल चु. बोडीवाळा, दोढ  
आनी, १९३२, पृ. ७२

गांधीजीना अस्पृश्यतानिवारण परना  
लेखो, हीर अने अिग्लंडना वडा प्रधान  
साथेना पत्रो, अित्यादि

- (अनु : अिन्दुप्रसाद भट्ट तथा मणिलाल  
ठाकर, - हरिजन भागवत. खंड १ लो

(महात्मा गांधीना अस्पृश्यतानिवारण  
अंगेना शुपदेशीनी संग्रह). अमदावाद,  
अस्पृश्यतानिवारण समिति, १२ आना,  
१९३२, पृ. २२८. वि

पुस्तकना भाषांतरमां घणा दोषो छे

- हिन्दु आचार. [हरिजनोअे हिन्दुधर्मना  
कथा आचारना कथा नियमो पाळवा जोओअे  
ते विषेनी महात्मा गांधीजीअे घडी आपेली  
कलमो]. सावरमती, हरिजन आश्रम, १  
पैसो, पृ. ८.

- हिन्दु धर्मनी कसोटी. [अस्पृश्यता  
निवारण विषे महात्मा गांधीजीना लेखो].  
कच्छ - कोटडा, जीवराम कल्याण कोठारी,  
६ आना, सं. १९८१, पृ. ४ + १४४. वि  
गूजरात हरिजन सेवक संघ - संघना

त्राधिक अहेवालो, साबरमती, हरिजन  
 आश्रम, १९३३-३४ ना पहला वर्षना  
 अहेवालथी १९४६-४७ ना वर्ष सुधी पंदर  
 वर्षना अहेवालो प्रसिद्ध थया छे.

ठाकर, माणिलाल अने भट्ट, अिन्दुप्रसाद  
 - गांधीजीको अग्निप्रवेश. अमदावाद,  
 १९३२

ठाकर, मणिलाल अने भट्ट, अिन्दुप्रसाद  
 (अं.) - हरिजन संतो. अमदावाद

देसाओ, महादेवभाओ - अन्त्यज साधु नंद  
 [ द्राविड देशना अेक संतना कथा ]. अमदा-  
 वाद, नवजीवन, अर्धो आना, सं. १९८१,  
 पृ. ३०.

## ४ आ. समाज विषयक

### कोमी अेकता (मुख्यत्वे हिन्दु-मुस्लिम )

अब्दुल्लाह अलादीनभाओ - हिन्दु-मुस्लिम  
 अेकदिली स्थापवानी खरी राह.  
 अमदावाद, १९२५

गांधी, मोहनदास क. - हिन्दु-मुसलमान.  
 अमदावाद, नवजीवन, १ आना, १९२४,  
 पृ. ८ + ४०. वि

दरगाहवाळा, अिमासुंद्दीन अेस. (अनु०)  
 - हिन्दना अितिहासमां हिन्दु-मुस्लिम  
 अेकता. नवसारी, अी. अेस. दरगाहवाळा,  
 ८ आना, १९३३, पृ. १६ + ९६. वि  
 महेता, अशोक अने पटवर्धन, अच्युत -  
 हिन्दना कोमी त्रिकोण. अमदावाद,  
 नवजीवन, रु. ३-०-०, १९४५, पृ.

गांधीजीनी प्रस्तावना.

पढियार, अमृतलाल सुंदरजी - अन्त्यज  
 स्तोत्र. कच्छ - कोटडा, जीवरांम कोठारो,  
 ६ पाथी, १९२५, पृ. ४४. वि

गांधीजीनी प्रस्तावना

बधेका, गिजुभाओ - आभडछेटुं भूत.  
 - आपणे पापे. अमदावाद, १९३३

दुच, पुरातन - भगवाननां छोरु [ हरि-  
 जनना जीवनप्रसंगना हूवहू चितार ].  
 अमदावाद, सस्तुं साहित्य, १० आना,  
 १९४६, पृ. १२८. वि

शुकल, चन्द्रशंकर प्रा. - मन्दिरप्रवेश  
 अने शास्त्री. अमदावाद, नवजीवन, रु.  
 ३-०-०, १९४७, पृ. २४ + ३५१. वि

१२ + ४१८. वि

अनुवादनी साथे गांधी-जिना मुलाकात  
 अने तेने अंगेना केटलाक दस्तावेजो परि-  
 शिष्टमां आप्या छे.

मेघाणी, झवेरचंद - अकबरनी यादमां.  
 राणपुर, स्वाधीन मुद्रणालय, ८ आना,  
 १९४२, पृ. ८२. वि

लतीफ, डॉ. सैय्यद अब्दुल-हिन्दुं मुस्लिम  
 राजकारण. वांटवा, युसुफ मांडविया, रु.  
 १-०-०, १९४०, पृ. ३२ + ४७९. वि

- (अनु: जान मुहम्मद दाबूद) - हिन्दना  
 मुस्लिम प्रश्न. वांटवा, ५ आना, १९४०,  
 पृ. १६ + ६४. वि

## ५. राजकारण

काठियावाड राजकीय परिषद - चोथो  
 काठियावाड राजकीय परिषदना स्वागत  
 मंडळना तथा तेना कार्यवाहक मंडळना  
 अहेवाल अने हिसाब, राजकोटना खास  
 अधिदेशनना अहेवाल अने भावनगरनी  
 परिषदमां गांधीजीअे आपेलुं भाषण.

वडवाण शहेर, मुख्य मंत्रीयो, का. रा. प.,  
 रु. २-०-०, सं. १९८१, पृ. ८६ + ८०  
 + १८. वि

गना, युसुफ अब्दुल - हिन्दुं भावि  
 वंधारण. वांटवा, यु. अ. गनी मांडविया,  
 ८ आना, १९४१, पृ. १२ + १८५. वि

गांधी. मो. क. अने सरकार - अग्नि परोक्षानी पूर्व भूमिका [गांधीजीनी गिरफ्तारीथी मांडीने आज सुधीनो हिन्दी सरकार तथा लॉर्डे लिनलिथगो साथेनो तेमनो वैतिहासिक पत्रवेवार]. अमदावाद, प्रजाबंधु प्रेस, ४ आना, १९४३, पृ. ४०. वि

गांधीजीना छूट्या पछी नवजीवन तरफ्थी प्रसिद्ध धयेला 'गांधीजीना सरकार साथेना पत्र-वेवार'मां आ पत्रो आवी जाय छे. जुओ आगळ 'गांधी-वाअिसरॉय पत्रवेवार'

- (सं. बिन्दुलाल याशिक) - असहकार : महात्मा गांधीजीना लेखो अने भाषणो. अमदावाद, युगधर्म कार्यालय, रु. २-८-०, सं. १९७९, पृ. ५४+८१४. वि

- असहकार : महात्मा गांधीजीनां भाषणो तथा लेखो. अमदावाद, राष्ट्रीय साहित्य मंडळ, सं. १९७६, पृ. ४+१३२. वि

- असहकार भाग १ थी ३ (गांधीजीना ज शब्दोमां. गांधी शिक्षण माळा भाग १० थी १२) मुंबवी, नगोनदास अमुलखराय, १२ आना, १९२३, पृ. १६+१६४; रु. १-०-०, १९२३, पृ. १६+१९३; १२ आना, १९२३, पृ. १६+१६४. वि

- (सं. नटवरलाल मा. दवे) - आखरी फॅसलो भाग १लो : पूर्व तैयारी [पूज्य गांधीजीना अन्डिपेन्डन्स अने

• डुमीनियन स्टेटस शुपर प्रकाश फॅकता, गौहटी महासभाना समयथी शुरू थता सर्व लेखोनी संग्रह] अमदावाद, गुर्जर ग्रंथरत्न, ८ आना, १९३०, पृ. ८+१५८. वि

- आखरी फॅसलो भाग २ जो : महा-भिन्नक्रमण [पू० गांधीजीथे स्वातंत्र्य कूच आरंभो त्यारथी शुरू करी, यरवडा मन्दिरमां गया त्यां सुधीनो चालती आझादीनी लढत अंगेनां भाषणो, लेखो वगैरेनो संग्रह]. अमदावाद, गुर्जर ग्रंथरत्न,

१२ आना, १९३०, पृ. ८+१५९ थी ३९७. वि

गांधीजीना लेखो शुपरांत कूचने अंगे तथा गांधीजीनी धरपकडने अंगे बीज लेखकोना लेखो पण आमां छे.

- आखरी फॅसलो भाग ३जो [मि. स्लोकोचे गांधीजीनी यरोडा जेलमां मुलाकात लीथी त्यारथी मांडीने गांधीजी गोळमेजीमां हाजरी आपवा गया त्यां सुधीना गांधीजीना लेखो, भाषणो तथा बीजा लेखकोनां लढत विपेनां लखाणोनी संग्रह]. अमदावाद, गुर्जर ग्रंथरत्न, रु. ३-०-० १९३२ पृ. ८+५८४+२. वि

- आखरी फॅसलो भाग ४थो. 'गोळमेजी-मां गांधीजी' नामथी प्रसिद्ध [गांधीजीथे गोळमेजी परिषदमां आपेलां भाषणो; विला-यतथी मुंबवी; ना. वाअिसरॉय साथेनो पत्रवेवार; कार्यवाहक समितिना ठरावो; छेवटे यरोडा मंदिरनी दीवाली पाछळ]. अमदावाद, गुर्जर ग्रंथरत्न, १२ आना, १९३२, पृ. ८+२१८. वि

- गांधीजीनी आखरी हाकल. [ता. ८-८-४२ ने रोज महासभा समिति आगळ आपेळुं भाषण]. अमदावाद, नवजीवन, १ आना, १९४२, पृ. ३१. वि

- गांधी-वाअिसरॉय पत्रवेवार (गांधी-जोना शुपवास वखते हिन्दी सरकारे बहार पाडेली) मुंबवी, वीरा अने कंपनी, २ आना, १९४३, पृ. ३२. वि

आ पत्रवेवार नवजीवन प्रकाशिक 'गांधीजीनी सरकार साथेनो पत्रवेवार' मां आवी जाय छे.

- गांधीजीनी सरकार साथेनो पत्रवेवार, १९४२-४४. अमदावाद, नवजीवन, रु. २-८-०, १९४५, पृ. २८+२४९. वि

- (सं. जयंतकुमार याशिक) - चाल्या जाव. वडोदरा, जयंतकुमार याशिक, ८ आना,

૧૯૪૨, પૃ. ૧૨ + ૧૦૪.

-દેશો રાજ્યોનો પ્રશ્ન. અમદાવાદ, નવજીવન, રૂ. ૧-૮-૦, ૧આ. ૧૯૪૧, પૃ. ૮ + ૪૭૪. વિ

-(સં. નગીનદાસ અમુલ્લખરાય) - પ્રજાંધારણ (ગાંધીજીના જ શબ્દોમાં. ગાંધી-શિક્ષણ ભાગ ૮ મો) સુંવઝી, નગીનદાસ અમુલ્લખરાય, રૂ. ૧-૪-૦, ૧૯૨૩, પૃ. ૧૬ + ૨૪૮. વિ

-પ્રાણપ્રતિષ્ઠા. અમદાવાદ, નવજીવન, ૧૯૨૩.

અસહકારની લડત અંગેનાં ગાંધીજીનાં ભાષણો તથા લેખોનો સંગ્રહ

-(અનુ: શામચંદ્રાસ ગાંધી) - બુલંદ વચાવનામું. રાજકોટ, નવયુગ પુસ્તક મંદાર, રૂ. ૨-૮-૦, ૧૯૪૪, પૃ. ૮ + ૧૭૬.

ગાંધીજીના સરકાર સાથેના (૧૯૪૨-૪૪) પત્રવહેવારનો અનુવાદ. અનુવાદ સંપૂર્ણ નથી, તેમ જ તેમાં ચોકસાઈ નથી. નવજીવન દ્વારા પ્રગટ થયેલ અનુવાદ સંપૂર્ણ અને પ્રમાણમૂત છે.

-વેલગામ મહાસભા (બી. સ. ૧૯૨૪) ના પ્રમુખ તરીકે આપેલું ભાષણ. અમદાવાદ, નવજીવન, ૧૯૨૫

-મહાત્મા ગાંધીજીના પંજાવના પત્રો. કપડવણજ, હરિલાલ માણેકલાલ દેસાઈ, ૮ આના, ૧૯૨૦, પૃ. ૯૬. વિ

તા. ૨-૧૧-૧૯૧૯ થી ૨૯-૨-૨૦

સુધીના નવજીવનમાં પ્રસિદ્ધ થયેલા પત્રો.

-(સં. નગીનદાસ અમુલ્લખરાય) - રાજનોતિ (ગાંધીજીના જ શબ્દોમાં. ગાંધી-શિક્ષણ માળા નં. ૯). સુંવઝી, નગીનદાસ અમુલ્લખરાય, રૂ. ૧-૪-૦, ૧૯૨૩, પૃ. ૧૬ + ૨૬૮. વિ

-રૌલેટ વિલ. વિપે સમજૂતી. (સત્યાગ્રહ લેખમાળા નં. ૨). સુંવઝી, સત્યાગ્રહ સભા, ૧૯૧૯, પૃ. ૧૬

-હિન્દ સ્વરાજ. (ગાંધીજીના પોતાના

હસ્તાક્ષરમાં) અમદાવાદ, નવજીવન, રૂ.

૧-૧૨-૦, ૨-૮-૦, સં. ૧૯૭૯, પૃ. ૬ + ૫ + ૨૬૯. વિ

-હિન્દ સ્વરાજ (સાદી આવૃત્તિ). ૪ આના, પૃ. ૩૨ + ૧૪૪. વિ

-હિન્દ સ્વરાજ, એક સત્યાગ્રહની કથા અને સર્વોદય. અમદાવાદ, રાષ્ટ્રીય સાહિત્ય મંડળ, ૧આ. ૧૯૨૧, પૃ. ૪ + ૧૬૭. વિ

-(સં. વામન પાં. કવાઢી) હિન્દ સ્વરાજનો દાઢો [સપ્ટેમ્બર ૧૯૩૧થી જાનેવારી ૧૯૩૨ સુધીમાં ગાંધીજીએ ઇંગ્લંડમાં અને હિન્દમાં આપેલાં ભાષણો, લખેલા લેખો અને મિત્રો તેમ જ પત્રકારોને આપેલી મુલાકાતો તેમ જ ગાંધી-વિલિંગ્ડન વચ્ચેનો સંપૂર્ણ પત્રવહેવાર]. સુંવઝી, યેશાનંદની કંપની, રૂ. ૧-૮-૦, ૧૯૩૨, પૃ. ૨૦૫, સચિત્ર. વિ

અલ્લાહાબાદ દ્વારે પ્રકાશન. જાહેર-લખરો વહુ જ લટકે ઢેવી રોતે મુકાયેલી છે.

-ચૂટળી જંગ લેલનાર, એક - કાર્યકર્તાઓ અને મતદારોને ઝુપયાગો. સુંવઝી, હમારા હિન્દુસ્તાન, રૂ. ૧-૦-૦, ૧૯૪૬, પૃ. ૪ + ૮૦. વિ

જોશી, પૂરનચંદ - કોંગ્રેસ અને કમ્યુનિસ્ટો. સુંવઝી, લોકપ્રકાશન ગૃહ, ૬ આના, ૧૯૪૫, પૃ. ૨ + ૩૮. વિ

-દેશની આજાદી માટે (ગાંધી-જિના) ફરી મઢો. સુંવઝી, લોકપ્રકાશન, ૮ આના, ૧૯૪૫, પૃ. ૨ + ૫૦. વિ

તઢાજાવાઢા, હ. જા. - મહાત્માજીનું આલ્તરો યુદ્ધ. ભાગ. ૧-૨. રાણપુર, હ. જા. તઢાજાવાઢા, રૂ. ૧-૮-૦ ૧૯૩૦ પૃ. ૮ + ૧૩૬; ૮ + ૧૬૮. વિ

શ્રી વલ્લભભાઈના મરુત્ત જિલ્લાનાં ભાષણોથી માંડીને ઢાંઢી કૃત્તમાં સાંધિયેરમાં કરેલી ૩૧મી નંસીલ સુધીની લટવનો અહેવાલ આમાં આઢે લો છે.

देसाजी, बालजी गो. - राजकथा. अमदावाद,  
नवजीवन, २ आना, १९३१, पृ. ५६. वि  
गांधीजीनी प्रस्तावना.

नहारसिंह - असहकार युपर भाषण.  
शाहपुरा, १९२२

नेकसातखान, साम मी. (अनु: चन्द्रकान्त  
महेता) आम जनताना संकल्पवळनुं  
प्रदर्शन. मुंबा, हमारा हिन्दुस्तान, ६  
आना, १९४६, पृ. ४ + ३०. वि

नेहरु, जवाहरलाल - हिन्दू कये रस्ते ?  
दाहोद, क. म. पंड्या, २ आना, १९३४,  
पृ. ४५. वि

पटेल, वल्लभाभाजी - देशी राज्योनी लडत.  
(सरदार वल्लभाजीनां प्रासंगिक भाषणी).  
राजकोट, मणिवहेन व. पटेल, १ आनी,  
१९३८, पृ. ३६. वि

परीख, नरहरि द्वा. - ग्रामपंचायतनी  
कायदो अने ते कायदाने लगता नियमो.  
अमदावाद, नवजीवन, ८ आना, १९४०-  
४१, पृ. २० + ५१ + २२. वि.

प्रस्तावनामां ग्रामपंचायतनी विविहास  
अने विवेचन छे.

भट्ट, चुनीलाल बे. - ब्रिटिश राज्यतंत्र  
अने आपणी महासभा. अमदावाद,  
गुजरात विद्यापीठ, १० आना, १९२३,  
पृ. १८८. वि

भावे, विनोबा. (अनु: पां. ग. देशपांडे)  
- स्वराज्यशास्त्र. अमदावाद, गुजरात

विद्यापीठ, ६ आना, १९४२, पृ. १० +  
६१. वि

अहिंसक स्वराज्यनी रचना

रसिकलाल - गांधीजीना अगियार मुद्दा:  
द्वितीयारंगीनी कायदो तथा लश्करी  
खर्चे अने लश्कर. अमदावाद, १९३०

राजपतराय, लाला - लालाजीनुं राजकीय  
तत्त्वज्ञान. मुंबा, वर्धमान वेंड सन्त,  
१२ आना, १९२४, पृ. ९६. वि

शाह, खुशाल तलकशी ('पोलिटीकस')  
- महात्मा गांधीजीनी ११ शरतो.  
अमदावाद, गुजरात विद्यापीठ. ४ आना,  
१९३१, पृ. ८ + १३६. वि

गांधीजीभे रजू कोला स्वराजना सार-  
रूप ११ मुद्दा वायत विवरण करती 'वॉन्ने  
क्रॉनिकल'मां आवेली लेखमाळानी गुजराती  
अनुवाद

शाह, वजुभाओ - स्वराज आब्यु? जोरावर-  
नगर, संस्कार साहित्य मंदिर, १० आना,  
१९४७, पृ. ४ + ५८. वि

शाह, शांति अने सिंहा, महेन्द्र - गांधीजी-  
नी स्वराजसाधना. मुंबा, सी.  
शांतिलालनी कंपनी, रू. ३-८-०,  
१९४४, पृ. १२ + २१२. वि

हरिजनबंधु कार्यालय (प्र.) - महासभानी  
आदेश [महासमितिनी ठराव अने गांधी-  
जीनां त्रण भाषण]. पूना, १९४०, पृ. ४०.  
'हरिजनबंधु'मांथी पुनर्मुद्रित

## ६. अर्थकारण

अंग्रवाल, श्रीमन्नारायण (अनु: चं. प्रा.  
शुक्ल) - गांधीवादी आर्थिक योजना.  
मुंबा, बेन. बेम. ठकर, रू. १-४-०,  
१९४५, पृ. ११२. वि

गांधीजीनी प्रस्तावना.

आंटिया, अेफ, पो. (अनु: भट्ट अने ठाकर)  
- सवरस. अमदावाद, नवयुग पुस्तक  
मंडार, ९ आना, १९३१, पृ. १४४. वि

आसुखमां जे. सी. कुमारप्याभे  
गांधीजीना मीठाना कायदा विषेना विचारो  
तारवो आप्या छे.

कालेलकर, द. बा. - स्वदेशी धर्म. सावरमतो,  
सत्याग्रह आश्रम - स्वामी आनंद, ४ आना,  
१९२०, पृ. ३१. गांधीजीनी प्रस्तावना. वि  
कुमारप्या जे. सी. - मातर तालुकानी  
आर्थिक तपास. अमदावाद, गुजरात

વિધાપીઠ, ૮ આના, ૧૯૩૬, પૃ. ૧૦ + ૧૧૭. વિ

-રાજ્ય આવક વેરો અને આપણો દરિ-  
દ્રતા. અમદાવાદ, નવયુગ પુસ્તક મંદાર, ૫  
આના, પૃ. ૧૨ + ૮૦. વિ

ગાંધીજીની પ્રસ્તાવના.

-(અનુ : મળિભાઈ દેસાઈ) - હિન્દ-  
વિટનનો નાણાવહેવાર. અમદાવાદ,  
નવજીવન, ૧૦ આના, ૧૯૪૭, પૃ.  
૮ + ૪૬. વિ

કોઠારી, વિહલદાસ મ. - હિન્દુનું પ્રજાકીય  
અર્થશાસ્ત્ર. અમદાવાદ, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ,  
રૂ. ૧-૮-૦, ૧૯૪૫, પૃ. ૧૪ + ૧૭૬. વિ

કોઠારી, વિ. મ. અને પટેલ, હ. પુ.  
- શેરથાની આર્થિક તપાસ. વારડોલી,  
ગ્રામસેવા સમિતિ, ૪ આના, ૧૯૩૭,  
પૃ. ૪૨. વિ

કોઠારી, વિ. મ. અને શેઠ, નગોનભાઈ  
સો. - સ્નેહુતપોથી. અમદાવાદ, ગૂજરાત  
વિદ્યાપીઠ, રૂ. ૨-૪-૦, ૧૯૪૮, પૃ.  
૧૨ + ૨૦૮. વિ

સેતીવાહી, સેટ્ટને અંગેના કાયદા,  
વેર કુટ્ટર અને ગૃહશુદ્ધિગોનો પ્રમાણમૂલ  
માહિતી આમાં આપી છે.

ગાંધી, મોહનદાસ ક. - ગોસેવા. અમદાવાદ,  
નવજીવન, ૧ આ. ૧૯૩૪; ૨ આ. ૧૯૪૦,  
૫ આના, પૃ. ૧૨ + ૧૮૩. વિ

-(સં. નગીનદાસ અમુલ્કરાય) - સંપત્તિ-  
શાસ્ત્ર (મહાત્માજીના જ શબ્દોમાં - ગાંધીશિક્ષણ  
- ૬). મુંબઈ, નગીનદાસ અમુલ્કરાય,  
૬ આના, ૧૯૨૩, પૃ. ૧૬ + ૭૮. વિ

- સર્વોદય (રત્નિકાના 'અન્ટુ ધિસ લાસ્ટ'  
ને આધારે). અમદાવાદ, નવજીવન, ૧ આ.  
૧૯૨૨; ૨ આ. ૩ આના, ૧૯૪૪, પૃ.  
૪૪. વિ

- સાચો મજૂર ચલચલનાં મૂલ તત્ત્વો.  
અમદાવાદ, સસ્તું સાહિત્ય, ૨ આના,  
૧૯૪૫, પૃ. ૩૦. વિ

- સાચો શ્રમજીવી. મુંબઈ, કેશવલાલ  
નગોનદાસ શાહ, ૨ આના, ૧૯૩૭, પૃ.  
૪૦. વિ

- સો ટકા સ્વદેશી. અમદાવાદ, નવજીવન,  
રૂ. ૧-૪-૦, ૧૯૪૧, પૃ. ૮ + ૩૬૮. વિ  
ગાંધીજી અપરાંત વીજા લેખકોના પળ  
થોડાક લેખો આમાં લેવામાં આવ્યા છે.

-(સં. નગીનદાસ અમુલ્કરાય) - સ્વદેશી.  
(મહાત્માજીના જ શબ્દોમાં - ગાંધી શિક્ષણ  
- ૭). મુંબઈ, નગીનદાસ અમુલ્કરાય,  
૧૨ આના, ૧૯૨૩, પૃ. ૧૬ + ૧૫૦. વિ

- સ્વદેશીનાં સૂત્રો.

- વિદેશી કાપડ વહિષ્કાર (ગાંધીજીના  
વિચારો). અમદાવાદ, વિદેશી કાપડ  
વહિષ્કાર સમિતિ, ૧ આનો, ૧ આ. ૧૯૩૦,  
પૃ. ૪૮. વિ

ગોસેવા સંમેલન - પ્રથમ, ગુજરાત કાઠિ-  
યાવાડ ગોસેવા સંમેલન, સાવરમતી,  
પ્રમુખ શ્રી સ્વામી આનંદનું ભાષણ તથા  
અહેવાલ. સાવરમતી, ન. દ્વા. પરીખ, ૨ આના,  
૧૯૪૦, પૃ. ૪૩. વિ

જયપ્રકાશ નારાયણ - સમાજવાદ શા  
માટે? અમદાવાદ, નવી દુનિયા, રૂ.  
૧-૦-૦, ૧૯૩૬, પૃ. ૧૭૪. વિ

જોષી, છાનનલાલ ન. - આપણો આર્થિક  
પ્રશ્ન (એક સમાલોચના). અમદાવાદ,  
નવજીવન, રૂ. ૧-૦-૦, ૧૯૩૮, પૃ. ૨૨  
+ ૨૭૧. વિ

ડિંગ્વી, વિલિયમ (અનુ : ગો. જી. પટેલ)  
- આવાદ હિન્દુસ્તાન. અમદાવાદ, ગૂજરાત  
વિદ્યાપીઠ, રૂ. ૧-૦-૦, ૧૯૩૭, પૃ. ૨૪૫.  
વિ

ગાંધીજીએ ડિંગ્વી, દત્ત અને દાદાભાઈ-  
ના હિન્દના અર્થશાસ્ત્ર વિષયક પુસ્તકોને  
હિન્દી અર્થશાસ્ત્રના પાયારૂપ ગણાવ્યા છે.

દત્ત, રમેશચન્દ્ર - ત્રિટિશ હિન્દનો આર્થિક  
ઐતિહાસ : ભાગ ૧-૨. અમદાવાદ,

ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટી, દેરકનો રુ.  
૧-૦-૦, ૧૯૦૯. વિ

દેસાઝી, વાલજીભાઝી ગો. - ગોરક્ષા-  
કલ્પતરુ. અમદાવાદ, નવજીવન, સાઢાચાર  
આના, ૧૯૨૮, પૃ. ૧૨૮. વિ

ગાંધીજીની પ્રસ્તાવના.

નવજીવન પ્રકાશન મન્દિર (પ્ર.) - સ્વદેશીનો  
ઘેરો [વિદેશી કાપડ સામેની ચોકોનું  
સ્વરૂપ]. અમદાવાદ, સાઢાચાર આના,  
૧૯૨૨, પૃ ૮+૬૭. વિ

ગાંધીજી, કાકાસાહેવ, વલ્લભભાઝી  
વગેરેના લેલોનો સંગ્રહ. 'આદર્શ ચોક્કીદાર'  
(અબ્બાસ તૈયવજી)ની પ્રસ્તાવના સાથે.

નવરોજી, ઢાઢાભાઝી (સં. અને અનુ.  
ગો. જી. પટેલ) - હિન્દુસ્તાનની ગરી-  
ઝાઝી. અમદાવાદ, ગૂઝરાત વિદ્યાપીઢ, ૧૪  
આના, ૧૯૩૮, પૃ. ૮+૨૦૧. વિ

પટેલ, રાવજીભાઝી મ. - ઢાલકોનો  
પોકાર. અમદાવાદ, નવજીવન, ૮ આના,  
સં. ૧૯૯૦, પૃ. ૨૪+૧૬૦. વિ

ઝી નરહરિ પરીખની પ્રસ્તાવના.

પરીખ, નરહરિ ઢ્વા. - ઢારઢોલીનો લેઢૂત.  
ઢારઢોલી, ૧૯૨૭

- માનવ અર્થશાસ્ત્ર. અમદાવાદ, નવજીવન,  
રુ. ૬-૦-૦, ૧૯૪૫, પૃ. ૧૬+૬૮૪.  
વિ

- (સં) - હિન્દ પાયમાલ કેમ થયું ?  
અમદાવાદ, ૧૯૨૩

- યંત્રની મર્યાદા. જુઢો વિભાગ ૪ સામાન્ય.  
ઘસુ, મેઝર ઢામનઢાસ (અનુ. ગો જી.  
પટેલ) - હિન્દુસ્તાનના વેપાર ડુઢોગને  
નાશ. અમદાવાદ, ગુઝર ગ્રંથરતન, ૮  
આના, ૧૯૩૦, પૃ. ૨૬૪. વિ

મશરૂવાલા, કિં. ઘ. - સુવર્ગનો માયા.  
અમદાવાદ, નવજીવન, ૧ આનો, ૧૯૩૫,  
પૃ. ૩૫. વિ

ઢાઢિયા, પ્રો. પી. ઝે. અને રાવ, વી. કે.  
આર. વી. - આપણા આર્થિક પ્રશ્નો-  
ભાવનગર, ઢક્ષિણામૂર્તિ, ૫ આના, ૧૯૩૨,  
પૃ. ૬૮. વિ

મુંવઝીની સ્વદેશી લીગ તરફથી ૧૯૩૦ની  
લઢત ઢરગ્યાન પ્રસિદ્ધ થયેલી પુરિત્કાઝોનો  
અનુવાદ.

સંપટ, ઢુંગરશો ઢ. - ઢૂંઢિયામણ (મહારામઝી  
ના ૧૧ મુઢા). અમદાવાદ, ૧૯૩૦

શાહ, કેશવલાલ ન. - મોઢાઢેરો ઢાને  
હિન્દની પાયમાલીની કલ્પ કથા.  
અમદાવાદ, ઢેસ. જે. શાહ, ૪ આના,  
૧૯૩૦, પૃ. ૫૨. વિ

સસ્તુ સાહિત્ય વ. કાર્યાલય (પ્ર.) - હિન્દના  
આર્થિક વિકાસનો ઢોજના. અમદાવાદ,  
૮ આના, ૧૯૪૪, પૃ. ૧૦૮. વિ

સર પુરૂષોત્તમઢાસ ઢાકુરઢાસ વગેરે  
ડુઢોગપતિઝોની ઢોજનાનો અનુવાદ. ઝી  
મનુ સ્વેઢારની પ્રસ્તાવના (પૃ. ૩ઝી ૧૯)  
ડુલ્લેલનીય : છે.

## ૬ અ. અર્થશાસ્ત્ર : સ્વાઢી

અઢાલજા, તારાચંઢ પો. - હાથવળાટ  
લુંઢ ૧-૨. વઢોઢરા, તા. પો. અઢાલજા.  
લુંઢ ૧ : કપાસથી વંતામણ, ૧૯૨૨,  
રુ. ૧-૮-૦, પૃ. ૧૨+૧૮૮; લુંઢ ૨ :  
સુતરમાંથી કાપડ, ૧૯૨૩, રુ. ૩-૮-૦,  
પૃ. ૧૬+૪૨૬. વિ

અલિલ ભારત ચરંલા સંઘ (પ્ર.) - મગન

રેંટિયો. અમદાવાદ, અ. મા. ઘ. સંઘ,  
૧૯૪૦, પૃ. ૧૨+૧૭, ૮ ચિત્રો. વિ

આસર, લક્ષ્મીઢાસ પુ. - ઢરવઢા ચરૂ  
ઢાપરવાનો રીત અને ક્રાંતવાનો સમજૂતી.  
ઢારઢોલી, ૧૯૩૦. વિ

ગાંધી, મગનલાલ લુ. (સં.) - સ્વાઢો સમાચર  
પત્રિકા. સારમતો, ૧૯૨૩-૨૪

-वणाटशास्त्र-भाग १ लो. सावरमती, सत्याग्रहश्रम, १० आना, १९२२, पृ. ८ + १७४ + २. वि

गांधी, मनमोहन पु. - परदेशी कापड सामे हरीफाओ केम करवो? अमदावाद, प्रस्थान, ८ आना, १९३२, पृ. १२०. वि  
गांधीजीना आसुख साथे. अंग्रेजी परथी अनुवादित.

गुजरात खादी प्रचार मंडळ - गुजरात खादी प्रचार मंडळनो प्रथम वर्षनो अहेवाल सं. १९७८-७९. अमदावाद, गु. खा. प्र. मंडळ, १९२४, पृ. १३४.

प्रेग, रिचर्ड बी. (अनु. जे. जी. गांधी अने न. ना. पारेख) - खादीनुं व्यापक अर्थशास्त्र. अमदावाद, नवजीवन, १२ आना, सं. १९८७, पृ. ३२ + २७८. वि  
काकासहेवना शुपोद्घात साथे.

जेराजाणी, विठ्ठलदास व. - कांतवानी कळा. मुंबई वि. व. जेराजाणी, १ आना, १९२१, पृ. ३१.

जोशी, चि. गो. (अनु : विं. ना. अभ्यंकर) - खादी, स्वदेशी अने ग्रामोद्धार विषयक संवाद. द्वारका, वि. ना. अभ्यंकर, १ आना, पृ. ४०. वि

दीवानजी, दिलखुश व. - कांतण प्रवेशिका. विलेपारले, खादीमंदिर, २ आना, १९४१, पृ. ४ + ४४. वि

देसाओ, मणिभाओ प्रागजी - खादीनो प्रसादो. ४ आना, १९२४, पृ. १८४.

देसाओ, धारुजो गोविन्दजी - द्रौपदीनां

## ६ आ. अर्थशास्त्र : ग्रामशुद्योग

धुमारप्पा, जे. सी. - ग्रामआन्दोलन शा माटे? वर्धा, अ. भा. ग्रा. शु. संघ, ७ आना, १ आ. १९३८, पृ. ८ + ९० वि

- (अनु : न. ना. पारेख) - ग्रामोद्योग-प्रवृत्ति. अमदावाद, नवजीवन, रू. २-०-०, १९४५, पृ. १२ + १७१. वि

धुमारप्पा, भारतन - ग्रामशुद्योग अने

चीर [ गांधीजी कृत' प्रस्तावना सहित ]. अमदावाद, नवजीवन, रू. ०-३-६, सं. १९८७, पृ. ८ + १०३. वि

खादी विपेनी घणी भैतिहासिक माहिती आमां मळी रहे छे.

पटेल, नंदलाल नथुभाओ - कांतणपोथी (जाते कांतनाराओने माटे). अमदावाद, राष्ट्रीय सरंजाम कार्यालय, २ पैसा, १९३०, पृ. ३२. वि

पुणतांचेकर, श्री. वि. अने वरदाचारो (अनु. छ. न. जोषी) - खादी निबंध. सावरमती, द. वा. कालेलकर, रू. १-०-०, १९२३, पृ. १० + २६०. महात्मा गांधीजीनो प्रस्तावना साथे. वि

अंग्रेजो हिन्दमां आव्या ते अगाशुनो अर्हीनो हाथवणाट अने कंतामणनो भित्तिहास, ते शुद्योगनो नाश, तेनी मिलशुद्योग साथे सरखामणी, तथा रेंटिया द्वारा परदेशी कापडनो बहिष्कार केम करी शक्या अनी आ पुस्तकमां चर्चा करेली छे.

प्रभुदास - खादी पहेरशो? कलोल, १९२९ बुच, पुरातन - कांतणपोथी. अमदावाद, बालगोविन्द कुबेरदासनी कंपनी, १० आना, १९४७, पृ. ६ + ६६. श्री मोरारजी देसाओनो प्रस्तावना. वि

मथुरादास पुरुषोत्तम - मध्यम पीजण. सावरमती, गुजरात प्रान्तीय खादी विभाग, ३ आना, १ आ. १९३१, पृ. २८ + १४०. आकृतिओ साथे. वि

ग्रामपुनर्रचना. वर्धा, अ. भा. ग्रा. शु. संघ, ३ आना, १९३८, पृ. ३६. वि

दासगुप्त, सतीशचन्द्र - चामडा केळव-वानी कुमःपद्धति - गृहशुद्योग तरीके. वर्धा, अ. भा. ग्रा. शु. संघ, १९३८, पृ. १० + ३६. वि

पटेल, झवेरभाओ पु. - तेलघाणी. वर्धा



અ. મા. ગ્રા. યુ. સંવ, ૧૯૩૮, ૮ આના,  
 પૃ. ૮ + ૩૮, ૧૦ ચિત્રો સાથે. વિ  
 -તેલઘાળોની પૂર્તિ. વર્ષા, અ. મા.

ગ્રા. યુ. સંવ, ૫ આના, ૧૯૩૮, પૃ.  
 ૪ + ૩૬. સચિત્ર. વિ

## ૭. કેલ્વણી

અમરેલી છાત્રાલય મંડલ (પ્ર.) - છાત્રાલય  
 સંહિતા. અમરેલી, ૨ આના, ૧૯૨૮,  
 પૃ ૨૨. વિ

કાલેલકર, દ. વા. - જીવનવિકાસ (કેલ્વણી વિષયક લેખોનો સંગ્રહ). અમદાવાદ,  
 નવજીવન, રૂ. ૨-૮-૦, ૧૯૩૬, પૃ.  
 ૮૦૦, સ્વચિ. વિ

કૃપલાની, આચાર્ય જીવતરામ (અનુ.  
 ગો. જી. પટેલ) - સર્વોદયની કેલ્વણી  
 (વર્ષા-યોજના). અમદાવાદ, ગૂજરાત  
 વિદ્યાપીઠ, રૂ. ૧-૪-૦, ૧૯૪૭, પૃ.  
 ૮ + ૧૪૮. વિ

કોઠારી, વિ. મ. - હિન્દી સરકારની શિક્ષણ  
 યોજના (સાર્જન્ટ રિપોર્ટ). અમદાવાદ,  
 નવજીવન, ૬ આના, ૧૯૪૫, પૃ. ૪૬. વિ  
 ક્રાઉસબી, અર્નેસ્ટ (અનુ: પાં. વિ. વઘામે)

- ટૉલ્સ્ટૉય અને શિક્ષણ. સાવરમતી,  
 દ. વા: કાલેલકર, સત્યાગ્રહાશ્રમ; ૧ મુ.  
 ૧૯૨૫; ૨ મુદ્રણ ૧૯૪૧, ૮ આના,  
 પૃ. ૧૧૨. વિ

ગાંધી, મો. ક. - કેલ્વણીનો કોયડો.  
 અમદાવાદ, નવજીવન, રૂ. ૧-૪-૦,  
 ૧૯૩૮, પૃ. ૨૦ + ૪૮૭. સ્વચિત્ર. વિ  
 કાકાસાહેબની પ્રસ્તાવના 'પ્રયોગોનો  
 નિચોડ.' અસહકાર, રાષ્ટ્રીય શિક્ષણથી વર્ષા  
 કેલ્વણી સુધીના આપણા દેશની કેલ્વણી  
 વિષેના લેખોનો સંગ્રહ. 'હરી કેલ્વણી'નો  
 પૂરક ગ્રંથ.

- સ્ત્રી કેલ્વણી. અમદાવાદ, નવજીવન,  
 ૧૨ આના, ૧૯૩૮, પૃ. ૧૪ + ૪૫૮,  
 સ્વચિ. વિ

કેલ્વણીના સિદ્ધાન્તોની ચર્ચા મુખ્યત્વે  
 આમાં કરવામાં આવી છે.

- (સં. નગીનદાસ. અમુલ્લખરાય) - ગાંધી -  
 શિક્ષણ (મહાત્માજીના જ શ્લોકોમાં). ભાગ  
 ૧-૧૩. મુંબઈ, નગીનદાસ અમુલ્લખરાય,  
 ૧૯૨૩. ભાગ ૧. સત્યાગ્રહ; ભાગ ૨.  
 ધર્મ; ભાગ ૩ ધારોગ્ય; ભાગ ૪.  
 કેલ્વણી; ૭ આના, ૧૯૨૩, પૃ.  
 ૧૬ + ૯૫; ભાગ ૫. સ્ત્રી-સ્વાતંત્ર્ય;  
 ભાગ ૬. સંપત્તિ શાસ્ત્ર; ભાગ ૭. સ્વંદેશી;  
 ભાગ ૮. પ્રજાવંધારણ; ભાગ ૯. રાજનોતિ;  
 ભાગ ૧૦-૧૨. અસહકાર (ત્રિભાગ ૧-૩);  
 ભાગ ૧૩. અંગત વિચાર

કેલ્વણીના ભાગ (ભાગ ૪ થી) સિવા-  
 યના વીજા ભાગો તે તે વિભાગમાં વિગત  
 સાથે નોંધ્યા છે.

- રાષ્ટ્રભાષા વિષે વિચાર. અમદાવાદ,  
 નવજીવન, ૧૨ આના, ૧૯૪૫, પૃ. ૮ +  
 ૧૩૬. વિ

- (સં. નગીનદાસ અમુલ્લખરાય) - રાષ્ટ્રીય  
 વાચનમાળા (મહાત્મા ગાંધીજીના લેખો-  
 માંથી શુદ્ધિત). મુંબઈ, નગીનદાસ  
 અમુલ્લખરાય, રૂ. ૧-૦-૦, ૧૯૨૨, પૃ.  
 ૧૨ + ૨૩૬, ૧૨ ચિત્રો અને શબ્દકોશ  
 સાથે. વિ

- વિદ્યાર્થી આલમને: લેખો અને ભાષણો.  
 અમદાવાદ, પ્રજાકીય સાહિત્ય મંદિર, ૩  
 આના, ૧૯૨૨, પૃ ૫૫. વિ

- સત્યાગ્રહાશ્રમનો ઇતિહાસ. અમદા-  
 વાદ, નવજીવન, રૂ. ૧-૦-૦, ૧૯૪૮, પૃ.  
 ૧૬ + ૯૬. વિ

કાકાસાહેબની પ્રસ્તાવના ('અગ્નિસંભવ')  
 અને ટિપ્પણ સાથે.

- સાચી કેલ્વણી. અમદાવાદ, સત્સું  
 સાહિત્ય, ૪ આના, ૧૯૪૫, પૃ. ૪૧. વિ

‘ત્રો કેલ્વણી’, ‘કેલ્વણીનો કોયડો’, ‘વર્ધા શિક્ષણ યોજના’ વગેરેમાંથી શુતારા.

ગુજરાત કેલ્વણી પરિષદ - બીજો ગુજરાત કેલ્વણી પરિષદ, ઓક્ટોબર ૧૯૧૭. મસ્તુ, પરિષદના મંત્રી હ. જી. અમીન, રૂ. ૧-૦-૦, ૧૯૧૮, પૃ. ૧૬૪ + ૧૨૬. વિ

ગુજરાત મહાસભા સેવાદલ - સેવાદલ પુસ્તિકાઓ અને પત્રિકાઓ: ૧. સેવાદલનું વંધારણ; ૨. પ્રાથમિક શિક્ષણ ક્રમ; ૩. સૈનિક અભ્યાસક્રમ; ૪. સ્વયંસૈનિક કવાયત - ૧. અમદાવાદ, વ્યવસ્થાપક, ગુ. મ. સેવાદલ, ૧૨ આના, ૧૯૩૮-૩૯, પૃ ૭ + ૮ + ૧૬ + ૩૨. વિ

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ - સ્વાદીવિદ્યાપ્રવેશિકા (ગુ. વિ ગ્રંથાલય પુ. ૧૨). અમદાવાદ, નવજીવન, ૧ આ. ૧૯૩૯; ૩ આ. ૧૯૪૮, રૂ. ૧-૪-૦, પૃ. ૮ + ૧૮૬. વિ

- લિસસાકોશ (જોડણી માટે). અમદાવાદ, નવજીવન, ૧ આ. ૧૯૪૦; ૨ આ. ૧૯૪૧, ૮ આના, પૃ. ૧૬ + ૨૬૮. વિ

- ગુજરાત વિદ્યાપીઠ વિજ્ઞાપક સં. ૧૯૮૦-૧૯૮૧. અમદાવાદ, ગુજરાત વિદ્યાપીઠ, રૂ. ૧-૮-૦, ૧૯૨૫, પૃ. ૨૨૧. વિ

- ગુજરાત વિદ્યાપીઠના મહામાત્રે કરેલાં વાર્ષિક નિવેદનો. ૧૯૨૩-૨૪ થી ૧૯૪૪-૪૫ સુધીનાં.

- ગુજરાતી જોડણીકોશ. ગાંધીજીની પ્રેરણાથી તૈયાર થયો. જુઓ ‘સાર્થ ગુજરાતી જોડણીકોશ.’

- શિક્ષણ વ્યાખ્યાનમાળા. અમદાવાદ, ગુજરાત વિદ્યાપીઠ, ૧૦ આના, ૧૯૨૬, પૃ ૨૧૫. વિ

- સાર્થ ગુજરાતી જોડણીકોશ. અમદાવાદ, નવજીવન, રૂ. ૪-૦-૦, ૩ આ. ૧૯૬૭, પૃ. ૨૪ + ૬૧૮. વિ

પહેલી આવૃત્તિ ૧૯૨૯માં ‘ગુજરાતી જોડણી કોશ’ નામથી પ્રસિદ્ધ થયી હતી. તેમાં શબ્દોની કેવલ જોડણી જ આપવામાં આવી હતી. પછીની આવૃત્તિમાં અર્થ, વ્યુત્પત્તિ ભિર્યાદિ ઓમેરવામાં આવ્યાં છે. ત્રીજી આવૃત્તિ છપાય છે.

જ્ઞાકિરહુસેન કમિટી - વર્ધા શિક્ષણ યોજના. [“Basic National Education” નાં નામથી પ્રસિદ્ધ થયેલા જ્ઞાકિરહુસેન સમિતિનાં અહેવાલ તથા અભ્યાસક્રમનો અનુવાદ]. અમદાવાદ, નવજીવન, ૧ આ. ૧૯૩૯; ૨ આ. ૨ જુનું મુ. ૧૯૪૫, રૂ. ૧-૦-૦, પૃ. ૪ + ૧૦૮ વિ ગાંધીજીનું આમુલ

દવે, જુગતરામ - આત્મરચના અથવા આશ્રમની કેલ્વણી. અમદાવાદ, નવજીવન, રૂ. ૪-૮-૦, ૧૯૪૬, પૃ. ૨૪ + ૪૪૮ વિ કાકાસાહેબનો પ્રસ્તાવના સાથે.

દવે, જુગતરામ અને પરીલ, નરહરિ - લોકપોથી પહેલી. અમદાવાદ, નવજીવન, ૧ આનો, ૧૯૩૯, પૃ. ૫૨. વિ

પ્રૌઢશિક્ષણનું પ્રથમ પાઠ્યપુસ્તક દેસાઈ, મગનભાઈ પ્ર. - રાષ્ટ્રીય મહાસભા અને વિદ્યાર્થી પ્રવૃત્તિ. અમદાવાદ, નવજીવન, ૬ આના, ૧૯૪૫, પૃ. ૮ + ૫૪. વિ સરદાર શ્રી વલ્લભભાઈ પટેલની પ્રસ્તાવના.

- વિદ્યાર્થી ગ્રીષ્મ પ્રવૃત્તિ [તેના અધેશ અને વર્ગો માટે યોજના] અમદાવાદ, નવજીવન, ૬ આના, ૧૯૪૬, પૃ. ૨ + ૪૬ વિ પરીલ, નરહરિ દ્વા. - આટલું તો જાણજો

- ૧. અમદાવાદ, રાષ્ટ્રીય સાહિત્ય કાર્યાલય, ૬ આના, ૧૯૨૨, પૃ. ૯૯. વિ

- તારૂંપ્યમાં પ્રવેશતી કન્યાને પત્રો. અમદાવાદ, ૧ આ. પ્રસ્થાન કાર્યાલય, ૧૯૩૭; ૫મી આવૃત્તિ, ૧૯૪૭, અમદાવાદ, નવજીવન, રૂ. ૧-૦-૦, પૃ. ૪ + ૧૧૬. વિ આ આવૃત્તિમાં મહાદેવભાઈના ૪

પત્રો, ગાંધીજીનો એક પત્ર અને લૈંગિક જ્ઞાન આપવા વાવતના વિચારો અને કાકા-સાહેબની પુરવણી છે.

-વર્ષા કેલ્વણીનો પ્રયોગ. અમદાવાદ, નવજીવન, ૬ આના, ૧૯૩૯, પૃ. ૨૪ + ૧૦૭. વિ

ધામળા ગ્રામશાળાનો પ્રથમ ત્રૈમાસિક અહેવાલ, અભ્યાસક્રમ તથા વર્ષાશિક્ષણ યોજના વાવત ત્રણ માપણો છે.

પારેલ, નગીનદાસ ના. અને જૈન, હંસ-રાજજી - હિન્દુસ્તાની વ્યાકરણ પ્રવેશ (ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાવલિ). અમદાવાદ, નવજીવન, ૬ આના, ૧૯૪૭, પૃ. ૪ + ૫૯. વિ

મટ્ટ, નૃસિંહપ્રસાદ કા. સુર્ફે નાનામાઓ - કેલ્વણીનો પગદંડો. [કેલ્વણી વિષયક લેખોનો સંગ્રહ]. આંવલા, યામદક્ષિણા-મૂર્તિ, રૂ. ૩-૮-૦, ૧૯૪૬, પૃ. ૧૬ + ૨૯૭. વિ

મશરૂવાલા, કિશોરલાલ ઘ. - કેલ્વણીના પાયા [કેલ્વણો વિષયક નિવંધો]. અમદાવાદ, નવજીવન, ૧ આ. ૧૯૨૬; ૪ આ. ૧૯૪૬, રૂ. ૧-૮-૦, પૃ. ૨૪ + ૨૩૬. વિ

-છોકેલ્વણો વિષયક નિવંધ. અમદાવાદ,

સુલોચનાબહેન દેસાઈ, વનિતાવિશ્રામ, ૧૯૩૧, પૃ. ૨ + ૩૨. વિ

આ નિવંધ પાઠ્યક્રમો કેલ્વણીના પાયામાં લેવાયો છે.

મેહેતા, વચ્ચભાઓ - મોંતપત્રો દ્વારા લોક-શિક્ષણ. વડોદરા, પુસ્તકાલય સ. સ. મંડલ, રૂ. ૧-૮-૦, ૧૯૪૪, પૃ. ૨૪ + ૧૮૮. વિ

રાધાકૃષ્ણન, સર્વપલ્લી (અનુ: ચં. પ્રા. શુક્લ) - ભારતની વારસો. વડોદરા, રાયચુરા બુક ડીપો, રૂ. ૩-૦-૦, ૧૯૪૬, પૃ. ૨૧૮. વિ

શ્રી રાધાકૃષ્ણનના 'એચ્યુકેશન, પૅલિ-ટિક્સ ઍન્ડ 'વૉર' નો અનુવાદ.

-યુવાનોની સંસ્કારસાધના. મુંબઈ, એન. એમ. ઠક્કર અને કંપની, રૂ. ૧-૮-૦, ૧૯૪૫, પૃ. ૧૫૨. વિ

શ્રી રાધાકૃષ્ણનના 'ફ્રોડમ અને કલ્ચર' નો અનુવાદ

શાહ, રમણિકલાલ - આપણી વિદ્યાર્થી હિલચાલ [શ્રી મોરારજી દેસાઈના પ્રવેશક સાથે]. ભાવનગર, સંસ્કાર સાહિત્ય મંદિર, રૂ. ૨-૦-૦, ૧૯૪૬, પૃ. ૧૫૨. વિ

## ૯. આરોગ્ય

ગાંધી, મોહનદાસ ક. (સં. નગીનદાસ અમુલ્કરાય) - આરોગ્ય. (મહાત્માજીના જ શબ્દોમાં. ગાંધી-શિક્ષણ ભાગ ૩.) મુંબઈ, નગીનદાસ અમુલ્કરાય, ૭ આના, ૧૯૨૩, પૃ. ૧૬ + ૧૧૭. વિ

-આરોગ્ય વિષે સામાન્ય જ્ઞાન. અમદાવાદ, સસ્તું સાહિત્ય, ૮ આના, ૬આ. ૧૯૪૪, પૃ. ૧૨૬. વિ

આની મૂલ પહેલી આવૃત્તિ ફિનિક્સ-નાતાલ્યા પ્રસિદ્ધ થઈ હતી.

-આરોગ્ય તનનું મનનું, અને દેશનું. અમદાવાદ, સંદેશ લિમિટેડ, રૂ. ૩-૪-૦,

૧૯૪૪, પૃ. ૧૬ + ૨૪૪. વિ

ગાંધી અને સ્થાનિક સ્વરાજ ને આરોગ્ય પૃ. ૨૪-૨૬; ગાંધીજી સાથે શહેરસફાઈ અંગે પત્રવહેવાર, પૃ. ૧૬૧-૧૬૯.

પટેલ, કાવેરભાઓ પુ. - આહાર અને પોષણ. અમદાવાદ, ગુજરાત વિદ્યાપીઠ, ૮ આના, ૧૯૪૫, પૃ. ૮ + ૬૪. વિ

ગાંધીજીના 'વે વોલ' અને શ્રી કુમારપ્પાની પ્રસ્તાવના સાથે.

પટેલ, રાવજીભાઓ મણિભાઓ - શાળાકીની પોષકાર. જુઓ અર્થશાસ્ત્ર વિભાગ.

વર્જેસ, પેરી (અનુ: કાકાસાહેબ કાલેલકર

મને કિ. ઘ. મશરૂવાળા) - માનવી  
સ્ટ્રિચેરો (એક રક્તપિત્તોનો આત્મકથા).  
અમદાવાદ, નવજીવન, રૂ. ૨-૮-૦,  
૧૯૪૬, પૃ. ૨૪ + ૩૨૮. વિ

મથુરાદાસ ત્રિકમજી - મરુકુંજ (રાજરોગનું  
નિવારણ). અમદાવાદ, નવજીવન, રૂ.  
૧-૦-૦, ૩ આ. ૧૯૪૬, પૃ. ૧૨ + ૧૨૮.  
વિ

## ૧૦. સાહિત્ય

આશ્રમનો મુલ્લુ - કાગડાની નજરે (હિન્દની  
પરથી અનુવાદ). અમદાવાદ, નવજીવન,  
૧ આના, ૧૯૪૭, પૃ. ૪ + ૬૮. વિ  
ઈન્ટરનેશનલ પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ - નીતિનાં  
કાવ્ય. ફીનિક્સ (નાતાલ), પૃ. ૪૬  
કવિ, નાનાલાલ દ. - સંવોધન. અમદાવાદ,  
ના. દ. કવિ, રૂ. ૨-૦-૦, ૧૯૩૦, પૃ.  
૧૨ + ૧૯૦. વિ  
'હિસક અહિંસા' પૃ. ૬૨ થી ૭૯.  
- સંસાર સંયન. અમદાવાદ, કવિ, ના.  
દ., રૂ. ૧-૮-૦, ૧૯૨૭, પૃ. ૨૧૮ વિ  
વીજી કાઠિયાવાલ અન્યજ પરિપદનું  
માપણ, પૃ. ૭૭ - ૯૫.  
કામદાર, કેશવલાલ હિં. - સ્વાધ્યાય : સંઠ  
૨જો. મુંબઈ, આર. આર. શેઠની કંપની,  
રૂ. ૩-૦-૦, ૧૯૪૦, પૃ. ૧૬ + ૪૭૦. વિ  
પૃ. ૧૫૬ થી ૧૭૪ ગાંધીજીના કાર્ય-  
ક્ષેત્રનું અને અનન્ય આગેવાનોનું સમા-  
લોચન.  
કાલેલકર, દ. ઘા. - કાલેલકરના લેખો.  
અમદાવાદ, નવજીવન, રૂ. ૩-૦-૦,  
૧૯૨૩, પૃ. ૭૪૭. વિ  
જેલમાં જવા મુઘીના લેખોનો સંપૂર્ણ  
વર્ગીકૃત સંગ્રહ.  
- કાલેલકરના લેખો : ભાગ ૨ જો.  
અમદાવાદ, નવજીવન, ૧૨ આના, ૧૯૨૫,  
પૃ. ૨૮૮. વિ  
- જીવનભારતી (સાહિત્ય વિષયક લેખો).  
અમદાવાદ, નવજીવન, રૂ. ૨-૮-૦,  
૧૯૬૮, પૃ. ૨૦ + ૭૯૯. વિ  
- જીવનનો આનંદ [કાઝા અને હુદરત

વિષયક લેખો]. અમદાવાદ, નવજીવન,  
૧ આ. ૧૯૩૬, ૨ આ. ૨ મુ. ૧૯૪૪,  
રૂ. ૩-૦-૦, પૃ. ૧૬ + ૫૪૪. વિ  
- શ્રી નેત્રમણિભાઓને (લલ્લેલા અંગત  
પત્રોનો સંગ્રહ). અમદાવાદ, નવજીવન, ૧૪  
આના, ૧૯૪૭, પૃ. ૮ + ૧૦૧. વિ  
કૃપલાની, આચાર્ય જીવતરામ (સં.  
મગનભાઓ દેસાઈ) - આચાર્ય કૃપલાનીના  
લેખો. અમદાવાદ, જે. જી. ગાંધી, રૂ.  
૨-૦-૦, ૧૯૩૭, પૃ. ૧૨ + ૪૦૪. વિ  
ગાંધીજીની પ્રસ્તાવના સાથે.  
હરે, પંડિત નારાયણ મો. (સં. ગાંધી,  
પુ. ના.) - ગુજરાતમાં સંગોતનું પુનરુ-  
જ્જીવન. અમદાવાદ, નવજીવન, રૂ.  
૧-૪-૦, ૧૯૩૯, પૃ. ૨૦ + ૫૦૯. વિ  
ગાંધી, મોહનદાસ ક. - અંગત વિચાર.  
(ગાંધીજીના જ શબ્દોમાં. ગાંધી શિક્ષણ-  
૧૩.) મુંબઈ, નગોનદાસ અમુલ્યરાય, ૫  
આના, ૧૯૨૩, પૃ. ૧૬ + ૬૦. વિ  
- (સં. આપાભાઈ મો. પટેલ) - ગાંધી  
ગિરામૃત. ઓહ, નર્મદાશંકર ગો. જોશી  
અને મૂ. પુ. પટેલ, રૂ. ૧-૪-૦, ૧ આ.  
સં. ૧૮૭૯, પૃ. ૮ + ૨૩૮. વિ  
- ગાંધીજીનાં વચનામૃત. અમદાવાદ,  
સાકરલાલ હુલાહીદાસ ટુકસેલર, ૨ આના,  
૧ આ. ૧૯૨૧, પૃ. ૪૦. વિ  
- ગાંધીજીનાં વિચારરત્નો. ગોંઠઠ  
- ગાંધીજીની દિવ્ય ઘાણો [મહાત્મા  
ગાંધીજીના જુદા જુદા લેખો, માપણો,  
પુસ્તકો અને પ્રવચનોમાંથી ચૂંટી કાઢેલાં  
સિદ્ધાન્ત જેવાં તત્ત્વજ્ઞાન વાક્યાનો સંગ્રહ].

सुरत, गांडीव साहित्यमंदिर, ३ आ. सं.  
१९८०, पृ. ३१. वि

- गांधीजीनी विचार पुष्पमाळा. १.  
पृ. ३६

- जीवनदोरो. फीनिक्स (नाताल), विन्टर-  
नेशनल प्रि. प्रेस, ५ आना, १९११.

टॉल्स्टॉयनी वार्तानो अनुवाद.

- तपस्वीनां तातां तीर [महासभामां  
पूर्ण स्वराज्यनो ठराव थया पछी सरकारनी  
नीति शुषाडी पाडता पू. गांधीजीना लखेला  
लेखीनो संग्रह]. अमदावाद, प्रस्थान,  
दोड आनो, १ आ. १९३०, पृ. ४८. वि

- महात्मा गांधीजीना पत्रो. अमदावाद,  
सेवक कार्यालय, ६ आना, १ आ. १९२१,  
पृ ४ + १००. वि

महात्माजीना तेमना पुत्री मणिलाल,  
रामदास, देवदास तथा वीजाओ सुपर  
लखेला अंगत ८२ पत्रोनी संग्रह.

- (सं. मेहेता, घनश्याम नटरराय) -  
महात्मा गांधीजीनु मनोमन्दिर. कलोल,  
घ. न. मेहेता, १० आना, १ आ.  
१९२१, पृ. ६ + ७४. वि

गांधीजीना जुदा जुदा विषयोने ओ  
विचार दर्शावनां वाक्यो छ भागमां  
वर्गीकरण करीने आमां आप्यां छे.

- मूरखराज, बाखिवलरहस्य अने अेक  
सत्यवोरनी कथा. सुरत, गांडीव, ८ आना,  
१९२२. वि

- शिवदयाळनी शोध अथवा सत्य विना  
वोडुं कशुं नथी. सुरत, गांडीव, दोड  
आनो, १९२१, पृ. ३२. वि

गुजराती साहित्य संमेलननुं वारमुं अधि-  
वेशन (१९३६) - अहेवाल. अमदावाद,  
१९३७.

संमेलनना प्रमुख महात्मा गांधी हता.

- छठुं अधिवेशन अमदावाद १९२०.

अमदावाद, मंत्रीओ, गुजराती साहित्य  
परिषद, रु. ३-०-०, १९२३, पृ. ७१५.  
वि

'जन समाजनी दृष्टिये साहित्यनो  
विचार' अे गांधीजीना भाषणनो सार  
आमां छे. (पृ. २७ थी २९).

गुजरात साहित्य परिषद - परिषद प्रमु-  
खोनां भाषणो [गुजराती साहित्य संमेलनना  
पहेलेथी तेर अधिवेशनना प्रमुखोनां भाषणो-  
नो संग्रह]. अंधेरी (मुंबथी), गुजरात साहित्य  
परिषद, रु. ४-०-०, १९४१, पृ. ८ +  
५५८. वि

वारमा अधिवेशनना प्रमुख गांधीजी  
हता.

जोषी, शुभाशंकर - विश्वदान्ति (शिक संद  
काव्य). अमदावाद, नवजीवन; २ आना;  
१९३१, पृ. ५२. काकासाहेबनी प्रस्तावना  
साथे. वि

टॉल्स्टॉय, लीओ (अनु: मगनभाथी प्र. देसाओ)  
- कळा अेटले शुं? अमदावाद, गुजरात  
विद्यापीठ, रु. ३-८-०, १९४५, पृ. ४८ +  
२४०. वि

गांधीजीना कळाविषयक विचारो जुदा  
तारवीने आपवामां आव्या छे.

- (अनु: चं. प्रा. शुक्ल) - चूप नहि रहे-  
वाय (टॉल्स्टॉयना निवधोनी अनुवाद).  
अमदावाद, नवजीवन, रु. २-०-०, १९४५,  
पृ. २ + २३८. वि

आमां टॉल्स्टॉय-गांधीजीनो पत्रव्यवहार  
(पृ. १९८-२०५) पण आपवामां आव्यो छे.

- (अनु: न. दा. परीख) - जाते मजूरी  
करनाराओने. अमदावाद, नवजीवन, ३  
आना, १९२४, पृ. ५९. वि

त्रिवेदी, नंदलाल शि. - मोहनमाळा  
(गीतीनो संग्रह). अमदावाद, डी. ना. फेल्ड,  
सवा आनो, पृ. १८. वि

દવે, જુગતરામ - આંધળાનું ગાઠું. અમદાવાદ,  
નવજીવન, ૧ આનો, ૩ આ. ૧૯૩૯,  
પૃ. ૪૦. વિ

- સેહતનો શિકારો અને મધ્યમસરની  
ચાલ. અમદાવાદ, નવજીવન, ૪ આના,  
૧૯૪૨, પૃ. ૫૬. વિ

- પ્રામખજનમંડળી. અમદાવાદ, નવજીવન,  
૬ આના, ૧૯૩૮, પૃ. ૮ + ૯૪. વિ

- પ્રહલાદ નાટક તથા સહનવીરનાં ગીતો.  
અમદાવાદ, નવજીવન, ૧૦ આના, ૧૯૪૮,  
પૃ. ૬ + ૭૮. વિ

દવે, સી. એચ. અને કંપની (પ્ર.) - બારડોલી  
ગીતસંગ્રહ. આગંદ, ૧૯૨૮

દેસાઈ, દ્વીળાભાઈ અને જોશી, યુમાશંકર  
(સં.) - ગાંધી કાવ્યસંગ્રહ. વીલેપારલે,  
વિદ્યાર્થી પંચાયત - ગોકઝીવાઘી દ્વાબીસ્કૂલ,  
૧૨ આના, ૧ આ. ૧૯૯૩, પૃ.  
૧૨ + ૧૧૯. વિ

દેસાઈ, મહાદેવ હ. - મહાદેવભાઈનાં  
વિચારરત્નો. ભાવનગર, સંસ્કાર સાહિત્ય-  
મંદિર, ૬ આના, ૧૯૪૫, ૪૮. વિ

દેસાઈ, રમણલાલ વ. - જીવન અને  
સાહિત્ય - ભાગ ૧. મુંબઈ, આર. આર.  
શેઠની કંપની, રૂ. ૨-૮-૦, ૧૯૩૮, પૃ.  
૩૫૪. વિ

ગુજરાતી સાહિત્યમાં ગાંધીયુગ, ગાંધોજી  
સાહિત્યકાર ધરા ? હિન્દુ-મુસ્લિમ ઐક્ય, એ  
પ્રશ્ન પ્રકરણી પ્રસ્તુત છે.

દેસાઈ, ઘાલજીભાઈ શો. - કથાકુસુ-  
માંજલિ. અમદાવાદ, નવજીવન, ૫ આના,  
૧૯૩૦, પૃ. ૧૫૦. વિ

નવજીવન પ્ર. મન્દિર (પ્ર.) - મધપૂઠો.  
અમદાવાદ, નવજીવન, રૂ. ૧-૦-૦,  
૧ આ. ૧૯૨૬, પૃ. ૨૦૦; ૩ આ.  
૧૯૪૮. વિ

ચારીયરા, મહાવજી સાજન - હરિપરં.  
મુંબઈ, વિ. વ. જેરાજાળી, ૧૯૨૯,  
૧ ૬૭. વિ

લાદી પ્રચારાથે લલેલી વાર્તા.

પુરાણી, અંબાલાલ ઘા. - પથિકનાં પુષ્પો,  
ગુચ્છ ૨જો. આગંદ, શ્રીઅરવિંદ કાર્યાલય,  
રૂ. ૧-૮-૦, ૧૯૩૭, પૃ. ૮ + ૨૯૬. વિ  
ગાંધીયુગ અને પૂર્વયુગની સરસામળી, પૃ.  
૧ થી ૪૪

ઘારોટ, ચૂ. પુ. (સંકલનકાર) - સત્યાગ્રહી  
ગૌરીસન. અમદાવાદ, નવજીવન, રૂ.  
૧-૦-૦, સં. ૧૯૯૧, પૃ. ૮ + ૩૨૫.  
વિ

મદ્દ, ચિમનલાલ પ્રા. (સં) - મહાસમાનાં  
ગીતો. અમદાવાદ, નવજીવન, દોઢ આનો,  
૩ આ. ૧૯૪૦, પૃ. ૮ + ૯૩. વિ

ભાવસાર, સોમાભાઈ - ગાંધી ઘાલગીતો.  
અમદાવાદ, સંદેશ લિમિટેડ, અદી આના,  
૧૯૪૩; પૃ. ૪૦. વિ

૧૯ કાવ્યોનો સંગ્રહ.

ભાવે, વિનોબા - મધુકર. અમદાવાદ,  
નવજીવન, ૧ આ. ૧૯૪૧; ૨ આ. ૧૯૪૫,  
રૂ. ૨-૦-૦, પૃ. ૮ + ૩૪૨. વિ

મરાઠી 'મધુકર' અને હિન્દી 'વિનો-  
બાકે વિચાર' પરથી અનુવાદિત.

મહેતા, કલ્યાણજી વિ. (સં) - સ્વરાજ્યનાં  
ગીતો. અમદાવાદ, ૧૦ આના, ૧૯૩૧,  
પૃ. ૧૭૨. વિ

માળેક, કરસનદાસ - આજ્ઞાદીની યજ્ઞ-  
ઘ્વાળા. મુંબઈ - અમદાવાદ, ભારતી-  
સાહિત્યસંઘ, ૮ આના, ૧૯૪૨, પૃ. ૬૦. વિ

મૂઠ પુસ્તક સાથે ધનવંત બોજ્ઞાનો  
એક પુસ્તિકા શા માટે જોડી દેવામાં  
આવી છે તે સમજાવું નથી.

મુનશી, ક. મા. - ગુજરાતની અસ્મિતા.  
મુંબઈ, ગુજરાત સાહિત્ય પરિષદ, ૪ આના,  
૧૯૩૯, પૃ. ૧૮૯. આજ્ઞા આવૃત્તિ, રૂ.  
૧-૦-૦. વિ

- ગુજરાત, એક સાંસ્કારિક વ્યવિત અને  
આદિવચનો. મુંબઈ, આર. આર. શેઠ,  
રૂ. ૨-૮-૦, ૧૯૩૩, પૃ. ૮ + ૨૪૨. વિ

- भारतीय संस्कृति अने घोजा लेखो.  
अमदावाद, सप्तु साहित्य, १२ आना,  
१९४६, पृ. १२४. वि

मेघाणी, झवेरचंद्र - वापुनां पारणां.  
राणपुर, स्वाधीन मुद्रणालय, १० आना,  
१९४३, पृ. ७१. वि

राजगोपालाचारियर, चक्रवर्ती (अतु: जे.  
जी. गांधी) - घोलेविज्ञम अने वोजी  
वातो. अमदावाद, प्रस्थान, ६ आना,  
१९३५, पृ. ९०. वि

राष्ट्रीय साहित्य मंडळ (प्र.) - राष्ट्रगीत.  
अमदावाद, रा. सा. मंडळ, ८ आना,  
१९२२, पृ. १५९. वि

व्यास, मणिलाल प्र. (सं.) - चिरंजीव साहित्य.  
बडोदरा, पुस्तकालय स. स. मंडळ, रु.  
२-४-०, १९४७, पृ. १६ + ३८०. वि

## ११. आधुनिक इतिहास

आचार्य, गुणवंतराय - नेताजी श्री सुभाष-  
चंद्र बोझ. अमदावाद, गुर्जर ग्रंथरत्न,  
रु. २-८-०, २ आ. १९४५, पृ.  
८ + २००. वि

गंधर, जॉन (अतु: चं. का. भट्ट) - अशियाना  
भोतरमां. अमदावाद, युगधर्म कार्यालय,  
रु. २-०-०, १९४०, पृ. २२०. वि

अनुवादकमां रंग पूरवानी वृत्ति प्रबळ  
होवाथो अनुवाद (जोके अे संक्षिप्त छे)  
प्रमाणभूत गणो शकाय नहीं.

गांधी, मोहनदास क. - अजीसतो सुद्धारक  
अथवा सुस्तफा कामेल पाशानुं जीवन  
चरित्र तथा वीजा लेखो: १. प्रेमा  
पटेलनो लोम (वार्ता), २. आफ्रिकानो  
सत्याग्रह, ३. जीवनदोरी (वार्ता). सुरत,  
गांडोव साहित्य मंदिर, ६ आना, १९२२,  
पृ. ४ + ९६. वि.

- महात्मा गांधीजीना पत्रो. अमदावाद,  
साकरलाल बुलाखीदास बुकसेल्स, ६ आना,  
१९२२, पृ. ६ + १६७. वि

वीजा अनेक लेखकीनी साथे ज  
गांधीजीना केटलाक नवा लेखो आमां  
संघराया छे.

शास्त्री, महामहोपाध्याय हरप्रसाद -  
वाल्मीकिनो जय. अमदावाद, नवजीवन,  
६ आना, २ आ. १९४१, पृ. १० + ९२.  
वि

संतवाल शुर्के सौभाग्यचंद्रजी - प्रश्नोत्तरो  
अने प्रासंगिक (वावळा चातुर्मास).  
अमदावाद, महावीर साहित्य प्रकाशन  
मंदिर, रु. १-२-०, १९४२, पृ.  
१२ + २४. वि

सोनी, रमणलाल - आझादीनां राष्ट्रगीतो  
मोडासा, रु. १-०-०, १९४७, पृ.  
९२. वि

हिन्दना विविध राजकीय पक्षोने,  
सरकारने तथा वीजाओने शुदेशीने गांधीजीने  
नवजीवनमां लखेला ३२ खुटला पत्रो,  
ता. २१-९-'१९थो ४-१२-'२१.

- महात्मा गोखलेनो वारसो. मुंबधी, हिन्द  
सेवक समाज तरफथो जोशी ब्रधर्स, किं.  
८ आना, १९२५, पृ. ४ + २६. वि

गांधीजीने १९१६मां गोखलेजीनो प्रथम  
पुण्यतिथि निमित्ते भगिनी-समाज पत्रिकामां  
लखेले लेख तेमना ज हस्ताक्षरमां छापेले छे.

- स्व. महात्मा गोखलेजीनो जीवन संदेश  
(जीवनमुव तथा सेवामव साथे). मुंबधी,  
भगिनीसमाज, ३ आना, १९२२, पृ.  
४०. वि

गांधीजीने 'अिडियन ओपीनियन'मां,  
'नवजीवन'मां तथा गोखलेजीनां भाषणोना  
गुजराती अनुवादनी प्रस्तावनारूपे लखेला  
लेखोनी संग्रह.

गांधी, राधिका म. अित्यादि - वीरंगना-  
ओनो वीर हाक. अमदावाद, १९३१.

गांधी, सुभद्रा (अनुवाद) - स्वामीराव (सरदार पृथ्वीसिंहनो जीवनकथा). भावनगर, कृष्णलाल मणिलाल ठक्कर, रु. ४-०-०, १९४५, पृ. ४+२७२. वि गोखले, गोपाळ कृष्ण (अनु: महादेव देसाभी) - गोपाळ कृष्ण गोखलेनां व्याख्यानो पु. १. मुंबयी, भोल अडिया होमरूल लीग, १० आना, १९१८, पृ. ८२. वि

-(अनु: नरहरि परीख) भाषणो पु. २. (परदेशामां वसवाट संबंधी). १० आना, १९१९, पृ. १४२. वि

गांधीजीनी प्रस्तावना साथे.

जावडेकार, शंकर दत्तात्रेय (अनु: पांडुरंग देशपांडे) - आधुनिक भारत. अमदावाद, गूजरात विद्यापीठ, रु. ६-०-०, १९४६, पृ. ८+६०८. वि

पेशवाऔना अंतथी महासभाये १९३७-मां प्रधानपदां स्वीकार्यां त्यां सुधी हिन्दनो अतिहास - धार्मिक, सामाजिक, राजकीय तथा आर्थिक वळोनां मूल्यांकन साथे.

ओशी, प्राणशंकर सोमेश्वर - दक्षिण आफ्रिकानो रंगभूमि [भेक पत्रकारनां विचारो अने स्मरणो]. जोहानिसबर्ग, प्राणशंकर सी. जोशी, रु. ३-८-०, १९४४, पृ. ३२८. वि

- रंगद्वेषनो दुर्ग. अमदावाद, गुर्जर, पूर्वार्ध, १९३७, रु. २-०-०, पृ. २४+१३५; उत्तरार्ध, १९३७, रु. ३-०-०. पृ. ४+१३७ थी ५६०. वि

भुत्तार्धमांनां वे प्रकरणो 'दक्षिण आफ्रिकामां गांधीजी' अने 'स्मट्स-गांधी समाधान' खाम शुपयोगी छे.

दंडे, जगतराम - भारतसेवक गोखले. अमदावाद, नवजीवन, रु. १-८-०, १९४०, पृ. २४+२२८. वि

काकासाहेबनो प्रस्तावना साथे

देसाभी, महादेव ह. - वे खुदाओ

खिदमतगार (खान बंधुओनो परिचय). अमदावाद, नवजीवन, १ आ. १९३६; २ आ. १९४२, ९ आना, पृ. ४+११२. वि - (अनु: चं. प्रा. शुक्ल) मौलाना अबुल कलाम आझाद, मुंबयी, वीरा अने कंपनी, रु. २-८-०, १९४६, पृ. १७२. वि

नवजीवन प्र. मंदिर (प्र.) - आश्रमनो प्राण (स्व. मगनलाल गांधी) अमदावाद, ४ आना, सं. १९८५, पृ. ११८. वि

- लोकमान्यने श्रद्धांजलि. अमदावाद, ५ आना, १९२२, पृ. १०२. वि

नेहरू, पंडित जवाहरलाल (अनु: मणिभाभी भ. देसाभी) - जगतना अतिहासनुं रेखादर्शन. (जेलमांथी पोतानी पुत्रीने लखेला वधु पत्रो - जेमां तरुणोने माटे अतिहासनुं रसळतुं व्यान आवे छे). खंड १, २. अमदावाद, नवजीवन, खंड १-रु. ५-०-०, १९४५, पृ. १२+६७६; खंड २-रु. ६-०-०, १९४५, पृ. ८+६७७ थी १५२७. सचि. वि खंड २जो विशेष प्रस्तुत छे.

-(सं. अभ्यासी) - जवाहर अने विश्वयुद्ध. वडोदरा, कसोटी कार्यालय, रु. १-०-०, १९४३, पृ. ९६. वि

-(अनु: चं. प्रा. शुक्ल) - भारतनी भेकता. मुंबयी, वीरा अने कंपनी, रु. २-८-०, १९४६, पृ. १७६. वि

-(अनु: महादेव देसाभी), - मारी जीवन-कथा. अमदावाद, नवजीवन, १९३६, पृ. ३४+९८०. ३ आ. रु. ६-०-० वि

- युवानोना वोज. मुंबयी, हमारा हिन्दुस्तान, २ आना, १९४४, पृ. २० वि

अनुवादकनी विस्तृत प्रस्तावना साथे पटेल, नागरदास जी. - आपणी महासभा खंड १, २. मलाट, दारुविनोद कार्यालय, खंड १: ६ आना, १९३९, पृ. ८०; खंड २: ६ आना, १९४०, पृ. १०५. वि पटेल, राजजीभाजी म. - जीवननां झरणां.



अमदावाद, नवजीवन, रु. २-८-०,  
१९४५, पृ. १४+४००. वि

लेखकानो अनेक कार्यकर्ताओ साथे तथा  
गांधीजी साथे विशेष संबंध आव्यो. शिवायी  
तेमना जीवननां. सभारणां घणां शुपयोगी  
थाय तेवां छे.

परीख, शंकरलाल द्वा. (सं.) - पंड्याजीने  
स्मरणांजलि. अमदावाद, नवजीवन,  
८ आना, १९३७, पृ. १५२. वि

पामदत्त, रजनी - अर्वाचीन हिन्द. मुंवाओ,  
भेडवान्स लिटेरेचर बुकशॉप, रु. १-४-०,  
पृ १२+१४६. वि

राष्ट्रीय आन्दोलनना गांधीजी सुध्वां  
नेताओ सरकारने शरणे जशे भेवो भय व्यक्त  
करीने अुदाम कार्यक्रमनी हिमायत कर्ता  
करे छे. साम्यवादी विचारसरणी.

षापट, स. वि. (अनु.: यशवंत के. संत)  
- लोकमान्य टिळक ऐमनी याददांस्त  
अने ख्याति (आख्यायिकाओ) - खंड १.  
नवसारी, यशवंत के संत, रु. ३-८-०,  
१९२५, पृ. ८ + ६८८. वि

गांधीजीनां लोकमान्य विषेनां संस्मरणो,  
पृ. ६८३-८४. आ शुपरांत गांधीजी अने  
लोकमान्य विषेना घणा प्रसंगो आमां छे.

विरला, घनश्यामदास (अनु.: करीमभाओ  
वोरा) - श्री जमनालालजी. अमदावाद,  
नवजीवन, ६ आना, १९४६, पृ. ४८. वि

बुच, पुरातन - महाराजनी साथे (श्री  
रविशंकर महाराजना जीवनप्रसंगो). मोटा  
भांकडिया, शिष्ट साहित्य मुद्रणालय, रु.  
१-८-०, १९४७, पृ. ८ + १२८. वि

- रविशंकर महाराज. मोडासा, शरद  
कार्यालय, रु. १-८-०, १९४७, पृ.  
९ + ११९. वि

भद्र, नरहरि - हिन्दी राष्ट्रीय महा-  
सभानो अतिहास खंड ३ जो. वडोदरा,

लुहणामित्र स्टीम प्रि. प्रेस, रु. ३-०-०,  
१९३८, पृ. १६ + ३२६. वि

आमां दिल्लीमां भरायेला (१९२३मां)  
अधिवेशनथी फैझपुरना अधिवेदान (१९३७)  
सुधीनो अतिहास आपवामां आव्यो छे.

भद्र, शंभुप्रसाद - गुजरातना क्रान्तिवीरो.  
वीरमगाम, पुरुपोतमदास तुलसीदास, रु.  
१-०-०, १९४६, पृ. १८०. वि

भारतीय हृदय, अेक (अनु.: रसुलभाओ  
वोरा) - दीनबंधु (सी. अेफ. अेंड्यूइतुं  
जीवनचरित्र). वडोदरा, पुस्तकालय, रु.  
२-०-०, १९४६, पृ. ४ + ३००. वि

मथुरादास त्रिकमजो (अनुवादक) - पंजाब  
सत्र कमिटी आगळनी जुवानीओ.  
मुंवाओ, १९२१

महेता, कल्याणजी वि. - गुजरातनुं नूर  
(दरवारथी गोपाळदास). सुरत, राष्ट्रीय अंय-  
माला कार्यालय, रु. १-०-०, १९२३,  
पृ. २९४ वि

- बुजरग युवान अब्बास तीयबजी.  
अमदावाद, नवजीवन, ३ आना, १९३४,  
पृ. ८+८७. वि

महेता, वबलभाओ - महाराज थया पहेलां  
(श्री रविशंकर महाराजनी प्रस्तावना साथे).  
मोडासा, शरद कार्यालय, रु. २-०-०,  
१९४७, पृ. १०+११६. वि

महेता, शारदाबहेन - जीवनसंभारणां.  
अमदावाद, शारदाबहेन महेता, रु. २-८-०,  
१९३८, पृ. ४५२. वि

गांधीजी साथेना अने विषेना अनेक  
प्रसंगो लेखिका बहेने आमां आप्या छे.  
छेभटे गांधीजीना ४ पत्रो पण परिशिष्टमां  
आप्या छे.

मुनशी, लीलावती - रेखाचित्रो - जूनां अने  
नवां. अमदावाद, जी. अ. महेता,  
रु. २-८-०, १९३५. पृ. २७३. वि  
मुनशी, क. मा. - अखंड हिन्दुस्तान.

मुंबशी, भारतीय विद्याभवन तरफथी आर.  
आर. शेठ, रू. ५-८-०, १९४५, पृ.  
८+४२६. वि -

गांधी मुनशी पत्रवेहवार, पृ. ४१९-४२६.

-सीधां चढाण. अमदावाद, गुर्जर, रू. ३-०-०,  
१९४३, पृ. ८+१८६. वि

मेघाणी, झवेरचंद - माणसाओना दीवा.  
अमदावाद, काठियावाड लिमिटेड, रू.

२-८-०, १९४५, पृ. २०+२३३. वि

मेघाणी, झवेरचंद अने सतीकुमार (सं.)  
- आपणुं घर. राणपुर, ८ आना, १९४२,

पृ. ८८. वि

'आपणा घरतो (कारागृहतो) साचो  
निवासी' मां गांधीजोतुं जेलजोवन पृ. ५८-७०

रांदेरिया, मधुकर-महासभाना महारथीओ.  
जुओ विभाग १ लो.

राजपतराय, लाला (अनु: जगजीवन क.  
धोळकिया) - तरुण भारत. अमदावाद,

गुर्जर ग्रंथरत्न, रू. १-१२-०, १९३२,  
पृ. २३६. वि

-(अनु: गुणवंतराय व्यास तथा रमण दलाल)  
-दुःखी हिन्द. अमदावाद, व्यास अने

दलाल, रू. ४-८-०, १९३०, पृ. ४९९. वि

मिस मेयीना आक्षेपीना जबादमां

लखायेलुं पुस्तक.

वर्मा, जयफुल्ल ना. अने भानुचन्द्र - हिन्दी  
राष्ट्रीय काँग्रेसनो इतिहास ग्रंथ २जो.

वजोदरा, लुहाणामित्र ग्टोम प्रिंटिंग प्रेस, रू.  
३-०-०, १९२३, पृ. १२+२४८. वि

१९१५नी मुंबशीमां भरायेली महा-  
सभानी ३०मी वेठकयी गयामां भरायेली

साटश्रीसमी वेठक सुधीनो इतिहास आमां छे.

वर्मा, निरंजद अने परमार, जयमल्ल  
-काठियावाडना घडव्या: मोतीभाओी,

पूलचंद अने चिमनभाओी. अमदावाद,  
भारती साहित्य संघ, रू. २-८-०, १९४३,  
पृ. १९०. वि

२ आ. 'जोवन शिल्पीओ' नामथी प्रसिद्ध.

शाह, कान्तिलाल म. - कविवर रवीन्द्रनाथ

ठाकुर - जीवन अने कवन. मुंबशी-  
अमदावाद, भारती साहित्य संघ, रू. २-८-०,

१ आ. १९४१, पृ. २१६. वि

टागोर अने गांधीजी पृ १९०-१९८.

शाह, चन्द्रकान्त - गुजरातना सेवको  
(आजना गुजरातने घडनारा चार मूक-

सेवकोनी जीवनकथाओ). अमदावाद,  
सस्तुं साहित्य, १० आना, १९४६, पृ.

१०९. वि

ठक्कर वापा, रविशंकर महाराज,  
छोटुभाओी पुराणो अने दरवार गोपाळदास.

शाह, रमणिकलाल - आपणी काँग्रेस  
(काँग्रेस अने राष्ट्रीय बुत्थाननी टुंकी

रूपेखा). मुंबशी, पत्र प्रकाशन, रू.  
२-८-०, १९४५, पृ. ८ + १४०. वि

शाह, वजुभाओी - लडत आवे तो? [ श्री  
मोरारजी देसाओीना आमुख साथे ].

भावनगर, कान्तिलाल मणिलाल शाह,  
रू. १-०-०, १९४६, पृ. १०४. वि

शेठ, लीलावती. जुओ मुनशी, लीलावती.  
संस्कार साहित्य मंदिर (प्र) - 'सर्वे शुभोपमा

योग्य' महादेवभाओी. भावनगर, रू.  
२-८-०, १९४५, पृ. १० + २२४. वि

सरस्वतीचंद्र, स्वामी - जागृत भारत.  
राजकोट, स्वामी सरस्वतीचंद्र, ८ आना,

१९४२, पृ. १६ + २००. वि

सोतारामेय्या, डॉ. पट्टाभी - महासभानो  
इतिहास. अमदावाद, नवजोवन, रू.

२-०-०, १९३५, पृ ८७६. वि

राष्ट्रीय महासभाना सुवर्ण महोत्सवना  
अवसर पर प्रतिद्ध थवेला आ पुस्तकमां थे

संस्थानो पचास वरसुनो अने तेनी साथे ज  
राष्ट्रीय बुत्थाननो इतिहास आनी जाय छे.

सुंदरलाल, पंडित (अनु: भास्करराव  
विद्वांस) - भारतमां अंग्रेजी राज.

પુ. ૧, ૨. ગોંડિયા, ચતુર્ભુજ વિદ્યુલદાસ  
જમાણી; ૧ આ. ૧૯૩૮-૩૯; ૨ આ.  
૧૯૪૭, રૂ. ૧૮-૦-૦, પૃ. ૧૫૨+૧૨  
૨૯+૧૨. વિ

ગ્રંથની વિસ્તૃત પ્રસ્તાવનામાં લેખકે  
હિન્દુમુસ્લિમ પ્રશ્નની સુંદર ઢળવટ કરી છે.  
સોવાનો; અમર (પ્ર.) - ઑલ ઇન્ડિયા કોંગ્રેસ  
કમિટીની પંજાબ સ્વ-કમિટીએ નોમેલ  
પંચનો પંજાબમાં થયેલાં રમખાણોનો  
તપાસનો અહેવાલ. સુંવથી, ૧૨ આના,

૧ આ. સં. ૧૯૭૩, પૃ. ૪+૧૭૫. વિ  
પંડિત માલવીય, મોતીલાલ નેહરુ,  
ગાંધીજી, ચિત્તરંજન દાસ, અધ્વાસ તૈવજી,  
વૈ. જયકર અને સન્તાનમ એ પંચના સમ્યો  
હતા. અહેવાલનો ગુજરાતી અનુવાદ મહાદેવ  
દેસાઈએ કરેલો છે. ગાંધીજીની ગુજરાતી  
અનુવાદને યાસ પ્રસ્તાવના છે.

હાર્દીકર, નારાયણ સુવ્ચારાવ - ભારતીય  
રાષ્ટ્રવ્રજ. અમદાવાદ, સ. વા. વિનામદોર  
૩ આના, ૨આ. ૧૯૩૯, પૃ. ૪૬. વિ

## ૧૨. સામયિકો અને સંગ્રહો

ઐન્ડિયન ઓપીનિયન (અંગ્રેજી, હિન્દી,  
ગુજરાતી અને તામિલ ભાષામાં ચાલતું  
સાપ્તાહિક) - સં. મનસુલ્લાલ નાજર.  
ફીનિક્સ (નાતાલ), વાર્ષિક લવાજમ  
નાતાલમાં ૧૨૧ શિલિંગ, અને વહાર ૧૭  
શિ. શરૂ ૧૯૦૩ માં.

શ્રી નાજરનું નામ જોકે સંપાદક  
તરીકે જાહેર થયેલું તોપણ છાપાનો વધો  
જવાબદારી ગાંધીજીનો જ હતી. નાજર  
૧૯૦૬માં ગુજરી ગયા. છાપાની સ્થાપના  
થઈ ત્યારથી ગાંધીજી આફ્રિકા છોડી  
હિન્દુ આવ્યા ત્યાં સુધી છાપાને અંગે  
ગાંધીજીએ જ વધો જવાબદારી અદા કરી  
હતી (૧૯૦૩થી ૧૯૧૪).

તામિલ અને હિન્દી વિભાગ વહુ  
લોકમાન્ય થયા નહિ તેથી પાછલથી કમી  
કરવામાં આવ્યા. આ છાપા દ્વારા અપાયેલા  
લોકશિક્ષણ વિના દક્ષિણ આફ્રિકાનો  
સત્યાગ્રહ અશક્ય જ થાત, એમ ગાંધીજીએ  
પોતે જણાવ્યું છે.

કોલિયું (માસિક) - સં. નાનાભાઈ મદ્દ.  
આંવલા (ભાવનગર), ગ્રામદક્ષિણામૂર્તિ  
પ્રકાશન મન્દિર, વાર્ષિક લવાજમ રૂ.  
૩-૦-૦, ૧૯૪૫ ના ઑગસ્ટથી શરૂ. વિ  
કોંગ્રેસ પત્રિકા (ગુજરાત પ્રાંતિક સમિતિ

સંચાલિત) - અમદાવાદ, ગુજરાત પ્રાં. સમિતિ  
વા. લ. રૂ. ૨-૦-૦, શરૂ સપ્ટેમ્બર  
૧૯૪૭થી. વિ

લાદી સમાચાર પત્રિકા - સાવરમતી, સત્યા-  
ગ્રહાશ્રમ, લાદી સમાચાર વિભાગ ૧૯૨૩  
માં શરૂ.

ગાંધીજીનું નવજીવન - અમદાવાદ, નવજીવન,  
પુસ્તક ૧થી ૨૧, રૂ. ૧૦-૮-૦,  
૧૯૨૩-૨૪, પૃ સંખ્યા ૨૦૫૫.

ગાંધીજીએ નવજીવન શરૂ કર્યું ત્યારથી  
તેમને ૬ વર્ષનો કેદનો સજા થઈ અને  
તેઓ જેલમાં ગયા ત્યાં સુધીના તેમના  
લેખેલાં લેખાણો કાલક્રમાનુસાર આમાં  
આપેલાં છે. આ પુસ્તકો ૪ હાંડોમાં  
વંધાયેલાં મઝે છે.

હાંડ ૧ (પુ. ૧-૫) નવજીવનની  
શરૂઆતથી કલકત્તા કોંગ્રેસ સુધી. ૧૯૨૩,  
પુ. ૨ + ૪૮૪; રૂ. ૨-૧૦-૦. વિ

હાંડ ૨ (પુ. ૬-૧૨) કલકત્તા કોંગ્રેસથી  
વેશવાડા કાર્યક્રમના અંત સુધી. ૧૯૨૩,  
પુ. ૨ + ૪૮૫ થી ૧૨૧૬, રૂ. ૩-૧૦-૦. વિ

હાંડ ૩ (પુ ૧૩-૧૮) વેશવાડા  
કાર્યક્રમના અંતથી અમદાવાદનો મહાસભાનો  
વેઠક (૧૯૨૧) સુધી. ૧૯૨૩, રૂ.  
૩-૨-૦, પુ. ૨ + ૧૨૧૭ થી ૧૭૧૬. વિ

खंड ४ (पृ. १९-२१), अमदावादનો महा-  
सभायी गांधीजींनी हिन्दूनी प्रथम जेलयात्रा  
(१९२२) सुधी. १९२४, रू. १-१०-०,  
पृ. २ + १७१७थी २०५५. वि

सूचि तथा हांसियामां नोंडो साधे

नवजीवन (साप्ताहिक) - तंत्री : गीहनदास  
क. गांधी. अमदावाद, वार्षिक लवाजम  
रू. ३-८-०, आगळ जतां रू. ४-०-०.  
शरू ता. ७-९-१९१९थी. पहिलो अंक  
'गुजराती पंच' ना ता. ९-९-१९ ना  
वधारा तरीके वहार पडेलो. जानेवारी १४,  
१९३२ सुधी चाल्या पछी बंध पड्युं.

गांधीजीना जेलनिवास दरम्यान स्वामी  
थानंद, रामदास गांधी (वस्तुतः काकासाहेब  
कालेलकर), महादेव देसायी वगैरेणे तंत्री  
तरीके काम कर्युं हंतुं.

नवजीवन अने सत्य (मासिक) - सं.  
अब्दुलाल क. याज्ञिक. व्यवस्थापक क.  
मा. मुनशी अने वि. क याज्ञिक मुंबयी ने  
पाछळथी अमदावादथी प्रसिद्ध वर्ष. १थी ४,  
सन १९१५-१६ थी १९१८-१९. वार्षिक  
लवाजम रू. २-०-०, वार्षिक पृ. सं.  
आशरे ८७६.

गांधीजी, किशोरलाल मशरूवाळा,  
महादेव देसायी, शंकरलाल वैकर वगैरेनां  
लखाणी आ मासिकमां प्रगट थयां छे.  
५ मा वर्षनी १ अंक वहार पडथी हतो.  
सप्टेंबर १९१९मां आनुं. ज रूपांतर नव-  
जीवनमां थयुं अने तेनुं संपादन गांधीजी-  
णे माधे लीधुं.

प्यारा घापु (मासिक) - सं. नवीन गांधी,  
मुंबयी - विलेपारले, मोतीलाल तुलसीदास  
गांधी स्मारक तरफथी धीरेन गांधी. वा.  
लवाजम रू. ६-०-०, फेब्रुवारी १९४८थी  
शरू, मासिक पानां आशरे २०

गांधीजी विषेनां संस्मरणो, तेमना  
विचारीयाथी चूटेलां मोती, आश्रमवासीओ

पर लखेला तेमना पत्रो वि. आ मासिक  
द्वारा आपवानीं शरूआत थयी छे.

प्रस्थान (मासिक) - सं. रामनारायण वि.  
पाठक अमदावाद, गुजरात साहित्य मन्दिर,  
वार्षिक लवाजम रू. ५-०-०, शरू कारतक  
स. १९८२. मासिक पृ. सं. ७२नी  
आसपास.

संपादनना कार्यमां पाछळथी रसिकलाल  
परीख जोडाय्या अने प्रकाशन प्रस्थान  
कार्यालय तरफथी शरू थयुं. लगभग १२  
वस सुधी चोक्स धोरण मुजव आ भासिके  
व्यवस्थित काम कर्युं. थेटला समयना अकी  
ज गांधी साहित्यनी दृष्टिथी शुपयोगी गणाय.

प्रबुद्ध जैन (पाक्षिक) - सं. माणेकलाल  
मोकमचंद शाह. मुंबयी, जैन युवक संघ,  
१९३९थी शरू. वार्षिक लवाजम रू.  
२-०-०, शरू १ मे १९३९थी.

पाक्षिक सांप्रदायिक तो खरं ज. पण  
अने अनेक गांधीवादीओनी सहकार मळ्यो  
होवाथी गांधी साहित्यनी दृष्टिणे तेना  
अंकी शुपयोगी सामग्री गणाय.

वारडोली सत्याग्रह पत्रिका - सं. जुगतराम  
दवे. वारडोली, स्वराज्य आश्रम.

वारडोली सत्याग्रहेने अंगे १८५ खबर-  
पत्रो अने ५२ पत्रिकाओ नीकळेली. ते  
पछी आ पत्रिकाने कायमी साप्ताहिक स्वरूप  
आपवामां आव्युं. नियमित साप्ताहिकरूपे  
शरूआत २६ जानेवारी १९२९. वार्षिक  
लवाजम रू. २-०-०. १९३०नी लढतमां  
आ पत्रिकाना वधारा. नियमित वहार  
पडता हता.

युगधर्म (मासिक) - सं. अब्दुलाल क.  
याज्ञिक. अमदावाद अने मुंबयी, युगधर्म  
कार्यालय, वा. लवाजम रू. ६-०-०, पृ.  
संख्या मासिक आशरे ७२. शरू. वार्षिक  
१९७८ (सं.).

किशोरलाल मशरूवाळा, काकासाहेब कालेलकर वगैरे गांधीजींना साथीओना लेखो आ मासिकमां सारा प्रमाणमां जोवा मळे छे. लगभग ३ वरस मासिक चाल्युं. गांधी साहित्यनी दृष्टिची विशेष भुपयोगी.

**सधपूडो** (सत्याग्रह आश्रमनी शाळानुं हस्त-लिखित सामयिक) - सं. गिरिधारी कृपलानी अने धीजा. सावरमती आश्रमनी गुजराती शाळाना विद्यार्थीओ. वर्ष १थी ५.

**शिक्षण अने साहित्य** (मासिक) - सं. मगनभाभी प्र. देसाभी. अमदावाद, नवजीवन, वार्षिक लवाजम रू. २-०-०, पाछळथो रू. ४-०-०. शरू १९३९ ना ऑक्टोबर मासथी, मासिक पृ. सं. ४०.

केळवणी अने बीजा सामाजिक विषयोनी सर्वोदयनी दृष्टिभे चर्चा करतुं मासिक.

**सर्वोदय** (मासिक) - अमदावाद, मंजूर महा-

जन. १९३१मां शरू. हाल मासिक बंध छे. **सावरमती** (द्वैमासिक) - अमदावाद, गुजरात महाविद्यालयनुं विद्यर्थी मंडळ. वा. लवाजम रू. २-०-०. सं. १९७८ नी वर्षाथी शरू. १९८५. ना शिशिर सुधी छापेला रूपमां चाल्युं. पाछळथी हस्तलिखित स्वरूपमां केटअक अंको बहार पडेला.

आनी सायै 'विद्यापीठ' अने 'स्नातक विभाग' पाछळथी जोडवामां आत्र्या हता. **हरिजनबंधु** (साप्ताहिक) - सं. चन्द्रशंकर शुक्ल. पूना, आर्यभूषण प्रेस, वार्षिक लवाजम, रू. ४-०-०, १९३३थी १९४०; पुस्तक १थी ८. वर्ष ९मुं, अमदावाद, नवजीवन, १९४२, सं. महादेव देसाओ. ऑगस्ट १९४२ नी लडत शरू यतां जप्त. फरी १९४५थी प्यारेलालना तंत्रोपगा हेठळ शरू. हाल श्री मशरूवाळा तंत्रो छे.

# मराठी पुस्तके

## १. गांधी-चरित्र

त्रापटे (गुरुजी), पां. श्री - महात्मा गांधींचें ओह्वारतें दर्शन. येवळें, प्रभाकर दशरथ गुप्ते, २॥ आणे, १९४२, पृ. २४.

-पुढारो व अनुयायी. धुळें, भारत प्रकाशन, १० आणे, पृ. ६ + ४९.

शुपासक, दत्ताराम रंगनाथ - बापूजी अर्थात् मुलांचे महात्मा गांधी. १ आ. पुणे, लक्ष्मीदाओ द. शुपासक, दीड आणा, १९३१, पृ. १६; २आ. मुंबवी, दत्तराज प्रकाशन, १९४८, ६ आणे, पृ. २४. वि नव्या पुस्तकांत जुन्या आवृत्तीचा धुतलेख सुदां नाही !

-भगवान दरिद्रनारायण. पुणे, लक्ष्मीदाओ द. शुपासक, सवा आणा, १९३३, पृ. २०. गांधीजींचें व्यक्तित्व व कार्य.

केळकर, साधव सदाशिव - महात्मा गांधी (केशव ग्रंथमाला). पुणे, के. स. केळकर, ५ आणे, १९३१, पृ. ४८. वि

गांधी, मो. क. (अनु: शं. द. देव)

-महात्मा गांधी यांचा कारागृहवास. पुणे, शंकर हरि मुळे, ८ आणे, शके १८४३, पृ. ४ + ७९.

-(अनु: ग. ना. कानिटकर) - महात्मा गांधी यांचें आत्मवृत्त - भाग १ ला. पुणे, व्यं. द. हरोडीकर, ८ आणे, पृ. ४ + ९६.

-(अनु: तात्या नेमिनाथ पांगड) - महात्मा गांधी यांनी लिहिलेला 'स्वतः चा कारागृहवास.' मुंबवी, सरस वाङ्मय रत्नमाला, १० आणे, १९६७, पृ. १२ + ८७.

श्री न. चिं. केळकर यांची प्रस्तावना.

-(अनु: सीताराम पु. पटवर्धन) - महात्मा गांधींचे सत्याचे प्रयोग अथवा आत्मकथा. धुळें, राष्ट्रीय ग्रंथमाला, भाग १, रु. १-८-०, १ आ. १९२८; भाग २, रु. ०-१२-०, १ आ. १९३१, पृ. १० + ४०२, व. १६ + ३२६. वि

भाग २ यास कि. घ. मशरुवाळा यांची प्रस्तावना आहे.

नंतरच्या आवृत्त्या पुणे येथून सुलभ राष्ट्रीय ग्रंथमालेने प्रसिद्ध केल्या आहेत.

भाग १, आ. ३, १९३३, रु. १-०-०, पृ. १२ + ३१६; भाग २, आ. २, १९३३, रु. १-०-०, पृ. १२ + ३०७. वि

गांवकर, गो. ठ. - महात्मा. (महात्मा गांधींचें चित्रमय चरित्र). मुंबवी, अहल्याबायी गांवकर, ६ आणे, १९४८, पृ. ३२. वि प्रसंग बरे निवडले आहेत, परंतु चित्रे अगदीच गच्चाळ आहेत.

गोखले, अवन्तिकाबायी - महात्मा गांधी यांचें चरित्र, विशेष परिचय, लेख व व्याख्याने. मुंबवी, अवन्तिकाबायी गोखले, रु. १-०-०, १ आ. १९१८, पृ. ९६ + ४८ + १६० सचित्र. वि लो. टिळक यांची प्रस्तावना.

जयन्तकुमार, भीष्म - कर्मवीर महात्मा गांधी यांचा पोवाडा. यवतमाः, जयन्त-कुमार भीष्म, चार आणे, पृ. १३.

जावडेकर, शंकर दत्तात्रेय - लोकमान्य टिळक व महात्मा गांधी. पुणे, राजहंस

प्रकाशन - हलदुले, रु. २-०-०, १९४६,  
पृ. ६ + १२२. वि

टिळ्हा, पांडुरंग श्रीधर - महात्मा गांधी.  
मुंबळी, पां. श्री. टिळ्हा, ६ आणे, १९४८,  
पृ. ३२. वि

डोक, रेवर्ड जीसेफ (अनु: तुकाराम चिट्ठल  
ठाकुर) - दक्षिण आफ्रिकेंतोल करारी  
देशभवत मोहनदास करमचंद गांधी यांचें  
चरित्र. पुणें. तु. वि. ठाकुर, रु. १-४-०,  
१ आ. शके १८३५, पृ. २०+१८३. वि

दवे, जुगतराम (अनु: अरनोडकर, कृ. ना.)  
- अवतार अकरावा: महात्मा गांधी.  
मुंबळी, विष्णु श्रीधर दीक्षित, ३ आणे,  
१९३०; पृ. २+७२.

‘वाळकोना गांधी’चें भाषांतर.

- (अनु: शामराव पाटील) - गांधीजी. पुणें  
चित्रशाळा, १ आ. १९३०, पृ. ६+९४;  
२ आ. ८ आणे. वि

‘वाळकोना गांधी’चें भाषांतर. दुसरो  
मराठी आवृत्ति केवळ पहिलेचेंच पुनर्मुद्रण  
आहे.

गुजराती नव्या आवृत्तींत पुष्कळ  
नवीन मजकुर घातला गेल्या आहे परंतु तो  
या मराठींत आवृत्तींत घेण्यांत आलेला नाहीं.  
दामले, सोताराम के. - महात्मा गांधी.  
(चरित्र, कामगिरी व शिकवण). मुंबळी,  
भारतगौरव ग्रंथमाला, रु. ३-८-०, १ आ.  
१९२४, पृ. ६+५२०. वि

दिवाण, प्रभाकर - गांधीजींच्या सान्निध्यंत.  
मुंबळी, पद्म प्रकाशन, रु. ४-०-०, १ आ.  
१९४६, पृ. १६+१५२. वि

काकासाहेब कालेकर यांची प्रस्तावना.

देशपांडे, पुरुषोत्तम यशवंत - गांधीजीच  
कां? मुंबळी, महाराष्ट्र ग्रंथ भांडार,  
रु. १-८-०, १९४४, पृ. ४+८३. वि

‘भवितव्य’ साप्ताहिकांतील लेखमालेचें  
पुनर्मुद्रण.

देशपांडे, विनायक स्वयंकर - महात्मा  
गांधींचें नेतृत्व. मुंबळी, महाराष्ट्र ग्रंथभंडार,  
रु. १-८-०, १९४५, पृ. २६. वि

देशाजी, महादेव (अनु: धनुनाथ धते)  
- महात्माजींचो विलायतची यात्रा.  
मुंबळी, महाराष्ट्र ग्रंथभंडार, ८ आणे, १९४५,  
पृ. ८७. वि

धर्माधिकारी, दादा - गांधीजी (अेक दर्शन).  
नागपूर, वीणा प्रकाशन, ४ आणे, १९४६,  
पृ. २+१८. वि

अेक छोट्यात्ता निबंध.

परीख, वनमाला व नय्यर, सुशीला (अनु:  
ना. ग. जोशी) - आमच्या वा (त्यांचो  
जीवन - कस्तूरी) अमदावाद, नवजीवन,  
रु. २-०-०, १९४६, पृ. ८ + २१३. वि

महात्मा गांधींची प्रस्तावना

पाटील, शामराव रामचंद्र - गांधीजी.  
पहा दवे, जुगतराम.

पाध्ये, प्रभाकर - प्रकाशांतील व्यक्ति. पुणें,  
कॉन्टिनेन्टल प्रकाशन, रु. १-८-०, १९४१,  
पृ. १० + १२८. वि

गांधींचें व्यक्तित्व दर्शन. पृ. १ ते १२.

प्रभु, ह. रा. - आधुनिक भारताचे निर्माते  
व त्यांचो पार्श्वभूमि. मुंबळी, अधिकार  
प्रकाशन संस्था, रु. ३-८-०, १९४४.

फाटक, हरि गणेश - महात्मा गांधी. पुणें,  
कलागृह छापखाना. ८ आणे, १ आ.  
१९३९, पृ. १६ + १७६. वि

फिशर, लुसी (अनु: सत्यबोध हुदलोकर)  
- गांधीजींच्या सहवासांत अेक  
आठवडा. मुंबळी, पॉप्युलर बुक डीपो,  
रु. ३-०-०, पृ. ६ + १००.

बाबर, कृष्णराव भाभूराव - सत्याचे  
पुजारी. सातारा, कृ. भा. बाबर, ४ आणे,  
१९३०, पृ. ६ + ५४. वि

सॉक्रेटोस, गांधी अित्यादींचीं छोट्यां  
चरित्रें. अगदींच जुजबी.

विडला, घनश्यामदास (अनु : जोशी व तारकुडे) - बापू. पुणे, सुलभ राष्ट्रीय ग्रंथमाला, रु. १-८-०, १ आ. १९४३, पृ. १४४ वि

श्री महादेव देसायी यांची प्रस्तावना. भस्ते, प्रभाकर श्री. (प्र.) - पुण्यश्लोक गांधीजी. मुंबई, भारतगौरव ग्रंथमाला, रु. १-०-०, १-८-०, १९२२, पृ. ८ + २१५. सचित्र. वि

महात्मा गांधी यांच्या चरित्राचें व कार्याचें मूल्यांकन व गौरव करणारे देशविदेशी विद्वानांचे व वृत्तपत्रांचे २८ लेख यांत आहेत. अनुक्रमणिका नाही ! भावे, विनीता - तेरा दिवस. नालवाडी (वर्धा), ग्रामतेवा मंडळ, १९४८, पृ. ४८.

राधाकृष्णन्, सर सर्वपल्ली (सं.) (अनु : ना. ग. गौरे) - गांधीजींचें विविध दर्शन. पुणे, सुलभ राष्ट्रीय ग्रंथमाला, रु १-८-० १ आ. १९४०, पृ १८ + १८४. वि

गांधीजींच्या ७०व्या जन्मदिवशी त्यांना अर्पण केलेल्या सर राधाकृष्णन् संपादित अभिनेदनपर अंग्रजी ग्रंथातील निवडक लेखांचा मराठी अनुवाद.

रानडे, दा. पां. - कस्तुरबा (जीवनकथा) पुणे, चित्रशाळा प्रेस, ६ आणे, १९४५, पृ २ + ४६. वि

रायकर, राजानन काशीनाथ - सत्याग्रही अर्थात् जगद्गुरु महात्मा गांधी. मुंबई, तुकाराम पुं शेट्ये, ४ आणे, १९३१, पृ. ४ + ४८. वि

गांधीजींचें चरित्र, पृ. १ ते ३३ व राष्ट्रीय पथे, पृ. ३४ ते ४८.

राष्ट्रसेवक, अंक - महात्मा गांधी. (जन्म-पंडिका, कामगिरी, भुपसंहार, विचार-मंजूषा, पथे, दिनचर्या वगैरेंसह). खासापूर, द. गो. संस्कार, ८ आणे, १९२४, पृ. ८ + ९२ + २४.

वाङ्मय विशारद - महात्मा गांधी यांचें जीवनवृत्त. पुणे, सदाशिव के. भावे, ४ आणे, १९२४, पृ. ४३.

वैद्य, अेस्. व्ही. - जगद्गुरु महात्मा : चरित्रात्मक निबंध महाड, अेस्. व्ही. वैद्य, २ आणे, १९३०, पृ. २६.

शिखरे, दा. न. - गांधी जीवनकथा खंड १ला : सुमारे पन्नास छोपुरुषांनी लिहिलेल्या महात्माजींच्या आठवणी. पुणे, दा. न. शिखरे, रु ३-०-०, १९४४, पृ. १६ + २४४. वि

विविध क्षेत्रांत वावरणाऱ्या लोकांच्या गांधीजीविषयीच्या आठवणींचा संग्रह.

- महात्मा गांधी यांचें चरित्र. पुणे, सकाळ छापखाना, रु. ८ ०-०, १९४४, पृ. १८ + ५९२. सचि. वि

- राष्ट्रमाता कस्तुरबा. पुणे, महाराष्ट्र प्रांतिक कस्तुरबा स्मारक समिति, २ आणे, १९४४, पृ. ११. वि

सत्याग्रही - ग्रह आणि तारे: पुणे, देशमुख आणि कपनी, रु. ४-८-०, १९४३, पृ. १९८.

खेर, मुनशी, गांधी, वल्लभभाओ थित्यादि १२ लोकनायकांची चरित्रे यांत आहेत. गांधीजींचें चरित्र पृ. ५९ ते ८४

सरस वाङ्मय ग्रंथ प्रसारक मंडळी (प्र.) - १. माझा कारागृहवास; २. सैतानी चकर; ३ जर्मनीचें डावपेंच. पुणे सरस वा. ग्रंथमाला-रत्न १७ पै. पैको पहिलें पुस्तक गांधीजी-लिखित आहे. रु. २-१०-०, १९१७, पृ. १२ + ८७; २५१; १३३.

सरस्वती-नंदन - वॅरिस्टर गांधी यांचें चरित्र. पुणे, नारायण वळवंत चव्हाण, ४ आणे, १९१४, पृ. ४ + ६०.

साने गुरुजी, पां. स. - गोष्टोत्प गांधीजी. मुंबई, कर्नाटक पब्लिशिंग हाऊस, रु. १-८-०, १ आ. १९४४, पृ ४ + ११८. वि



- जीवन-प्रकाशन - पुष्प १ लें. कोल्हापूर,  
महाराष्ट्र ग्रंथभांडार, ३ आणे, १ आ.  
शके १८५९, पृ. ६ + २२.

यांत महात्माजींच्या जीवनातील तीन  
प्रसंग (पृ. १ ते ७) मुलांसाठी सोप्या  
भाषेत दिले आहेत.

## २. सत्याग्रह, अहिंसा, गांधीवाद अि.

अकचोटे, पु. गो. - अहिंसाच कां? धुळे,  
भारत प्रकाशन, १२ आणे, १९४५, पृ.  
५२. वि

कुळकर्णी, गोपाळ रा. - गांधीवादावरील  
आक्षेप व त्यांचीं उत्तरे. मुंबई, महाराष्ट्र  
ग्रंथ भांडार. रु. १-८-०, १ आ. १९४४,  
पृ. १०७. वि

कृपलानी, आचार्य (अनु: गुणे व निरंतर)  
- गांधीदर्शन. पुणे, देशमुख आणि  
कंपनी, रु. ४-०-०, १९४७, पृ. २+२०४.  
बिग्रजी 'गांधियन वे' चा अनुवाद.

कोसंबी, धर्मानन्द - हिन्दी संस्कृति आणि  
अहिंसा. मुंबई, धर्मानन्द कोसंबी, रु.  
१-८-०, १९३५, पृ. ८+३३२. वि

गांधी, मोहनदास क. (अनु: शं. द. देव)  
- असहकार योग [महात्मा गांधींच्या  
लेखांचा मराठी अनुवाद]. पुणे, लोकशिक्षण,  
१९२१, पृ. १६+१२२.

- अहिंसादर्शन (अहिंसेवरील निवडक लेख).  
मुंबई, महाराष्ट्र ग्रंथ भाण्डार, रु. १-८-०,  
१९४३, पृ. १०८. वि

- (अनु: वा. गो. आपटे) - गांधी-गीता  
अथवा विसाव्या शतकांतील कृष्णार्जुन  
संवाद. पुणे, आनंद मुद्रणालय, ५ आणे,  
१९१९, पृ. ४+९६.

- महात्माजींची उत्तर गीता (गांधी-गीतेचा  
दुसरा भाग). पुणे, आनंद मुद्रणालय,  
८ आणे, १९२०, पृ. ६+९५+१६.

गोगटे, नारायण कृष्ण (अं) - स्वराज्यतपस्या  
अथवा सत्याग्रह. पुणे, ना. कृ. गोगटे,

'स्रीताकान्त' - महात्मा गांधी. मुंबई,  
अ. जे. आवडे, २ आणे, १९२२, पृ. १६.

- महात्मा गांधी. मुंबई, गणेश महादेव  
आणि कंपनी, रु. २-४-०, १ आ.  
१९२४, पृ. २ + ३५१. वि

वै. जयकर यांची प्रस्तावना.

२ आणे, १९२१, पृ. ४+२५+२.

चौरधडे, वामन कृ. (सं) - अहिंसेची साधना.  
मुंबई, महाराष्ट्र ग्रंथ भांडार, रु. १-८-०,  
१९४५, पृ. १०८.

या संग्रहात ग्रेग यांच्या 'डिसिप्लिन  
फॉर नॉन-व्हायोल्न्स' या पुस्तिकेचा संपूर्ण  
अनुवाद असून विनोबा, काकासाहेब,  
मशरुवाळा व दादा धर्माधिकारी यांचे  
काही लेख आहेत.

जावडेकर, शंकर द. - गांधीवाद (वादविवेचन  
माला). पुणे, य. गो. जोशी, रु. १-४-०,  
१९४१, पृ. ४+१५५. वि

जोगळेकर, वी. जी. - गांधीभ्रमचें अंतिम  
स्वरूप. हेदवी (रत्नागिरी), वी. जी.  
जोगळेकर, ४ आणे, १ आ. १९३८, पृ. २६.

नांगर व राहाट टाकून देयून त्यांच्या  
बैवर्जी कुदळ व तकलीच्या प्रतिष्ठेची  
संभाव्यता यांत सांगितली आहे.

तळवळकर, गोपीनाथ - संगलधाम अथवा  
सुलभ गांधीवाद. पुणे, देशमुख आणि  
कंपनी, रु. ३-८-०, १९४६, पृ. १९०. वि

दिवाकर, रंगनाथ - सत्याग्रह. मुंबई, पद्म  
प्रकाशन. श्री कि. घ. मशरुवाळा यांची  
प्रस्तावना.

देव, शंकर द. - स्वराज्य सोपान. पुणे,  
शं. द. देव, १ आणा, १९२०, पृ. ४+३३.  
असहकारिता विषयक लेख.

देवगिरीकर, ज्यं. र. - गांधींचा अहिंसावाद.  
पुणे, चित्रशाळा, रु. २-८-०, १९४२,  
पृ. १०+२४५. वि

नेहरूकर, विष्णु कृष्ण - टॉल्स्टॉयचे तत्त्व-  
ज्ञान. मालवण, वि. कृ. नेहरूकर, ५  
आणे, १९२४, पृ. २ + ३०. वि  
'महात्मा गांधींच्या परंपरेचा भुगम  
दाखवणारे पुस्तक'

पटवर्धन, सीताराम पु. लुर्फ अप्पासाहेब  
- सत्याग्रह व स्वराज्य. नालवाडी  
(वर्धा), ग्रामसेवा मंडळ, रु. ३-०-०,  
१९४७, पृ. १८ + २४८ + ४. वि

गांधीजींचे पुरस्कारात्मक 'दोन शब्द'  
व काकासाहेब कालेलकर यांची प्रस्तावना  
'राष्ट्रीय जीवनातील अहिंसा' यांसह.

मनसुवाळा, किशोरलाल घ. (अनु: भाभू  
धर्माधिकारी) - गांधी विचारदोहन  
(गांधीजींच्या संमत्सिंह). पुणे, सुलभ रा.  
ग्रंथमाला, रु. १-४-०, १ आ. १९४०,  
पृ. १६ + २१८ + २. वि

गांधीजींचे विविध विषयांवरील विचार  
यांत १३ विभागांत वर्गीकरण करून दिलेले  
आहेत, संदर्भग्रंथ म्हणून अति शुपयुक्त.

राजदरेकर, गं. द. - गांधीसम. अमरावती,  
गं. द. राजदरेकर, ८ आणे, १९३४,  
पृ. १२ + ८९. वि

गांधींचा संप्रदाय व त्यांचे तत्त्वज्ञान.  
वामन गोपाळ (वीर वामनराव) जोशी  
यांची प्रस्तावना.

'रामनाथ' सुमन (अनु: 'शशिशेखर के.  
वेदक) - गांधी तत्त्वज्ञान [ मूळ ग्रंथांत

## २अ. सत्याग्रह लढ्यांचे इतिहास

कौजलगी, गणेश विष्णु - दारदोलीची  
शिखरेण अर्थात दारदोलीचा यशस्वी  
सत्याग्रह. भिसलानपुर, ग. वि. कौजलगी,  
८ आणे, १९२९, पृ. २ + ११४. वि

गांधी, मां. क. (अनु: दा. ल. महेता)  
- सान्नीसचे अमर जोदन. धुळे, भारत  
प्रकाशन, २ आणे, १९४५, पृ. ३४. वि

१९४७ पर्यंतची भर घालून अद्ययावद  
केलेला]. मुंबयी, महाराष्ट्र ग्रंथ भाण्डार,  
रु. ५-०-०, १९४७, पृ. ८ + २०९. वि

गांधीजींच्या लिखाणांतून विषयवार  
निवडलेल्या वेच्यांचा संग्रह.

लोटलीकर, सीताराम शिवराम (मीताकान्त)  
- मार्ग व मार्गदर्शन (स्वराज्य गीता).  
दापोली, रत्नागिरी, सी. शि. लोटलीकर,  
रु. १-४-०, १९२१, पृ. ४ + १७२.

अॅड्यूजचा लेख व गांधीजींचे विविध  
प्रश्नांवावटचे विचार, विशेषत: 'असहकारिता  
व तिची तत्त्वमीमांसा' व 'स्वराज्य  
संपादनाचे मार्ग.'

शिखरे, दा. न. - गांधी रणगीता. औंध,  
औंध पब्लिशिंग ट्रस्ट, रु. १-०-०,  
१९४८, पृ. ४ + ३२. सचित्र. वि

गांधीजींच्या सत्याग्रहाच्या लढ्यांचो  
हकीकत सांगून लढण्याच्या पद्धतीत  
गांधीजींनीं घडवून आणलेल्या क्रान्तीचा  
पुरस्कार यांत लेखकांनीं केला आहे.  
मुलांसाठी शुपयुक्त.

सीतारामय्या, डॉ. पट्टाभी (अनु: ग. भा.  
निरंतर) - गांधी आणि गांधीवाद. पुणे,  
देशमुख आणि कंपनी, रु. ४-०-०,  
१९४६, पृ. १८३.

'गांधी अॅण्ड गांधीसम' या दिखंडात्मक  
अंग्रजी ग्रंथाचा संक्षिप्त अनुवाद.

'अेक मत्ववीरनी कथा'चे भाषांतर.

देसाजी, महादेव ह. (अनु: पांडुरंग गणेश  
देशपांडे) - अेक धर्मयुद्ध [अमदावाद  
येथील गिरणी कामगारांच्या लढ्याचा  
इतिहास]. अमदावाद, नवजीवन, १४  
आणे, १ आ. १९४५, पृ. ८ + ९८. वि  
- (अनु: दोटालाल श्रॉफ) - दारदोली

सत्याग्रह-इतिहास. पुणे, चित्रशाळा, रु. १-८-०, १ आ. १९३१, पृ. १२+३७५. वि  
 महाराष्ट्र कायदेभंग मंडळ - महाराष्ट्रांतील  
 कायदेभंगाचा इतिहास (१९३०-३१).  
 पुणे, चित्रशाळा, ६ आणे, १९३१, पृ.  
 ४+१५८.

‘स्पष्टवक्ता’ - [मिरज संस्थानांतील सारा-  
 वाढ आणि रयतांचा सत्याग्रह. पुणे,  
 आर्यभूषण प्रेस, रु. १-०-०, १९२९,  
 पृ. १२+१६+२३९+४. वि  
 ग. वि. केतकरांचा शुपोद्घात व  
 ग. र. अभ्यकरांचो प्रस्तावना.

### ३. धर्मनीति

करंदीकर, जनार्दन स. - हिन्दुत्ववाद (वाद-  
 विवेचन माला). पुणे, य. गो. जोशी, रु.  
 २-०-०, १९४१, पृ. ८+२५५. वि  
 हिंसा व अहिंसा यांचें तात्त्विक स्वरूप,  
 पृ. १३४ ते १४५. ‘अहिंसेच्या प्रयोगा’स  
 स्थान नाही असें लेखक प्रतिपादन  
 करतात !

कालेलकर, द. घा. (अनु. भावू धर्माधिकारी) -  
 जिवंत व्रतोत्सव. पुणे, सुलभ रा. ग्रंथमाला,  
 रु. १-१२-०, १ आ. १९४०, पृ. १२+  
 २९२. २ आ. १९४८. वि

गांधी, मो. क. (अनु: वि. प्र. लिमये)  
 - अनासक्तियोग. [श्रीमद् भगवद्गीतेचा  
 अनुवाद-मूळ संस्कृत श्लोकांसह]. औष,  
 स्वाध्याय मंडळ, ४ आणे, १९३०, पृ.  
 ४+२६०.

- (अनु: भा. रा. धुरंधर) - गीताबोध. मुंबई,  
 भालचंद्र रावजी धुरंधर, ८ आणे, १९३१,  
 पृ. ६+७३.

- (सं. व अनु: यदुनाथ थते) - गांधीजींची  
 धर्मनीति. मुंबई, महाराष्ट्र ग्रंथ भांडार,  
 रु. १-८-०, १९४५, पृ. ४+८४. वि

- (अनु: अप्पासाहेब पटवर्धन) - गांधीजींचीं  
 पत्रे (‘आश्रमवासीओ प्रत्ये’चे भाषान्तर).  
 वर्धा, ग्रामसेवामंडळ, १० आणे, १९४७,  
 पृ. १६+१०४. वि

काकासाहेब कालेलकर यांची प्रस्तावना  
 - (अनु: सहधर्मी) - गांधीजींचीं पत्रे [‘मंगळ-  
 प्रभात’ व ‘आश्रमवासीओ प्रत्ये’ या

गुजराती पुस्तकांचें भाषांतर] मुंबई,  
 आत्माराम भारकर पण्डित, ४ आणे, १  
 आ. १९३३, पृ. सं ८+१०४; ८+१५२. वि

- (अनु: वि. स. सुखधनकर) - नीतिधर्म.  
 मुंबई, के. मि. ढवळे, ४ आणे, १९३२,  
 पृ. ३६.

- (अनु: वि. न. वरवे) - नीतिधर्मांतील  
 श्रेष्ठ व्रतें (जागृतिमाला पुस्तक २रें). धुळे,  
 विनायक नरहर वरवे, २ आणे, १९३१,  
 पृ. ८+३९.

‘व्रत विचार’ म्हणजेच ‘मंगळ प्रभात’  
 चा अनुवाद.

- (अनु: शिवराम भिमराजे परुळेकर) - मंगळ-  
 प्रभात. वसओ, शि. मि. परुळेकर, १  
 आणा, १९३२, पृ. ६+२२.

‘व्रतविचार’ चेंच नंतर ‘मंगळप्रभात’  
 हें नांव ठेवण्यांत आलें.

- (अनु: सहधर्मी) - मंगळ प्रभात. वर्धा,  
 ग्रामसेवा मंडळ, ४ आणे, १९४६, पृ.  
 ११२. वि

ज्यॉर्ज, जे. के. (अनु: शंकर विनायक ठकार)  
 - ख्रिस्तधर्मीयांस गांधींचें आह्वान.  
 नंदुरवार, खानदेश भीलसेवा मंडळ, रु.  
 ३-०-०, १ आ. १९४७, पृ. ६+३६  
 + १५०. वि

या ग्रंथांत विनोबा, काकासाहेब  
 अत्यादींच्या अेकंदर सहा प्रस्तावनांचें  
 संमेलन अनुवादकानें गोळा केलें आहे !

ड्यूरंट, विल (अनु : ना. सो. फडके)  
-आधुनिक गोता. मुंबई, रामकृष्ण  
बुक डोपो, रु. १-४-०, २ आ. १९४३,  
पृ. ४+९२. वि

‘ऑन दि मीनिंग ऑफ लाइफ’  
मधील कांहीं पत्रांचें भाषांतर. यांत ड्यूरंट  
वांनीं विचारलेल्या प्रश्नांचें गांधीजींनीं  
दिल्लें उत्तर-पत्र आहे.

बरवे, विनायक न. - आचार धर्म. धुळे,  
वि. न. बरवे, १ आणा, शके १८५२,  
पृ. ६+२६. वि

भावे, विनोबा - अमंग व्रतें. नालवाडी,  
ग्रामसेवा मंडळ, ६ आणे, १९४५, पृ.  
२+२५५. वि

- श्रीशावास्य-वृत्ति. वर्धा, ग्रामसेवा मंडळ, रु.  
१-८-०, १९४७, पृ. १०+१००. वि

‘श्रीशावास्य-बोध’ नांवाच्या हिन्दी  
प्रवचनासह.

- श्रीशावास्योपनिषद् (सार्थ व सट्टिप्पण).  
नालवाडी, ग्रामसेवा मंडळ, ४ आणे, १ आ.  
१९४४, पृ. २+२०+३. वि

- उपनिषदांचा अभ्यास [प्रस्तावना खण्ड].

वर्धा, ग्रामसेवा मंडळ, रु. २-०-०, १९४६,  
पृ. ४+१५५. वि

‘महाराष्ट्रधर्म’ मासिकांतील लेखांचा  
संग्रह.

- गोताओ [भगवद्गीता मराठींत]. वर्धा,  
जमनालाल बजाज, १ आणा, ५ आ.  
१९३५, पृ. ४+९८. वि

- गोताप्रवचनें. नालवाडी, ग्रामसेवा मंडळ,  
रु. २-८-०, १९४५, पृ. ४+२४६+२. वि

- स्थितप्रज्ञदर्शन. नालवाडी, ग्रामसेवा मंडळ,  
रु. १-८-०, १ आ. १९४६, पृ. २०+  
२३९. वि

तुरुंगांत असतांना दिलेलीं प्रवचनें.

राधाकृष्णन्, डॉ. सर्वपल्ली (अनु : बाळुभाभी  
महेता) - हिन्दुधर्माचीं मूलतत्वे आणि  
पुनर्घटना. पुणे, सुलभ रा. ग्रंथमाला, रु.  
२-८-०, २ आ. १९४७, पृ. १३०.

साने गुरुजी - गीताहृदय. पुणे, सुलभ रा.  
ग्रंथमाला, १२ आणे, ३ आ. १९४६,  
पृ. ७८. वि

श्री विनोबा भावे यांच्या ‘गीता  
प्रवचनें’चा साने गुरुजींनीं आपल्या  
शब्दांत सांगितलेला सारांश.

## ४. समाजविषयक : सामान्य

अतीतकर, वा. वि. (सं.) - खेडेगांव  
विषयक व्याख्यानें. पुणे, टिळक विद्यापीठ,  
रु. १-०-०, १९३०, पृ. ४ + १४१. वि

अग्रवाल, श्रीमन्नारायण (अनु : गोपीनाथ  
तळवळकर) - विद्यार्थ्यांसाठीं विधायक  
कार्यक्रम. पुणे, देशमुख आणि कंपनी,  
रु. १-०-०, पृ. ५४.

बेटकर, प्रेसा - हिन्दी स्त्रियांचें जीवन.  
(महाराष्ट्र कौशिल्य प्रकाशन ६). पुणे, चित्रशाळा,  
६ आणे, १९४५, पृ. २८. वि

बार्नाटकर, रा. ना. - स्वावलम्बी ग्राम-  
संघटना. पुणे, १९३१.

फालेलकर, द. वा. - जीवनसंस्कृति.  
कोल्हापुर, महाराष्ट्र ग्रंथमण्डार, रु. १-२-०,  
१९४३, पृ. ८ + ८६. वि

- हिंडलग्याचा प्रसाद. पुणे, सुलभ रा.  
ग्रंथमाला, ९ आणे, १९३४, पृ. १६ +  
२७७. वि

गांधीप्रणीत ग्रामपुनर्रचना कशा  
प्रकारें व्हावी या विषयावर गांधीसंग चर्चा  
करणारें दिशान्तरक पुस्तक.

- हिन्दूंचें समाजकारण. पुणे, सुलभ रा.  
ग्रंथमाला, रु. २-४-०, १९४६, पृ.  
१२ + १४४. वि

कुमारप्पा, भारतन् (अनु. माथू धर्माधिकारी) - पुंजीवाद, समाजवाद की ग्रामवाद. कोल्हापूर, महाराष्ट्र. ग्रंथभण्डार, रु. ५-०-०, १९४८, पृ. ८ + २८०.

म. गांधी यांची प्रस्तावना.

अमृतकौर, राजकुमारी (अनु: दा. न. शिखरे) - भगिनींचा सेवामंत्र. पुणे, महाराष्ट्र कस्तुरबा स्मारक निधि विनियोग समिति, ४ आणे, १९४६, पृ. २ + ३४. वि

गांधी, मोहनदास क. (अनु: साने गुरुजी) - खेड्यांत जाऊन काय करणार? ग्रामसेवेविषयी गांधीजींचे लेख. सुंवाभी, वी. पी. वेद, २ आणे, १९३३, पृ. ९६.

- (अनु. ल. गो. देशपांडे व माथू धर्माधिकारी) - गांधीजींचे स्त्रियांशीं हित-गुज [ प्रसिद्ध लेखांमधून व भाषणांमधून निवडलेलीं रत्नें ]. कोल्हापूर, महाराष्ट्र ग्रंथभण्डार, १ आ. १९४४; २ आ. १९४६, प्र. स. ज. धर्माधिकारी, कोल्हापूर, पृ. १६ + १७८, रु. २-८-०. वि

- (अनु: रमाकान्त वेलदे) - तेजस्वी तरुणी. पुणे, देशमुख आणि कं., रु. ४-०-०, १९४६, पृ. ६ + १८६. वि

- (अनु: माणिक, गजानन यशवंत) - दांपत्यांचे ब्रह्मचर्य. सांगली, गणेश विष्णु परांजपे, १९३१, पृ. २ + १४.

- रचनात्मक कार्यक्रम. पुणे, महाराष्ट्र रचनात्मक समिति, २ आणे, १९४२, पृ. २ + २५.

- (अनु: पां. ग. देशपांडे) - विधायक कार्यक्रम: त्यांचे रहस्य व स्थान. अमदावाद, नवजीवन, ६ आणे, १९४६, पृ. ४०. वि

१८ कलमी रचनात्मक कार्यक्रमाचो शेवटची आवृत्ति. उपयुक्त पुस्तकांच्या सूचिसह.

- (अनु: महादेव तु. वालावलकर) - संयम कीं स्वैराचार? भाग १ ला, पुणे, सुलभ राष्ट्रीय ग्रंथमाला, ८ आणे, १९३२, पृ. ६ + १३०. वि

- (अनु: माथू धर्माधिकारी) - संयम कीं स्वैराचार - खंड २ रा. पुणे, सुलभ रा. ग्रंथमाला, रु. १-१२-०, १९४५, पृ. ४ + १३८. वि

- (अनु: दत्तात्रेय वि. ताम्हणकर) - हिन्द-स्वराज्य. पुणे, द. वि. ताम्हणकर, प्रवर्तक कार्यालय, रु. १-०-०, १९४१, पृ. ८ + ९६. वि

अग्रजी भापांतरावरून केलेले भाषांतर.

- (अनु: पां. ग. देशपांडे) हिन्द-स्वराज्य. अमदावाद, नवजीवन, १२ आणे, १९४६, पृ. २४ + १०८. वि

मूळ गुजरातीवरून केलेला अनुवाद. महादेवभाभींच्या विस्तृत प्रस्तावनेसह.

पटवर्धन, सीताराम पु. (अप्पासाहेब) - सेवाधर्म. कोल्हापूर, महाराष्ट्र ग्रंथ भण्डार, रु. २-०-०, १९४५, पृ. १६ + १७६. वि

श्री कि. घ. मशहूवाळा यांची प्रस्तावना 'अथातो धर्मजिज्ञासा'.

महेता, बालुभाजी ल. - राष्ट्र संवर्धक कार्यक्रम (गांधीजीकृत विधायक कार्यक्रम व राजेन्द्रबाबूकृत कांहीं सूचना यांसह). धुळे, भारत प्रकाशन, रु. १-०-०, १९४२, पृ. १९ + १४९ + ३८ + १२. वि

राधाकृष्णन्, सर्वपल्ली (अनु: साने गुरुजी) - संस्कृतीचे भवितव्य. पुणे, सुलभ रा. ग्रंथमाला, रु. १-०-०, १९४१, पृ. ८४. वि

साने, पां. स. (गुरुजी) - भारतीय संस्कृति. पुणे, सुलभ रा. ग्रंथमाला, १ आ. १९३९; ४ आ. १९४६, पृ. ८ + २६३. वि

## ४ अ. अस्पृश्यतानिवारण

अभ्यंकर, व्ही. व्ही - बंडखोर महात्मा  
(महात्म्याच्या बंडाचा इतिहास). पुणे,  
व्ही. व्ही. अभ्यंकर, १९३३, १ आणा,  
पृ. ११.

अस्पृश्यता-निवारणाविषयी गांधीजींचे  
विचार.

गांधी, मो. क. (अनु. गंगाधर भा. निरंतर)  
- हिन्दुधर्मावरील कलंक (महात्मा गांधी  
यांचे अस्पृश्यताविषयक विचार). मुंबवी,  
भारतगौरव ग्रंथमाला, रु. १-१२-०,  
१९३४, पृ. १२ + २२१. वि

गुजराथी, फांतिलाल (अनुवाद) - हरिजन  
संत (शिरीषमाला-पृष्ठ ९ वें). पुणे, चित्र-  
शाळा, ८ आणे, १९४६, पृ. ४ + ४४. वि  
यांतील पांच कथांपैकी नंदाची कथा  
महादेवभाभी देसायी यांनी व कनकदासाची  
कथा कालेलकरांनी लिहिलेली असून नंदाच्या  
कथेस गांधीजींची प्रस्तावना आहे.

दलित सेवक (मासिक) - सं. वासुदेव न.  
वें. पाहा सामायिकांचा विभाग.

दिवेकर, महादेवशास्त्री - अस्पृश्योद्धार-  
विचार. वाधी, प्राज्ञ पाठशाला, १० आणे,  
१९३३, पृ. ८ + ४४. वि

देवधर, गोपाल कृष्ण - महात्मा गांधी  
यांची पत्रके. पुणे, १९३२

पटवर्धन, सीताराम पु. (अप्पासाहेब)  
- अस्पृश्यतानिवारण (महाराष्ट्र काँग्रेस

प्रकाशन, नं. १). पुणे, चित्रशाळा, ६  
आणे, १९४५, पृ. २२. वि

पाठक, श्रीधरशास्त्री (शंकरानंद भारती)  
- अस्पृश्यतेचा शास्त्रार्थ. धुळे, वि. ग.  
जावडेकर, रु. १-०-०, शेके १८५५,  
पृ. ४ + १० + २५४.

पुरंदरे, नाथ हरि - अस्पृश्यता व देवालय-  
प्रवेश. पुणे, गो. कृ. देवधर, १२ आणे,  
१९३३, पृ. १३८.

बागल, माधव खं. - स्वराज्याचा प्राज्ञ.  
कोल्हापूर, मा. खं. बागल, ६ आणे,  
१९३४, पृ. ८ + ८०. वि

माटे, श्रीपाद म. - अस्पृश्यविचार. पुणे,  
वाङ्मय विहार मंडळ, १० आणे, १ आ.  
१९२२, पृ. ४ + ६२. वि

- अस्पृष्टांचा प्रश्न. पुणे, शे. रा. दाते, रु.  
२-०-०, १९३४, पृ. २३ + ४६४ + १४४.

रानडे, विष्णु रघुनाथ (अनु.) - महात्मा  
गांधींची भीष्म प्रतिज्ञा. पुणे, चित्रशाळा,  
०-२-०, १९३२, पृ. २ + १३.

शिंदे, विठ्ठल रामजी - भारतीय अस्पृश्यतेचा  
प्रश्न. नागपूर, नवभारत ग्रंथमाला, रु.  
१-८-०, १९३३, पृ. २८८. संदर्भग्रंथांची

यादी व सचि. वि

हरिजनसेवक संघ (महाराष्ट्र शाखा) - वार्षिक  
अहवाल. धुळे, म. प्रां. हरिजन सेवक  
संघ, १९३३-३४ पासून सुरू.

## ४ ब. जातीय अक्षय (मुख्यत्वे हिन्दु-मुसलमान).

करंदीकर, शि. ह. - पाकिस्तानचे संकट.  
पुणे, रामराम लक्ष्मण करंदीकर, रु.  
२-०-०, १९४६, पृ. ६२ + २४०. वि

गांधी, महात्मा; नेहरु, जवाहरलाल; जि.  
- अखंड भारत [गांधी, नेहरु, आझाद  
बिलासपेचे स्फूर्तिदायक विचार]. मुंबवी,

महाराष्ट्र ग्रंथ भांडार, रु. १-८-०,  
१९४३, पृ. ९६. वि

जावडेकर, शंकर दत्तात्रेय - हिन्दु-  
मुसलमान अक्षय. पुणे, सुलभ राष्ट्रीय  
ग्रंथमाला, रु. ३-०-०, १९४५, पृ.  
६ + १९२. वि

जोशी, गणेश वामन - पाकिस्तान. पंढरपूर  
ग. वा. जोशी, रु. १-०-०, १९४२,  
पृ. ८ + १०६. वि  
दामले, माधव काशीनाथ (अनुः) - गांधो-  
जिना पत्रध्ववहार. पुणे, चित्रशाळा प्रेस,  
८ आणे, १९४४, पृ. ८ + ५१  
राजेन्द्रप्रसाद, बाबू (अनुः ना. ग. गोरे)

## ९. राजनीति

केतकर, डॉ. श्रीधर व्यं. - त्रिशस्त्रांचें  
राजकारण. पुणे, श्री. व्यं. केतकर, ८  
आणे, १९२६, पृ. ६ + १६४. वि  
केळकर, नरसिंह चिंतामण - राजकारण  
(समग्र केळकर वाढमय, खंड ४ था). पुणे  
मनोहर महादेव केळकर, १२ खंडांची किंमत  
रु. ६०-०-०. १९३८, पृ. ८ + १०११.  
- असहकारिता खंड (समग्र केळकर वाढमय  
खंड ५ वा). १९३८, पृ. ८ + १२४७.  
चित्रशाळा प्रेस (प्र.) - हिन्दी स्वातंत्र्याच्या  
योजना. पुणे, १२ आणे.

क्रिप्स योजनेपासून स्वातंत्र्य विला-  
पयंतच्या सर्व योजनांचा संगनवार अनुवाद.  
जावडेकर, शंकर द. - आधुनिक राज्य-  
मीमांसा खंड, १, २. पुणे, गणेश गं.  
जामेकर, लोकशिक्षण, खंड १ महायुद्ध  
पूर्व खंड. रु. १-०-०, १९४०, पृ.  
८ + १३४; खंड २ महायुद्धोत्तर खंड.  
रु. १-०-०, १९४१, पृ. ६ + १४६. वि  
- लोकशाही (वादविवेचन माला). पुणे,  
यशवंत गोपाळ जोशी, रु. १-०-०, १९४०,  
पृ. ४ + १७३. वि  
- समाजीक सहकारी स्वराज्य. पुणे, दा.  
न. शिवरे, ४ आणे, १९४६, पृ. २०. वि  
देवगिरीकर, झं. र. - अल्पसंख्याक. पुणे,  
चित्रशाळा, रु. २-८-०, १९४७, पृ.  
८ + १३८. वि

पुस्तकांत हिन्दु-मुसलमान प्रश्नाचीच  
चर्चा मुख्यत्वे आहे.

- द्विखंड हिन्दुस्तान. ऑथ, ऑथ  
प्रकाशन ट्रस्ट, रु. ११-०-०, १९४६,  
पृ. १६ + ६०४ + १२. वि  
शिंदे, बाळाजी रामजी - हिन्दु-मुसलमान.  
बटोदे, जागृति छापवना, १२ आणे,  
१९२५, पृ. १६ + २१६. वि

- घटना परिपट. पुणे, के. भेस. गुप्ते, रु.  
२-०-०, १९४६, पृ. १२७ वि  
पोलीटिकस (अनु. चि. व. जोशी) - महात्मा  
गांधींच्या ११ मागण्या. मुंबबी, चि.  
व. जोशी, ४ आणे, १९३१, पृ. ४३.  
राष्ट्रीय महासभेच्या लाहोर अधिवेशना-  
नंतर कायदेभंग सुरू करण्यापूर्वी स्वराज्या-  
चा गाभा किंवा स्वरूप म्हणून या मागण्या  
गांधीजींनी ब्रिटिश सरकारापुढे मांडल्या  
होत्या.

वागल, माधव खं. - सत्यशोधकांना  
अपारा अथवा नव्या पिढीचे राज-  
कारण. पुणे, मा. श्री. शिंदे, ६ आणे,  
१९३१, पृ. ८ + ९४ + १

भावे, विनोबा - स्वराज्यशास्त्र. नालवाडी-  
वर्धा, ग्रामसेवा मंडळ, ६ आणे, २ आ.  
१९४२, पृ. ८ + ८० वि

सावरकर, डॉ. वि. दा. - गांधी-गोंधळ.  
मुंबबी, महाराष्ट्र प्रकाशन संस्था, रु.  
१-०-०, १९४१, पृ. ४ + १०२. वि  
.गांधींच्या विचारसरणीची विकृत  
मांडणी करून टीका, विरोध, अपहास व  
जागजागी वैयक्तिक हल्ला.

सुलभ राष्ट्रीय ग्रंथमाला (प्र.) - महात्मा  
गांधी व हिन्दुस्थान सरकार यांजमधील  
समग्र पत्रध्ववहार. पुणे, सुलभ, ४  
आणे, १९४३, पृ. ४८. वि

१९४३ मधील शुपवासनाच्या वेळीं  
प्रसिद्ध झालेलीं पत्रे. अनुवादक ग. गं. जामेकर.

## ६. अर्थशास्त्र

अप्रवाल, श्रीमन्नारायण - गांधीप्रणीत  
अर्थयोजना. वडोद्रे, पन्नजा प्रकाशन, रु.  
३-१२-०, १९४६, पृ. ६ + १९८ + २.

म. गांधींची प्रस्तावना

कानिटकर, ग. ना. - दरिद्रनारायणाचे  
चरणी - भाग १ ला. पुणे, ग. ना.  
कानिटकर, ८ आणे, १९३१, पृ. ९६.  
कुमारप्या, जे. सी. व. महेता, वै. ल.  
- अहिंसेचे अर्थशास्त्र. मुंबाी, महाराष्ट्र  
ग्रंथ भाण्डार, रु. १-०-०, १९४६,  
पृ. २ + ४०. वि

दोन निबंधांचा मूळ अंग्रजीवरून  
अनुवाद.

गांधी, साहनदास क. (अनु. भायू धर्मा-  
धिकारी) - संपूर्ण स्वदेशी. पुणे, सुलभ  
रा. ग्रंथमाला, रु. २-४-०, १९४७,  
पृ. ८ + १४४. वि

फाटक, हरि गणेश - स्वदेशीची मीमांसा.  
पुणे, स. वि. वापट, १९२७, ४ आणे,

पृ. ८ + १३० + ४.

बागल, माधव खंडेराव - वेकारी, व  
तीवर अुपाय. कोल्हापूर, मा. खं. बागल,  
रु. १-०-०, १९३४, पृ. १२ + २४७. वि  
मसानी, विनू (अनु. अनंत काणेकर)  
- समाजवादाचा फेरविचार. मुंबाी,  
पद्य प्रकाशन, १९४५, पृ. ५८.

महेता, बाळुभाभी - वैभवशाली हिन्दु-  
स्तान. धुळे, बाळुभाभी महेता, ६ आणे,  
१९३०, पृ. ४ + ८६. वि

रस्किन, जॉन (अनु. डॉ. द. जावडेकर)  
- अर्थशास्त्र की अनर्थशास्त्र ? पुणे, सुलभ  
रा. ग्रंथमाला, रु. १-४-०, १९४१,  
पृ. ४४ + १०६. वि

अनुवादकाच्या विस्तृत प्रस्तावनेसह.

राष्ट्रीय मिलमजदूर संघ - औद्योगिक  
हितसंबंध कायद्याविषयी आमचा  
दृष्टिकोन. मुंबाी, राष्ट्रीय मि. म. संघ,  
६ आणे, १९४७, पृ. २ + ६२ + १९. वि

## ६ अ. अर्थशास्त्र : खादी

गांधी, हृष्यदास छगनलाल (सं.) - महा-  
राष्ट्र खादी पत्रिकेंतोल १९३३ ते  
१९३८ पर्यंतच्या निवडक लेखांचा  
संग्रह. मूळ, मध्यप्रांत महाराष्ट्र चरखा संघ,  
रु. १-०-०, १९३९, पृ. १२ + १८४  
+ २७ + ६. वि

यांत हिन्दी व मराठी दोन्ही भाषांतील  
लेख संग्रहित केले आहेत.

गांधी, मगनलाल खु. (अनु. करंदीकर)  
- खादीशास्त्र. देळगांव

जैनी, भोगीलाल - खादी : भारताचा  
सोवणसंग्र. पुणे, भोगीलाल जैनी, ४ आणे,  
१९३९, पृ. २ + १५७. वि

दण्ण, जगन्नाथ गणपत - सादली की  
माथुली ? महाराष्ट्र चरखा संघाच्या

सावलीच्या खादीकेन्द्रांत पाहिलेली कांहीं  
दृश्ये]. वर्धा, जगनलाल वजाज, ३ आणे,  
१९३४, पृ. ८ + ११२. वि

देवधर, केशव - खादी : अतिहास व कार्य  
(महाराष्ट्र काँग्रेस प्रकाशन, ४). पुणे,  
चित्रशाळा, ६ आणे, १९४५, पृ. २८. वि  
- वस्त्रस्वावलंबन मार्गदर्शिका. सासवड,  
के. ग. देवधर-प्रान्तिक रचनात्मक कार्य  
समिति, ३ आणे, १९४१, पृ. ४१. वि

आचार्य भागवत यांची प्रस्तावना  
- सरंजाम-परिचय. मूळ, महाराष्ट्र चरखासंघ,  
८ आणे, १९४१, पृ. ४ + १०२. वि

- सादली चरखा. सेवास्राम, अखिल भारत  
चरखा संघ, दीड आणा, १९४५, पृ.  
२ + १४. वि



- सुलभ पेळू. सेवाग्राम, अखिल भारत चरखासंघ, ३ आणे, १९४५, पृ. ४ + १९. वि देशसेवक (प्र.) - स्वदेशी व महात्मा गांधींचा चरखा. नागपूर, दीड आणा, पृ. २ + २९.

वागल, माधव खंडेराव - महात्माजींची कामधेनु. कोल्हापूर, माधव खंडेराव वागल, २ आणे, १९३१, पृ. ४ + ३४. वि महेता, बालुभाभी - अहिंसक समाजाचें प्रतीक खादो. मुंबाी, प्रांतिक काँग्रेस

कमिटी, ८ आणे, १९४५, पृ. ३२ वि - खादीमीमांसा. पुणे, सुलभ राष्ट्रीय ग्रंथ-माला, रु. १-८-०, सुधारून वाढवलेली २ री आवृत्ति १९३९, पृ. १२ + ३४५. वि आधारभूत ग्रंथांचा अल्प परिचय व त्यांची यादी व सूचि. १ ली आवृत्ति धुळे, शके १८५२.

वेचलेकर, नारायण वि. - खादीकार्य मीमांसा. फलटण, ना. वि. वेचलेकर, ४ आणे, १९३३, पृ. ४ + ५९. वि

## ६ आ. अर्थशास्त्र : ग्रामोद्योग

अखिल भा. ग्रा. यु. संघ (प्र.) - तांदूळ. वर्षा, अ. भा. ग्रा. यु. संघ, १२ आणे, १९४३, पृ. ६ + ६०. वि

कुमारप्पा, जगदीशचंद्र - ग्रामोद्योगाचें अर्थशास्त्र. पुणे, सुलभ रा. ग्रंथमाला, रु. १-४-०, १९४२, पृ. १४ + १४५. वि

कुमारप्पा, भारतन् (अनु. साने गुरुजी) - ग्रामोद्योग व ग्रामसंजीवन. पुणे, महाराष्ट्र प्रांतिक समिति, १९३५, पृ. ३९. वि

काँग्रेस मुवर्गमशेतसव पत्रकाचें भाषांतर.

दासगुप्त, सतोशचंद्र (अनु. वा. र. देशपांडे) - खेड्याकरितां कातडें कमावण्याची क्रोम पद्धति. वर्षा, अ. भा. ग्रा. यु. संघ, १९३८, पृ. ६ + २६. वि

पारनेरकर, य. म. - गौळ्व गाओचें संवर्धन. गोपुरी - वर्षा, गोसेवा संघ, ८ आणे, १९४६, पृ. ३४. सचित्र.

## ७. शिक्षण

अग्रवाल, श्रीमन्नारायण (अनु. गोरीनाथ तळवळकर) - विद्यार्थ्यांसाठीं विधायक कार्यक्रम. पुणे, देशमुख आणि कां., १ रुपया. १९४७, पृ. ५४.

अष्टपुत्रे, डॉ. रा. ना. - विद्यार्थी : १. संघटनात्मक कार्यक्रम. पुणे, महाराष्ट्र प्रांतिक विद्यार्थी काँग्रेस, ३ रुपये, १९४७, पृ. १६ + १९६. वि

कालेलकर, दत्तात्रेय बालकृष्ण - टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठ त्रयोदश वार्षिक पदवोदान समारंभ प्रसंगी केलेलें भाषण. पुणे, टिळक विद्यापीठ, १९३४, पृ. ३३. वि

- सातवी महाराष्ट्र राष्ट्रीय शिक्षण परिषद

(तळेगांव), अध्यक्षीय भाषण. अहमदाबाद, पां. ग. देशपांडे, १९३०, पृ. ३१. वि गांधो, मो. क. (अनु. भा. धर्माधिकारी)

- गांधीजींचें विद्यार्थ्यांशीं हितगुज [प्रसिद्ध लेखांमधून व भाषणांतून निवडलेलीं रत्नें]. (तरुण विदर्भ मधुमंदार माला - पुष्प १ लें). कोल्हापूर, महाराष्ट्र ग्रंथभांडार, रु. २-०-०, १९३४, पृ. ८ + ११२. वि

- (सं. व अनु. स. ना. कोकडेकर व ह. वा. देशपांडे) - पौरुषप्रदीप अथवा महात्मा गांधी यांचा ब्रह्मचर्यावरील लेख-संग्रह. अमरावती, हनुमान न्यायाम प्रचारक मंडळ, ८ आणे, शके १८४९, पृ. ६ + ९२. वि

टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठ - वार्षिक वृत्तान्त व पदवोदान प्रसंगी झालेली भाषणे. पुणे, कार्यवाह, टिळक विद्यापीठ. दिवाण, कुंदर बलवन्त - वस्त्रपूर्णा. सेवाग्राम, हिन्दुस्तानी तालीमी संघ, रु. १-०-०, १९४०, पृ. २४ + ३००. ९६ चित्रे. वि

[ शिक्षणाच्या दृष्टीने तकलीचा विचार व कार्यक्रम ].

दिवेकर, दि. वा. - राष्ट्रीय शिक्षण. पुणे, नरस वाडमय प्रचारक मंडळी, रु. १-९-०, १९२३, पृ. ४ + १३६. वि राष्ट्रीय शिक्षणाविषयीचे गांधीजींचे विचार पृ. १२७-१३०, वर त्यांच्या स्वतःच्या लेखांच्या रूपांने देभून नंतर लेखक अज्ञकारितेवर आग पाखडतात! परीख, नरहरि द्वा. (अनु. पां. ग. देशपांडे) - दयांत येणाऱ्या लुलोस अमदावाद, नवजीवन, रु. १-४-०, १९४७, पृ. ४ + १२५. वि

महादेव देसायी यांची ४ पत्रे, गांधीजींचे पत्र व दिचार व काकासाहेब कालेकर यांची पुरवणी यांसहित

भागवत, आचार्य स. ज. (सं.) - जीवन शिक्षण अर्थात वर्धाशिक्षण-योजना. पुणे, रा. ज. देशमुख, रु. ४-४-०, १९४५, पृ. २८८. वि.

- वर्धा शिक्षण (मासिक) - पाहा मासिकांचा विभाग.

## ९. आरोग्य, स्वच्छता अि.

गांधी, मोहनदास क. (अनु. रामचंद्र वा. गोटे) - रसास्थयसंरक्षण. मुंबई, का. रु. मित्र - मनोरंजन, ८ आणे, १९१५, पृ. १२ + १२०.

दिवाण, मनोहर ह. - महारोग. वर्धा, महारोगी सेवा मंडळ, १२ आणे, १९४०, पृ. १६ + १२४. वि

भावे, विनोबा - मूल अद्योग - कांतणे [ पाठयक्रमाचे शिक्षकासाठी केलेले स्पष्टीकरण ]. सेवाग्राम (वर्धा), हिन्दुस्तानी तालीमी संघ, ६ आणे, १९३९, पृ. ४ + ६२. वि

भिसे, शंकर रामकृष्ण व हरिश्चंद्र गो. पाटील - शेती शिक्षण - भाग १ला [ अखिल भारतीय शिक्षण संघाने वर्धा शिक्षण योजनेप्रमाणे तयार करविलेले ]. सेवाग्राम, हिन्दुस्तानी तालीमी संघ, १२ आणे, १९३९, पृ. ४ + १२५. वि

महाराष्ट्र राष्ट्रीय शिक्षण परिषद् - संमेलनांचे अहवाल व अध्यक्षींची भाषणे.

मोहनी, ह. कृ. व गोखले, ज. ग. - नवीन शिक्षणाचे अंतरंग. गेरंडोल, शं. मो. कावरे, ४ आणे, १९३८, पृ. ४ + २४. वि वॉशिंग्टन, बुकर टी. (अनु. नागेश वा. गुणाजी) - आत्मोद्धार. वेळगांव, ना. वा. गुणाजी, रु. १-०-०, १९१३, पृ. ३६ + २५२. वि

- माझे व्यापक शिक्षण. वेळगांव, ना. वा. गुणाजी, रु. १-४-०, १९१६, पृ. ४७ + २८२. वि

श्री कालेकरांच्या प्रकरणशः व सामान्य प्रस्तावनेमह

सहस्रबुद्धे, अण्णासाहेब व घागाओतकर, सदाशिव - महाराष्ट्रातील शिक्षण शिविरें. ऑथ, ऑथ पब्लिशिंग ट्रस्ट, रु. १-०-०, शके १८६९, पृ. ८ + ५८. वि

पटेल झवेरभाजी पु. (अनु. वाळुभायी महेता) - आहार आणि पोषण. धुळे, भारतप्रकाशन, १२ आणे, १९४५, पृ. ४ + ६०. वि गांधीजींची प्रस्तावना

महेता, वाळुभायी - ग्रामसफाई. शिवाजी-नगर-पुणे, महाराष्ट्र प्रां. समिति, ९ आणे, १९४६, पृ. २६. वि

## १०. साहित्य

- अष्टपुरे, रामकृष्ण ना. - नाशिकचीं द्राक्षें  
(फेब्रुवारी १९४३ मधोल महात्मार्जींच्या  
भुषवासाच्या वेळीं नाशिक जेलमध्ये लिहिलेली  
डायरी). धुळें, भारत प्रकाशन, रु. १-४-०,  
१९४५, पृ. ४ + ११५. वि
- कंटक, प्रेमा - काम आणि कामिनी. कोल्हा-  
पूर, महाराष्ट्र ग्रंथभांडार, रु. २-८-०,  
१९३७, पृ. १४ + ३६८. वि
- कालेलकर, द. वा. (अनु. पां. ग. देशपांडे)  
- जीवनांतील आनंद [ निसर्ग व कला-  
विषयक लेखांचा संग्रह ]. अमदावाद,  
नवजीवन, रु. २-८-०, १९४६, पृ.  
१६ + ३०५. वि
- साहित्याची कामगिरी. अमदावाद,  
नवजीवन, रु. १-०-०, १९४४, पृ.  
८ + १०८. वि
- कुलकर्णी, विश्वनाथ गणेश - काँग्रेसचा  
पोवाडा व खादीचा पोवाडा. मुंबवी,  
महाराष्ट्र ग्रंथभाण्डार, ४ भाणे, १९४१,  
पृ. ४२, श्री अप्पासाहेब पटवर्धनांच्या  
'ओळखी' सह. वि
- कृपलानी, आचार्य (अनु. भाबू धर्माधिकारी)  
- आचार्य कृपलानी (निवडक भाषणें  
व लेख यांचा संग्रह). पुणे, सुलभ राष्ट्रीय  
ग्रंथमाला, रु. ३-०-०, १९४७, पृ.  
२८ + १३८. वि
- श्री काकासाहेब कालेलकर यांच्या  
प्रस्तावनेसह
- क्षीरसागर, श्रीकृष्ण केशव - सुवर्णतुला.  
मुंबवी, पद्य प्रकाशन, रु. ३-०-०,  
१९४४, पृ. १६ + १३५. वि
- गांधी आणि गांधीवाद, पृ. १ ते ४५.
- गांधी, मोहनदास क. - आधुनिक फटके :  
फटका १ला - गांधी वाकसुधा. मुंबवी,  
प्रल्हाद बालकृष्ण सरदेशमुख, ३ भाणे,  
१९२१, पृ. २४. वि

- गांधीजींचे राजकीय विचार.
- गांधीजींची हांक. पुणे, महाराष्ट्र प्रां.  
समिति, ६ भाणे, १९४८, पृ. ३ + ३६. वि
- (अनु. पां. म. वापट व वा. कृ. भावे)  
- महात्मा गांधी यांचे सामर्थ्याचा  
विचार अथवा महात्मा गांधींचे निवडक  
लेख, भाग १ला. पुणे, शंकर हरि मुळे,  
१२ भाणे, १९२१, पृ. ८ + ११५.
- (अनु. वसंतमित्र) - महात्मा गांधींचीं  
पत्रें. मुंबवी, पां. ग. सहस्रबुद्धे, १०  
भाणे, १९२२, पृ. ८ + ४ + ११२. वि
- गांधीजींनी आपले पुत्र मणिलाल,  
देवीदास, वगैरेस लिहिलेलीं ८१ पत्रें डॉ.  
सावरकर यांची प्रस्तावना व गांधीजींच्या  
त्रोटक चरित्रासह
- (सं. शंकर वि. ठकार) - महात्मा गांधींचे  
स्वातंत्र्यप्रेरक विचार (हरिजन मधोल  
निवडक वेंचे). धुळें, बाळुभायी ल. महेता,  
६ भाणे, २ भा. १९४२, पृ. ६ + ६३  
+ ६. वि
- 'हिन्दुस्थान सोडून चालते व्हा'  
चळवळीच्या वेळचे लेख. पुस्तक सरकारनें  
जप्त केलें होतें.
- (सं. आचार्य कालेलकर) - वात्सल्याची  
प्रसाद दीक्षा (बेका आश्रमवासी सेविकेस  
आलेलीं महात्मार्जींचीं पत्रें). पुणे, सुलभ  
रा. ग्रंथमाला, रु. १-०-०, १ भा.  
१९३८, पृ. ८ + १३८. वि
- गोविन्दानुज - हुतात्मा महात्मा (१५ कवनें).  
धरणागांव, गो. गं. वाजपेयी.
- जावडेकर, आचार्य शं. द. - वाल्मीकि  
आश्रमांतोल प्रवचनें. पुणे, सुलभ रा.  
ग्रंथमाला, रु. १-०-०, १९४७, पृ.  
४ + ६४. वि
- जोशी, ना. ग. - जीवनयोग (बेक भाव-  
काव्य - कथा). पुणे, सन्ध्या प्रकाशन,

१२ आणे, १९४७, पृ. २२ + ४७. वि  
 आचार्य भागवत यांचो प्रस्तावना.  
 जोशी, अमृत महादेव - विभा-सुदर्शन.  
 नागपुर. अ. म. जोशी, १२ आणे, शेके  
 १८५६, १० + १०२. वि  
 गोर्धीचा संग्रह.

टॉरस्टॉय, लीओ (अनु. साने गुरुजी) -  
 कला म्हणजे काय? मुंबओ, कर्नाटक  
 पब्लिशिंग हायुस. रु. ३-०-०, १९४३,  
 पृ. २६ + ३०७. वि

ताडपत्रोकर, श्रीनिवास ना. - गांधी-टोपो  
 अर्थात् आत्मशुद्धि (नाटक). पुणे,  
 वाढमय विहार मंडळ, रु. १-०-०, १९२२,  
 पृ. ४ + ९९. वि

भागवत, आचार्य स. ज. - चौफुला. पुणे,  
 कोरडेकर. रु. १-०-०, १९४५, पृ. ४ +  
 ७२. वि

आधुनिक भारत, जीवन्योग, अि. चार  
 पुस्तकांच्या प्रस्तावनांचा संग्रह.

- जीवन आणि साहित्य (स्फुट लेखांचा  
 संग्रह). पुणे, सुलभ रा. ग्रंथमाला, रु.  
 २-०-०, १९४४, पृ. ८ + २००. वि

भावे, विनोद - जीवनदृष्टि (लेखसंग्रह).  
 मुंबओ, केशव भिकाजी ढवळे रु. १-८-०,  
 १ आ. १९४५, पृ. ६ + १६१, संपादक:  
 वा. कृ. चोरघटे.

२ आ. - १९४६, वर्षा, ग्रामसेवा मंडळ,

## ११. आधुनिक इतिहास

आपटे, पां. श्री. शुर्क आपटे गुरुजी - साने  
 गुरुजी (ओझरते दर्शन). धुळे, भारत  
 प्रकाशन, १२ आणे, १९४४, पृ. ४ + ६९. वि.  
 कंठक, प्रेमा - सत्याग्रही महाराष्ट्र. पुणे,  
 सुलभ रा. ग्रंथमाला, रु. ३-०-०, १९४०,  
 पृ. ३२ + ६९४ + २. वि

लो. टिळकांच्या मृत्यूपासून फेब्रुवरी  
 ०० त्रैमास्यतक्या महाराष्ट्राच्या राजकीय  
 ओपनाये निमण या पुस्तकांत केलेले आहे.

रु. १-८-०, पृ. ४ + १७०. वि  
 - मधुकर. वर्षा, जमनालाल वजाज, ८ आणे,  
 १ आ. १९३९, पृ. ८ + २२. ३ मुद्रण,  
 रु. १-८-०. वि

‘महाराष्ट्र धर्म’ साप्ताहिकांतील निवडक  
 लेखांचा संग्रह. यांत गांधीजींच्या सिद्धान्तांचें  
 व रचनात्मक कार्यक्रमांचें मुद्देसूद विवेचन  
 आहे.

- विचारपोथी. वर्षा, ग्रामसेवा मंडळ, रु.  
 १-०-०, १ आ. १९४४, पृ. १५६. वि  
 शिखरे, दा. न. - गांधीजींची देशाला  
 देणगी. पुणे, चित्रशाळा, ६ आणे,  
 १९४५. पृ. २२. महाराष्ट्र काँग्रेस प्रकाशन  
 - २. वि

शेजवलकर, ज्यंबक शंकर - शेजवलकरांचे  
 लेख - भाग १ ला. मुंबओ, ह. वि. मोटे,  
 रु. २-०-०, १९४७, पृ. २२ + २०४. वि  
 मो. क. गांधी, पृ. ५८ ते ६४.

सातपुते, बाळाजी लक्ष्मण - विजयी भारत.  
 पुणे, वा. स. सातपुते, १२ आणे, १९२८,  
 पृ. ८ + ९२.

कायदेभंगावर नाटक.  
 साने गुरुजी - गोड निबंध भाग १ ने ३.  
 पुणे, देशमुख आणि कंपनी. किमत प्रत्येकी  
 रुपये तीन.

‘काँग्रेस’ व ‘विद्यार्थी’ या सामयि-  
 कांतील लेखांचे संग्रह.

केळकर, नरसिंह चिंतामणि - गतगोष्टी  
 अर्थात् माझी जीवनयात्रा. पुणे, चरवंत  
 न. केळकर, रु. ५-०-०, १९३९, पृ.  
 १४ + ९९२. वि

- (सं. का. न. केळकर) - गेली पांच वर्षे  
 अर्थात् गेल्या पांचव्या वर्षांच्या राज-  
 कारणांतोळ स्थित्यंतराचा इतिहास. पुणे,  
 अनंत सहाराम गोडवे, रु. ३-०-०,  
 १९२६, पृ. २० + ६५२ + ८. वि

## १०. साहित्य

- अष्टपुत्रे, रामकृष्ण ना. - नाशिकचीं द्राक्षे  
(फेब्रुवारी १९४३ मधोल महात्मार्जींच्या  
भुववासाच्या वेळीं नाशिक जेलमध्ये लिहिलेली  
डायरी). धुळे, भारत प्रकाशन, रु. १-४-०,  
१९४५, पृ. ४ + ११५. वि
- कंटक, प्रेमा - काम आणि कामिनी. कोल्हा-  
पूर, महाराष्ट्र ग्रंथभांडार, रु. २-८-०,  
१९३७, पृ. १४ + ३६८. वि
- कालेलकर, द. वा. (अनु. पां. ग. देशपांडे)  
- जीवनांतील आनंद [ निसर्ग व कला-  
विषयक लेखांचा संग्रह ]. अमदावाद,  
नवजीवन, रु. २-८-०, १९४६, पृ.  
१६ + ३०५. वि
- साहित्याची कामगिरी. अमदावाद,  
नवजीवन, रु. १-०-०, १९४४, पृ.  
८ + १०८. वि
- कुलकर्णी, विश्वनाथ गणेश - फॉरेसचा  
पोवाडा व खादीचा पोवाडा. मुंबयो,  
महाराष्ट्र ग्रंथभांडार, ४ आणे, १९४१,  
पृ. ४२, श्री अण्णासाहेब पटवर्धनांच्या  
'ओळखी' सह. वि
- कृपलानी, आचार्य (अनु. भाबू धर्माधिकारी)  
- आचार्य कृपलानी (निवडक भाषणे  
व लेख यांचा संग्रह). पुणे, सुलभ राष्ट्रीय  
ग्रंथमाला, रु. ३-०-०, १९४७, पृ.  
२८ + १३८. वि
- श्री काकासाहेब कालेलकर यांच्या  
प्रस्तावनेसह
- क्षीरसागर, श्रीकृष्ण केशव - सुवर्णतुला.  
मुंबयो, पद्य प्रकाशन, रु. ३-०-०,  
१९४४, पृ. १६ + १३५. वि
- गांधी आणि गांधीवाद, पृ. १ ते ४५.
- गांधी, मोहनदास क. - आधुनिक फटके :  
फटका १ला - गांधी वाकसुधा. मुंबयो,  
प्रल्हाद बालकृष्ण सरदेशमुख, ३ आणे,  
१९२१, पृ. २४. वि

गांधीजींचे राजकीय विचार.

- गांधीजींचो हांक. पुणे, महाराष्ट्र प्रां.  
समिती, ६ आणे, १९४८, पृ. ३ + ३६. वि
- (अनु. पां. म. वापट व वा. कृ. भावे)  
- महात्मा गांधी यांचे सामर्थ्याबद्दल  
विचार अथवा महात्मा गांधींचे निवडक  
लेख, भाग १ला. पुणे, शंकर हरि मुळे,  
१२ आणे, १९२१, पृ. ८ + ११५.
- (अनु. वसंतमित्र) - महात्मा गांधींचीं  
पत्रे. मुंबयो, पां. ग. सद्गुरुदे, १०  
आणे, १९२२, पृ. ८ + ४ + १२२. वि
- गांधीजींनी आपले पुत्र मणिलाल,  
देवीदास, वगैरेस लिहिलेलीं ८१ पत्रें डॉ.  
सावरकर यांची प्रस्तावना व गांधीजींच्या  
नोटक चरित्रासह
- (सं. शंकर वि. ठकार) - महात्मा गांधींचे  
स्वातंत्र्यप्रेरक विचार (हरिजन मधोल  
निवडक वेंचे). धुळे, बाळुभायी ल. महेता,  
६ आणे, २ आ. १९४२, पृ. ६ + ६३  
+ ६. वि
- 'हिन्दुस्थान सोडून चालते व्हा'  
चळवळीच्या वेळचे लेख. पुस्तक सरकारनें  
जप्त केलें होतें.
- (सं. आचार्य कालेलकर) - वात्सल्याची  
प्रसाद दीक्षा (बेका आश्रमवासी सेविकेस  
आलेलीं महात्मार्जींचीं पत्रें). पुणे, सुलभ  
रा. ग्रंथमाला, रु. १-०-०, १ आ.  
१९३८, पृ. ८ + १३८. वि
- गोविन्दानुज - हुतात्मा महात्मा (१५ कवनें).  
धरणगांव, गो. गं. वाजपेयी.
- जावडेकर, आचार्य शं. द. - वाल्मीकि  
आश्रमांतोल प्रवचनें. पुणे, सुलभ रा.  
ग्रंथमाला, रु. १-०-०, १९४७, पृ.  
४ + ६४. वि
- जोशी, ना. ग. - जीवनयोग (बेक भाव-  
काव्य - कथा). पुणे, सन्ध्या प्रकाशन,

१२ आणे, १९४७, पृ. २२ + ४७. वि  
 आचार्य भागवत यांची प्रस्तावना.  
 जोशी, अमृत महादेव - विभा-सुदर्शन.  
 नागपुर. अ. म. जोशी, १२ आणे, शके  
 १८५६, १० + १०२. वि  
 गोर्धीचा संग्रह.

टॉलस्टॉय, लीओ (अनु. साने गुरुजो) -  
 कला म्हणजे काय? सुवओ, कर्नाटक  
 पब्लिशिंग हायुत. रु. ३-०-०, १९४३,  
 पृ. २६ + ३०७. वि

ताडपत्रोकर, श्रीनिवास ना. - गांधी-टोपो  
 अर्थात् आत्मशुद्धि (नाटक). पुणे,  
 वाळ्मय विहार मंडळ, रु. १-०-०, १९२२,  
 पृ. ४ + ९९. वि

भागवत, आचार्य स. ज. - चौफुला. पुणे,  
 कोषट्टेकर. रु. १-०-०, १९४५, पृ. ४ +  
 ७२. वि

आधुनिक भारत, जीवनयोग, वि. चार  
 पुस्तकांच्या प्रस्तावनांचा संग्रह.

- जीवन आणि साहित्य (स्फुट लेखांचा  
 संग्रह). पुणे, सुलभ रा. ग्रंथमाला, रु.  
 २-०-०, १९४४, पृ. ८ + २००. वि

भावे, विनोबा - जीवनदृष्टि (लेखसंग्रह).  
 सुवओ, केशव भिकाजी ढवळे रु. १-८-०,  
 १ आ. १९४५, पृ. ६ + १६१, संपादक:  
 वा. कृ. चोरघडे.

२ आ. - १९४६, वर्षा, ग्रामसेवा मंडळ,

रु. १-८-०, पृ. ४ + १७०. वि  
 - मधुकर. वर्षा, जमनालाल वजाज, ८ आणे,  
 १ आ. १९३९, पृ. ८ + २२. ३ मुद्रण,  
 रु. १-८-०. वि

‘महाराष्ट्र धर्म’ साप्ताहिकांतील निवडक  
 लेखांचा संग्रह. यांत गांधीजींच्या सिद्धान्तांचें  
 व रचनात्मक कार्यक्रमांचें मुद्देसूद विवेचन  
 आहे.

- विचारपोथी. वर्षा, ग्रामसेवा मंडळ, रु.  
 १-०-०, १ आ. १९४४, पृ. १५६. वि  
 शिखरे, दा. न. - गांधीजींची देशाला  
 देणगी. पुणे, चित्रशाळा, ६ आणे,  
 १९४५. पृ. २२. महाराष्ट्र काँग्रेस प्रकाशन  
 - २. वि

शेजवलकर, ज्यंनक शंकर - शेजवलकरांचे  
 लेख - भाग १ ला. सुवओ, ह. वि. मोटे,  
 रु. २-०-०, १९४७, पृ. २२ + २०४. वि  
 मो. क. गांधो, पृ. ५८ ते ६४.

सातपुते, बाळाजी लक्ष्मण - विजयी भारत.  
 पुणे, वा. स. सातपुते, १२ आणे, १९२८,  
 पृ. ८ + ९२.

कायदेभंगावर नाटक.  
 साने गुरुजो - गोड निबंध भाग १ ने ३.  
 पुणे, देशमुख आणि कंपनी. किमत प्रत्येकीं  
 रुपये तीन.  
 ‘काँग्रेस’ व ‘विद्यार्थी’ या सामयि-  
 कांतील लेखांचे संग्रह.

## ११. आधुनिक इतिहास

आपटे, पां. श्री. अर्क आपटे गुरुजो - साने  
 गुरुजो (ओझरते दर्शन). धुळे, भारत  
 प्रकाशन, १२ आणे, १९४४, पृ. ४ + ६९. वि.  
 कंटक, प्रेमा - सत्याग्रही महाराष्ट्र. पुणे,  
 सुलभ रा. ग्रंथमाला, रु. ३-०-०, १९४०,  
 पृ. ३२ + ३९४ + २. वि

लो. टिळकांच्या भृत्यापुस्तत फैझपूर  
 काँग्रेसपर्यंतच्या महाराष्ट्राच्या राजकीय  
 जीवनाचें चित्रण या पुस्तकांत केलेलें आहे.

केळकर, नरसिंह चिंतामणि - गतगोष्टी  
 अर्थात् माझी जीवनयात्रा. पुणे, यशवंत  
 न. केळकर, रु. ५-०-०, १९३९, पृ.  
 १४ + ९९२. वि

- (सं. का. न. केळकर) - गेलीं पांच वर्षे  
 अर्थात् गेल्या पांचसहा वर्षांच्या राज-  
 कारणांतोल स्थित्यंतराचा इतिहास. पुणे,  
 अनंत सखाराम गोखले, रु. ३-०-०,  
 १९२६, पृ. २० + ६५२ + ८. वि

-लोकमान्य टिळक यांचें चरित्र खंड ३ रा.  
पुणे, न. चि. केळकर, रु. ३-०-०,  
१९२८, पृ. ८ + ७०४. वि

गाडगोळ, पां. वा. - काँग्रेस आणि  
महासभा. दादर-मुंबाी, अधिकार प्रकाशन  
संस्था, रु. २-०-०, पृ. १२ + ११४

गांधी, मो. क. ; अब्बास तय्यबजी; सु.  
रा. जयकर ; व चित्तरंजनदास ( अनु.  
वा. गो. आपटे व वि. अ. ठोंबरे ) - पंजाब  
प्रकरण अर्थात् काँग्रेस सबकमिटीनें  
तयार केलेला रिपोर्ट. पुणे, शंकर हरि  
मुळे, रु. १-४-०, शके १८४२, पृ.  
४ + १३२

-(अनु. व सं. शंकर द. देव) - स्वराज्य शिष्टाश्री  
[ महात्माजींची गोलमेजपरिषदेतील भाषणे  
व अितर मुलाखती, संवाद वगैरे ]. पुणे,  
सुलभ रा. ग्रंथमाला, ६ आणे, १ आ.  
१९३१, पृ. ८ + १९५. वि

गोखले, के. जी. - आर्यावर्तीतील तेजस्वी  
रत्ने. वेळगांव, जे. जी. कुलकर्णी, १०  
आणे, १९३३, पृ. ११४.

महात्मा गांधींच्या प्रभावळीतील कांहीं  
मंडळींसह नथू व्यक्तींची चरित्रे.

चिन्नाव, सिद्धेश्वरशास्त्री - भारतीय अर्वा-  
चीन चरित्रकोश. पुणे, भारतवर्षीय  
चरित्रकोश मंडळ, रु. २०-०-०, १९४६,  
पृ. १४ + ६००. वि

हिन्दुस्थानचा आधुनिक इतिहास  
समजण्यास हा अेक महत्त्वाचा संदर्भ ग्रंथ  
आहे. गांधी, नेहरू, अिल्यादि लोकनायकांची  
चरित्रे अुल्लेखनीय होत.

जावडेकर, शंकर दत्तात्रेय - आधुनिक  
भारत. पुणे, सुलभ रा. ग्रंथमाला, रु.  
४-०-०, १९३८, पृ. १६ + ९३३.  
सचि. वि

या ग्रंथांत सन १८१८ पेशवाभी  
अखेरपासून आजतागायतचा म्हणजे जवळ

जवळ १२५ वर्षांचा भारतीय इतिहास  
विवेचिला आहे.

- भारतीय क्रान्ति आणि राष्ट्रीय महा-  
सभा. पुणे, दा. न. शिवरे, १२ आणे,  
१९४६, पृ. ४ + ४४. वि

- महायुद्ध आणि राष्ट्रसभा. पुणे, चित्रशाळा,  
६ आणे, १९४५, पृ. ५६. वि

- महाराष्ट्र व हिन्दी राजकारण. पुणे, छाया  
प्रकाश प्रकाशन. रु. १-०-०, १९४६,  
पृ. ६ + ६०. वि

- हिन्दी राजकारणाचें स्वरूप. अिस्लामपुर,  
शं. द. जावडेकर, ८ आणे, १९२४ (?),  
पृ. ६७. वि

जावडेकर, शं. द. व देवगिरीकर, ज्यं. र.

- काँग्रेसची अलीकडील कामगिरी  
म्हणजेच हिन्दुस्थानांतील स्वातंत्र्याच्या पूर्व-  
तयारीचा इतिहास. पुणे, महाराष्ट्र सेवादल,  
४ आणे, १९३२, पृ. ४ + ५४.

ठकार, शंकर विनायक - भिल्ल साधु  
आपश्री गुला महाराज यांचें चरित्र  
( भिल्ल समाजास पुनर्जन्म देणारे ). पुणे,  
सुलभ रा. ग्रंथमाला, ६ आणे, १९३८,  
पृ. ८ + ५२. वि

तळवळकर, गोपोनाथ - साधना. मुंबाी,  
पन्न प्रकाशन, रु. ३-०-०, १९४४, पृ.  
८ + २०४. वि

थत्ते, यदुनाथ - स्वयंसेवक चळवळी. पुणे,  
भारत प्रकाशन, ८ आणे, १९४६, पृ.  
४ + ३२. वि

देवगिरीकर, ज्यं. र. - वासुकाका जोशी  
व त्यांचा काल [ महाराष्ट्राचा गेल्या  
शंभर वर्षांचा राजकीय व सामाजिक इति-  
हास ]. पुणे, चित्रशाळा, रु. १०-०-०,  
१९४८, पृ. ८ + ६२९. वि

देशपांडे, गोपाळ आ. - काँग्रेस कथा. पुणे,  
गो. आ. देशपांडे, १ आ. १९३६; २ आ.  
१९४६, पृ. ४ + ३०४, रु. ४-८-०. वि

देसाजी, महादेव (अनु. प्रेमा कंटक)  
-स्नानबंधुंचा अल्प परिचय ('वे  
खुदाभी खिदमतगार' या गुजराती पुस्तकाचें  
भाषांतर). पुणे, सुल्भ रा. ग्रंथमाला, ९  
भाणे, १९३६, पृ. ६+९५. गांधीजींची  
प्रस्तावना. वि

नेहरू, जवाहरलाल (सं. विद्यार्थी)-आह्वान.  
कोल्हापूर, महाराष्ट्र ग्रंथभांडार, रु. १-०-०,  
१९४२. पृ. ११२. वि

-(अनु. ना. ग. गौरे)-आत्मचरित्र.  
पुणे, सुल्भ रा. ग्रंथमाला, १ आ. १९३८;  
२ आ. १९४७, पृ. १६+६५२, रु.  
१२-८-०. वि

परांजपे, वामन कृष्ण - काळकर्ते शिवरा-  
मपंत परांजपे यांचें जीवन चरित्र. पुणे,  
श्री. देशपांडे, रु. ५-०-०, १९४५,  
पृ. २६+६+३२०. सचित्र. वि

गंगाधरराव देशपांडे यांची प्रस्तावना.  
प्रकरण १२, १३ व १४ (पृ. २३३ ते  
२९३) असहकाराच्या काळासंबंधानें आहेत.  
पाटील, स. का. - काँग्रेसची पुनर्घटना.  
मुंबई, मु. प्रां. काँ. कमिटी, रु. १-०-०,  
१९४६, पृ. ६+७१. वि

पाध्ये, प्रभाकर व टिकेकर, श्रो. रा. - आज-  
कालचा महाराष्ट्र: वैचारिक प्रगति.  
मुंबई, कर्नाटक पब्लिशिंग हाथूस, रु.  
३-८-०, १९३५, पृ. १६+३६७. वि  
प्रकरण १६, विभाग ४, ५, ८  
अध्यादि गांधी, असहकारिता यांस अनुलक्षून  
अरित.

बागल, माधव खंडेराव - स्वराज्याचा शत्रु.  
कोल्हापूर, मा. खं. बागल, ६ भाणे, पृ.  
८+७०. वि

बापट, सदाशिव वि. (सं.) - लोकमान्य  
टिळक यांच्या आठवणी व आख्यायिका.  
पुणे, स. वि. बापट, खंड १-३. प्रत्येकीं  
तीन रुपये. खंड १-२ आ. १९२४, पृ.  
३४+५१८+११; खंड २-१९२५, पृ.

३८+६८०; खंड ३-१९२८, पृ. ६०+  
३५२+१७७+११. वि

ग्रंथाचा विषय लोकमान्य टिळक  
असला तरी अनेक राष्ट्रीय कार्यकर्त्यांनीं  
टिळक व गांधींची तुलना व त्यांच्या भेकत्र  
आठवणी दिल्या आहेत. विशेषतः भिग्र-  
जीतून हा प्रकार जास्त दृष्टीस पडतो.

भसे, प्रभाकर श्रीपत (प्र.) - काथुन्ट  
टॉलस्टॉय. मुंबई, भारत गौरव ग्रंथमाला,  
खंड १ ते ५. रु. ५-०-०, पृ. १०००  
वर. वि

भागवत, राजाराम स. - डॉ. वेझंट-चरित्र.  
मुंबई, महाराष्ट्र ग्रंथ भांडार, रु. ५-०-०,  
१९४७, पृ. २१२, सचित्र. वि

सनदशीर चळवळ निष्फळ ठरली  
नव्हती व गांधींच्या असहकारितेच्या  
चळवळीनें देशाचें नुकसान केलें असा  
सिद्धान्त लेखक प्रतिपादितात.

भिडे, रामकृष्ण गो. - स्वातंत्र्यदीप अथवा  
जगांतोल असहकारिता. पुणे, अ. स.  
गोखले, १ रुपाया, १९२४ पृ. १२+  
१४४. वि

असहकारितेचा वेगळाच अर्थ करून  
जगांतोल पांच देशांच्या स्वातंत्र्याच्या चळव-  
ळीचें वर्णन दिलें असून तो धडा हिन्दुस्तानां  
गिरवावा असें म्हटलें आहे. गांधीप्रणीत  
असहकारिता त्याज्य म्हटली आहे.

मेहेरयल्ली, युसुफ - भारत-नेते. मुंबई, पद्म  
प्रकाशन, रु. १-०-०, १९३, पृ. ४+४७.  
भेकंदर ९ चरित्रें आहेत.

राष्ट्रसेवादल, मुंबई - दस-ज्योत. ऑंध,  
ऑंध प्रकाशन ट्रस्ट, १९४६, पृ. ४+  
५९. वि

११ लेखांचा संग्रह.

राजपतराय लाला (सं. राम) - राजपतराय  
यांचें आत्मचरित्र व चरित्र. मुंबई,  
कर्नाटक पब्लिशिंग हाथूस. रु. ३-४-०,  
१९३१, पृ. १०+३१४. वि



शुत्तरार्धाचे लेखक गंगाधर दे. खानोलकर हे असून त्यांत (पृ. १९५ ते ३१२) लालाजीचें १९०७ ते २८ पर्यंतचे चरित्र दिलें आहे.

वैद्य, द्वारकानाथ - नारायण गणेश चंदावरकर. सुंवाभी, कर्नाटक प. हायुस, रु. ३-०-०, १९३७, पृ. ८ + ५६७. वि  
गांधीजींवरील हिन्दी लोकांच्या भवतोची मीमांसा, पृ. ५२४-२७.

साने (गुरुजी), पांडुरंग सदाशिव - नामदार गोखले चरित्र. पुणे, विश्वनाथ गणेश ताह्दनकर, रु. २-०-०, १९४५, पृ. ४ + १६५ + ११२ + १४. प्रो. पोतदार यांची प्रस्तावना. वि

## १२. सामयिकें व संग्रह

ग्रामसेवावृत्त (मासिक) - सं. वल्लभभाषी भगवानजी. नालवाडी (वर्धा), ग्रामसेवा वृत्त कार्यालय, वार्षिक वर्गणी रु. १-८-०, वि. स. १९३७ पासून सुरू; वंद १९४२ ऑगस्ट. विनोबा भावे यांचे व त्यांच्या मंडळाचें मासिक. वि

दलितसेवक (म. प्रां. ह. से. संघातर्फे पाक्षिक) - सं. वि. न. वरवे धुळें, वि. न. वरवे. वा. वर्गणी रु. १-०-०, अलोकडे २ रुपये झाली आहे. सातवें वर्ष चालू आहे.

नवभारत (मासिक) - सं. वि. म. वेडेकर वगैरे. पुणे, नवभारत कचेरी, वा. व. रु. ९-०-०, सुरू ऑक्टोबर १९४७. वि

मराठी हरिजन (साप्ताहिक) - सं. गोपाळ नरहर काळे, वर्धा. वा. व. रु. ५-०-०, १ मार्च १९४२ ते २३ ऑगस्ट १९४२. नंतर वंद. पुनः २४ मार्च १९४६ रोजी सुरू होवून १७ ऑगस्ट १९४७ नंतर वंद करण्यांत आलें.

महात्मा (मासिक) - सं. दा. न. शिखरे. वा. वर्गणी रु. ५-०-०, पृ. सं. मासिक

- विनोबाजी भावे. पुणे, संध्या प्रकाशन, रु. १-०-०, १९४४, पृ. ४+८३. वि

सारोळकर, द. ग. - भारत मातेची श्रेष्ठता अर्थात् मेयोच्या असत्य विधानांचें खंडन. सुंवाभी, भारत गौरव ग्रंथमाला, रु. १-१२-०, १९२८, पृ. ६+१९४. वि  
सोतारामेंच्या, डॉ. पट्टाभो - काँग्रेसचा अतिहास. पुणे, महाराष्ट्र काँग्रेस कनिदी, १९३५, रु. २-०-०.

हाडीसिंग, कृष्णा (अनुः साने गुरुजी) - ना खंत ना खेद. पुणे, देशमुख आणि कंपनी, १९४६, पृ. १९५.

नेहरु कुटुंबाचा अतिहास, व गांधीजींच्या संपर्कामुळें त्यांत घडून आलेली क्रान्ति यांत पाहावयास मिळेल.

२०. मे १९४७ पासून सुरू.

महाराष्ट्र खादी पत्रिका (मासिक) - वर्धा व नंतर मूळ, महाराष्ट्र चरखा संघ, वार्षिक वर्गणी रु. २-०-०, १९३३ पासून १९४१ पर्यंत. वि

‘खादी जगत’ सुरू झाल्यावर हें मासिक वंद करण्यांत आलें.

महाराष्ट्र धर्म (मासिक) - सं. विनोबा भावे. वर्धा, सत्याग्रहाश्रम, रु. १-८-०, १९२४ -२५ चे चार अंक निघाले. नंतर वंद. पृ १९२. वि

महाराष्ट्रधर्म (साप्ताहिक) - सं. विनोबा भावे. लोकशिक्षण (मासिक) - सं. गणेश गंगाधर जाभेकर. पुणे, लोकशिक्षण मंडळ लिमिटेड, वार्षिक वर्गणी रु. ४-०-०. आतां वंद.

वर्धा-शिक्षण (मासिक) - सं. आचार्य स. ज. भागवत. पुणे टिळक विद्यापीठ, १९३९-४०. अेक वर्ष चालून वंद पडलें.

सेवक (मासिक) - सं. कुंदर दिवाण. नालवाडी (वर्धा), ग्रामसेवा मंडळ. सुरू १५-१-४८; वा. व. ३ रुपये.

विनोबा व त्यांच्या मंडळाचें मुखपत्र.

## बंगाली पुस्तकें

अग्रवाल, श्रीमन्नारायण - गांधीजीर राष्ट्र-परिकल्पना. कलिकाता, पूर्वाशा लिमिटेड, रु. २-०-०.

‘गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन’का अनुवाद.

- गांधीजीर परिकल्पना. कलिकाता, पूर्वाशा लिमिटेड, रु. २-०-०.

‘गांधीयन प्लॅन’का अनुवाद.

- छात्रदेर गठनमूलक कार्यक्रम. कलिकाता, पूर्वाशा लिमिटेड, १२ आने.

- शिक्षार वाहन. कलिकाता, पूर्वाशा लि., ९ आने.

अनिल - दुनियादो शिक्षार कथा. कलिकाता, ओरिभेन्टल बुक कं०, रु. २-०-०.

आशुतोष लायवेरी (प्र.) - स्वाधीनतार अर्जलि. कलिकाता, रु. २-०-०.

काँग्रेस, अरुहयोग, सत्याग्रह, अँगस्ट '४२की क्रान्ति, अि०के विषयमें जानकारी देनेवाली बालोपयोगी पुस्तक.

काजी, अबदुल ओदुद - हिन्दु मुसलमानेर विरोध. (निजाम वक्तृता, १९३५ खिस्ता-दे विश्वभारतीने प्रदत्त). कलिकाता, विश्वभारती ग्रंथालय, रु. १-०-०, बंगाचद १३४२, पृ. १७ + ६२. वि

कृपालानी, आचार्य जीवतराम - अहिंसक विप्लव. कलिकाता, ओरिभेन्टल बुक कंपनी, ८ आने.

कृष्णादास - महात्मा गांधीजीर संगे सात मास. कलिकाता, १९२८.

काँग्रेस साहित्य संघ - गांधीजीवनेर घटना-पञ्जी. कलिकाता, बेंगॉल पब्लिशर्स, रु. १-०-०.

खादी प्रतिष्ठान (प्र.) - आश्रम भजनावलि. कलिकाता, ४ आने, २ आ. १९४६, पृ. ९६.

गंगोपाध्याय, विनयकुमार - मृत्युञ्जय गांधीजी. कलिकाता, आशुतोष लायवेरी, रु. २-०-०.

गांधी मोहनदास क. (सं. विनयकृष्ण सेन) - अस्पृश्येर मुक्ति. कलिकाता, अमय आश्रम, १२ आने, १ सं. १३३२ (वं.), पृ. १६ + १४१. वि

अस्पृश्यतानिवारणके विषयमें गांधीजीके बिलावा और चंद लेखकोंके लेख भी अिस पुस्तकमें संगृहीत है।

-(अनु : सतीशचंद्र दासगुप्त) - आत्मकथा अथवा सत्येर प्रयोग खण्ड १-२. कलिकाता, खादी प्रतिष्ठान, प्रति खंड १२ आने, १९३१, पृ. २० + ४१७; १० + ४१४ सूचि. वि

- आरोग्य दिग्दर्शन. कलिकाता, ओरिभेन्टल बेजन्सी, रु. १-१२-०.

मूल गुजरातीसे अनुवादित

-(अनु : नरेन्द्र दे) - गान्धी गवर्मेन्ट पत्रालाप - १९४२-४५. कलिकाता, ध बुक हायुस, रु. ३-१२-०, १९४७, पृ. २६ + ४०६. वि

-(अनु : प्रभात वसु) - गांधीजीर वाणी. कलिकाता, अिंडियन अॅसोसियेशन पब्लिशिंग कंपनी, ८ आने, १९४५, पृ. ४ + २८. वि

-(अनु : प्रफुल्लचंद्र घोष तथा कुमारचंद्र जाना) - गीताबोध. (श्रीमद् भगवद् गीतार तात्पर्य). कलिकाता, ओरिभेन्टल बुक कंपनी, १२ आने, १९४७, पृ. ११०. वि

-(अनु : सतीशचंद्र दासगुप्त) - जीवनव्रत वा गान्धीवाद. कलिकाता, खादी प्रतिष्ठान, १ आ. १९३१; २ आ. १९४७, रु. १-०-०, पृ. ८२. वि

- ‘मंगल प्रभात’ अथवा व्रतविचार, ‘नीतिधर्म’ और ‘सर्वोदय’ का अनुवाद.
- (अनु: सतीशचंद्र दासगुप्त) - दक्षिण आफ्रिकार सत्याग्रहेर अतिहास. कलिकाता, खादी प्रतिष्ठान, रु. १-०-०, १९३१, पृ. ४६०. वि
- नीतिधर्म वा गान्धोजीर सुपदेश. कलिकाता, सरस्वती लायब्रेरी.
- (अनु: हेमन्द्रलाल राय) - विलाते भारतेर दावी. कलिकाता, खादी प्रतिष्ठान, ८ आने, १९३१, पृ. १५६. वि
- (अनु. अनाथनाथ वसु) - महात्मा गांधीर फाराकाहिनी. कलिकाता, १९२३. हिन्दी भाषांतरसे अनुवादित.
- (अनु: सतीशचंद्र दासगुप्त) - येरोडा जेलेर अभिज्ञता. कलिकाता, खादी प्रतिष्ठान, ८ आने, १९३१, पृ. ५८ + १४४. वि
- ‘गांधीजीर जोवनकथा’ ३९ पृष्ठोंमें परिचयके तौरपर अस पुस्तकमें अनुवादक महाशयनें दी है।
- (अनु: स. चं. दासगुप्त) - शिक्षा ओ सेवा. कलिकाता, खादी प्रतिष्ठान, ८ आने, १ आ. १९३१, पृ. ८ + ११६. ‘गांधी शिक्षण माला’ (गुजराती) के शिक्षण विषयक भागमेंसे चुने हुअे लेखोंका और गुजराती ‘गामडानी वहारे’ का अनुवाद.
- सत्याग्रह ओ पाञ्जावकाहिनी. कलिकाता, सरस्वती लायब्रेरी.
- (अनु: हेमन्द्रलाल राय) - संयम वनाम स्वेच्छाचार. कलिकाता, खादी प्रतिष्ठान, ८ आने, १ आ. १९३१, पृ. ८ + ११५.
- (अनु: स. चं. दासगुप्त) - स्वराज संगठन: गठनमूलक कर्मपद्धतिर अर्थ ओ स्थान. कलिकाता, खादी प्रतिष्ठान, १ आ. १९४१; २ आ. १९४६, ६ आने, पृ. ३९.
- स्वास्थ्य सुपाय. कलिकाता, सरस्वती लायब्रेरी.
- (अनु: स. चं. दासगुप्त) - स्वास्थ्यरक्षा. कलिकाता, खादी प्रतिष्ठान, ८ आने, १९३१, पृ. १४९.
- (अनु: स. चं. दासगुप्त) - हिन्दुस्वराज्य. कलिकाता, खादी प्रतिष्ठान, १ आ. वं. १३३७. वि २ आ. १२ आने, १९४७, पृ. ८६.
- (अनु: स. चं. दासगुप्त) - हिन्दुधर्म ओ अस्पृश्यता. कलिकाता, खादी प्रतिष्ठान, ५ आने, १ आ. १९३०, पृ. १० + १०७. गांधी, मो. क. और दासगुप्त, सतीशचंद्र - श्रीमद् भगवद्गीता-गांधीभाष्य (दासगुप्त संकलित). कलिकाता, खादी प्रतिष्ठान, १ आ. १९३०; वि ५ आ. १९४६, रु. २-०-०, पृ. ४२०.
- पुस्तकके दो विभाग है। पहले विभागमें सतीश वाचूने गीताके सिद्धान्तोंकी समालोचना की है। दूसरेमें गीताके मूल सरकृत श्लोक देकर उसके नीचे गांधीजीके अनासक्तियोगका वांगल्य अनुवाद दिया है। हरेक अध्यायका भावार्थ और गीताके श्लोकोंकी अकारादि क्रमसे सूचि भी दी है।
- गुप्त, नीहाररंजन - विद्रोहो भारत. कलिकाता, अशुतोष लायब्रेरी, रु. ३-८-०, पृ. १७०.
- गुह, अरुणचंद्र - काँग्रेसपथ. कलिकाता, सरस्वती लायब्रेरी, रु. १-८-०, पृ. ९४.
- घोष, अतुल्य - नोआलालीते गांधीजो. कलिकाता, इंडियन अँसोसियेटेड पब्लिशर्स.
- हिंसा ओ गांधी. कलिकाता, इंडियन अँसोसियेशन पब्लिशिंग कं., रु. २-०-०, पृ. १०८.
- चक्रवर्ती, जितेन्द्रकुमार - सूत्रविज्ञान. कलिकाता, निखिल भारत चरकासंघ, ४ आने पृ. २४.
- चक्रवर्ती, भक्तितीर्थ सुमेश-कलिर दधीचि. रु. १-०-०.

**चट्टोपाध्याय कालीपद** - अंतिमे गांधीजी.  
कलिकाता, अशुतोष लायन्नेरी, रु. १-४-०.  
**चट्टोपाध्याय, हरपद** - गांधीजीके जानते  
हले. कलिकाता, अशुतोष लायन्नेरी,  
रु. १-८-०.

गांधी - मतविषयक कुछ लेख और  
शुनकी जीवनी.

**चौधुरी, मणीन्द्रभूषण** - महात्मा गांधी.  
कलिकाता, सरस्वती लायन्नेरी.

**गङ्कर, रवीन्द्रनाथ** - महात्मा गांधी. कलि-  
काता, विश्वभारती, रु. १-०-०, १९४८,  
पृ. ८ + ५८. वि

महात्माजीके विषयमें श्री रवीन्द्रनाथके  
लिखे हुये काव्य, प्रबंध और भाषणोंका  
संग्रह.

- **शिक्षा** कलिकाता, इंडियन पब्लिकेशन  
हाथुस, ८ आने, पृ. १४२. वि

- **सम्यत्तर संकट** [ आशि वत्तर वयस पूर्ण  
होवा शुपलक्षे जन्मोत्सवे अभिभाषण ].  
कलिकाता, विश्वभारती ग्रंथमाला, ४ आना,  
१ आ. १३४८ (वं.), पृ. ११. वि

- **समाज.** भिलाहावाद, इंडियन प्रेस, १४  
आने, २ आ. १९१८, पृ. १३२ वि

- **स्वदेश.** कलिकाता, बि. प. हाथुस, ८  
आने, पृ. ११९. वि

**तुलसीदास (अनु: स. चं. दासगुप्त)** -

**तुलसीदासेर रामायण.** कलिकाता, खादी  
प्रतिष्ठान, १ आ. १९३४; २ आ. १९४६,  
रु. ६-०-०, पृ. ६२२.

**दत्त, कार्तिकचन्द्र** - स्वराज्यसाधना.  
कलिकाता

**दत्त, नगेन्द्रनाथ** - विप्लवेर पथे काँग्रेस.  
कलिकाता, सरस्वती लायन्नेरी, रु. १-८-०.

**दत्त, मणीन्द्रनाथ** - गांधीजीर अग्निपरीक्षा.  
कलिकाता, मित्र अँड घोष, रु. २-४-०.

अमीय चक्रवर्तीर प्रस्तावना सहित.

**दत्त, सत्येन्द्रनाथ** - गांधी-कीर्तन (काव्य).  
कलिकाता, १३३९. (वं.)

**दांतवाला, मोहनलाल** - गांधीवादेर पुनर्वि-  
चार. कलिकाता, ओरिभेन्टल बुक कंपनी,  
१२ आने.

**दास, अमोयकुमार** - भारतेर राजकीय  
ऋण. गुराहादी, १९३३.

**दासगुप्त, विजयभूषण** - महामानव महात्मा.  
कलिकाता, भे. मृकजी अँड कं., रु. २-८-०.  
जीवन आलोचना. सचित्र.

**दासगुप्त, सतीशचन्द्र** - कार्पासशिल्प.  
कलिकाता, खादी प्रतिष्ठान, १२ आने,  
१ आ. १३३२ (वं.), पृ. ८ + १६० + ८.  
सचि. वि

'कॉटन' नामकी ग्रंथकर्ताकी अंग्रेजी  
पुस्तकका यह अनुवाद है ।

- **चरकार व्यवहार.** कलिकाता, खादी प्रतिष्ठान,  
४ आने, पृ. ३२. आकृतियोंके सहित. वि

- **चरका ओ मिल.** कलिकाता, खादी प्रतिष्ठान,  
२ आने, १ आ. १९२८, पृ. ३२.

- **वस्तिर गल्प.** कलिकाता, खादी प्रतिष्ठान,  
रु. १-०-०, १९३२, पृ. १३०.

- **वाँसेर चरखा.** कलिकाता, खादी प्रतिष्ठान,  
रु. १-०-०, ३ आ. १९४७, पृ. ४६.

- **भारतेर सभ्यता.** कलिकाता, खादी  
प्रतिष्ठान, ८ आने, १९३१, पृ १२७.

- **भारतेर साम्यवाद.** कलिकाता, खादी  
प्रतिष्ठान, १ आ. १९२९; २ आ. १९३०,  
८ आना, पृ. ६ + १२६.

- (सं.) - **राष्ट्रवाणी** (साप्ताहिक).

**देसायी, महादेव** (अनु: हेमेश्वरलाल राय)  
- **विलाते गांधीजी.** कलिकाता, खादी  
प्रतिष्ठान, १२ आने, १९३१, पृ. ३०१.

- (अनु: स. चं. दासगुप्त) - **वारडोली  
सत्याग्रह.** कलिकाता, खादी प्रतिष्ठान,  
रु. १-०-०, १९३०, पृ. ३५१

- (अनु: स. चं. दासगुप्त) - **सिंहले गांधीजी.**  
कलिकाता, खादी प्रतिष्ठान, १० आने,  
१९३१, पृ. २०४.

धर, धीरेन्द्रनाथ - स्वाधीनतार संग्राम.  
कलिकाता, आशुतोष लायब्रेरी, रु. ३-०-०.  
नेहरू, जवाहरलाल - पंडित जवाहरलाल  
नेहरू आत्मचरित. कलिकाता, श्री गौरांग  
प्रेस.

पाल, आदिनाथ - भारतेर मुक्तिसंग्राम -  
प्रथम खंड. कलिकाता, पुस्तकालय,  
रु. ५-०-०.

१८५७के गदरसे १९२०के असहयोग  
तकका इतिहास इस खंडमें है।

फिशर, लुभी. (गनु: विमल वसु ओ  
रवोन्द्रनाथ गांगुली) - गांधीजीर सहित  
अेक सप्ताह. कलिकाता, ध ग्लोब लायब्रेरी,  
रु. २-०-०.

-महाजिज्ञासा. कलिकाता, पूर्वाशा लि.,  
रु. ४-०-०.

बंगीय प्रादेशिक छात्रसंसद् (प्र.) - चरकार  
वि'ल्व रूप. कलिकाता, ४आने, पृ. २४.

बन्दोपाध्याय, कनक और सुशाल - महा-  
मानव महात्मा गांधी. रु. ४-८-०.  
जीवन-भाष्य.

बसु, अनाथनाथ - आमादेर शिक्षा व्य-  
वस्था. (विश्वभारती ग्रंथमाला). कलिकाता,  
विश्वभारती, ८ आने.

-गांधीजी. २ आ. १२ आने.

बसु, निर्मलकुमार - गांधीजी की चान ?  
कलिकाता, साहित्यिका, रु. १-०-०,  
१९४६, पृ. ३ + ८०. वि

-स्वराज ओ गान्धीवाद. कलिकाता,  
आबी. अे. पी कंपनी, लि., रु. ३-०-०,  
बं. १३५४, पृ. ८ + २१५. वि

बसु, प्रभात - गांधीजीर गल्प. ८ आने.

बसु, रवोन्द्रकुमार - आमादेर बापूजी.  
कलिकाता, भारती बुक स्टॉल, रु. १-४-०.

बागल, योगेशचन्द्र - जातिर वरणीयनीरा.  
कलिकाता, अेस्. के. मित्र अॅण्ड ब्रदर्स,  
रु. १-४-०.

देश विदेशके १२ माहपुस्तके चरित्र.

-भारतवर्षेर स्वाधीनता ओ अन्याय

प्रसंग. (सचित्र). कलिकाता, भारती  
पब्लिशर्स, खंड १, रु. ४-८-०.

विश्वास, दिलीपकुमार - भारतवर्षीय  
सभ्यता ओ साम्प्रदायिक समस्या.  
रु. १-८-०.

बोस, सुभाषचन्द्र - भारतपत्रिक. कलिकाता,  
सिग्नेट प्रेस, रु. ४-८-०.

यह सुभाषचन्द्रकी आत्मकथा है।

ब्रह्म, रजनोकान्त - वर्तमान भारते महात्मार  
भावधारा. कुमिल्ला, २० आने. ९ सं.  
१३४० (बं), पृ. १२ + ११८.

भट्टाचार्य, विजनविहारी - गांधीजीर जीवन-  
प्रभात. कलिकाता, आशुतोष लायब्रेरी  
रु. १-४-०.

गांधीजीकी वाक्यावस्थाकी कथा, छोट  
लडकोंके लिभे.

भौमिक, गोपाल - भारतेर मुक्तिसाधक.  
कलिकाता, बेंगॉल पब्लिशर्स, रु. १-१२-०.  
१२ चरित्र.

मजुमदार, प्रकाशचंद्र - सहयोगितावर्जन  
प्रस्ताव. कलिकाता, सरस्वती लायब्रेरी.

मजुमदार, सत्येन्द्रनाथ - कांप्रेस. कलिकाता,  
सरस्वती लायब्रेरी.

मित्र, खगेन्द्र - महात्मा गांधी. कलिकाता,  
श्रीगुरु लायब्रेरी, रु. २-०-०.

मित्र, सुधीरकुमार - आमादेर बापूजी.  
रु. २-०-०.

मुखर्जी, अे. अॅण्ड के. (प्र.) - अैतिहासिक  
सत्याग्रह. कलिकाता, ३ आने

-गांधी वीणा (भजन और गीत). कलिकाता,  
१० आने.

-तुमि महात्मा. (विश्वको श्रद्धाजलियाँ).  
कलिकाता, १० आने.

-सत्येर संधाने. (महात्माजीर जीवनेर ४०  
चित्रे संग्रह). कलिकाता, रु. २-०-०

मुखोपाध्याय, प्रभातकुमार - भारत परिचय  
[वर्तमान भारतेर प्राकृतिक, अैतिहासिक,  
सामाजिक, आर्थिक ओ राजनैतिक अवस्था  
परिचय]. कलिकाता, वरदा बेजन्ती,

- रु. ५-०-०, २ आ. १३३४ (वं), पृ. ३९ + ८५१. ग्रंथपञ्जी ओ निघंटु. वि
- भारते जातीय आन्दोलन वा जातीय अभिव्यक्ति [ काँग्रेस, स्वदेशी आंदोलन, अस्वयोग, विप्लववाद, खिलाफत ओ प्रवासी भारतवासीर अतिहास ]. कलिकाता, वरदा अेजन्सी, रु. २-८-०, १९२५. पृ. २० + २९९. ग्रंथपञ्जी बांगला ओ अिंगराजी. वि
- मुखोपाध्याय, योगेशचन्द्र-महात्मा गांधी. कलिकाता, १९१८ पृ. १४ + १५६ + १७०, १२ चित्र. वि
- मुखोपाध्याय, विभूतिभूषण - कलिकाता-नोयाखाली-बिहार. कलिकाता, जनरल प्रिन्से अॅण्ड पब्लिशर्स, रु. २-०-०.
- मुखोपाध्याय, वैद्यनाथ - महात्मा गांधी. कलिकाता, १९२५.
- राजेन्द्रप्रसाद, वाजू (अनु: स. चं. दामगुप्त) - चम्पारन सत्याग्रह. कलिकाता, खादी प्रतिष्ठान, ८ आने, १९३०, पृ. १३३. वि
- सङ्घित भारत. कलिकाता, श्री गौरांग प्रेस, रु. १०-०-०.
- राय, गोपालचन्द्र - महात्मा गांधीर शांति अभियान. कलिकाता, वंगवासी कार्यालय, रु. १-०-०
- नोयाखाली, बिहार, कलिकाता, और दिल्लीकी शांतिवात्राका वर्णन. सचित्र.
- राय, दिलीपकुमार - तीर्थकर [ रोलॉ, गांधी, रसेल, खोन्द्रनाथ ओ श्री अरविन्देर सहित दिलीपेर संवाद ]. कलिकाता, काल्चार पब्लिशर्स, रु. २-१२-०, १ आ. १३४६, (वं), पृ. ४०२. वि
- दूमरा संशोधित संस्करण प्रसिद्ध हो चुका है ।
- राय, सुबोधकुमार - महात्मा गांधी (नाटक). कलिकाता, मेन ऑफ लेटर्स, रु. १-४-०.
- राय, हेमन्तलाल - रिकत भारत. कलिकाता, खादी प्रतिष्ठान, ८ आने, १९३६, पृ. १६२.
- रायचौधुरी, नलिनोमोहन - महात्मा गांधी. कलिकाता, राय अॅण्ड रायचौधुरी, ६ आने, वं. १३३०, पृ. ८ + १०३. वि
- अिस पुस्तकमें स्वदेशी विदेशी नाना व्यवित्तोंकी नाना समयपर महात्माजीके विषयमें व्यक्त की हुओ संमतियाँ संगृहीत की हुओ है ।
- रेझाभुल करोम - जातियतार पथे. रु. २-०-०.
- नया भारतेर भित्ति. रु. १-४-०.
- पाकिस्तानेर विचार. रु. १-४-०.
- मनोपी आवुल कलाम आझाद. रु. १-०-०.
- रोलां, रोमे (अनु: ऋषिदास) - महात्मा गांधी. कलिकाता, ओरिअेन्टल बुक अेजन्सी, रु. २-८-०, १९४७, पृ. १३३.
- शान्तादेवो - भारत मुक्तिसाधक रामानन्द चट्टोपाध्याय ओ अर्धशताब्दोर बांगला. कलिकाता, प्रवासी कार्यालय, रु. ६-०-०.
- सरकार हेमन्तकुमार. - बन्दीर डायरो. (डिसेंबर १९२१-जून १९२२). कलिकाता, अिडियन बुक क्लब, रु. १-०-०, १९२२, पृ. १३४.
- सरस्वती लाओवेरो (प्र.) - खेलाफत प्रसंग. कलिकाता.
- सेन, अनाथगोपाल - जागतिक परिवेश ओ गांधीजीर अर्थनीति (काँग्रेस साहित्य संघ संकालत) कलिकाता, अिडियन अॅसोशियेटेड पब्लिशिंग कंपनी, रु. १-८-०, पृ. ११०.
- सेन, सत्यरंजन - कार्पास. कलिकाता, निखिलभारत चरकासंघ, ३ आने, पृ. २२.
- स्टैंडर्ड बुक कंपनी (प्र.) - नेताजीर पथ ओ गांधीजीर मत. कलिकाता, रु. ३-०-०.
- हरिजन पत्रिका (गांधीजीर 'हरिजन' अेर बांगला संस्करण) - सं. रतनमणि चट्टोपाध्याय. कलिकाता, अजितकुमार वसु, शक्ति प्रेस, सालाना चंद्रा रु. ६-०-०. वि
- सेवासंघ (सं.) - गांधीकथा (संक्षिप्त आत्मकथा). कलिकाता, ओरिअेन्टल बुक कं. २ आ. रु. १-१२-०.

## अर्द्ध पुस्तकें

अजमलखान साहेब, महम्मद - खुत्वाअे सदारत. अलीगढ, जामिया मिलिया अिस्लामिया, ४ आने, १९२१, पृ. २३. वि.

अबदुल हलीम, मौलवी - गांधीजीकी बातें. बम्बयी, मकतवा सुल्तानी, रु. १-१२-०, पृ. १२+१७६. वि

अमृतकौर - औरतोंसे. लाहौर, पंजाब ग्रामसेवामंडल बुक डीपो, ६ आने, १९४६, पृ. ४०. वि

आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम - खुत्वाअे सदारत, रामगढ अधिवेशन. (अिजलास परवों). अिलाहाबाद, अिडियन प्रेस, २ आने, १९४०, पृ. ४०.

- मज़ामोने अबुल कलाम आज़ाद. देहली, हिन्दुस्तानी पब्लिशिंग हायुस, जिल्द १, रु. ४-०-०, १९४४, पृ. ३५८; जिल्द २, रु. ४-०-०, १९४४, पृ. ३६६. वि

- मुसलमान और काँग्रेस. लाहौर, मकतवा अर्द्ध, रु. १-०-०, पृ. ८०. वि

- खुत्वाअे आज़ाद. लाहौर, मकतवा शार, रु. ३-०-०. २ आ. १९४४, पृ. ३५६. वि

अुपाध्याय, पंडित रामचंद्र - क्या हिन्दु जाति महात्मा गांधीके खूनमें अपना हाथ रंगेगी? विजनौर, १९२३.

अँड्रयूज़, सी. अेफ. - ख्यालाते महात्मा गांधी (जिसमें अुनकी तहरीरातके मुन्तखि वात भी शामिल हैं). बम्बयी, अिफ़ा-सियारखान. हिस्सा १. रु. २-४-०, १ आ. पृ. ८ + २४८; हिस्सा २. रु. २-४-०, १ आ. पृ. ८ + २४९ से ५१२. वि

ऑल अिडिया काँग्रेस कमेटी (प्र.) - दस्तूरे असासी [जून १९३९में ऑल अिडिया काँग्रेस कमेटीके अिजलासमें: तरमीम किया गया]. अिलाहाबाद, जनरल सेक्रेटरी, २ आने, १९३९, पृ. २९.

गणपतराय - कस्तूरबा गांधी. लाहौर. लाजपतराय अॅन्ड सन्स, रु. २-४-०, १९४६, पृ. १९८

गांधी कृष्णदास - कताअीका हिसाब-हिस्सा १. सेवाग्राम, हिन्दुस्तानी तालीमी संघ, ८ आने, १९४२, पृ. १५ + १२८. वि

गांधी, मोहनदास क. - आज़ाद हिन्द. लाहौर, पंजाब ग्रामसेवा मंडल.

-(अनु: हामद कुरेशी) - आपबीती. लाहौर, किताबिस्ताने अुर्दू, रु. २-८-०, पृ. २७२. वि

- अुसूले ज़व्त या अनीतिकी राहपर. लाहौर, लाजपतराय अॅन्ड सन्स, रु. १-८-०, पृ. १६०. वि

-(सं. सी. राजगोपालाचार और जे. सी. कुमारप्या; अनु: डॉ. सैयद आबिद हुसेन)

- क़ौमकी आवाज़ [महात्मा गांधीजीकी तक्ररीरें जो अुन्होंने गोलमेज़ कॉन्फरन्समें दीथी वे और अुनके सफ़रे-लंडनके हालात]. देहली, मकतवा जामिया मिलिया, रु. १-८-०, १९३३, पृ. ४ + ३९५. वि

- खुराक और सिहत पर मेरे तजख़वात. लाहौर; नारायण दत्त सहगल अॅन्ड सन्स, १२ आने, पृ. १७६.

-(अनु: डॉ. सैयद आबिद हुसेन) - ज़व्ते नफ़स और नफ़सपरस्ती. देहली, मकतवा जामिया, रु. १-०-०, २ आ. १९३४, पृ. २ + १५८. वि

- (अनु: सैय्यद आबिद हुसेन) - तलाशे  
हक्र [महात्मा गांधीकी आपबीती].  
देहली, मकतवा जामिया, जिल्द १. रु.  
१-०-०, २ आ. १९३८, पृ. ३६६. वि;  
जिल्द २. रु. १-०-०, १ आ. १९३०,  
पृ. ३००. वि
- तामीरि ज़िदगी. लाहोर, प्रेमचंद - प्रेमसदन,  
रु. १-१२-०, पृ. १४४. वि  
अिसमें जन्तकी जरूरत वताभी गभी है।
- तामीरी प्रोग्राम. लाहोर, पंजाव ग्राम-  
सेवक मंडल.
- ब्रह्मचर्य [महात्मा गांधीके तजरुवात].  
लाहोर, मेसर्स मादन दत्त सहगल अॅन्ड  
सन्स, रु. ०-६-०, पृ. ९६. वि
- मंगलप्रभात. लाहोर, पंजाव ग्रामसेवक मंडल.
- (अनु. प्रो. रामसरूप कोशल) - शाहरा-  
अे-तन्दुरस्ती [आरोग्य दिग्दर्शनका अुर्दू  
तरजुमा]. लाहोर, लाजपतराय अॅन्ड सन्स,  
रु. १-८-०, पृ. १६०. वि
- गुरुदाससिंघजी, बाबा - गांधीझम्. अमृत-  
सर, अिपीरियल बुक स्टॉल, रु. १-८-०,  
पृ. ३१५. वि
- टॉलस्टॉय (अनु: महात्मा गांधी) - तोक्र  
व जंजीर [मूरखराज, तोक्र व जंजीर  
और शमा अे ज़िदगी]. लाहोर, पंजाव  
पब्लिशर्स, रु. १-८-०, पृ. १३६. वि  
दिवाण, कुंदर - तक्ली. सेवाग्राम, हिन्दु-  
स्तानी तालीमी संघ, पृ. ३१६. वि
- नेहरू, पंडित जवाहरलाल - अठारा महीने  
हिन्दुस्तानमें. दिल्ली, अुर्दू मरकज,  
१९४५, पृ. २४३. वि
- आज़ादीकी मंज़िल तक. लाहोर, हिन्दु-  
स्तानी कितावघर, रु. २-०-०, पृ.  
१७६. वि
- खुतवाअे सदारत, फ़ैज़पुर, १९३६.  
(काँग्रेसका ५० वाँ अिजलास).  
अिलाहाबाद, अिटियन प्रेस, २ आना,  
१९३६, पृ. २७. वि
- जगवीती. देहली, मकतवा जामिया.
- मेरी कहानी. देहली, मकतवा जामिया.  
हिस्सा १, रु. ४-८-०, १९४६, पृ.  
४६८; हिस्सा २, रु. ४-८-०, ३ आ.  
१९४६, पृ. ५४८. वि
- नअी तालीम (हिन्दुस्तानी तालीमी संघका  
मासिक परचा) - देहली, जामिया मिलिया.  
सं. सलामतुल्ला, १९३९ जानेवारीसे शुरू.  
सालाना चंद्रा डेढ़ रुपया.
- बोस, सुभाषचंद्र - खुतवाअे सदारत  
(काँग्रेसके ५१वें सालाना अिजलासमें भाषण,  
१९३८). हरिपुरा, २ आना, १९३८,  
पृ. ५५. वि
- मकतवा जामिया (प्र) - बुनियादी क़ौमी  
तालीम [ज़ाकिर हुसेन कमेटीकी रिपोर्ट].  
देहली, रु. १-०-०, १ आ. १९३९,  
पृ. २४०. वि
- महम्मद रफ़ीक़ (खावर) - गान्धीनामा  
हिस्सा-१. जालंदर, रायज़ादा हंसराज,  
पृ. १९३. वि
- मितल, गोपाल - गान्धी. लाहोर, मकतवा  
अुर्दू, ६ आने, १९४१, पृ. ६६. वि
- राजगोपालाचार्य, चक्रवर्ती - दुःखी दुनिया  
(काँग्रेसके तामीरी प्रोग्राम पर चंद सबक  
आमोज़ कहानियाँ). लाहोर, पंजाव ग्राम-  
सेवा मंडल, १२ आने, २आ. पृ.  
११२. वि
- सत्यन् - बुनियादी दस्तकारियाँ - ओटना  
व धूनना. देहली, दफ़तर, नअी तालीम,  
६ आना, १ आ. १९४०, पृ. ८४. वि
- समू, डॉ. सर तेजबहादुर - हमारी क़ौमी  
ज़वान. देहली, अञ्जुमन-अी-तरकी अुर्दू,  
८ आने, १९४१, पृ. ८ + ९५. वि
- सलामतुल्ला (सं.) - नअी तालीम. जामिया-  
नगर. देखी अूपर 'नअी तालीम'
- सुन्दरलाल, पं. - गीता और कुरान.  
अिलाहाबाद, हिन्दुस्तानी कल्चर सोसायटी,  
रु. २-८-०, १९४६, पृ. ६ + २७२. वि



- पंजाब हमें क्या सिखाता है. अिलाहाबाद, हिन्दुस्तानी कल्चर सोसायटी, ४ आने, १९४७, पृ. ५४. वि
- हज़रत मुहम्मद और अिसलाम. अिलाहाबाद, विश्ववाणी कार्यालय, रु. १-८-०, पृ. २२४. वि
- हिन्दु मुस्लिम अेकता (रियासत ग्वालियरमें दिये हुअे चार लेक्चर). अिलाहाबाद, हिन्दुस्तानी कल्चर सोसायटी, १२ आने, १९४७, पृ. ९६. वि
- सुलेमान नदवी - ख़िलाफ़त और हिन्दुस्तान. आजमगढ़, दारुल मुसन्नफीन, ८ आने, १९२२, पृ. ८९. वि
- दुनिया अे अिसलाम और मस्के

- ख़िलाफ़त. बम्बयी, ख़िलाफ़त प्रेस, ८ आने, १९२२, पृ. ५०. वि
- सैय्यद, तुफ़ैल अहम्मद - मुसलमानोंका रोशन मुस्तक़बिल. वदायूँ, मतचूअे निज़ामी प्रेस, रु. ५-०-०, ४ आ. १९४३, पृ. २६ + ६१२. वि
- हलीदे अेदिव - अन्दरुनी हिन्द. देहली, अन्जुमने तरकी अुर्द, रु. ६-०-०.
- हरिजन (साप्ताहिक) - अुर्द आवृत्ति. लाहौर, ग्रामसेवक मंडलकी ओरसे प्रसिद्ध होती थी।
- हरिजनसेवक (साप्ताहिक) - अहमदाबाद, नव-जीवन प्रकाशन मन्दिरसे हरिजनकी हिन्दुस्तानी आवृत्ति नागरी और अुर्द लिपीमें प्रसिद्ध होती है।

## कन्नड़ पुस्तकें

अंगडी, अेस्. अेन्. - राजकीय विचारतरंग.  
वेळ्गांव, राववहादूर अेस्. अेन्. अंगडी,  
रु. १-०-०, १९३६, पृ. ८०

करगुप्पीकर, कृ. नि. - असहकारद मीमांसे.  
कर्नाटक शिक्षण समिति (प्र) - मङ्गळ गांधी.  
हुव्वळ्ळि.

-(प्र.) - वर्धा शिक्षण योजने. धारवाड, आर.  
अेस्. हुक्केरीकर, ८ आने, १९३८, पृ. ५९.

कर्मवीर (साप्ताहिक) - सं. ह. रा. पुरोहित.  
हुव्वळ्ळि, लोकशिक्षण ट्रस्ट.

गांधीजीके 'हरिजन' पत्रमेसे करीव  
सभी महत्त्वेके लेख बिस साप्ताहिकमे दिजे  
जाते हैं ।

कुलकर्णी, के. अेच्. - काँग्रेसिन संक्षिप्त  
इतिहास. धारवाड, के. अेच्. कुलकर्णी,  
५ आने, १९३१, पृ. ११८.

कृष्णयंगार, डी. - गांधीजिय हास्यप्रकृति.  
वेंगळूर, स्ट्याण्डर्ड बुकडीपो.

- रैतरप्रपंच.

कृष्णशर्मा, सी. - निर्भाग्य बोरे गौडा.  
- पर्णकुटी.

- वर्धायात्रे.

गांधी, मो. क. (अनु : पाटील, कल्लन-  
गौडा) - अस्पृश्यते याके अळियवेकु ?  
हुव्वळ्ळि, लिंगनगौडा पाटील, १ आना,  
१९३४, पृ. ३१.

-(अनु : पाटील, कल्लन गौडा) - अस्पृश्यतेय  
करुंकर. धारवाड, अेस्. अेस्., देसाबी, ८  
आने, १९३४, पृ. ८२.

-(अनु : कृष्णशर्मा, सिद्धवन हळ्ळी) - गांधी  
साहित्य भाग १, २. धारवाड, साधना  
प्रिंटिंग प्रेस, रु. १-४-०, १९४१, पृ.  
१४४; रु. १-४-०, १९४१, पृ. १०४.

महात्मा गांधीने सावरमती आश्रमके  
अेक कार्यकर्ताको लिखे हुअे पत्रोंमेसे चुने  
हुअे पत्रोंका अनुवाद.

- महात्तर पत्रगळु भाग, २. शिरसो,  
वामन अनंत हीदके, पृ. २ + ५३

-(अनु : द. कृ. भारद्वाज) - महात्मा  
गांधीयर अनासक्तियोग. वेंगळूर, द.  
कृ. भारद्वाज.

- गांधीजियवर आत्मकथे (खंड १-५).  
वेंगळूर, सत्यशीधन प्रकटनालय.

-(अनु : कृष्णराव, अ. अेस्. वि.) - दक्षिण  
आफ्रिकदल्लि सत्याग्रह.

- नीतिधर्म. धारवाड, विनायकराव जोशी.

- ब्रह्मचर्य वो कामसाधने. वेंगळूर, द. कृ.  
भरद्वाज.

-(अनु : रा. वें. वडवी) - मंगलप्रभात.  
हुव्वळ्ळि, कर्नाटक शिक्षणसमिति, ५ आने,  
१९४२, पृ. ५४.

-(आय्केगाररु : प्रभु ; राव) - महात्तर  
मनोरंग. हुव्वळ्ळि, अध्यात्म कार्यालय,  
१९४७.

रंगराव दिवाकर कृत अनुवाद. प्रस्ता-  
वना श्री राधाकृष्णन लिखित.

-(अनु : पाटील, कल्लनगौडा) - सत्याग्रह.  
दावनगेरी, कसल श्रीनिवास शेटी, ४  
आने, १९३८, पृ. ८८.

- हिन्दुस्वराज्य. वेंगळूर, द. कृ. भारद्वाज.  
गोवर्धनराव, अेम्. - गांधीयवर चरित्रे.  
धारवाड, आर्. अेस्. हुक्केरीकर, १ आने,  
१९३१, पृ. १६.

घाणेकर, मालचंद्र वेंकटेश - रैतर भायो-  
दय. धारवाड, भा. वें. घाणेकर, २ आने,  
१९३१, पृ. ३१.

## सिंधी पुस्तकें

गांधी, मोहनदास क. (अनु. आनंद हिंगोरानी) - आश्रमवासी. कराची, आनंद हिंगोरानी, ५ आने, १९३८, पृ. १९८. वि  
-(अनु. आनंद हिंगोरानी) - श्रीश्वर आहे ? हा, आहे। कराची, आनंद हिंगोरानी, ६ पाभी, १९३५, पृ. १२ + १. वि

-(अनु. आनंद हिंगोरानी) - गोताबोध. हैद्राबाद (सिंध), आनंद हिंगोरानी, ५ आने १९३४, पृ. २९४. वि  
-(अनु. आनंद हिंगोरानी) - यरवदा मन्दिर मान. कराची, आनंद हिंगोरानी, ४ आने, १९३५, पृ. १६०. वि

## ENGLISH BOOKS

### 1. BIOGRAPHY

AIYER, H. R. - Mahatma Gandhi, Baroda.

AKKAD, B. J. - Mahatma Gandhi. (A Short Life of Gandhiji). Bombay, Vora and Co., Re. 1/8, 1946, pp. vi+91. V

ALVA, JOACHIN - Leaders of India (Rampart Library No. 2). Bombay, Thacker and Co., Re. 1/8, 1943, pp. 86. V

Life-sketch of Gandhiji, pp. 7-37. Reprinted from 'Men and Supermen of India'.

- Men and Supermen of India. Bombay, Thacker, Rs. 11/-, 1943, pp. x+403. V

Life-sketch of Gandhiji, pp. 107 to 138.

AMBEDKAR, B. R. - Ranade, Gandhi and Jinnah. Bombay, Thacker, Rs. 3/12, 1943, pp. viii+85. V

ANDLEY, C. B. - Gandhi the Saviour. Delhi, Andley Brothers, Rs. 5/-, 1933, pp. viii+102. V

ANDREWS, C. F. (Ed.) - Mahatma Gandhi: His Own Story. London, George Allen and Unwin Ltd., 12/6,

1930, pp. 350. Index, bibliography and illustrations. V

This is Mahatma Gandhi's 'Autobiography' rewritten and abridged by Shri Andrews. A chapter 'Conclusion' has been added by the editor.

- Mahatma Gandhi at Work: His Own Story Continued. London, George Allen, 12/6, 1931, pp. 407. Index, illustrations and bibliography. V

ANIRUDDHA - Children's Gandhiji. Lucknow, Universal Publishers, Re. 1/4, 1948, pp. 18. Illustrated. V

ATHLYE, D. V. - The Life of Mahatma Gandhi. Poona, Swadeshi Publishing Co., Rs. 3/8, 1923, pp. vii+311. V

BANNERJI, N. C. - Prophets and Patriots. Calcutta.

BAROS, JAN (Ed.) - Mahatma Gandhi [Pictorial History of a Great Life]. Calcutta, J. Baros—Czechoslovak Society, Rs. 15/-, 1948, pp. viii+233 photographs+xxviii.

The book contains the Pictorial History of Gandhiji and an essay on his life and work. Both English and

- Hindi descriptions are given below the photographs.
- BERNAYS, ROBERT** - The Naked Fakir. London, Victor Gollancz, 10/6, 1932, pp. 351.
- BOLTON, GLORNEY** - The Tragedy of Gandhi. London, George Allen, 10/6, 1934, pp. 326. Index. V
- BOOKWALA (R. P.) And Co. (Pub.)** - Gandhi's Fast Diary. Lahore, 8 as.
- Gandhi's Great Fast. Lahore, Re. 1/-.
- Mahatma Gandhi (A Short Biography). Lahore, 6 as.
- BOODHUN, R. K.** - The Spiritual Triumph of Gandhi Maharaj. [Being Reflections on the Spiritual and National Significance of the Life and Doctrines of the Mahatma]. Port Louis (Mauritius), R. K. Boodhun, 1943, pp. xiv+114.
- BRIGHT, J. S.** - Gandhi Is India. Lahore, Indian Printing Works, Rs. 5/8, 1947, pp. 312.
- The Woman behind Gandhiji. Lahore, Paramount Publications, Rs. 3/-, 1944, pp. vii+160.
- Life of Kasturba Gandhi. Gandhiji's thoughts on problems relating to women are given in an appendix, 'Gandhi Faces the Fair Sex.'
- BRIJNATH** - See Sharga, P. Brijnath.
- BROWN, ERMINE A. (Ed.)** - Eminent Indians. Calcutta, Shanti Mitra, Rs. 5/-, 1946, pp. viii+214. V
- Sketches of twenty eminent Indians. Gandhiji's sketch pp. 1-16. Portrait and bibliography.
- BRYANT, JOHN FORBES** - Gandhi and the Indianization of the Empire. Cambridge, J. Hall and Son, 1924.
- Contains the history of the years 1919-1924.
- CARNEGIE, DALE** - Little-Known Facts about Well-Known People. Bombay, Vora and Co., Ind. ed. 1947, Rs. 4/12, pp. 235. V
- Mahatma Gandhi, pp. 67-71.
- CASELL and Co. (Pub.)** - Great Contemporaries: Essays by Various Hands. London, 8/6, 1935, pp. 464. V
- Essay on Mahatma Gandhi by George Slocombe, pp. 136-150.
- CATLIN, GEORGE** - In the Path of Mahatma Gandhi. London, McDonald and Co., 15/-, 1948, pp. 332. Illustrated. V
- CAXTON PRESS (Pub.)** - Mahatma Gandhi as Viewed by Eminent Men. With Mahatma Gandhi's views on Prayer. Bangalore, 2 as., 1932, pp. 42. V

- CHAKRAVARTY, AMIYA - Mahatma Gandhi and the Modern World. Calcutta, The Book House, 12 as., 1945, pp. 13. V
- CHATTERJEE, B. C. - Gandhi or Aurobindo. Calcutta, The Sarswati Library, 12 as., 2 ed. 1921, pp. vi+78. V
- CHATTERJEE, BIJOY LALL - Gandhi: Champion of the Proletariat. Calcutta, Prakashani, Re. 1/8, 1944, pp. 72.
- CHATTERJEE, LALIT MOHAN - Representative Indians. Calcutta, A. C. Dhar, The Popular Agency, Rs. 2/-, 1931, pp. vi+245. Illustrated. V  
Gandhiji's life-sketch, pp. 146-184.
- CHITAMBER, J. R. - Mahatma Gandhi : His Life, Work and Influence. Philadelphia, 1933.
- CONSUL, GOVIND DASS - Mahatma Gandhi the Greatest Rogue of India. (Garcon Series.) Delhi, National Publishers, Rs. 2/-, 1939, pp. 161.
- DANGE, S. A. - Gandhi versus Lenin. Bombay, 1921.
- DARA, G. S. (Pub.) - Mahatma Gandhi. Oxford.
- DAS FRIEDA S. - Gandhi : A. Portrait from Life. New York, 1931.
- DESAI, KANU and ELVIN, VERRIER-Mahatma Gandhi: Sketches in Pen and Pencil by Kanu Desai and an Essay by V. Elvin. Bombay, D. B. Taraporewala, Rs. 3/-, 1932, pp. 29, 13 illustrations. V
- DESAI, MAHADEV - Gandhiji in Indian Villages. Madras, S. Ganesan, Rs. 3/-, 1927, pp. vii+349. V
- How Does Mahatma Gandhi Live at Sevagram? Shrirangam, 1940.  
Reprint of articles published in the Illustrated Weekly of the Times of India, Bombay.
- With Gandhiji in Ceylon. A Journal of the Tour with Authorized Version of All Important Speeches. Madras, S. Ganesan, Re. 1/8, 1928, pp. vii+159 with illustrations. V
- DEWAN'S PUBLICATIONS (Pub.)-Portraits and Personalities. Lahore, Rs. 5/-, 1945. V  
Contains twelve biographies including one of Gandhiji, covering 16 pages. Each biography also sold separately at 6 as.
- DHANAPALA, D. B. - Eminent Indians. Bombay, Nalanda Publications, Rs. 7/4, 1947, pp. vi+180. 12 illus. V  
Contains sketches of 16 Indians and one Ceylonese. Gandhi, pp. 1-19.

DHANACHANDRA, MISS  
- Kasturba Gandhi. Lahore,  
Free India Publications,  
12 as., 1945, pp. iv+44.

DOKE, JOSEPH J. - Mr.  
Gandhi: An Indian Patriot  
in South Africa. Madras,  
G. A. Natesan and Co., Re.  
1/-, Ind. ed. 1919, pp. vii+  
103. V

Introduction by Lord  
Amphill. Brings the story  
of Gandhiji's life upto  
October, 1908.

DURANT, WILL - The Case  
for India. New York, Simon  
and Schuster, \$ 2.00, 1930,  
pp. xii+232. (Cheap Indian  
edition Re. 1/-.) V

Gandhiji's character sket-  
ch and estimate in chap. 2,  
pp. 57 to 118.

FISCHER, LOUIS - Gandhi  
and Stalin: Two Signs at the  
Crossroads. Delhi, Rajkamal  
Publications, Rs. 6/8, 1947,  
pp. ii+147. V

- I Lived with Gandhi.  
Bombay, International Book  
House, Re. 1/8, 1948, pp. 9. V

A reprint of an article of  
Fischer in 'Look Magazine'.

- A Week with Gandhi.  
London, George Allen, 6/-,  
1943, pp. iv+122. Introduc-  
tion by Carl Heath. V

Indian edition by Interna-  
tional Book House, Bombay,  
Rs. 3/4.

FISHER, FREDERICK B. - The  
Strange Little Brown Man,  
Gandhi. New York, Long  
and Smith, 1932.

FRIENDS and FOES - M. K.  
Gandhi: The Man of the  
Moment. (Swaraj Series  
No. 5.) Calcutta, Saraswati  
Library, 12 as., 1941, pp.  
120. V

On front page wrapper  
the title of the book is given  
as 'M. K. Gandhi, the  
Greatest Man of the Age.'

FULLOP-MILLER, RENE -  
Gandhi the Holy Man.  
London, G. P. Putnam's  
Sons, Popular ed. 3/6,  
1931, pp. 191. Bibliography. V

This is a reprint of the  
part dealing with Gandhi  
from the author's 'Lenin and  
Gandhi.'

- Lenin and Gandhi. London  
and New York, G. P. Put-  
nam's Sons, 21/- (?) 1927,  
pp. xiv+343. Bibliographies.

GANDHI, DHIREN and  
VENKATACHALAM, G. -  
Prayer and other Sketches  
of Mahatma Gandhi and  
the Moods of the Mahatma.  
Bombay, Nalanda Publica-  
tions, Rs. 3/-, 1946, pp. 4  
and 6 plates. V

GANDHI, M. K. (Tr. Mahadev  
Desai) - An Autobiography  
or the Story of My Experi-  
ments with Truth. Ahmed-

- abad, Navajivan Publishing House, 1 ed. 2 vols; Rs. 5/8 each., Vol I, 1927, pp. xii+602; Vol II, 1929, pp. xii+608. 2 ed. two volumes in one, 1940, pp. xvi+636, 10 illus., and index. 3rd impr., 1947, Rs. 6/-. V
- (Ed. Mahadev Desai) - My Early Life. Bombay, Oxford University Press, Re. 1/-, 1932, pp. xii+161. V
- (Ed. M. S. Kohli) - Mahatma Gandhi's Confessions. Lahore, Associated Publications, Rs. 2/-, 1943, pp. 116. V
- Gleanings from Gandhiji's Writings.
- My Jail Experiences. Madras, Tagore and Co., 1920.
- GANESH and Co. (Pub.)
- Heroes of the Hour: Mahatma Gandhi, Tilak Maharaj, and Subramania Iyer. Madras, Rs. 3/-, 1918, pp. xxvi+284+ii. V
- The Indian Nation Builders Pt. III. Madras, Re. 1/8, 4 ed. pp. vii+466. V
- Sketch of Gandhiji, pp. 33 to 83.
- Mahatma Gandhi: His Life, Writings and Speeches. Madras, 1 ed. 1917; 3 ed. 1921, Rs. 2/-, pp. xiv+444. Foreword by Sarojini Naidu. V
- GANESAN, S. (Ed.) - Gandhi Diamond Jubilee Number. Madras, 1929, pp. 255 to 307.
- GANPATRAI, LALA - Gandhi and Kasturba: The Story of Their Life. Lahore, Kasturba Memorial Publications, Rs. 5/-, 1944, pp. 156.
- (Ed) - Mahatma Gandhi: Builder and Liberator. Lahore, National Publishers and Stationers, Rs. 4/4, pp. iv+189. V
- Foreword by Gopichand Bhargava. A collection of 29 articles by various hands on different aspects of Gandhiji's life.
- GAUBA, KANAIYALAL - Famous and Historical Trials. Lahore, Lion Press, Rs. 6/-, 1946, pp. iv+423. V
- The Trial of Gandhiji (1922), pp. 23 to 42.
- GEORGE, P. V. - The Unique Christ and the Mystic Gandhi. Tiruvalla, The Malabar Christian Office, Rs. 2/8, 1933, pp. 240. V
- GOSWAMI, T. - The Psychology of Gandhi. London.
- GRAY, R. M. and PAREKH, M. C. - Mahatma Gandhi: An Essay in Appreciation. (Builders of Modern India Series). Calcutta, Association Press, Rs. 2/4, 2nd ed. 3rd impr., 1931, pp. vi+140. Bibliography and index. V
- GUHA, S. C. (Ed.) - Gandhi Mahatmya Vol. I. An Antho-



- logy of Appreciations from All Quarters of the Globe. Calcutta, Bharat Grantha Bhandar, Re. 1/-, 1922, pp. ii+233. Foreword by Upen-dranath Basu. V
- GUPTA, J. P. (Ed.) - He Followed Christ (Unity Series No. 2). Bombay, Hamara Hindustan, 8 as., 1942, pp. x+39. V  
Forewords by the Lord Bishop of Calcutta and Dr. Radhakrishnan. The booklet contains a few of Gandhiji's utterances and two short essays on Gandhiji by John Gunther and Prof. H. C. Mukerjee.
- GUPTA, NAGENDRANATH - Gandhi and Gandhism (Sidelights on the National Movement in India. No. 1). Bombay, Hind Kitabs, Rs. 3/-, 1945, pp. iv+125. V
- HADLEY, EDWARD S. (Pub.) - The Trial of Mahatma Gandhi, the Saintly Leader of India's National Aspirations. London, 1922.
- HALL, JOSEPH W. (UPTON CLOSE) - Eminent Asians. London and New York, Appleton & Co., 1929, 21/-.
- HART, Lt. COL. E. J. - Gandhi and the Indian Problem. London, Hutchinson & Co., Rs. 2/-, 1940, pp. 155. V
- HEATH, CARL - Gandhi. Onslow, Guilsford, Carl Heath, 6d., 1st ed. 1932, pp. 30. V  
- Gandhi. London, George Allen, 2/-, 1944, pp. 30 (demi). V  
Indian edition published by Agarwal & Co., Agra, Re. 1/8, 1946, pp. 55.
- HENDERSON, ARCHIBALD - Contemporary Immortals. London and New York, D. Appleton & Co., 10/6.  
Contains biographical sketches of thirteen well-known figures including Gandhiji.
- HERO PUBLICATIONS (Pub.) - Gandhi in Arms. Lahore, 12 as., 1942, pp. 48. V
- HINDUSTAN TIMES (Pub.) - Memories of Bapu. New Delhi, Rs. 5/-. 1948, pp. 96.  
The book consists of illustrations of Gandhiji on art paper with explanatory notes below.
- HOGG, DOROTHY - The Moral Challenge of Gandhi. Allahabad, Kitab Mahal, 8 as., 1st. Ind. ed. 1946, pp. 38.  
"Gandhi depicted as the saviour of humanity. . . 'He alone abides, while others perish.'"
- HOLMES, JOHN HAYNES - THE Christ of Today. Madras, Tagore & Co., 1922.  
- Gandhi before Pilate. New York, The Community Church

- Pulpit series No. 17, 1930.
- I Meet Gandhi. New York, The Community Church, 1932.
  - Who Is the Greatest Man in the World Today? New York.
  - What Gandhi Might Do For America.
- HOLMES, JOHN HAYNES AND HERRINGTON, DONALD
- Mahatma Gandhi. (Memorial service). New York, The Community Church.
- HOSSAIN, SYED - Gandhi: The Saint as Statesman. Loss Angeles, Suttonhouse Ltd., \$ 2.00, 1937, pp. 68. Cheap ed. Rs. 1/12. V
- HUNTER, A. A. - Three Trumpets Sound: Kagawa, Gandhi and Schweitzer. New York, 1939.
- IQBAL ALI SHAH, SARDAR
- The Controlling Minds of Asia. London, Herbert Jenkins, 1st ed. 1937, pp. 311. Illustrations.
- Gandhi pp. 49-84. The account of Gandhi hardly does justice to the subject, being prejudiced and containing distortions of facts.
- ILAMI MARKAZ (Pub.) - What Gandhi Has Done for India: Being a Collection of Articles on Gandhiji's Life and Work. Lahore, Ilami Markaz, Y. M. C. A., Rs. 3.4, 1946, pp. vi +184. V
- 'INDIA ON THE BRINK', AUTHOR OF - A Searchlight on Gandhi. London, P. S. King & Son, 6/-, 1931, pp. 139+xxiii. V
- INDIAN OPINION - Golden Number of 'Indian Opinion'. Souvenir of the Passive Resistance Movement in South Africa, 1906-1914. Phoenix (Natal), Indian Opinion Office, Rs. 1/4, 1914, pp. 30+24+vi. V
- Profusely illustrated. Contains Articles in English, Gujarati and Tamil.
- JAISINGHANI, A. H. (Ed.)
- Mahatma Gandhi: A study. (Akbar Ashram Tract No. 7). Karachi, Akbar Ashram, 2 as, 1931, pp. ii+27. V
- JAMES, EDWARD HOLTON
- Gandhi or Cæsar? Boston, Citizens' Gandhi Committee, 25 Cents 1930, pp. 32.
  - Gandhi the Internationalist. Boston, 1930.
- JANMABHUMI - Gandhi Diamond Jubilee Number. Madras, Janmabhumi, 1929.
- JAPETH, M. D. - The Truth about Gandhi. Bombay, Mody's Diamond Printing Works, Re. 1/8, 1st ed. 1940, pp. iv+87. V
- KAILA, HARIS CHANDRA - Mahatma Gandhi - A Study. (Being a study of what he

- is and what he loyes and preaches). New Delhi, A. N. Alanja & Co., 10 as, pp. vi +62.
- KANETKAR, M. J.** - Tilak and Gandhi. (a comparative character sketch), Nagpur, M. J. Kanetkar, 12 as, 1935, pp. viii+74.
- KARAKA, D. F.** - Out of Dust. Bombay, Thaker, Rs. 5/8, 1 ed. 1940, pp. xii+iii.+301. V
- KHANNA, R. N.** (Ed.) - Gandhiji Through Foreign Eyes. Lahore, Allied Indian Publishers, 6 as.
- Gandhiji Through Indian Eyes. Lahore, Allied Indian Pub. 6 as. 1944, pp. 18. V
- Kasturba Gandhi's Last Hours. Lahore, Kasturba Memorial Publications, 6 as, 1944, pp. 17.
- KING, P. S. and Son Ltd.** (Pub.) - India on the Brink. London.
- KRIPALANI, K. R.** - Tagore, Gandhi and Nehru. Bombay, Hind Kitabs, Re. 1/8, 1947, pp. iv+104. V
- KRISHNA DAS** - Seven Months With Mahatma Gandhi. Being an Inside View of the Non-Co-operation Movement (1921-22). Vol. I. Madras, S. Ganesan, Rs. 3/-, 1928, pp. xii+449. V
- Vol. II. Dighwara (Bihar), Rambinode Sinha, Rs. 3/-, 1928, pp. xii+471+18+ix. Index. V
- KRISHNAMURTI, Y. G.** - Salute the Mahatma. Madras, Gandhi Era Publications, Re. 1/-, 1946, pp. 27. V
- Foreword by S. Radhakrishnan.
- KUMARAPPA, BHARATAN** - On Tour with Gandhiji. (Nov. 30, 1945 to Feb. 4, 1946). Aundh, Aundh Publishing Trust, Re. 1/-, 1947, pp. 48. V
- KURUP, T. C. K.** - Gandhi and Indian Regeneration. Madras, New Herald Office.
- Contrasts Gandhiji's policy with that of the moderates.
- LAHIRI, P. C.** - In Search of Truth. [A Picture Album depicting a few eventful landmarks from the Life of Mahatma Gandhi]. Calcutta, A. Mukherjee, Rs. 3/-, 1947, pp. 95. V
- LESTER, MURIEL** - Entertaining Gandhi. London, Ivor Nicholson and Watson, 5/-, 1932, pp. vi+246. V
- Gandhi: World Citizen. Allahabad, Kitab Mahal, Rs. 5/8, 1945. pp. 201. V
- My Host the Hindu. London, Williams and Norgate, 1931.
- LOKAPRAKASHANA Co. Ltd.** (Pub.) - Gandhiji after Release: An album of selected pictures and photographs. Ahmedabad, 1945.

MEHERALLY, YUSUF - Leaders of India, Pt. II. Bombay, Padma Publications, Re. 1/-, 1946, pp. 79. V

Sketch of Gandhiji, pp. 9-20.

METHA, P. J. - M. K. Gandhi and the South African Indian Problem. Madras.

MENON, K. P. KESHAV (Ed.) - The Great Trial of Mahatma Gandhi and Mr. Shankerlal Banker. Madras, Ganesh & Co., 6 as, 1922, pp. xii+71. Foreword by Sarojini Naidu. V

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING, GOVERNMENT OF INDIA.

- Homage to Gandhi. Delhi, Re. 1/-, 1948, pp. 69. V

A booklet containing tributes and messages received from the U. K., U. S. A., China and other countries, following Gandhiji's assassination.

- Tributes to Gandhiji [A. I. R. Homage to Mahatma Gandhi]. Delhi, Re. 1/8, 1948, pp. 112. 15 photographs and illustrations. V

Contains some of the tributes broadcast to the memory of Mahatma Gandhi.

MORA, E. S. - Pictorial Life Sketch of Gandhiji, the Living Saint of India. Bombay, Vakil and Sons.

Preface by K. M. Munshi 'કો ગાંધી કો કો?' (Who is this Gandhi?)

MUNSHI, K. M. - Gandhiji the Master (Gandhi Academy Series). Bombay, Popular Book Depot, 6 as, 1944, pp. 14. V

- Gandhiji the Master. Delhi, Rajkamal Publications, Rs. 4/8, 1948, pp. 96. V

Collection of articles including 'Gandhiji the Master' listed above.

- I follow the Mahatma. Bombay, Allied Publishers, Rs. 2/8, 1940, pp. viii+200, index. V

A narrative of the author's personal reactions to Gandhiji and his activities, containing an estimate of his work and his views.

MUZUMDAR, HARIDAS T. - Gandhiji the Apostle. Chicago, Universal Press, 1923.

- Gandhiji Triumphant: The Inside Story of the Historic Fast. New York, Universal Publishing Co., \$ 1.00, 1939, pp. 103.

- Gandhiji versus the Empire. New York, Universal Publishing Co., \$ 3.50, 1932, pp. 352 (royal), illustrated. Foreword by Will Durant.

NAIR, SIR SANKARAN - Gandhiji and Anarchy.

Madras, Tagore & Co., Rs. 2/8,  
2 ed. 1922, pp. xiv+262. V  
NATARAJAN, K. - Mahatma  
Gandhi. Bombay, Indian  
Social Reformer, 8 as.

A brief sketch of Gandhiji's  
life and public activities with  
special reference to Non-  
Co-operation.

NATESAN, G. A. & Co. (Pub.)  
- Mahatma Gandhi - The  
Man and His Mission. Madras,  
Re. 1/-, 1st ed. 1910; 10th ed.  
1943, Rs. 2/-, pp. xvi+335. V

An enlarged and upto-date  
edition of his life and teachings  
with an account of his acti-  
vities . . . and appreciations  
by Shastri, Polak etc. The  
life sketch was originally  
written by Mr. Henry S. L.  
Polak in 1910. The publishers  
have made it upto-date with  
the issue of every subsequent  
edition.

NATIONAL LITERATURE  
PUBLISHING Co. (Pub.)  
- Mahatma Gandhi (The  
World's Greatest Man). With  
an appreciation by Lajpatrai.  
Bombay, N. L. P. Co., Re.  
1/-, 1922. pp. vi+133. V

Contains tributes from  
various quarters.

NEHRU, Pt. JAWAHARLAL  
- Nehru on Gandhi. New  
York, John Day, \$ 2.00, 1948,  
pp. 160

OXFORD UNIV. PRESS (Pub.)

- M. K. Gandhi (Leaders  
of Modern India Series for  
Juveniles). Bombay, 4 as,  
1940, pp. 48. V

PAGE, KIRBY - Is Mahatma  
Gandhi the Greatest Man  
of the Age? New York City,  
Kirby Page, 15 Cents, 1922,  
pp. ii+64. V

A biographical interpreta-  
tion and an analysis of the  
political situation in India.

- Mahatma Gandhi and His  
Significance.

PAREKH, M. C. and GRAY,  
R. M. - See Gray & Parekh.

PAUL, (B. G.) and Co. (Pub.)  
- Gandhiji in England and  
the Proceedings of the Second  
Round Table Conference.  
Madras, Re. 1/8, 1932, pp.  
viii+240.

PIDDINGTON, A. B. - Babu  
Gandhi. London, 1920 (?)

POLAK, HENRY, S. L. - Maha-  
tma Gandhi. Madras, 1930.  
- Mahatma Gandhi's Arrest  
and the Events Leading up to  
It. London, Indian Concilia-  
tion Group, 6 d. 1932, pp.  
32. Foreword by the Dean  
of Canterbury. V

POLAK, Mrs. MILLIE  
GRAHAM - Mr. Gandhi :  
The Man. London, George  
Allen, 3/6, 1931, pp. 186.  
Foreword by C. F. Andrews.  
V

PRABHU, R. K. (Ed.) - Sati

- Kasturba. Bombay, Hind Kitabs, Re. 1/4, 1944, pp. 87. V
- PYARELAL - The Santiniketan Pilgrimage (Dec. 1945). Santiniketan, Santiniketan Press, 10 as., 1946, pp. 16. V  
Pages 33 to 48 of Vishwabharati News, Feb. 1946.
- RADHAKRISHNAN, S. (Ed.) - Mahatma Gandhi : Essays and Reflections on His Life and Work. Presented to Him on his Seventieth Birthday, October 2, 1939. London, George Allen, 7/6, 1939, pp. 382. V  
Contributions by well-known figures in different walks of life. Also a few extracts from Gandhiji's writings and speeches.  
Indian ed. Kitabistan, Allahabad, Rs. 9/-, 1944.
- RAMACHANDRA, G. - A Sheaf of Gandhi Anecdotes. Bombay, Hind Kitabs, Re. 1/4, 1 ed. 1945, pp. viii+56. V
- The Man Gandhi. Madras Gandhi Era Publications, Re. 1/4, 1947, pp. 79. Introduction by Radhakrishnan.
- RAMACHANDRA RAO, P. R. - The Tribunes of the People. Bombay, New Book Co., Rs. 3'14.
- RAMAN, T. A. - What Does Gandhi Want? Toronto, 1943.
- "A collection of garbled extracts from the 'Harijan'." British anti-Indian propaganda during the war indulging in mud-slinging at Gandhiji.
- RAMANATHAN, S. - Gandhi and the Youth. Madras, S. Ramanathan, Re. 1/8, 2 ed. 1947, pp. viii+112. V  
A bitter critique of Gandhiji and his teachings and activities.
- RAM MOHANLAL (Pub.) - Gandhi - The Greatest Man of the World. Vols. 1-3. Allahabad, Re. 1/-, each, 1931.
- Gandhi - Album. Parts 1-3. Allahabad, 9 as. each, 1931.
- M. K. Gandhi : A Collection of Opinions of Famous Westerners.
- RAMULU, (M. S.) and Co. (Pub.) - Mahatma Gandhi (Ramulu Pamphlet series) Madras, 2 as. pp. 46. V
- RAWLINSON, H. G. - The Makers of India. Bombay, Oxford Univ. Press, 15 as. 1942, pp. 78. V  
Mahatma Gandhi, pp. 60-78.
- RAY, SATYENDRA - Mr. Gandhi (in the World To-morrow No. 1922)
- REYNOLDS, REGINALD - India, Gandhi and World Peace. London, Friends of India, 6 as. 1931, pp. 26. V

REZA - UL - KARIM - Mother Kasturba Gandhi. Calcutta, Chuckervetty, Chatterjee & Co., Re. 1/8, 1944, pp. iv + 64. V

"Most of these lines have been adapted from different authors." says the author in his preface. Quite true!

ROLLAND, ROMAIN - Mahatma Gandhi: The Man Who Became One with the Universal Being. London, Swarthmore Press, 3/6. V

Indian edition translated by L. V. Ramaswami Aiyer under the title 'Mahatma Gandhi: A Study in Indian Nationalism'. Madras, S. Ganesan, Re. 1/8, 1925, pp. vi + 140 with bibliography. V

ROWE, J. G. - Gandhi The Mahatma. London, Epsworth Press, 2/6, 1931, pp. 120.

ROY, DILIP KUMAR - Among the Great: Conversations with Rolland, Gandhi, Russell, Tagore and Aurobindo. Bombay, Nalanda Publications, Rs. 10/-, 1945, pp. xx + 330. V

The second edition contains an introduction by S. Radhakrishnan.

SARMA, D. S. - Studies in the Renaissance of Hinduism in the Nineteenth and Twentieth Centuries. Benares, Benares Hindu University,

Rs. 15/-, 1944, pp. xii + 686. Bibliographies and Index. V  
Ch. X Mahatma Gandhi: Satyagraha in South Africa; Ch. XI Satyagraha in India. pp. 402 to 584.

SASTRI, The Rt. HON. V. S. SHRINIWAS (Ed. T. N. Jagadisan) - THUMBNAIL SKETCHES: A Collection from the Writings and Speeches of Sastri. Madras, S. Viswanathan, Rs. 4/-, 1946, pp. vi + 253.

19 sketches of eminent Indians etc., including one of Mahatma Gandhi (pp. 213 to 221).

SAUNDERS, KENNETH - The Heritage of Asia. London, Students' Christian Movement Press 3/6, 1932, pp. 224. V  
Mahatma Gandhi, pp. 128-143.

- Whither Asia. A study of three Leaders—Gandhi, Hu Shih and Kagawa. New York, McMillan, 8/6, 1933, pp. viii + 221. V

"Mahatma Gandhi and the Indian Ideal of Sainthood", pp. 31 to 66.

SEN, ELA - Gandhi: A Biographical Study. Calcutta, Sushil Gupta, Rs. 4/8, 1945, pp. viii + 187. V

- Testament of India. London, George Allen, 7/6, 1939, pp. 286. V

- Contains life sketches of eminent Indians and chapters on some national problems. Sketch of Gandhi, pp. 17 to 34.
- **Wives of Famous Men** (Rampart Library 15). Bombay, Thacker & Co., Re. 1/8, 1943, pp. 104. Foreword by Arthur Moore.
- Kasturba Gandhi, pp. 20-28.
- SENGUPTA, B. and CHOWDHURY, R.** - Mahatma Gandhi and India's Struggle for Swaraj. Calcutta, Modern Book Agency, Rs. 2/8, pp. xvi + 254 + 112.
- SENGUPTA, Mrs. PADMANI** - Some Indian Leaders. Allahabad, Ram Narain Lal, Re. 1/-, 1945, pp. iv + 130.
- Gandhi, pp. 55 to 66.
- SETH, H. L.** - Gandhi Nationalist or Internationalist. Lahore, Indian Printing Works, Rs. 2/8, 1944, pp. 136.
- SEVENTEEN CONTRIBUTORS** (Ed. C. P. Shukla) - Gandhi as We Know Him. Bombay, Vora and Co., Rs. 3/4, 1945, pp. 145. V
- SHARGA, P. BHRIJNATH** - Gandhi. Vols. I & II (Rebels or Redeemers Series). Lucknow, The Upper India Publishing House, Rs. 3/-, Vol. I, 1932; Vol. II, 1933, pp. viii + 436 + ii. Bibliography. V
- SHESHADRI and SONS (Pub.)** - Gandhi and Tagore. Madras, 1922.
- SHIKHARE, D. N.** - Gandhi Greetings. Poona, D. N. Shikhare, 8 as, 1944.
- SHRIDHARANI, KRISHNALAL** - The Mahatma and the World. Bombay, Thacker & Co., Rs. 3/-, 1st Ind. Cheap ed. 1946, pp. viii + 207. V
- American Ed., New York, Duell, Sloan and Pearce.
- SULTAN AHMAD, SYED** - Two Lectures on Mahatma Gandhi, Re. 1/—.
- SUNDAY TIMES (Pub)** - Gandhiji in the Battlefield (My motherland series). Madras.
- Mahatma Gandhi, Superman of the Age (My motherland series). Madras.
- THOMAS, HENRY** - The Story of the Human Race: A Biographical Outline of History. Garden City (New York), Garden City Publishing Co., \$ 1.95, 1937, pp. xvi + 560.
- "Written with a bias against oppression and in favour of peace." Gandhi, pp. 515-528.
- THOMAS, K. P.** - Kasturba Gandhi: A Biographical Study (The Great Little Woman of India). Calcutta, The Orient Illustrated Weekly, Rs. 2/-, 1944, pp. 96. With a short memoir by Mrs. V. L. Pandit.



TIMES of INDIA (Pub.) - One Hundred Great Lives (Home Library Club). Bombay, 1939, Rs. 7/8, pp. viii + 760. V

Life of Gandhiji pp. 344 to 352.

TODD, ARTHUR J. - Three Wise Men of the East and Other Lectures. Minneapolis, The University of Minnesota Press, \$2.50, 1927, pp. x+240.

Sketches of Gandhi, Tagore and J. C. Bose, pp. 1 to 47.

The author pronounces judgement in favour of Tagore as against Gandhi.

VEILLIER, JULIETTA - Mahatma Gandhi (His Trial—An Idealistic Policy in the Twentieth Century). Madras, Ganesh & Co., Re. 1/4, 1928, pp. ii+53. V

An address delivered in French at the opening of the 'Conference des Advocats' on Dec. 5, 1926.

V. V. M. - Gandhi is India. Bombay, C. Shantilal and Co., Re. 1/12, 1943, pp. 78. V

WADIA, P. A. - Mahatma Gandhi (A Dialogue in Understanding), Bombay, New Book Co., 2 ed. 1939, Re. 1/8, pp. iv+73+iii, index. V

WALKER, ROY - Sword of

Gold: A Life of M. K. Gandhi. London, Indian Independence Union, 7/6, 1945, pp. 200. V

WATSON, MISS BLANCHE (Compiler) - Gandhi and Non-violent Resistance. See Section II.

WEBER, J. A. - Gandhi (How They Did It—Life Stories Series). London, Pallas Publishing Co., 1/-, 1939, pp. 126, illustrated. V

WILLIAMS, L. F. RUSHBROOK (Ed.) - Great Men of India. (Home Library Club). Bombay, Times of India, Rs. 5/8, 1939, pp. 640. V

Biographical Sketch of Gandhi by H. S. L. and M. G. Polak, pp. 314-337, besides many other sketches of importance which touch Gandhiji's life, philosophy and activities.

YAGNIK, INDULAL - Mr. Gandhi as I Know Him. [A book containing a detailed review and criticism of the principles and activities of Mr. Gandhi from 1914 to 1922.] Bombay, Advocate of India Press, Re. 1/8, 1933, pp. 234.

- Gandhi as I Know Him Part II (1923-1939). Re. 1/8, pp. iv+157.

## II. SATYAGRAHA, NON-VIOLENCE, PACIFISM ETC.

ADHIKARI, G. - Gandhism: A Review. Bombay, 1940.

AGARWALA, A. N. - Gandhism: A Socialist Approach. Allahabad, Kitab Mahal, 12 as.

ALLEN, D. (Ed.) - Pacifism in the Modern World. New York, Doubleday, Doran & Co., 1929.

Contains among other things an essay 'Does Non-Cooperation Work?' by Fenner Brockway.

ANDREWS, C. F. - Mahatma Gandhi's Ideas. Including Selections from His Writings. London, George Allen, 12/6, 1929, pp. 382, index and bibliography. V

- The Meaning of Non-Cooperation. Madras, Tagore & Co., 12 as, 1922, pp. 48. V

- Non-Cooperation and Other Writings. Madras, Ganesh and Co., 8 as, 1922, pp. 49. V

ANGELL, SIR, NORMAN. - The Intelligent Man's Way to Prevent War. London, 1933.

ARYAN PATH - Special Hind Swaraj Number, Sept. 1931. Bombay, Theosophy Co., 12 as, 1938, pp. 421 to 476. V

ASAF ALI - Constructive Non-Cooperation. Madras, Ganesh & Co., 8 as, 1921, pp. vi+73. V

AUSTIN, H. W. - Moral Re-armament: The Battle for Peace. London, William Heinemann, 6d, 1939, pp. 64. V

BANDOPADHYAYA, NRIPENDRA C. - Gandhism in Theory and Practice. Madras, Ganesh & Co., Re. 1/-, 1923, pp. x+175. V

This book is a sequel to the author's 'Ideal of Swaraj'.

BASU, NIRMAL KUMAR - Studies in Gandhism. Calcutta, Narendranath Chatterjee, 1st ed. 1940, Rs. 2/-, pp. vi+113; 2nd ed. 1947, Rs. 7/8, pp. viii+358, Association Publishing Co. Ltd. References and Bibliography. V

BHAGWANDAS, BABU - The Philosophy of Non-Cooperation. Madras, Tagore & Co., 1922.

BRAILSFORD, H. N. - Property or Peace? London, Victor Gollancz, 2/6, 1936, pp. 327.

BROWN, H. R. - Cutting Ice: A Brief Survey of War Resistance and the International. Middlesex, War Resisters' International, 6d, 1930. pp. 61. V

BROWN, WILLIAM - War and the Psychological Condition of Peace. London, 1942.

BUCH, M. A. - Rise and Growth of Indian Nationalism - Non-violent Nationalism : Gandhi and His School.

See Section on 'Current History'.

CASE, CLARENCE M. - Non-Violent Coercion. A study in the Methods of Social Pressure. London, George Allen, 10/6, 1923, pp. viii+423. V

COMMUNIST PARTY of GREAT BRITAIN (Pub.) - Is India Different? London, 1927, pp. 35. Foreword on the class struggle in India by C. P. D.

Contains correspondence between Saklatwala and Gandhiji.

DASGUPTA, ARUNCHANDRA - Non-Violence the Invisible Power. Its Primordiality, Practicability and Precedents. Calcutta, Khadi Pratisthan, 1 ed. 1946, Re. 1/8, pp. vi+130. V

DE LIGHT, BART - The Conquest of Violence. London, George Routledge, 7/6, 1937, pp. xi+306. Introduction by Aldous Huxley. V

Desai, Mahadeo - Gandhi Seva Sangh. Lahore, Dewan's Publications, 6 as, 1943, pp. 31. V

An article from the pen of M. D. giving the report of the Sangha's Annual Gathering held at Malikanda in Bengal in 1940. A reprint from the *Harijan*.

-The Gospel of Selfless Action or the Gita according to Gandhi (Translation of the original in Gujarati, with an additional introduction and commentary). Ahmedabad, Navajivan, Rs. 4/-, 1946, pp. vi+390. Foreword by Gandhiji. V

DHAWAN, G. N. - The Political Philosophy of Mahatma Gandhi. Bombay, Popular Book Depot, Rs. 8/8, 1946, pp. xvi+354+i. Bibliography and index. Foreword by Radhakrishnan. V

DIWAKAR, R. R. - Satyagraha : Its Technique and History. Bombay, Hind Kitabs, Rs. 5/12, 1946, pp. xxiv+202. Bibliography and index. Foreword by Dr. Rajendra Prasad and Prefatory Observations by Shri K. G. Mashruwala. V

DURANT, WILL - The Meaning of Life. New York, Long and Smith. 1.50, 3 impr. 1932, pp. viii+144. V

Gandhiji's answer to Durant's query, pp. 83-84.

ELVIN, VERRIER - Christ and Satyagraha.

FAULKNER, T.R. and TOWILL,  
E. S. - Pacifism for To-day  
and To-morrow. See Towill  
and Faulkner below.

GANDHI, M. K. - The Early  
History of Satyagraha  
(Appeared monthly in 'Current  
Thought' beginning with  
Octo. 1924). Madras, S.  
Ganesan, 8 as.

- (Ed. Dewan Ram Parkash).  
- Gandhi's Non-Violence.  
Lahore, Dewan's Publications,  
Re. 1/-, 1944.

"A Collection of Gandhiji's  
Views on Non-Violence  
expressed mostly as replies  
to correspondents".

- Non-Violence in Peace and  
War. Ahmedabad, Navajivan,  
1 ed. 1942, Rs. 4/-; 2 ed.  
1944, Rs. 7/-, pp. xii+589,  
Index. Introduction by  
Mahadeo Desai. V

An authoritative and  
comprehensive collection on  
the subject.

- Rowlatt Bills and Satyagraha.  
Madras, Natesan, 1919.

- Satyagraha 1910-1935. (Con-  
gress Jubilee Brochures No.  
1). Allahabad, A.I.C.C., 1935.

- Satyagraha (Bombay Home  
Rule Series No. 9). Bombay,  
Home Rule League, pp. 8.

Gandhi, M. K. and Maurice,  
M. S. - The Ethics of  
Passive Resistance (and

Satyagraha) See Maurice  
and Gandhi below.

Gandhi SEVA SANGH: The  
Constitution and Bye-laws  
of the Gandhi Seva Sangh  
Wardha, R. S. Dhotre, 2 as,  
1935, pp. 22. V

GREGG, RICHARD B. - A  
Discipline for Non-  
Violence. Ahmedabad, Nava-  
jivan, 6 as, 1st Ind. ed. 1941,  
pp. 42. V

- Gandhiji's Satyagraha or  
Non-Violent Resistance.  
Madras, S. Ganesan, Rs. 2/8,  
1930, pp. xvi+354. V

- Gandhism Vs Socialism (The  
John Day Pamphlets, No. 17)  
New York, The John Day  
Company, 25, 1932, pp. 30.

The author maintains  
that "Gandhism is psycholo-  
gically wiser and more effec-  
tive than Socialism, not only  
as a new means of revolution,  
but also as a longtime mode  
of life and social organization."

- Gandhism and Socialism:  
A Study and Comparison.  
Madras, S. Ganesan, 2 as,  
1931, pp. 40. V

- Pacifist Programme in Time  
of War, Threatened War or  
Fascism. Wallingford, Pendle  
Hill, 10

- The Power of Non-Violence.  
Ahmedabad, Navajivan, Rs.  
2/-, 1st Ind. ed. 1938, pp. xii  
+398. Notes including Bib-

liographical Reference and Index. V

"A brilliant exposition and a rational discussion of the principle of non-violence and other elements implicit in it."

- **The Power of Non-Violence**, with an introduction by Rufus Jones. New York, Fellowship Publications, New revised edition 1944, pp. 253. Notes by Chapters and Index.

Some chapters from the earlier edition have been dropped on account of war economy and a few new ones have been added to this edition.

- **The Psychology and Strategy of Gandhi's Non-Violent Resistance**. Madras, S. Ganesan, Re. 1/4, 1929, pp. viii+169. V

- **Training for Peace**. A programme for Peace Workers. Philadelphia, J. B. Lippincott Co., 1937 pp. iv+40.

**HALDAR, Haridas** - **Rational Life and Non-Cooperation**. A Reply to Lord Ronaldshay based on the Teachings of Tolstoy. Calcutta, Kamala Printing Works, 6 as, 1921, pp. 32. V

**HOYLAND, JOHN S.** - **How Christ Met Aggression**. London, Peace Book Co., 3/6, 1939, pp. 184. V

**HUXLEY, ALDOUS** - **An Encyclopaedia of Pacifism**.

London, Chatto & Windus, 6d, 1938, pp. 126. V

- **Ends and Means**. London, Chatto & Windus, 8/6, 3rd ed. 1938, pp. 336. V

- **Science, Liberty and Peace**. London, Chatto and Windus, 3/6, 1947, pp. 63. V

"A vigorous plea for the decentralization of power, property and production...to avoid the prospect of universal servitude under a ruling oligarchy."

- **What Are You Going to Do about It? The Case for Constructive Peace**. London, The Peace Pledge Union, 3d, 1939, pp. 5. V

**JAMES, WILLIAM** - **The Moral Equivalent of War**. New York, American Association for International Conciliation (27th Publication), 1910.

**JOAD, C. E. M.** - **Why War?** Harmondsworth, Penguin Books, 6 d, 1939, pp. 247. V

**KELKAR, N. C.** - **A Passing Phase of Politics**. Poona, S. W. Awati, Rs. 3/-, 1925, pp. xii+266. V

**KOESTLER, ARTHUR** - **The Yogi and the Commissar and other Essays**. London, Jonathan Cape, 10/6, 1945, pp. 156, V

- KRIPALANI, ACHARYA J. B.  
- The Gandhian Way. Bombay, Vora & Co., 1st ed. 1938,; 2nd ed. 1944, Rs. 4/12, pp. viii+179. V
- Left Wing and Right Wing. (An Article on Gandhian Scheme of Political and Economic Reconstruction). Vishwabharati Quarterly, Aug. 1935, pp. 9. V
- Non-Violent Revolution. Bombay, Vora & Co., 4 as, 1938, pp. 47. V
- KRISHNAMURTI, Y. G. - Reflections on the Gandhian Revolution. Bombay, Vora & Co., Re. 1/8, 1944, pp. 29. V
- KURUP, T. C. K. - The Gospel of Gandhi. Madras, Muni-swami and Mudaliar and Sons (Printers). Re. 1/8, 1922 (?) pp. vi+135. V
- LAJPATRAI, LALA - Ideals of Non-Cooperation. Madras, S. Ganesan, Re. 1/-, 1924, pp. viii+125. V
- LASKI, HAROLD - Dangers of Obedience and Other Essays. London, Harper and Brothers, 7/6, 1930, pp. viii+293. V
- LESTER, MURIEL - Kill or Cure? Nashville, Cokesburg Press, \$ 1.00, 1937, pp. 135.
- Dare You Face Facts? New York and London, Harper Brothers, \$ 1.25, 1940, pp. xiv+125.
- LIGHT, BART DE - See de Light.
- LINDSAY, A. D. - Pacifism as a Principle and Pacifism as a Dogma. (Burge Memorial Lecture. 1939.) London, Students' Christian Movement Press, 6 d, 2 ed. 1939, pp. 47.
- MASHRUWALA, K. G. - Practical Non-Violence (An Ideology of Non-Violence). Ahmedabad, Navajivan, 1 ed 1941; 2 ed. 1946, pp. 48, 12 as. V
- MAURICE, M. S. and GANDHI, M. K. - The Ethics of Passive Resistance (and Satyagraha). Madras, Ganesh & Co., 12 as, 1921, pp. 35. V  
Contains two essays: One on the Ethics of Passive Resistance by Maurice and another on Satyagraha by Gandhiji.
- MEHTA ASHOKA - Socialism and Gandhism. Bombay, the Congress Socialist pub. Co., 2 as, 1935, pp. iv+25.
- MEHTA, GAGANVIHARI L. - The Conscience of a Nation or Studies in Gandhism. Calcutta, 1933.
- MELLOR, WILLIAM - Direct Action. London, 1920.
- MONEY, (A. S.) and Co. (Pub.) - At the Feet of the Mahatma or the Joys of Renunciation and Other Essays. Madras, Re. 1/-.

- Gandhism or the Royal Road to Happiness. Madras, Re. 1/-, 1921, pp. 69; 1946 ed. 8 as, pp. 48. V

- Neo-Gandhism or Heaven on Earth. Madras, Re. 1/-.

MOREL, E. D. - Thoughts on the War, Peace and Prison. Westminster, E. D. Morel, 2/-, 1920, pp. 123. V

- Truth and the War. London, National Labour Press, 3/6, pp. xiv+328. V

MUMFORD, PHILIPS. - An Introduction to Pacifism. London, Casell & Co., 1/6, 1937, pp. xvi+112. V

MURRAY, GILBERT - The Cult of Violence. Being an inaugural address given at the opening of the session (1933-34) at Aberystwyth. London, Lovat Dickson, 6 d, 1934, pp. 28. V

MURRY, JOHN MIDDLETON - The Necessity of Pacifism. London, Jonathan Cape, 3/6, 1937, pp. 132. V

- The Pledge of Peace. London, Herbert Joseph, 3/6, 1938, pp. 188. V

MUSTE, A. J. - Non-Violence in an Aggressive World. New York, Harper Bros.

NATIONAL LITERATURE PUBLISHING Co. (Pub.) - Non-Cooperation in Congress Week (A collection of all the speeches on non-co-

operation and the new Congress Creed at the Nagpur Congress). With an instructive foreword by Marmaduke Pickthall. Bombay, 9 as, 1922, pp. 55.

NAVAJIVAN PUB. HOUSE (Pub.) - Satyagraha Ashram (Rules and regulations). Ahmedabad, 2nd ed. 1931, pp. 24. V

NEW INDIA OFFICE (Pub.) - Gandhian Non-Cooperation or Shall India Commit Suicide? A Vade-Macum against Non-Cooperation for all Indian Patriots. Madras, Re. 1/-, 1920, pp. xiv+138. V

A Collection of articles by "a number of well-known persons against the fatal policy of non-cooperation", with a foreword by Mrs. Annie Besant.

NIEBUHR, REINHOLD - Moral Man and Immoral Society. A Study in Ethics and Politics. New York and London, Charles Scribner's Sons, 1932, pp. xv+284.

Ch IX. Preservation of Moral values in Politics. pp. 231-256

NUNDI, ALFRED - Revolution and Evolution. Lahore, 1922.

PAGE, KIRBY - War: Its Causes, Consequences and Cure. London, George Allen, 5/-, 1924, pp. 215. V

- RADHAKRISHNAN, S. - Is This Peace? Bombay Hind Kitabs. Re. 1/4, 1945, pp. ii +70. V
- RADHAKRISHNAN, S. and MUIRHEAD, J. H. (ed.) - Contemporary Indian Philosophy (Library of Philosophy). London. George Allen, 16/-, 1936, pp. 375. V  
Mahatma Gandhi's replies to the editor's questions on page 21.
- RAMPURIA, S. C. - The Cult of Ahimsa: A Jain View Point. Calcutta, Shri Jain Shwetambara Terapanthi Mahasabha.
- ROY, M. N. and Others - Satyagraha and the Potentialities of the Congress. Ajmer, Radical Democratic Party, 4 as, 1941, pp. 40. V
- RUSSELL, BERTRAND - Justice in War Time. London, George Allen, 5/-, 2 ed. 1917, pp. xx+229. V
- Which Way to Peace? London, Michael Joseph Ltd., 1936, 2/6, 3 impr. 1937, pp. 224.
- RUTHERFORD, V. H. - War or Peace? England and America. London, Williams and Norgate, 2 6, 1930, pp. 96. V  
Ch. xvii Renunciation of India by England, pp. 56-57; xiii India and the Labour Government, pp. 58-59; and a Note on Indian Independence.
- RUTHNASWAMY, M. - The Political Philosophy of Mr. Gandhi. Madras, Tagore & Co., Re. 1/-, 1922. V
- SARMA, D. S. - The Gandhi Sutras. See Sanskrit Section.
- SARMA, V. SWAMINATH - Essentials of Gandhism. Madras, Shakti Karyalaya.
- SHEPPARD, DICK - We Say 'No'. London, John Murray, 3/6, 1938, pp. xv+168. V
- SHELVANKAR, Dr. K. S. - Ends are Means. A Critique of Social Values. London, Lindsay Drummond, 2/6, 1 ed. 1938, pp. xviii+146. V
- SHRIDHARANI, KRISHNALAL - War Without Violence: A Study of Gandhiji's Method and Its Accomplishments. London, Victor Gollancz, 9/-, 1939, pp. 288. Bibliography and Index. V
- SITARAMAYYA, Dr. B. PAT-TABHI - Gandhi and Gandhism Vols. 1, 2. Allahabad, Kitabistan, Rs. 2/8. each, 1942, pp. 268, 269 to 520. V
- Socialism and Gandhism. Rajahmundry, The Hindustan Publishing Co., Re. 1/8, 1938, pp. xiv+244 (World Today Series). V
- SPRATT, P. - Gandhism, an Analysis. Madras, The Huxley Press, Rs. 2 8, 1939, pp.



- xii+516. Select references. V
- SUBEDAR, MANU - Gandhism as I Understand It. Bombay, 1939, Aryan Path Vol. X-3, March 1939, pp. 6.
- Gandhism or Socialism. Sanj Vartaman Annual, 1939, pp. 6.
- SUNDAY TIMES (Pub.) - The Quintessence of Gandhism (My Motherland Series). Madras.
- TAGORE & Co., (Pub.) - Ethics of Destruction. Madras, 12 as, 1922, pp. 60. V  
Contains articles by Rabindranath Tagore, Mahatma Gandhi, C. F. Andrews and Dwijendranath Tagore.
- Report of the Civil Disobedience Enquiry Committee. 1922. Madras, Re. 1/-, 1922, pp. 171. V
- TAGORE, SAUMYENDRA-NATH - With Romain Rolland on Gandhism. Calcutta, Gamavani Pub. House, 4 as, 1940, pp. 26. V
- TOWILL, EDWIN S. AND FAULKNER, T. E. - Pacifism Today and Tomorrow. A Handbook for Groups and Discussion Circles. London, The Peace Book Co., Re. 1/-, 1939, pp. 88. V  
Foreward by J. Middleton Murry.
- VASWANI, T. L. - Creative Revolution. Madras, Ganesh & Co., Re. 1/8, 1922, pp. viii+166. V
- The Gospel of Freedom. Essays on the Spirit and Method of Non-Cooperation. Madras, Ganesh & Co., 12 as, 1921, pp. iv+78. V
- Non-Cooperation and National Idealism (Swaraj Series No. 2). Calcutta, Saraswati Library, 6 as, 1921 pp. V  
Introduction by Shyam Sunder Chakravarty.
- WATSON, MISS BLANCHE (Compiler)-Gandhi and Non-violent Resistance: The Non-Cooperation Movement of India. (Gleanings from the American Press). Madras, Ganesh & Co., Rs. 3/8, 1923, pp. xxiv+549. V
- WELLOCK, WILFRED - Ahimsa and World Peace or the Case for Non-violence. Preface by Dwijendranath Tagore. Madras, S. Ganesan, Re. 1/8, 1922, pp. xii+120. V  
"An idealist presents the case for Pacifism with an ardent and on the whole able advocacy."
- WILSON, WILLIAM E. - Atonement and Non-Resistance London, Swarthmore Press, Rs. 2/-, 2 ed. 1923, pp. 61. V

## II A. SATYAGRAHA STRUGGLES

- BAKHALE, R. R. - Report of What happened at Borsad. Poona, Servants of India Society, 4 as, 1931, pp. 50. V
- BENGAL PROVINCIAL CONGRESS COMMITTEE - Report of Enquiry into the Alleged Police Oppressions at Char Minar. Calcutta, B. P. C. C., 4 as, 1923, pp. 34. V
- BROCKWAY, A. FENNER - Non-Cooperation in Other Lands. Madras, Tagore & Co., Re. 1/-, 2 impr. 1921, pp. xii+106. V
- DESAI, MAHADEO - The Story of Bardoli. Being a History of the Bardoli Satyagraha of 1928 and Its Sequel. Ahmedabad, Navajivan, Rs. 2/8, 1929, pp. x+363. Index, Map, Illustrations. V
- FRY, A. RUTH - Victories Without Violence. London. 1939.
- Gandhi, M. K. (Tr. Valji Govindji Desai) - Satyagraha in South Africa. Madras, S. Ganesan, Rs. 5 -, 1928, pp. x+511+viii, Index. Foreword by M. K. Gandhi. V
- GUJARAT PROVINCIAL CONGRESS COMMITTEE - The Black Regime at Dharasana: A Brief Survey of the Dharasana Raid. Ahmedabad, 1 ed. 1930, 6 as, pp. x+107, and 8 illustrations. V
- The Case for Bardoli. Ahmedabad, 1930.
- GURUKA BAG CONGRESS INQUIRY COMMITTEE - Report of the G. B. Congress Inquiry Committee. Lahore, Rs. 2/-, 1924, pp. 352. V
- IMPERIAL CITIZENSHIP ASSOCIATION - Smuts - Gandhi Agreement of 1914. (Indians Abroad Bulletin No. 11, June 1924). Bombay, Printed at the Indian Daily Mail Press, 1924, pp. 47, Introduction by C. F. Andrews.
- Contains Extracts from Indian Opinion during the year 1914.
- INDIA LEAGUE - Condition of India: Being the Report of the Delegation sent to India by the India League in 1932. London Essential News 2/6, 1932, pp. xvi+534. V
- American edition issued in 1934 from New York.
- Preface by Bertrand Russell. The report was forbidden entry into India.
- KRISHNA RAO, G.V. - Chirala Perala Tragedy. An Episode in Voluntary Exile. Madras, Ganesh & Co., Re. 1/-, 1922, pp. viii+153. V

LODH, DINESH C. - Law and Order in Midnapur. Calcutta, 1930.

MADRAS MAHAJAN SABHA — Report of the Non-Official Public Inquiry on Police Excesses in Madras. Madras, 1930.

MUZUMDAR, H. T. - Gandhi Triumphant. See Section I - India's Non-violent Revolution.

- Peshawar : Men vs. Machine Guns. New York, 1931.

PESHAWAR INQUIRY COMMITTEE - Report of the Peshawar Enquiry Committee appointed by the Working Committee of the Indian National Congress. Allahabad, R. S. Pandit, Secy. P. E. Committee, Re. 1/-, 1930. pp. 306. V

Shri V. J. Patel was the Chairman of the Committee and the Report was banned and its copies confiscated before it could reach the people.

RAJA RAO—KANTHAPUR : The Story of a Satyagraha in a South Indian Village. Pub. 1938.

RAJENDRAPRASAD, BABU - Satyagraha in Champaran. Madras, S. Ganesan, Rs. 2/8, 1928, pp. viii+282. V

RAJGOPALACHARI, C. - The National Flag (The Nagpur

Flag Satyagraha Struggle). Madras, Ganesh & Co., 2 as, 1923, pp. iv+39.

RAO, C. V. H. - Civil Disobedience Movements in India or the Indian Struggle for Freedom. Lahore, Lion Press, Rs. 2/-, 1 ed. 1946, pp. vi+100.

"Most of the material and facts are taken from the History of the Congress by Dr. Pattabhi Sitaramayya", says the author in his preface. Quite true !

SARASWATI LIBRARY (Pub.) - Non-Co-operation in Egypt (Swaraj Series No. 4.) Calcutta, 4 as, 1921.

Contains the history of the rebellion of 1920, the deeds of the Martial Law regime, the boycott of the Milner Commission etc.

SATYAGRAHA SAHAYAK MANDAL - A Case for Mulshi Peta Satyagraha. Poona, 4 as, 1921, pp. iv+53.

SHIROMANI GURUDWARA PRABANDHAK COMMITTEE - The Struggle for Freedom of Religious Worship in Jaito. Amritsar, S. G. P. Committee, 8 as, 1924, pp. viii+53. V

SIKH TRACT SOCIETY - Guru Ka Bag. Amritsar, Sikh Tract Society, 4 as, 1922, pp. viii+48+iii. V

### III. RELIGION

ANDREWS, C. F. - Sermon on the Mount. London, George Allen, 6/-, 1942. pp. 175. Foreword by Rabindranath Tagore and Introductory Note by Agatha Harrison.

DESAI, VALJI G. - Glances at Islam. Ahmedabad, Navajivan, 3 as, 1938, pp. viii+40. V

FEDERATION OF INTERNATIONAL FELLOWSHIPS (Pub.) - Sabarmati - 1928. Being the Report of the First Annual Meeting of the Council of the Federation of International Fellowships held at the Satyagraha Ashram, Sabarmati, 13th to 15th January 1928. 6 as, 1928, pp. 40.

Includes speeches by P. A. Wadia, C. F. Andrews and Mahatma Gandhi.

FYZEE, A. A. A. - Islamic Culture. Bombay, International Book House, Re. 1/4, 1944, pp. iv+50. V

GANDHI, M. K. - Christian Missions and Their Place in India. Ahmedabad, Navajivan. Rs. 2/-, 1941, pp. viii+311. V

The first few initial chapters deal with the larger question of the equality of religions, thus providing a

necessary background for the ideas propounded in the book.

- Delhi Diary. (Prayer speeches from 10-9-'47 to 30-1-'48). Ahmedabad, Navajivan, Rs. 3/-, 1948, pp. xxiv+406. V

"Though covering a vast field, the speeches mainly concentrate on the establishment of peace and concord among different sections of the people, particularly the Hindus, Muslims and Sikhs."

- Ethical Religion (Niti Dharma) : Handbook of Morals. Translated from the Hindi by A. Rama Iyer with an appreciation of the Author by the Rev. J. H. Holmes. Madras, S. Ganesan, 8 as, 2 ed. 1922, pp. 64. V

The book is originally written in English by an American named Mr. Salter. Mahatma Gandhi published an abridged Gujarati rendering of it in his 'Indian Opinion'. This Gujarati version now passes as the original work of Gandhiji and has been retranslated into English and other provincial languages of India.

-(Ed. Jag Parvesh Chander). Ethics of Fasting. Lahore, Indian Printing Works, Rs. 2 S, 1944, pp. viii+123. V

-(Ed. Prof. Abdul Majid Khan)-Fellowship of Faiths and the Unity of religions. Madras, G. A. Natesan & Co., Re. 1/-, 1947, pp. xvi +53. Introduction by J. B. Kripalani and Foreword by Prof. Gurumukh Nihal Singh. V

-(Tr. Valji G. Desai)-From the Yeravda Mandir: Ashram Observances. Ahmedabad, Navajivan, 1 ed. 1933; 3 revised ed. 1947, 8 as, pp. 67. V

Weekly letters written by Gandhiji from the Yeravda Jail in 1930 to the inmates of the Satyagraha Ashram Sabarmati on the principal Ashram Observances.

-(Ed. Jag Parvesh Chander.)  
-Gita The Mother. Lahore, Free India Publications, Rs. 2/8, 1942, pp. 16+202. V

-God Is. Karachi, Anand T. Hingorani, 6 pies, 1935, pp. iv+8. V

-The Good Life. Lahore, Free India Publications, Rs. 2/-, 1943, pp. 108. V

-My Religion. Lahore, R. P. Bookwala & Co., Re. 1/8/-.

-(Ed. A. T. Hingorani)  
-Ramanama The Infallible Remedy. Karachi, Anand T. Hingorani, Rs. 2/8, 1947, pp. viii+104. V

-(Ed. Jag Parvesh Chander.)  
-The Unseen Power. Lahore, Free India Publications, Re. 1/-, 1941, pp. iv+104. V

GANDHI, M. K. AND HOYLAND, J. S. - Songs from Prison. Translations from Indian Lyrics made in the Yeravda Jail in 1930 by M. K. Gandhi; and Adapted for the Press by John S. Hoyland. London, George Allen, 3/6, 1934, pp. 160. V

GANESH & CO. (Pub.)  
-Gandhi and the Anglican Bishops. Madras, Ganesh & Co., 12 as, 1922, pp. vi+64. Foreword by K. Natarajan. V

GEORGE, S. K. - Gandhi's Challenge to Christianity. London, George Allen, 3/6, 1 ed. 1939, pp. 112. Foreword by Radhakrishnan. V

Indian edition published by Navajivan Press, 1947, Re. 1/8, pp. 15+80. A new additional foreword by Horace Alexander. V

HOYLAND, J. S. - The Cross Moves East. London, 1931.

JESUDASAN, DR. S. - Jesus Christ and the Present Situation In India. Tiruputpur, 1931.

JONES, E. S. - Along the Indian Road. London, 1939.

KUMARAPPA, J. C. - Christianity — Its Economy and

Way of Life. Ahmedabad, Navajivan, Re. 1/8, 1945, pp. viii+124. V

With an appendix, 'Church and Civil Disobedience.' (pp. 81-102).

- Practice and Precepts of Jesus. Ahmedabad, Navajivan Re. 1/8, 1 ed. 1945; 2 ed. 1946, pp. xvi+112. With 'A Word' by M. K. Gandhi. V

- The Religion of Jesus. Rajahmundry, Hindustan Publishing Co., 4 as, 1937, pp. 90. V

This is included in the Author's 'Christianity: Its Economy and Way of Life', listed above.

MUHAMMAD (Ed. Allama Sir Abdullah Suhrawardy).

- The Sayings of Muhammad with a Foreword by Mahatma Gandhi. London, John Murray, 3/6, 1941, pp. 128. V

PAREKH, BHAI MANILAL C.

- Christian Proselytism in India (A Great and Growing Menace). Rajkot, Shri Bhagwat Dharma Mission, Rs. 7/8, 1947, pp. xiv+463. V

RADHAKRISHNAN, SIR S.

- The Heart of Hindustan. Madras, G. A. Natesan & Co., Re 1/4, 1931, pp. 48+144. V

Collection of articles on different faiths in India contributed to various journals.

- Religion and Society. Based on Notes of Lectures Delivered at Calcutta (Kamala Lectures) and Benares in the Winter of 1942. London, George Allen, 10/6, 1947, pp. 242. V

A special chapter (lecture) is devoted to War and Non-Violence, pp. 199-238.

RAGHAVAN, DR. V. (Compiler and Translator) - Prayers, Praises and Psalms. Selections from the Vedas, Upanishads, Epics, Gita, Puranas, Agamas, Tantras, Kavyas and the Writings of the Acharyas and Others. Madras, G. A. Natesan, Re. 1/4, 1938, pp. xxiv+512. V

Foreword by Mahatma Gandhi.

SARMA, D. S. - Studies in the Renaissance of Hinduism in the Nineteenth and Twentieth Centuries. (Pratap Singh Gaekwar Library of Indian Philosophy and Religion). See Section I.

SATHE, H. V. - Suggestion No. 4 to Mahatma Gandhi (on Religious Reform). Poona, M. H. Kaduskar, 1933, pp. 26.

SINGAM, S. THURAI RAJA - Gandhian Rambles in the Realm of the New Testament. 1927.

SUNDAY TIMES (Pub.) —

Gandhiji on Hinduism or Varnashrama-Dharma. (My Motherland Series). Madras. TAGORE, RABINDRANATH - The Religion of Man. (Hibbert Lectures for 1930). London, George Allen, 7/6, 1931, pp. 240. V

THOMPSON, EDWARD - Ethical Ideals in India Today. (Conway Memorial Lecture, 1942). London, Watts and Co., 2/-, 1942, pp. 39

The Ethics of Gandhi discussed from page 5 to 19 and onwards.

WADIA, MADAME SOPHIA

- Brotherhood of Religions. Being a brief and comparative study of religions, from the standpoint of Theosophy. Bombay, International Book House, Rs. 3/-, 1939, pp. xx + 260. Foreword by Mahatma Gandhi. V

WADIA, P. A. - The Faith That Matters. Bombay New Book Co., Rs. 3/-, 1947, pp. viii + 88. V

Chapter VI Law and Obedience: The Significance of the Civil Disobedience Movement; Chap. XII. Gandhiji's Birthday.

### III A. SOCIAL ETHICS

ASSAM OPIUM ENQUIRY COMMITTEE - Assam Congress Opium Enquiry Committee: Report, 1925. Cinnamara - Jorhat, R. K. Hatibaran, Re. 1/8, 1925, pp. 165. V

ATREYA - Towards Dry India. Madras, Dikshit Publishing House, Re. 1/4, 1934, pp. iv + 215. V

BADRUL HASSAN - The Drink and Drug Evil in India. (An account of the origin and growth of these Vices with a statement of the Government's responsibility in encouraging them and of the ways and means to abolish them). Madras,

Ganesh & Co., Rs. 2/-, 1922, pp. vi + 161, index. Foreword by Mahatma Gandhi. V

BOMBAY GOVT. - Report of the Administration of the Excise Department of the Government of Bombay 1937-38. Bombay, Government Central Press, 5 as, 1939, pp. iv + 99. V

BUREAU, PAUL - Towards Moral Bankruptcy. London, Constable, 21/-, 1925, pp. V

GANDHI, M. K. (Ed. Dewan Ram Parkash) - Gandhi's Birth Control. Lahore, Dewan's Publications, Re. 1/-, 1 ed. 1944, pp. 71.

- (Ed. R. K. Prabhu and U. R. Rao) - Conquest of Self

(Being Gleanings of His Writings and Speeches).  
Bombay, Thacker, Rs. 7/12,  
1945, pp. viii+286. V

Also in Rampart Library  
edition in 2 Vols. Re. 1/8  
each. 1944, pp. iv+103,  
iv+87.

-(Ed. Prof. T. K. Dutt)  
- The Loin Cloth Laid  
Bare. Lahore, Messrs. Dutt  
and Sons, 13 as, 1947, pp.  
2+91. V

- Self-Restraint Vs. Self-  
Indulgence. Ahmedabad,  
Navajivan, Pt. I, 6 ed. 1944,  
viii+130, Re. 1/8; Pt. II, 1  
ed. 1939, Re. 1/-, pp. iv+147.

Both the parts in one  
volume, 2 ed. 1947, Rs. 2/-,  
pp. viii+232. V

A comprehensive and au-  
thoritative collection on the  
subject.

-(Ed. Prof. T. K. Dutt) - Sex  
Sermons from the Loin  
Cloth. Lahore, Messrs. Dutt  
and Sons, 15 as, 1942, pp.  
ii+91. V

JAGANNATHACHARI, C. - Re-  
port of the Working of  
Prohibition in the Salem  
District. Annamalainagar,  
Annamalai University, Re.  
1-4, 1939, pp. 104. V

MUNI, A. K. - God's Lenses.  
(Prohibition and Spirituality).  
Madras, S. Ganesan, Rs.

2/-, 1931, pp. 144. V

PROHIBITION PROPAGANDA  
BOARD - Prohibition : The  
Dawn of a New Era.  
Bombay, Government Central  
Press, 2 as, 1939, pp. 85. V

This booklet was publi-  
shed by the Bombay Govern-  
ment in reply to critics re-  
garding its policy of Total  
Prohibition announced to be  
introduced from the 1st  
August 1939.

Contains half a dozen  
articles of Gandhiji, and  
speeches and articles of Bom-  
bay ministers and replies to  
critics, including Shri Subhash  
Chandra Bose, of its Prohi-  
bition Policy.

RAJGOPALACHARI, C. - Indi-  
an Prohibition Manual.  
Madras, I. N. Congress Pro-  
hibition Committee, 4 as,  
1931, pp. iv+60. V

THOMAS, P. G. - Economic  
Results of Prohibition in  
the Salem District. Madras,  
1939.

THURSTON, WILLIAM R.  
- Thurston's Philosophy of  
Marriage. Madras, S.  
Ganesan, 12 as, 1928, pp.  
83. V

UNWIN, J. D. - Sex and  
Culture. London, Oxford  
Univ. Press, 36/-, 1934, pp.  
xxiv+676. V



#### IV SOCIOLOGY—GENERAL

ALL INDIA CONGRESS COMMITTEE - Congress Golden Jubilee Brochures, Nos. 1-11. Allahabad, Rs. 3/6, 1935, pp. 492. V

1. Satyagraha; 2. Village Industries and Reconstruction; 3. Some Aspects of Khadi; 4. Rural Indebtedness in India; 5. The Public Debt of India; 7. The Public Services in India; 9. Women in India; 11. Indian Currency and Exchange.

- Congress Political and Economic Studies, Nos. 1-11.

AMBEDKAR, B. R. - The Annihilation of Caste and a Reply to Mahatma Gandhi. Bombay, B. R. Ambedkar, 8 as, 2 ed. 1937, pp. xvi+82+23. V

Speech prepared for the 1936 Annual Conference of the Jat Pat Todak Mandal of Lahore, but not delivered. With two appendices, the first containing three articles of Gandhiji published in the 'Harijan'.

AMRIT KAUR - A Challenge to Women. Allahabad, New Literature, Rs. 3/12, 1946, pp. viii+189. V

Foreword by Pt. Jawaharlal Nehru.

- To Women. Ahmedabad,

Navajivan, 6 as, 1945, pp. 32. V

ANDREWS, C. F. - The Oppression of the Poor. Madras, Ganesh and Co., pp. xxxvi+136. V

CHASE, STUART - Men and Machines. New York, Macmillan, \$ 3. 00, 1929, pp. iv+354. V

COUSINS, MARGARET E. - Indian Womanhood Today. Allahabad, Kitabistan, Rs. 2/8, 1941, pp. 207. V

DATTA, BHUPENDRA KUMAR - The Indian Revolution and the Constructive Programme. Calcutta, Saraswati Library, Rs. 2/-, 1946, pp. 83. V

DATTA, HIRENDRANATH - Indian Culture, Its Strands and Trends. (A Study in Contrasts). (Kamala Lectures). Calcutta University, Re. 1/10, 1941, pp. x. 119. V

Independence Pledge and Gandhiji's article on it criticized, pp. 8-18.

DESAI, A. R. - Social Background of Indian Nationalism. Bombay, Oxford Univ. Press, Rs. 20/-, 1948, pp. xvi+416. V

The author in his 'progressive' zeal pronounces

judgements rather too freely and light-heartedly on all Indian problems, especially the items of Gandhiji's constructive programme including basic education, which he calls 'unscientific and reactionary.'

**GANDHI, M. K.** - Constructive Programme. Its Meaning and Place. Ahmedabad, Navajivan, 1 ed. 1944; 2nd. revd. ed. 3 impr. 1948, 6 as, pp. 31. V

Two appendices are added to this impression of the 2nd revd. edition.

- **HIND SWARAJ OR INDIAN HOME RULE.** Ahmedabad, Navajivan, Revd. new ed. 1939, 3rd impr. 1946, 8 as, pp. 80. V

Preface to the new edition by Mahadev Desai. This is the authorized English version of Gandhiji's Hind Swaraj.

- **INDIAN HOME RULE.** Reprinted with a New Foreword by the Author. Madras, Tagore & Co., 10 as, 1921, pp. vii+94. V

-(Tr. H. T. Muzumdar) - Sermon on the Sea. Chicago, 1924.

This is a translation of Hind Swaraj or Indian Home Rule under a different and catching name, Hind Swaraj

was written by Ganuuj, while on board a steamer bound for South Africa (from England), and hence the name!

-(Ed. A. T. Hingorani) - To the Women (Gandhi Series). Karachi, Ananda T. Hingorani, Rs. 3/12, 1941, pp. xvi+247. V

- **WOMEN AND SOCIAL INJUSTICE.** Ahmedabad, Navajivan, 1 ed. 1942; 3rd impr. 1947, Rs. 3/-, pp. xii+216. Foreword by Amrit Kaur. V

**HALDANE, J. B. S.** - The Inequality of Man. Harmondsworth, Penguin Books, 6d, 2 ed. 1937, pp. xii+276. V

**HOUGHTON, BERNARD** - The Revolt of the East. Madras, S. Ganesan, Re. 1/-, 2 ed. 1922, pp. vii+85. V

**HOWSIN, HILDA** - India's Challenge to Civilization. Madras, Tagore and Co., Rs. 2/8, 1922, pp. viii+99. V

**KULKARNI, G. R. ; NARAYANSWAMI, C. K. & NEKSATKHAN, SAM** - The Constructive Programme: Its Perspectives and Dynamics. Bombay, B. P. C. C., Re. 1/4, 1945, pp. 72. V

**KUMARAPPA, BHARATAN** - Capitalism, Socialism & Villagism? Madras, Shakti

Karyalaya, Rs. 5/-, 1946, pp viii+246.

Foreword by Mahatma Gandhi.

KUMARAPPA, J. C. - Peace and Prosperity. Wardha, A. I. V. I. A., 8 as, 1948, pp. iv+37. V

- The Philosophy of Work and other Essays. Wardha, A. I. V. I. A., 12 as, 1947, pp. iv+47. V

- Science and Progress. Wardha, A. I. V. I. A., 12 as, 1948, pp. iv+46. V

KUNHI KANNAN, DR. K. - A Civilization at Bay: India-Past, Present and Future. Madras, Natesan & Co., Rs. 3/-, 1931, pp. xxiv+504+xvi. V

Ch. 27. Gandhi, pp. 481-498, gives an account of the personality and message of Gandhi.

MODAK, CYRIL - India's Challenge to Christians. Lucknow, The Upper India Publishing House, Rs. 2/-, 1940, pp. xii+194. V

MOOKERJEE, DR. H. C. - Congress and the Masses. Calcutta, The Book House, Rs. 3/-, 1946, pp. xvi+260. V

- Some Non-Political Achievements of the Congress. Bombay, Hamara Hindustan, 8 as, 1946, pp. ii+30. V

MUNSHI, K. M. - The Ruin that Britain Wrought. Bombay, Padma Publications for Bharatiya Vidya Bhavan, Rs. 2/4, 1946, pp. viii+85. V

NANAVATI, SIR MANILAL; VAKIL, C. N.; &c. - India Speaking. (The Annals of the American Academy of Political and Social Science, May 1944). Philadelphia, The Academy, \$ 2.00, 1944, pp. viii+267. V

Ind. ed. Bombay, Vora & Co., 1945, Rs. 8/-, pp. 230. V

NATARAJAN, S. - The Social Problem. London, Oxford Univ. Press, 4 as, 1942, pp. 32. V

O'MALLEY, L. S. S. - India's Social Heritage. Oxford, Clarendon Press, 5/-, 1934, pp. 194. V

Gandhi's contribution to Social Reform described among many other things.

PREM NATH - Our Fault. Foreword by S. Radhakrishnan. Lahore, Hero Publications, Rs. 2/4, 1944, pp. 108. V

Most of the articles (on Communal Problem, Education etc.) are written by the author in his college days and read like class essays.

PRITAMSINGH, BHAI - Gandhi's Constructive Programme. Lahore, Paramount Publications, Rs. 3/-, 1944, pp. 143. V

Random Collection of articles bearing on the various items of the Constructive Programme.

RADHAKRISHNAN, S. - Kalki or the Future of Civilization (Today and Tomorrow Series). London, Kegan Paul, 2/6, 1929, pp. 96. V

RAO, R. V. - Gandhian Insti-

tutions of Wardha. Bombay, Thacker, Rs. 2/8, 1947, pp. viii+49. Illustrated. Intro. by J. C. Kumarappa. V

WADIA, SOPHIA - The Spiritual Basis of Social Service. Bombay, Social Service League, 4 as, 1936. V

Gandhi's self-reform basis of social service emphacized.

#### IV A. REMOVAL OF UNTOUCHABILITY

AMBEDKAR, B. R. - Annihilation of Caste with a Reply to M. Gandhi. See Sect. IV - Mr. Gandhi and the Emancipation of the Untouchables. Bombay, Thacker & Co., Rs. 2/8, 1943. V

- Untouchables and the Indian Constitution. New York, Institute of Pacific Relations, 1942.

- What Congress and Gandhi Have Done to the Untouchables. Bombay, Thacker, Rs. 14/8, 1945, pp. xii+387. xv appondices and index. V

The Author tries to make out Gandhism as the doom of the Untouchables.

DESAL, MAHADEV - The Epic of Travancore. Ahmedabad, Navajivan, Re. 1/8, 1937, pp. xii+251. Illustrated. V

DESAL, VALJI G. - The Shastras on Untouchability. Ahmedabad, Navajivan. V

DEWAN, RAM PARKASH (Ed.) - Gandhiji's Great Fast, 1932. Lahore, The Popular Publishers, Re. 1/-, 1943, pp. 66. V

Published during the Quit India Struggle period. Book not well got up, nor well edited. For the account of this fast the reader should refer to the 'Epic Fast' by Pyarelal

GANDHI, M. K. (Compiled and Edited by Suman, Shri Ramnath) - The Bleeding Wound! (Being a Most Up-to-date Collection of Gandhiji's Speeches, Writings and Statements on Untouchability). Introduction by C. Y. Chintamani and Foreword by G. D. Birla. Benares City, Shyam Lal M. A., Re. 1/8, 1932, pp. xxii+226. V

- My Soul's Agony. Ahmedabad, Navajivan, 1932. V

- (Ed. Dewan Ram Parkash) - Untouchability. Lahore,

Gandhi Publication's League,  
Re. 1/12, 1944, pp. V

The Collection is far from complete. Most of the articles included in it were written in the twenties.

HARIJAN, A- Gandhi or Ambedkar. Madras, Gandhi Era Publikashions, 12as, 1945, pp. 46V

Foreword by Radhakrishnan.

HARIJAN SEVAK SANGH - Annual Reports of the Harijan Sevak Sangh. New Delhi, H. S. Sangh.

- First Annual Report, 1933.

- Fifth Annual Report, Octo. 1936 to Sept. 1937. Delhi, 1938, pp. 32+38+xxv. V

- Three years' Report of the Harijan Sevak Sangh from Oct. 1, 1937 to Sept. 30, 1940, Delhi, pp. ii+60+91+xxxii. V

HARIJAN SURVEY COMMITTEE - Report of the Committee Appointed by the Cawnpore Harijan Sevak Sangh in May 1933 (to make a survey of the Social and Religious Disabilities etc. of the Harijans of Cawnpore.) Cawnpore, Harijan Sevak Sangh-Cawnpore Branch, Re. 1/8, 1934, pp. viii+100. V

HUNT, W. S. - India's Outcastes: A New Era. London, Church Missionary Society, 2/6, pp. vi+113. V

IYER, K. A. S. (Pub.) - Corres-

pondence on the Temple Entry Question. Madras.

KALWANKAR, S. R. - An Appeal to Gandhiji (to desist from this anti-untouchability campaign). Malegaon, S. R. Kalwankar, 1934, pp. 8.

MAHADEVAN, S. - Mahatma Gandhi's Warning and Flashes in Harijan Tour. Madras, Journalists' Publishing House, Re. 1/4, 1936, pp. vi+171. Illustrated. V

MALKANI, N. R. - A Critical Note on Hindu Temple Entry Bill. Delhi, 1934.

PUSHPARAJ, P. K. - As An Untouchable Feels Untouchability. (The Servants of the Untouchable Society Tract No. 1). Delhi, S. O. U. Society, 1933, pp. 16. V

PYARELAL - The Epic Fast.

Foreword by C. Rajgopalachari. Ahmedabad, Navajivan, Re. 1/4, pp. xii+325+ii. V

Besides 'A Fortnight of Agony' which forms Pt. I of the book by Sjt. Pyarelal, the book contains a number of articles and statements by Gandhiji, the text of the Yeravda Pact and statements of public men on the issues involved in the fast.

RAJGOPALACHARI C. - Ambedkar Refuted. Bombay, Hind Kitabs, Re. 1/-, 1946, pp. 38. V

A reply to the charges levelled by Dr. Ambedkar against Gandhiji and the Congress in his book 'What Congress and Gandhi Have Done to the Untouchables'.  
 - The Impending Fast of Mahatma Gandhi (The Issues Explained). Delhi, The Servants of the Untouchables Society, 2 as, 1933, pp. ii+32.

A book containing a discussion on the Removal of Untouchability.

- Plighted Word [Being an account of the History and Object of the Untouchability Abolition and Temple Entry Bills.] Delhi, Servants of the Untouchables Society, 2 as 1933, pp. ii+34. V

SANJANA, J. R. - Caste & Outcaste. Bombay, Thacker, Rs. 6/14, 1946, pp. xx+249. V

The author has all along been a bitter critic of Indian Nationalism and the Congress and Gandhiji in particular.

SANTHANAM, K. - Ambedkar's Attack. [A Critical Examination of Dr. Ambedkar's Book 'What Congress and Gandhi Have Done to the Untouchables']. New Delhi, The Hindustan Times, Rs. 2/-, 1946, pp. vi+114. V

TAGORE, RABINDRANATH - Maharmaji and the

Depressed Humanity.  
 Calcutta, Vishwabharati Bookshop, 12 as.

Contains correspondence of the Poet with Gandhiji and his associates at the time of the Epic Fast and some speeches by the Poet on the occasion at different places.

TEMPLE ENTRY ENQUIRY COMMITTEE-Report of The Committee, 1934. Trivendrum, Supdt., Govt. Press, 1935, pp. vi+413.

THAKKAR, A. V. - The Problem of Aborigines in India (R. R. Kale Memorial Lecture, 1941). Poona, Gokhale Institute of Politics and Economics, Re. 1/-, 1941, pp. 37. V

TONDON, LALTAPRASAD - The Rationale of Untouchability. Cawnpore, S. G. Rastogi, 4 as, 1934, pp. 42.

VENKATARAMAN, S. R. - Harijans Through the Ages. Madras, Bharata Devi Publications, 8 as, 1946, pp. 20. V

WADIA, MADAM SOPHIA - Theosophy and Untouchability. (A Lecture Delivered on 18-12-'32). Bombay, Bombay Provincial Board Servants of the Untouchables Society, 2 as, 1932, pp. 15.

## IV B. COMMUNAL (MAINLY HINDU-MUSLIM) PROBLEM

**ABBAS, M. H.** - All about the Khilafat. With the Views of Mahatma Ghandhi together with Full Details of the Indian Khilafat Delegation in Europe Headed by Maulana Mohammed Ali. Calcutta, Ray & Ray Choudhary, Rs. 2/4, pp. 368. V

Mahatma Gandhi on Khilafat, pp. 336 to 356.

**ABDUL MAJID KHAN, PROF.** - Communalism in India : Its Origin and Growth. Foreword by Babu Rajendra Prasad and Introduction by Kalinath Ray. Lahore, Paramount Publications, Rs. 2/-, 1944, pp. ii+78.

**ADHIKARI, G.** - Pakistan and National Unity.

**AHMED, JAMILUDDIN** - Through Pakistan to Freedom. Lahore, Mohamad Ashraf, Re. 1/8.

Discussion of the C. R. Formula and Jinnah-Gandhi Talks.

**ALIVI, HATIMA A. and JAI-SINGHANI** - Hindu-Muslim Unity. Karachi, 1930.

**AMBEDKAR, BHIMRAO R.** - Thoughts on Pakistan. Bombay, Thacker, 1ed. 1941, Rs. 10/-, pp. viii+380. V

- Pakistan and the Partition

of India. Bombay, Thacker, 1945, Rs. 15/12, pp. xxiv+481. V

This is the revised edition of 'Thoughts on Pakistan'.

**ANSARI, DR. SHAUKAT ULLAH** - Pakistan the Problem of India. Lahore, Minerva Book Shop, Rs. 3/8, 1944, pp. vi+131. V

**BAPAT, NARAYAN SADA-SHIV** - Hindú-Muslim Unity. Poona, N. S. Bapat, 6 as, 1938; 2nd. revd. ed. 1939, pp. iv+58. V

**BARKAT ALI, MIRZA** - The Hindu-Muslim Problem. Bombay, Thacker & Co.

**BENI PRASAD, PROF.** - Communal Settlement (New India Series No. 1). Bombay, Hind Kitabas, 14 as, 1944, pp. 48. V

- Hindu Muslim Questions. Allahabad, Kitabistan, Re. 1/8, 1941, pp. xiv+172. V

**CHAKRABARTY, ATULANADA** - Hindus and Musalmans of India. Calcutta, Thacker, Spink & Co., Rs. 2/8, 1940, pp. xxiv+183. V

**DALAL, SIR ARDESHIR** - An Alternative to Pakistan. Delhi, India Council of World Affairs, 8 as, 1944, pp. 32. V

- DURLABHSINGH (Ed.) - A Complete Record of the Unity Talks. [Rajendraprasad-Jinnah, Gandhi-Jinnah, Nehru-Jinnah, Bose-Jinnah, Sapru-Jinnah, Viceroy-Jinnah and Gandhi-Jinnah etc.] Lahore, Hero Publications, Rs. 4/8, 1945.
- DURRANI, F. K. KHAN - The Meaning of Pakistan. Lahore, Mohammad Ashraf. Rs. 3/12.
- EL. HAMZA - PAKISTAN A NATION. Lahore, Mohammad Ashraf, Rs. 3/-.
- GANDHI, M. K. - Communal Unity. Ahmedabad, Navajivan. 1948.
- (Ed. N. R. Mehta) - Gandhiji on Communal Disorders. Allahabad, India Publishers, Rs. 2/-, 1947, pp. viii+70. V
- Hindu Muslim Tension: Its Cause and Cure. Ahmedabad, Navajivan, 1 anna, 1924, pp. V
- (Ed. A. T. Hingorani) - To the Hindus and Muslims. Karachi, A. T. Hingorani, Rs. 6/8, 1942, pp. xx+504. V
- (Ed. A. T. Hingorani) - To the Protagonists of Pakistan. Karachi, A. T. Hingorani, Rs. 6/8, 1947, pp. xvi+268. V
- GAUBA, K. L. - Inside Pakistan. Delhi, Rajkamal Publications, Rs. 5/-, 1948, pp. x+279. V
- GHOSH, SACHINDRALAL (Ed.) - Gandhiji's Do or Die Mission. Calcutta, The Book Corporation, Rs. 3/-, 1947, pp. vi+93. V
- GUPTA, J. P. (Ed.) - Jinnah Sahib, "Please". Bombay, Hamara Hindustan, 8 as, 1942, pp. 103+xix. V
- HINDU NATIONALIST, A. - Gandhi - Muslim Conspiracy. Poona, R. D. Ghanekar, Rs. 2/-, 1941, pp. xx+219. V
- Wholly based on distortions of facts and passages torn out of their context and misquoted, sometimes emended too, to suit the author's favourite theme.
- HINDUSTAN TIMES (Pub.) - Gandhi-Jinnah Talks (July-October 1944). New Delhi, Hindustan Times, Rs. 1/-, 1944, pp. viii+104. Preface by C. Rajgopalachariar. V
- Book contains text of correspondence, the C. R. Formula and a few relevant statements issued by the leaders at the time.
- INDIAN MUSLIM POLITICIAN, AN - Muslim Demand for Pakistan. New York, Institute of Pacific Relations, 1942.
- IQBAL, SIR MUHAMMED - Letters of Iqbal to Jinnah.



- Lahore, Muhammad Ashraf, 8 as, 1943, pp. 31. V
- KABIR, HUMAYUN - Muslim Politics (1906-1942). Calcutta, Gupta Rohman and Gupta, Re. 1/4, 1944, pp. 61. V
- KARAKA, D. F. - For Every Thinking Indian : The Tragic Story of the Brankruptcy of Wisdom, Bombay, Thacker, Re. 1/-, 1944, pp. 28. V
- Articles on Gandhi-Jinnah Talks and Correspondence.
- KHANNA, MEHERCHAND - Pakistan : A Hindu View. New York, Institute of Pacific Relations, 1942.
- KRISHNA, K. B. - The Problem of the Minorities or Communal Representation in India. London, George Allen, 15/-, 1939, pp. 359. V
- KULKARNI, V. B. - Is Pakistan Necessary? Bombay, Hind Kitabs, Rs. 3/12, 1944, pp. iv+109.
- LATIF, SYED ABDUL - The Muslim Problem of India. Bombay, Times of India Press, 12 as, 1939, pp. viii+50. V
- MADNI, HUSSAIN AHMED - An Open Letter to the Moslem League. Lahore, Dewan's Publications, Rs. 2/4, 1946, pp. 101. V
- MEHTA, ASHOK AND NAIR, KUSUM - The Simla Triangle : A Projection of the Communal Triangle. Bombay, Padma Publications, Re. 1/-, 1945, pp. vi+82. V
- MEHTA, ASHOK AND PATWARDHAN, ACHYUT - The Communal Triangle in India. Allahabad. Kitabistan, Rs. 4/8, 1942, pp. 263, a-full bibliography and index. V
- MOOKERJEE, DR. RADHAKUMUD - A New Approach to the Communal Problem. Bombay, Padma Publications Ltd., 12 as, 1943, pp. iv+100. V
- NAGARJUNA (A. N. SINHA) - A Guide to the Communal Problem in India. Patna, Himalayan Publications Ltd., Rs. 5/-.
- NAWAB NAZIR YAR JUNG BAHADUR (Ed.) - Pakistan Issue. Being the Correspondence between Dr. S. A. Lateef, Pt. Nehru, Maulana Azad, Rajendraprasad, Jinnah &c. Lahore, Muhammad Ashraf, Rs. 3/12, 1943, pp. xxxvi+159. V
- NOMAN, MOHAMMAD - Muslim India : The Rise and Growth of the All India Muslim League. Allahabad, Kitabistan, Rs. 4/8, 1942, pp. 433. V
- PEERZADA, SYED SHARIFUDDIN (Ed.) - Leaders' Correspondence with Mr. Jinnah. Bombay, Sh. Nazir Ahmed, Taj Office, Rs. 6/-, 1944, pp.

iv+225. V

A Record of the correspondence that passed between Mr. Jinnah on the one hand, and Lord Linlithgo, Gandhiji, Pt. Nehru, S. C. Bose, T. B. Sapru, Sir Roger Lumley, Mr. Fazlul Huq, The Nawab of Chhatari, Maulana Azad, Allama Mashriqui, Rajaji and Abdul Majid on the other, with reference to Hindu-Muslim Unity.

RAGHAVAN, V. - Indo - Muslim Culture. Bangalore, Vichara Sahitya Ltd.. Re. 1/8.

RAJENDRAPRASAD, BABU - India Divided. Bombay, Hind Kitabs, Rs. 10/8, 1st ed. 1946, pp. xii+396. V

2nd ed. 1947.

- Addendum to the First Edition of India Divided. 4 as, pp. 8. V

- The League Demand. (New Age Series 1). Calcutta, New Age Publishers, 12 as, 1945, pp. 24.

Collection of articles contributed to the 'Hindustan Times' in Jan-Feb. 1946 for the attention of the M. P.s."

- Pakistan. Bombay, Allied Publishers, 6 as. 1940, pp. 62. V

REZA - UL - KARIM - For India and Islam. Calcutta. Re. 1 4.

A challenge to the Com-

munal Leaders of India.

- Muslims and the Congress. Being a Symposium of Addresses of Muslim Presidents of the Indian National Congress from 1885 to 1940, with an Introduction. Calcutta, Barendra Library, Rs. 2/8, pp. xxiv+270.

- Pakistan Examined. With the Partition Scheme of Dr. Abūl Latif, Sir Sikandar Hayat Khan and Others.

SAIYID, M. H. (Pub.) - India's Problem of Her Future Constitution: All India Muslim League, Lahore Resolution Popularly Known as 'Pakistan'—an unbiased study, with a preface by M. A. Jinnah. Bombay, Re. 1/-, 1940, pp. iv+152. V

SHAH, K. T. - Why Pakistan and Why Not? Bombay, Pratibha Publications, Rs. 5/-, 1944, pp. viii+284. V

SHETH, HIRALAL - The Khaksar Movement Under Searchlight and the Life Story of Its Leader Allama Mashriqui. Lahore, Hero Publications, Re. 1/4, 1943, pp. 110. V

SMITH, W. C. - Modern Islam in India: A Social Approach. Lahore, Minerva Bookshop, Rs. 10/-, 1943, pp. viii+399. With notes, references, bibliography and index. V

Islam & Indian Nationalism, pp. 241 to 269; Khilafat Movement, pp. 224 to 240.

SULERI, Z. A. - The Road to Peace and Pakistan. Lahore, Muhammad Ashraf, Re. 1/8.

TAGORE, SIR PRADYOT K. - Divine Music before Divine Mosques. Calcutta, 1926.

THADANI, L. V. (Ed.) - The Historical Trial of the Ali Brothers and Five Others. Karachi, R. V. Thadani, Rs. 5/-, 1921, pp. xx+465+198. V

TYABJI, HUSSAIN BADRUDDIN - Why Musalmans

Should Oppose Pakistan. Bombay, Padma Publications, 8 as, 1946, pp. 30.

VAIRANAPILLAI, M. S. - Are We Two Nations? Nationalities in Indian Politics - A Scientific and Non-Partisan Approach. Lahore, Herbert Milton Williams, Rs. 6/8, 1946, pp. xvi+316. Index, appendices and bibliography. V

VASWANI, T. L. - The Spirit and Struggle of Islam. Madras, Ganesh & Co., Re. 1/8, 1921, pp. xvi+179. V

WAHED HUSSEIN - Problems of Communal Settlement. Calcutta, 1931.

## V POLITICS

AGARWAL, s. N. - Gandhian Constitution for Free India. Allahabad, Kitabistan, Rs. 3/12, 1946, pp. 136. V

ALL INDIA CONGRESS COMMITTEE - All Parties Conference 1928: Report with supplement. Allahabad, Gen. Secy, A. I. C. C., Re. 1/8. 1928, pp. 168+56. V

- Bengali - Bihari Question: Report of Babu Rajendra-prasad together with the Resolution of the Working Committee of the Indian National Congress. Allahabad, Kitabistan for A. I. C. C., 4 as, 1938, pp. 2+38. V

- C. P. Ministerial Crisis:

Statements Issued by Shri S. C. Bose, Parliamentary Sub Committee, Acharya Kripalani and Mahatma Gandhi. Allahabad, Kitabistan for A. I. C. C., 8 as, 1938, pp. 2+81. V

- Congress Ministries at Work. (1946 April to April 1947). (Congress Economic and Political Studies No. 2). Allahabad, A. I. C. C., Rs. 2/-, 1947, pp. xv+110. V

- Poona Statements: Statement Issued by and Correspondence between Mahatma Gandhi and Pt. Jawaharlal Nehru, Sept. 1933. Lucknow,

- J. Nehru. A. I. C. C., 2 as, 1933, pp. 13. V
- ALL PARTIES' NATIONAL CONVENTION - The Proceedings of All Parties' National Convention, 1928. Allahabad, Secy. to the Convention, Rs. 2/-, 1928, pp. 149. V
- ASHRAF, MOHAMMAD (Compiler) - The Cabinet Mission and After. Lahore, Mohammad Ashraf, Rs. 6/-, 1946, pp. iv+431. V  
[From Mr. Atlee's Speech in the House of Commons to the Formation of the Interim Government by the Congress].
- BANERJEE, A. C. - The Making of the Indian Constitution. 1939-1947. Vol I: Documents. Calcutta, A. Mukherjee & Co., Rs. 15/-, 1948, pp. 24, 574. V
- (Ed.) - The Constituent Assembly of India. Calcutta, A. Mukherjee & Co. 1947.
- (Ed.) - Indian Constitutional Documents, Vol. II (1856-1945). Calcutta, A Mukherjee & Co., Rs. 12/-, 1946, pp. xxxviii+532. V
- BANERJEE, A. C. & BOSE D. R. - The Cabinet Mission in India. Calcutta, A. Mukherjee & Co., Rs. 6 -, 1946, pp. xiv+386. V  
"Contains all important published documents relating to the work done by the Cabinet Mission in 'India.'"
- BHAVE, VINOBA (Tr. Bharatan Kumarappa) - Swaraj Shastra. (The Principles of Non-violent Political Order). Bombay, Padma Publications, Re. 1/8, 1945, pp. 68. V
- BOSE, SUBHAS CHANDRA - The C. P. Ministerial Crisis. [Statement of the President, A. I. C. C]. Printed at the Hitavad Press, Nagpur, 2 as, 1938, pp. 32. V
- BROCKWAY, A. FENNER - India and Its Government. Madras, Tagore & Co., 6 as, 1922, pp. 29. V
- CHAMAN LAL - British Propaganda in America. Allahabad, Kitab Mahal, Rs. 3/12, 1945, pp. xxiii+125. V
- CHAUDHARY, MANOHAR-LAL - The Congress in Power. Lahore, The Lion Press, Rs. 3/-, 1947, pp. x+146. V  
A Critical review of the work of the Congress ministries with a note on Mahatma Gandhi.
- CHINTAMANI, C. Y. AND MASANI M. R. - India's Constitution at Work. Bombay, Allied Publishers, Rs. 3/12, 1940, pp. viii+212. V
- CONSTITUENT ASSEMBLY OF INDIA - India's Charter

of Freedom. Containing the Objective Resolution of the C. A. and the Two Speeches thereon of Pt. Jawaharlal Nehru. New Delhi, Director of Publicity, C. A. of India, 8 as, 1947, pp. 33.

COUPLAND, REGINALD - The Constitutional Problem in India. [Pt. I The Indian Problem 1833-1935; Pt. II Indian Politics 1936-1942; Pt. III The Future of India]. London, Oxford Univ. Press., Rs. 10/-, 1944, pp. 161+37+208. V

- The Cripps Mission. London, O. U. P., Re. 1/-, 1942, pp. 64. V

- India : A Re-statement. London, O. U. P., 12/6, 1945, pp. viii+311. V

Summary of the Report with historical background, a re-statement of the main facts of Indian connection with Britain as a whole.

DALAL, M. N. - Whither Minorities? Bombay, D. B. Taraporewala, Rs. 2/8, 1940, pp. x+218. V

DASS, ARJAN - Leading Political Parties in India. Lahore, 1943.

DEWAN, RAM PARKASH - Story of Simla. Lahore, Dewan's Publications, Rs. 2/8, 1945, pp. 132.

Account of Conferences regarding the Wavell Plan.

DUNBAR, SIR GEORGE - India at War. London, H. M.'s Stationery Office, 1940.

ELECTION CAMPAIGNER, AN - Of Use to Workers and Voters. Bombay, Hamara Hindustan, 12 as, 1946, pp. iv+70. Foreword by B. G. Kher. V

FISCHER, LOUIS - The Great Challenge. Delhi, Rajkamal Publications, Rs. 10/-, Ind. ed., 1946, pp. viii+435. V

Chapters X, XI and XIII are worth noting.

FUNDAMENTAL RIGHTS COMMITTEE. - Report of the F. R. Committee. Shri Prakash, Convenor of the Committee, 2 as, 1931, pp. 13.

GANDHI, M. K. (Ed. Jag Parvesh Chander) - Gandhi Against Fascism. Lahore, Free India Publications, Rs. 2/-, 1943, pp. xi+102. V

- Gandhiji's Reasons for his Proposed Retirement from the Congress. Delhi, 1934.

- (Ed. Dewan Ram Parkash) - Indian India. Lahore Gandhi Publications League, Re. 1/-, 1943, pp. 63. V

- The Indian States' Problem. Ahmedabad, Navajivan, Rs. 4/-, 1941, pp. xiv+687. V

- Mahatma Gandhi's Reply (With appendices) to

- "Congress Responsibility for the Disturbances 1942-43". [Gandhi-Government Correspondence Vol. II]. Typescript copy issued from Gandhiji's Camp for private circulation only. pp. 61+50. V
- (Ed. A. T. Hingorani) - To the Princes and Their People. (Gandhi Series, IV.) Karachi, Anand T. Hingorani, Rs. 6/8, 1942, pp. xviii+464. V
- GANDHI, M. K. & OTHERS  
- Correspondence between Mahatma Gandhi, the Bombay Government and the Government of India 1942-43. Vol. I. pp. 119. V  
Typescript copy for private circulation only, issued from Gandhiji's Camp.
- Gandhiji's Correspondence with the Government 1942-44. Ahmedabad, Navajivan, 1 ed. 1945; 2 ed. 1945, Rs. 2'8, pp. xxxi+360. V
- GOVERNMENT OF INDIA - Government of India's Despatch on the Proposals for Constitutional Reforms. Calcutta, Government of India Central Publication Branch, Re. 14, 1930, pp. 256. V
- Indian Politics 1921-22. Calcutta, Supdt., Government Printing. Re. 14, 1922. pp. 115. V
- HAMARA HINDUSTAN (Pub.)  
- The Ordeal Begins (Gandhi-Viceroy Correspondence 1942-43). Bombay, 2 as, 1943, pp. 38. V
- HINDUSTAN NEWSPAPERS LTD. (Pub.) - The Congress at a Deadlock and the Way Out. Bombay, 1 anna, 1934, pp. 24.
- HINDUSTAN TIMES (Pub.)  
- India Unreconciled (A Documentary History of Indian Political Events from the Crisis of August 1942 to Feb. 1944). New Delhi, Rs. 3/-, 1944, pp. 528. V
- HIS MAJESTY'S STATIONERY OFFICE - Proceedings of the Federal Structure Committee (Second Session, R. T. C.). London, 1931.
- Proceedings of the Indian Round Table Conference: Second Session, 1931. London, 1931.
- Report of the Indian Statutory Commission. Vol. I-Survey; Vol. II-Recommendations. London, 3/- each, 1930. V
- INDIAN STATUTORY COMMISSION - Report: Vol. I-Survey; Vol. II-Recommendations. Calcutta, Government of India Central Publication Branch, Rs. 3'8, 3'6, 1930, pp. 403, 344. V

- Also issued by His Majesty's Stationery Office, London. See above.
- INDIAN NATIONAL CONGRESS-CENTRAL ELECTION BOARD - Jay Hind Pamphlets 1-10 (Milestones of Liberty &c.), Bombay, Rs. 2/-, 1946. V
- What Congress Fights For (Being The Election Manifesto of the Indian National Congress 1945-46.). Bombay, 1946, pp. 12.
- INDIAN ROUND TABLE CONFERENCE, 12 Nov. 1930 to 19 Jan. 1931 - Proceedings. Re. 1/10, 1931, pp. 489. V
- INDRA PRAKASH - Where We Differ: The Congress and the Hindu Maha Sabha. New Delhi, The Hindu Mission Pustak Bhandar, Rs. 2/-, 1942, pp. viii+343.
- KEITH, ARTHUR B. - A Constitutional History of India, 1600-1935, London, Methuen & Co., 15/-, 1936, pp. xiv +536. V
- Letters on Imperial Relations Indian Reforms, Constitutional and International Law. Oxford, 1935.
- KRIPALANI, ACHARYA, J. B. - Politics of the Charkha. Bombay, Vora & Co., Re. 1/4, 1946, pp. 100. V
- LANKA SUNDARAM, DR. - A Secular State for India: Thoughts on India's Political Future. Delhi, Rajkamal Publications, Rs. 3/-, 1944, pp. iv+114+viii. V
- LAWRENCE, SIR HENRY - The Indian White Paper. Oxford, B. H. Blackwell, 1/-, 1934, pp. 63. V
- LOHIA, RAM MANOHAR - Indian Foreign Policy (Congress Political and Economic Studies, No. 12). Allahabad, A. I. C. C., 3 as, 1938, pp. 19. Foreword by Pt. Jawaharlal Nehru. V
- Indians in Foreign Lands (Congress Political and Economic Studies, No. 11). Allahabad, A. I. C. C., 4 as, 1938, pp. vi+37. Foreword by J. B. Kripalani. V
- MACKENZIE, DE WILT - India's Problem Can Be Solved. New York, Doubleday Doran.
- MANAGER OF PUBLICATIONS (Government of India) - Congress Responsibility for the Disturbances 1942-43. Delhi, 3 as, 1943, pp. ii+86. V
- Correspondence with Mr. Gandhi (August 1942 - April 1944). Delhi, 12 as, 2 impr. 1944, pp. ii+125. V
- Proposals for Indian Consti-

- tutional Reform. Delhi, 4 as, 1933, pp. 119. V
- Report of the Joint Committee on Indian Constitutional Reform: Session 1933-34. Vol. I, Pt. I. Delhi, 8 as, 1935, pp. 427; Vol. I, Pt. II. Proceedings. 12 as, 1934, pp. x+655. V
- MUZUMDAR, H. T. - The Round Table Conference.
- The Story of Peace Negotiations.
- NATARAJAN S. - Indian Parties and Politics. Bombay, Oxford Univ. Press, 6 as, 1947, pp. 32. V
- NATESAN & Co. (Pub.) - The Round Table Conference. India's Demand for Dominion Status. Madras, Rs. 2/-, 1931, pp. xvi+352+ix. V
- NAYYAR, PYARELAL - Status of Indian Princes. Ahmedabad, Navajivan, 4 as, 1941, pp. iv+44. V
- NEHRU, MOTILAL (Chairman) - Report. All Parties Conference. 1928, Allahabad, A. I. C. C., Re. 1 S, 1928, pp. 155. V
- PEOPLE'S PUBLISHING HOUSE (Pub.) - Correspondence between Mahatma Gandhi and P. C. Joshi. Bombay, 8 as, 1945, pp. vi+63. V
- 'POLITICUS' - Eleven Points of Mahatma Gandhi. Being a Series of Articles Published in the Bombay Chronicle in 1930. Bombay, Bombay Chronicle Press, 6 as, 1930, pp. 40. V
- PUBLICIST, A DISTINGUISHED. - Pros and Cons of Council Controversy. Bombay, Vadhvani & Co., Rs. 2/-, 1922, pp. v+244. V
- PURKAYASTHA, K. M. - The Burden of Swaraj (Being a critical examination of certain broader issues underlying a nationalist constitution for India). Calcutta, The Book Co., Rs. 3/- 1931, pp. xvi+192.
- R. K. P. - Elements of village Administration and Law. Sevagram, A. I. S. A., Re. 1/-, 1948, pp. iv+68. V
- SAPRU COMMITTEE - Constitutional Proposals of the Sapru Committee. Moradabad, Secy. of the Committee, Rs. 7.8, 1945, pp. iv+346 + cii. V
- SARKAR, BENOY KUMAR - The Political Philosophies Since 1905. (Their Origins and Their Tendencies - An Objective and Chronological Survey). Madras, B. G. Paul & Co., Rs. 4/-, 1925, pp. xviii+377. V.



SASTRI, M. SATYANARAYANA - Village Republics (A Retrospect and a Scheme). Bezwada, Kalapēotham, Rs. 2/-, 1946, pp. viii+60. Foreword by Dr. Pattabhi Sitaramayya. V

SCHUSTER, SIR G. AND WINT, GUY - India & Democracy. London Macmillan. 1941.

SHAH, VADILAL M. - The Political Gita or the Philosophy of Life Applied to Politics in General and Indian Politics in Particular. Bombay, V. M. Shah, Re. 1/4, 1921, pp. 216. V

SINGH-ROY, B. P. - Parliamentary Government in India. Calcutta, Thacker Spinck and Co., 1943, pp. ix+427. V

SITHARAM, P. R. - The Great Challenge. Being the Complete Story of Mahatma Gandhi's Fast. Bombay, Arpee Publications, Re. 1/-,

1943, pp. xvi+140. V

UNITED KINGDOM, GOVERNMENT OF - Telegraphic Correspondence Regarding the Situation in India. Government, London; (Cmd. 1586, 1922, East India - Non-Cooperation).

UPENDRA PUBLISHING HOUSE - Nationalists Vs. Moderates. (Lajpatrai-Shastri Controversy). Madras, 8 as, 1921, pp. 47. V

VARMA, SHANTIPRASAD - The Problem of Democracy in India. Delhi and Lahore, Rs. 7/8, 1946, pp. xiv+20+458+7, appendices. Foreword by Dr. Tarachand.

VYASA RAO, K. - Foundations of Indian Swaraj. Madras, V. Ramaswamy Sastrulu and Sons, 1925, pp. x+118. V

The author tries to make a case against the non-co-operation movement. The creed of the Charkha also severely criticized.

## VI. ECONOMICS

AGARWAL, S. N. - The Gandhian Plan. Bombay, Padma Publications, Rs. 2/8, 1944, pp. vi+115. V  
Foreword by Mahatma Gandhi.

- Gandhian Plan Reaffirmed. Bombay, Padma, Rs. 2/8, 1948, pp. 88. V

This is in continuation of and supplement to the earlier book listed above.

A. I. C. C. - Report of the Economic Programme Committee. Re. 1/-, 1948, pp. 62. V

ANJARIA, J. J. - An Essay on Gandhian Economics.

- Bombay, Vora & Co., Re. 1/4, 1945, pp. 40. V
- BANAVALIKAR, A. S. - The Textile Policy of the Madras Government. (A Study of Economic Possibilities). Delhi, Young Man and Co., Rs. 2/8, 1947, pp. viii + 64.
- BASU, MAJOR, B. D. - Ruin of Indian Trade and Industries. Calcutta, Prabasi Press, Rs. 2/-, 2ed. pp. viii + 158. V
- BRIJ NARAIN, PROF. - Char- kha Marxism and Indian Socialism. Lahore, Ramakri- shna and Sons, Re. 1/8, 1941, pp. vi + 196. V
- Economic Structure of Free India. Lahore, Indian Book Depot, Rs. 7.8, 1946, pp. xvi + 168. V
- Indian Socialism. Lahore, Atma Ram and Sons, Rs. 2 -, 1937, pp. 158.
- BROOMFIELD, R. S. AND MAXWELL, R. M. - Report of the Special Enquiry into the Second Revision Settlement of the Bardoli and Chorasi Talukas. Bom- bay, Central Government Press, Rs. 2/7, 1929, pp. 107 + 7 maps. V
- CONGRESS SELECT COMMI- TTEE - Report of the Finan- cial Obligations between Great Britain and India. Bombay, A. I. C. C., Re. 1/-, 1930, pp. 70. V
- DADABHAI NAOROJI - Pover- ty and UnBritish Rule in India. London, Swan Sonnen- nschein and Co., Rs. 20/-, 1901, pp. xiv + 654. V
- DANTWALA, M. L. - Gan- dhism Reconsidered. Bom- bay, Padma Publications, 1 ed. 1944; 2 revd. ed. 1945, Re. 1/- . V
- DASGUPTA, SATISH CHAN- DRA - The Cow in India 2 Vols. Calcutta, Khadi Pratis- than, Rs. 16/- for 2 vols, 1945. Vol. I Breeding - Dairy Industries, pp. 2 + xiii + 1264; Vol. II - The Body of the Cow - Its Diseases and Treat- ment, pp. xx + 700. V
- DESAI, VALJI G. - Cow Protection. Ahmedabad, Navajivan, 13 as, 1934, pp. viii + 170. V
- DIGBY, WILLIAM - Pros- perous British India. London, T. Fisher Unwin, 21/-, 1901, pp. xvii + 661. V
- DUTT, ROMESH CHANDRA - The Economic History of India 2 Vols. London, Kegan Paul, Trench, Trubner & Co. Vol. I Under Early British Rule. 10/6, pp. xxiv + 436. V Vol. II In the Victorian Age. 10/6, pp. xxii + 625. V
- FEDERATION OF INDIAN CHAMBERS OF COMMERCE

SASTRI, M. SATYANARA-  
YANA - Village Republics  
(A Retrospect and a Scheme).  
Bezawada, Kalapeetham, Rs.  
2/-, 1946, pp. viii+60. Fore-  
word by Dr. Pattabhi Sitara-  
mayya. V

SCHUSTER, SIR G. AND  
WINT, GUY - India &  
Democracy. London Mac-  
millan. 1941.

SHAH, VADILAL M. - The  
Political Gita or the Philo-  
sophy of Life Applied to  
Politics in General and  
Indian Politics in Particular.  
Bombay, V. M. Shah, Re.  
1/4, 1921, pp. 216. V

SINGH-ROY, B. P. - Parlia-  
mentary Government in  
India. Calcutta, Thacker  
Spink and Co., 1943, pp.  
ix+427. V

SITHARAM, P. R. - The Great  
Challenge. Being the Com-  
plete Story of Mahatma  
Gandhi's Fast. Bombay,  
Arpee Publications, Re. 1/-,

1943, pp. xvi+140. V

UNITED KINGDOM, GOVERN-  
MENT OF - Telegraphic  
Correspondence Regarding  
the Situation in India.  
Government, London; (Cmd.  
1586, 1922, East India - Non-  
Cooperation).

UPENDRA PUBLISHING  
HOUSE - Nationalists Vs.  
Moderates. (Lajpatrai-Sha-  
stri Controversy). Madras,  
8 as, 1921, pp. 47. V

VARMA, SHANTIPRASAD -  
The Problem of Democracy  
in India. Delhi and Lahore,  
Rs. 7/8, 1946, pp. xiv+20+  
458+7, appendices. Foreword  
by Dr. Tarachand.

VYASA RAO, K. - Foundations  
of Indian Swaraj. Madras,  
V. Ramaswamy Sastrulu and  
Sons, 1925, pp. x+118. V

The author tries to make  
a case against the non-co-ope-  
ration movement. The creed  
of the Charkha also severely  
criticized.

## VI. ECONOMICS

AGARWAL, S. N. - The  
Gandhian Plan. Bombay,  
Padma Publications, Rs. 2/8,  
1944, pp. vi+115. V

Foreword by Mahatma  
Gandhi.

- Gandhian Plan Reaffirmed.  
Bombay, Padma, Rs. 2/8,  
1948, pp. 88. V

This is in continuation  
of and supplement to the  
earlier book listed above.

A. I. C. C. - Report of the  
Economic Programme Co-  
mmittee. Re. 1/-, 1948, pp.  
62. V

ANJARIA, J. J. - An Essay  
on Gandhian Economics.

- Bombay, Vora & Co., Re. 1/4, 1945, pp. 40. V
- BANAVALIKAR, A. S. - The Textile Policy of the Madras Government. (A Study of Economic Possibilities). Delhi, Young Man and Co., Rs. 2/8, 1947, pp. viii + 64.
- BASU, MAJOR, B. D. - Ruin of Indian Trade and Industries. Calcutta, Prabasi Press, Rs. 2/-, 2ed. pp. viii + 158. V
- BRIJ NARAIN, PROF. - Char- kha Marxism and Indian Socialism. Lahore, Ramakri- shna and Sons, Re. 1/8, 1941, pp. vi + 196. V
- Economic Structure of Free India. Lahore, Indian Book Depot, Rs. 7/8, 1946, pp. xvi + 168. V
- Indian Socialism. Lahore, Atma Ram and Sons, Rs. 2/-, 1937, pp. 158.
- BROOMFIELD, R. S. AND MAXWELL, R. M. - Report of the Special Enquiry in- to the Second Revision Settlement of the Bardoli and Chorasi Talukas. Bom- bay, Central Government Press, Rs. 2/7, 1929, pp. 107 + 7 maps. V
- CONGRESS SELECT COMMI- TTEE - Report of the Finan- cial Obligations between Great Britain and India. Bombay, A. I. C. C., Re. 1/-, 1930, pp. 70. V
- DADABHAINAOROJI - Pover- ty and UnBritish Rule in India. London, Swan Sonnen- nschein and Co., Rs. 20/-, 1901, pp. xiv + 654. V
- DANTWALA, M. L. - Gan- dhism Reconsidered. Bom- bay, Padma Publications, 1 ed. 1944; 2 revd. ed. 1945, Re. 1/- V
- DASGUPTA, SATISH CHAN- DRA - The Cow in India 2 Vols. Calcutta, Khadi Pratis- than, Rs. 16/- for 2 vols, 1945. Vol. I Breeding - Dairy Industries, pp. 2 + xiii + 1264; Vol. II - The Body of the Cow - Its Diseases and Treat- ment, pp. xx + 700. V
- DESAI, VALJI G. - Cow Protection. Ahmedabad, Navajivan, 13 as, 1934, pp. viii + 170. V
- DIGBY, WILLIAM - Pros- perous British India. London, T. Fisher Unwin, 21/-, 1901, pp. xvii + 661. V
- DUTT, ROMESH CHANDRA - The Economic History of India 2 Vols. London, Kegan Paul, Trench, Trubner & Co. Vol. I Under Early British Rule. 10/6, pp. xxiv + 436. V Vol. II In the Victorian Age. 10/6, pp. xxii + 628. V
- FEDERATION OF INDIAN CHAMBERS OF COMMERCE

- AND INDUSTRY - Monograph on Common Salt. Calcutta, Rs. 2/-, 1930, pp. xiv+228. V
- GANDHI, M. K. AND OTHERS - Swadeshi - True and False. Poona, Harijan Office, 1 anna, 1939, pp. 16. V
- HAJI, H. N. - Economics of Shipping - A Study in Applied Economics. Bombay, S. N. Haji, Rs. 15/-, 1924, pp. xxxiv+425. V
- Indian Commercial and Press Opinions on the Bill for Reservation of Coastal Traffic of India. Bombay, S. N. Haji, Rs. 3/-, 1928, pp. 105+147. V
- HARISARVOTTAM RAO, G. - Spiritual Swadeshi and Humanitarian Nationalism. Madras, 1932.
- JAYPRAKASH NARAYAN - Why Socialism? Benares, The A. I. Congress Socialist Party, 10 as, 1936, pp. viii+160. V
- KALELKAR, D. B. - The Gospel of Swadeshi. Madras, 1922. V
- KUMARAPPA, J. C. - Blood Money. Wardha, A. I. V. I. A., 12 as, 1948, pp. vi+42. V
- Clive to Keynes. (A Survey of the History of our Public Debts and Credits). Ahmedabad, Navajivan, 12 as, 1947, pp. 44. V
- Currency Inflation - Its Cause and Cure. Wardha, A. I. V. I. A., 8 as, 1943, pp. iv+26. V
- Economic Survey and Planning. Rajahmundry, H. P. Co., 2 as, 1938, pp. 34. V
- Economics of Permanence (Reprinted from the Social Welfare). Bombay, 1 anna, 1942, pp. 8. V
- The Economics of Permanence: A Quest for a Social Order Based on Non-violence. Pt. I - Man the Individual. Wardha, A. I. V. I. A., Rs. 2/-, 1946, pp. x+91. Foreword by Mahatma Gandhi. V
- Economics of Permanence. Pt. II. Man in Gregation. Wardha, A. I. V. I. A., Rs. 2/-, 1948, pp. viii+87. V
- The Gandhian Economy and Other Essays. Wardha, A. I. V. I. A., Re. 1/8, 1948, pp. vi+83. V
- An Overall Plan for Rural Development. Wardha, A. I. V. I. A., 1 ed 1946; 2 ed. 1948, Re. 1/8, pp. viii+78. V
- A Plan for the Economic Development of the North-West Frontier Province. Wardha, A. I. V. I. A., Re. 1/-, 1940, pp. viii+36. V
- Published for private circulation only, with the kind permission of the N. W. F. Province Government.
- Planned Economy - A Gan-

- dhian Approach (Reprinted from the Indian Journal of Social Work). Bombay, 2 as, 1942, pp. 14. V
- Public Finance and Our Poverty. The Contribution of Public Finance to the Present Economic State of India. Ahmedabad, Navajivan, 1 ed. 1930; 3 ed. 1945, Re. 1/8, pp. xii+110. V  
Reprinted from Young India. Foreword by Mahatma Gandhi.
- A Questionnaire for the Survey of Village Industries (along with General Information Notes on Those Industries). Wardha, A. I. V. I. A., Re. 1/8, 1947, pp. xviii+72. V
- Report of the Industrial Survey Committee, Government of C. P. and Berar. Nagpur, Government Printing, C. P. and Berar. Vol. I. Pt. I, 1942, pp. iv+41+viii. V  
Vol. I. Pt. II, 8 as, 1939, pp. iv+31+v. V  
Vol. II. Pt. I, Re. 1/2, 1939, pp. vi+136. V  
Vol. II. Pt. II, Re. 1/-, 1942, pp. iv+109. V
- Sterling Securities or India in Account Current with Great Britain. Wardha, A. I. V. I. A., 4 as, 1947, pp. ii+10. V
- Survey of the Matar Taluka. Ahmedabad, Gujarat Vidyapith, Rs. 2/-, 1931, pp. xx+179. V
- Unemployment. Rajahmundry, The Hindustan Publishing Co., 2 as, 1938, pp. 27. V
- War, a Factor of Production. Rajahmundry, H. P. Co., 2 as, 1938, pp. 30. V
- LAKSHMAN, P. P. - Congress and the Labour Movement in India. Allahabad, A. I. C. C., Rs. 2/8, 1947, pp. 174. V
- LINLITHGO (CHAIRMAN OF THE COMMISSION) - Report of the Royal Commission on Agriculture in India. Delhi, Manager of: Publications, Rs. 5/10, 1925, pp. 755. V
- MAHARASHTRA PROVINCIAL CONGRESS COMMITTEE (Pub.) - Report of the Peasant Enquiry Committee of the M. P. C. C. Poona, M. P. C. C., Re. 1/-, 1936, pp. iv+107.
- MASANI, M. R. - Socialism Reconsidered. Bombay, Padma Publications, 1 ed. pp. 55, 1944; 2 revd. ed. 1946, Re. 1/- V
- MEHTA, ASHOK - Indian Shipping. A Case Study of the Working of Imperialism. Bombay, N. T. Shroff, Re. 1/-, 1940, pp. 110. V
- MEHTA, V. L. - Economics

- of Non-violence. Bombay, Hamara Hindustan, 4 as, 1944, pp. 28. V
- MITRA, K. (Ed.) - Economic Freedom and Economic Planning: A Symposium. (Citizenship Series of Lectures). With "Immediate Minimum Economic Programme". by Shankerrao Deo., Allahabad, A. I. C. C., Rs. 3/-, 1947, pp. 202. V  
Thirteen lectures on diverse subjects.
- NATESAN, (G. A.) AND Co. (Pub.) - The Swadeshi Movement. Madras Re. 1/-, pp. 323+viii. V
- OXFORD UNIV. PRESS (Pub.) - The Economic Background. (Oxford Pamphlets on Indian Affairs, No. 3). Bombay, 8 as, 1942, pp. 64. V  
Kumarappa's article pp. 29-42.
- PAL, BIPIN CHANDRA - The New Economic Menace to India. Madras, Genesh & Co., Rs. 2/-, 1920, pp. vii+250. V
- RANGA, PROF. N. G. - Four Crore Artisans Hail the Gandhian Plan. Bombay, Hind Kitabs, 8 as, 1945, pp. ii+22. V
- RUSKIN, JOHN - Unto this Last. London, George Allen. Various editions.
- SATYANARAYAN, BHANU-DIPATHY - Why Socialism (As Pt. Jawaharlal Nehru Sees It). Rajahmundry, The Hindustan Publishing Co., 4 as, 1938, pp. vi+34. V
- SCINDHIA STEAM NAVIGATION CO. - Indian Shipping Pamphlets. Circulated by Scindhia Steam Navigation Company. Bombay, Rs. 2/8, 1937-40, pp. 194. V
- SHAH, CHIMANLAL C. - Socialism in India. Bombay, C. C. Shah, 4 as, 1936, pp. 39. V
- SHAH, K. T. - Annexure to the Report on the Financial Obligations between Great Britain and India. Bombay, Re. 1/- 1931, pp. 111. V
- SITARAMAYYA, PATTABHI - Currency and Exchange (Eleven Points of Mahatma Gandhi) Masulipatan, Sitar-amayya, 2 as, 1930, pp. 40. V
- The Economic Conquest of India or the British Empire Ltd. Rajahmundry, Hindustan Publishing Co., Re. 1/-, 1931, pp. 164. V
- SUBEDAR, MANU - Gandhian Economics. Bombay, 1939.
- SUNDAR RAM, L. L. - Cow Protection in India. Madras, The South Indian Humanitarian League, Rs. 4/-, 1927, pp. viii+202. V
- SUNDAY TIMES OFFICE (Pub.) - Daridranarayana or Gandhian Economics (My

Motherland Series.) Madras.  
1 anna, pp. 16. V  
U. P. P. C. C. - Agrarian  
Distress in the United  
Provinces. Allahabad U. P.  
P. C. C., Re. 1<sup>1</sup>/<sub>8</sub>, 1931, pp.

275. V  
WADIA, P. A. AND MER-  
CHANT, K. T. - Our Eco-  
nomic Problem. Bombay.  
The Book Co., Rs. 6<sup>1</sup>/<sub>8</sub>, 1 ed.  
1943, pp. vi+535. V

## VI A. LABOUR

ANDREWS, C. F. - Christ and  
Labour. Madras, Ganesh &  
Co., Re. 1/-, 1922, pp.  
viii+146. V

- The Oppression of the Poor.  
Madras, Ganesh & Co., Rs.  
2 -, 1922, pp. xxxv+136. V

ANDREWS, C. F. AND PEAR-  
SON, W. W. - Indentured  
Labour in Fiji. Delhi, 1916.

INDIAN NATIONAL TRADE  
UNION CONGRESS - The  
Indian National Trade  
Union Congress Constitu-  
tion. Bombay, I. N. T. U. C.,  
1947, pp. 11. V

KELMAN, JANET HARVEY  
- Labour in India. London,  
George Allen, 10/6, 1923, pp.  
281, V

OZA, DHANWANT - Gandhi  
and Labour. Ranpur, Dhan-  
want Oza, 4 as, 1 ed. 1936,  
pp. 78. V

TEXTILE LABOUR ASSOCIA-  
TION, AHMEDABAD  
- Annual Reports.

- History of Wage Adjust-  
ment in the Ahmedabad  
Industry Vol. III (History

of the Wage Dispute of  
1933-34 ending with the  
Delhi Agreement). Ahmed-  
abad, T. L. Association, 1935,  
pp. x+581.

- Vol. IV (Proceedings of the  
Arbitration Board and Awards  
of Arbitrators and the Umpire  
in the Wage Cut and Other  
Disputes 1936-37). Ahmeda-  
bad, 1937, pp. iv+221.

- Memorandum Submitted to  
the Rent Inquiry Commi-  
ttee in August 1938 and to  
the Textile Labour Inquiry  
Committee 1939, Ahmedabad,  
1939, pp. 56.

- Replies to the Questionnaire  
of the Textile Labour  
Inquiry Committee submit-  
ted by the T. L. A.,  
Ahmedabad. Ahmedabad, T.  
L. A., 1939, pp. 58.

WHATLEY, (Chairman of the  
Commission) - Report of the  
Royal Commission on  
Labour in India. Calcutta,  
Govt. of India Central Publi-  
cation Branch, Rs. 2/10,  
1930, pp. 581. V



## VI B. ECONOMICS - KHADI

- ALL INDIA CONGRESS  
KHADDAR DEPARTMENT  
-Khaddar Work in India.  
Bombay, A. I. C. K. Dept.,  
8 as, 1922, pp. ii+103. V  
Appendix contains Provin-  
cial Statements regarding  
Khaddar (adapted from the  
Report of the Civil Dis-obe-  
dience Committee).
- Annual Report of the A.  
I. C. K. Dept., 1924, Sabar-  
mati.
- Khadi Bulletins. Sabarmati,  
A. I. C. K. Dept., pp. 98. V
- A Khadi Tour. Sabarmati,  
A. I. C. K. Dept., 1924, pp.  
208.
- ALL INDIA SPINNERS' ASSO-  
CIATION - Annual Reports.  
Ahmedabad, A. I. S. A.  
1925-26. pp. 38, 1927; 1926-  
27. pp. 56, 1928; 1927-28.  
pp. 42, 1929; 1928-29. pp. 42,  
1930; 1929-30. pp. 44, 1931;  
1930-31. pp. 26, 1932; 1931-  
32. pp. 22, 1933; 1932-33.  
pp. 34, 1934; 1934. 8 as,  
pp. 46, 1935. V
- For 1940. 8 as, 1941, pp. 47,  
Wardha, A. I. S. A.
- Khadi Centres. Ahmedabad,  
A. I. S. A., 1936. V
- Khadi Guide - 1930-31. Ahme-  
dabad, A. I. S. A., Re. 1/-,  
1931, pp. iv+136. V
- ALL INDIA SPINNERS' ASSO-  
CIATION, Bombay (Pub.)
- Decentralization of Khadi  
Work. Bombay, 1944, pp.  
16. V
- CHAUDHARANI, SARALA-  
DEVI - At the Point of the  
Spindle. Madras, Ganesh &  
Co., 4 as, 1921, pp. 16. V
- DASGUPTA, SATISH CHAN-  
DRA - Khadi Manual Pts.  
I & II. Calcutta, Khadi  
Pratisthan. Pt. I. Rs. 2/-,  
1924, pp. ii+96; Pt. II. Re.  
1/-, 1924, pp. 97 to 145. V
- GANDHI, MAGANLAL K.  
- Charkha Shastra. Sabar-  
mati, Maganlal K. Gandhi,  
Re. 1/-, 1924, pp. 102. V
- GANDHI, M. K. (Ed. Ananda  
T. Hingorani) - Daridra-  
Narayana (Gandhi Series-  
Brochures, No. 3). Karachi,  
A. T. Hingorani, Rs. 3/-,  
1946, pp. viii+110. V
- Economics of Khadi.  
Ahmedabad, Navajivan, Rs.  
4/-, 1941, pp. xxii+627. V  
A Comprehensive collec-  
tion on the subject.
- Spinning and Khadi. Lahore,  
Gandhi Publications League,  
6 as, 1943, pp. 24. V  
Contains random extracts  
from about a dozen articles  
and letters of Gandhiji  
published at different times.
- (Compiled and Edited by Kanu  
Gandhi) - Swaraj Through

- Charkha. Sevagram, A. I. S. A., 4 as, 1945, pp. iv +25. Foreword by Amrit Kaur. V
- The Wheel of Fortune. Appreciation by Dwijendra Nath Tagore. Madras, Ganesh & Co., Re. 1/-, 1922, pp. xvi +160. V
- GANDHI, M. P. - How to Compete with Foreign Cloth. Study of the Position of Hand-Spinning, Hand-Weaving & Cotton Mills in the Economics of Cloth-Production in India. Calcutta, The Book Co., Rs. 3/3, 1931, pp. xii +123. V
- GREGG, RICHARD B. - Economics of Khaddar. Madras, S. Ganesan, 1st ed. 1928; Revd. 2nd ed., published by the Navajivan Press, Ahmedabad, 1946, pp. iv +212, bibliography and index. V
- KERALA BRANCH OF THE A. I. S. A. - Nine Years of Khadi Work in Kerala. Eraniel, Calicut, 1944.
- A Survey of the progress of Khadi work in Kerala from 1935 to 1943.
- KHADI INFORMATION BUREAU - Khadi Guide 1925. Sabarmati, A. I. C. K. Dept., 1925, 7 as, pp. 82. V
- KOTAK, H. M. - Khadi in Kashmir. Bombay.
- MEHROTRA, P. R. - True Takli. Calcutta, J. P. Tandon, 2 as, pp. 1932. V
- NANDA, GULZARILAL - Some Aspects of Khadi (Congress Golden Jubilee Brochures). Allahabad, A. I. C. C., 1935.
- PUNTAMBEKAR, S. V. AND VARADACHARI, N. S. - Hand Spinning and Hand Weaving - An Essay. Introduction by M. K. Gandhi. Ahmedabad, A. I. S. A., Re. 1/8, 1926, pp. vi +235 +iii and index. V
- RAJENDRAPRASAD, °BABU - Economics of Khadi. Muzaffarpur, Secy. Bihar Charkha Sangh, 3 as, 1927, pp. 41. V
- RAY, ANIL BARAN - Khaddar Under Searchlight. Bombay, Advocate of India Press, 2 as, 1929, pp. 31. V
- "Articles written to disillusion my countrymen in the matter of Khaddar".
- RAY, ANIL BARAN AND YAJNIK, INDULAL K. - Futility of the Khaddar Cult. Bombay, Advocate of India Press, 3 as, 2 ed. 1932, pp. 39.
- SITARAMAYYA, B. PATTABHI - I too Have Spun. Being a Collection of Notes on Spinning. Bombay, Hind Kitabs, Re. 1/8, 1946, pp. 87. V

On Khaddar. - Madras, Natesan  
9 as

rkar, 10 as, 1925, pp. xvi  
+72. V

TALCHERKAR, V. A. - The  
Charkha Yarn or The  
Superiority of Handspun  
Yarn etc. Bombay, Talche-

VARADACHARI, N. S. AND  
PUNTAMBEKAR, S. V.  
- Hand-Spinning and Hand-  
Weaving. See Puntambekar  
and Varadachari

## VI C. VILLAGE INDUSTRIES

ALL INDIA VILLAGE INDUS-  
TRIES ASSOCIATION: An-  
nual Reports for 1935, 1936,  
1937, 1938, 1939, 1940.  
Wardha, A. I. V. I. A.  
1935, 8 as, 1936, pp. 42;  
1936, 8 as, 1937, pp. 31;  
1937, 6 as, 1938, pp. 31;  
1938, 8 as, 1939, pp. 49;  
1939, 10 as, 1940, pp. 63,  
1940, 8 as, 1941, pp. 62.  
All by Shri J. C. Kumarappa,  
Organizer and Secretary of  
the Sangh.

The latest annual Report  
published is for 1946, pp. 28,  
1948.

CHITRE, S. M. - Bee-Keeping.  
Wardha, A. I. V. I. A. 1 ed.  
1939; 3 ed. 1944, Re 1/8,  
pp. iv+67+2. V

DASGUPTA, KSHITISH CHAN-  
DRA - The Romance of  
Scientific Bee Keeping.  
Calcutta, Khadi Pratisthan,  
Rs. 7/-. 1945, pp. xvi+461. V

- Soya Bean. Calcutta, Khadi  
Pratisthan, 1 ed. 1945; 2 ed.  
1946, 4 as, pp. 9.

DASGUPTA, SATISH CHAN-  
DRA - Bone Meal Fertilizer.

Calcutta, Khadi Pratisthan,  
2 as, 1945, pp. 6.

- Chrome Tanning for Cott-  
ages. Calcutta, Khadi Pratis-  
tthan, 8 as, 1936, pp. 36 and  
plates.

- Dead Animals and Tanned  
Leather. Calcutta, Khadi  
Pratisthan, 12 as, 1942,  
pp. 59.

- Hand-made Paper. Calcutta,  
Khadi Pratisthan, Rs. 2/8,  
1945, pp. viii+70. V

- Match Manufacture in  
Cottages. Calcutta, Khadi  
Pratisthan, 4 as, 1938, pp. 32

- Washing Soap and Fountain  
Pen Ink. Calcutta, Khadi  
Pratisthan, 1 ed. 1945; 2 ed.  
1946, 4 as pp. 15.

GANDHI, M. K. & OTHERS  
- Cent Per Cent Swadeshi  
or The Economics of  
Village Industries. Ahmeda-  
bad, Navajivan, 1 ed. 1933;  
3 enlarged ed. 1948, Rs. 2/-  
pp. viii+132. V,

GUPTA, MUNSHILAL - Cot-  
tage Industries and Their  
Place in National Economy.  
Cawnpore, Bureau of Econo-

mic Research, Re. 1/-, 1946,  
pp. 23.

GUPTA, VED PRAKASH - The  
Ethics of Cottage Indus-  
tries. Allahabad, University  
Commerce Dept - Business  
Bureau, 8 as, pp. 23. V

HUNTER, DR. DARD - Paper-  
making by Hand in India.  
New York. Pynson Printers,  
1939, \$ 23.00, pp. 132.

The book contains 84  
illustrations and 27 speci-  
mens of hand-made paper  
attached with notes on both  
and index. This is in a way  
a report on hand-made paper-  
making in India. The author  
has visited most of the paper-  
making centres in the coun-  
try including Wardha A.  
I. V. I. A. Centre.

JOSHI, K. B.

- Paper Making (as a Cottage  
Industry), Wardha A. I. V.  
I. A., 1 ed. 1939; 4 ed. 1944,  
Rs. 4/-, pp. 16+226. V

- Soap Making (as a Cottage  
Industry). By the use of  
indigenous raw materials.  
Wardha, A. I. A. I. A. 72 as,  
1 ed. 1939, pp. viii +74+7  
Plates. V

KUMARAPPA, BHARATAN  
- Village Industries and  
Reconstruction. (Congress  
Golden Jubilee Brochures,  
No. 2). Allahabad, A. I. C. C.,  
pp. iv+36. V

KUMARAPPA, J. C. (Ed.  
Sanivarapu Subba Rao)  
- The Philosophy of the  
Village Movement. Being a  
Collection of Speeches and  
Articles on the Subject.  
Kovvur (S. India), Saniva-  
rapu Subba Rao, 8 as, 1935,  
pp. x+83. Foreword by  
Rajendraprasad. V

- Thirty Questions on Indian  
Village Industries. Wardha,  
A. I. V. I. A.

- Why the Village Move-  
ment (A Plea for a New  
Economic Order in India).  
1 ed. 1936, 8 as, Rajah-  
mundry, pp. iv+91; 4 ed.  
1945, Rs. 3/-, Wardha, A. I.  
V. I. A., pp. xiv+176+4.  
Reprinted 1946. Foreword  
by Mahatma Gandhi. V

MITRA, K. AND LAKSHMAN,  
P. P. - Cottage Industry and  
Indian Economy. Allahabad,  
Eco. and Pol. Research Dept.,  
A. I. C. C., Rs. 2/-, 1947,  
pp. 104 and bibliography.  
Foreword by Shanker Rao  
Deo and Preface by J. C.  
Kumarappa. V

NAIK, GAJANAN - Palm Jag-  
gery. Wardha, A. I. V. I. A.,  
2 as, 1938, pp. ii+15. V

NANAVATI, SIR MANILAL  
B. AND ANJARIA, J. J.  
- The Indian Rural Problem.  
Bombay, Indian Society of  
Agricultural Economics, Rs.  
8/-, 1944. pp. viii+422. V

PATEL, JHAVERBHAI - Oil Extraction (with the bullock oil press). Wardha, A. I. V. I. A., 1 ed. 1938; revd. ed. 1943, Re. 1/8, pp. 121. V  
 - Supplement to Oil Extraction. Wardha, A. I. V. I. A., 8 as, 1939, pp. iv+31. V  
 RAO, R. V. - Cottage Indus-

tries and Their Role in National Economy. Bombay, Vora & Co., Re. 1/-, 1944, pp. 56. V

TATAWALA, J. S. - Village Industries in the United Provinces. Allahabad, The U. P. Swadeshi Sangh, 8 as, 1935, pp. ii+41.

## VII. EDUCATION

ABBOTT, A. AND WOOD, S. H. - Report on the Vocational Education in India. Delhi, Manager of Publications, Re. 1/4, 1937, pp. 138. V

AGARWAL, S. N. - Constructive Programme for Students. Bombay, Padma Publications, Re. 1/-, 1945, pp. 55. V

- Medium of Instruction. Allahabad, Kitabistan, 12 as, 1942, pp. 55. V

ALL INDIA EDUCATION BOARD (Pub.) - Basic National Education: Syllabus Prepared by the Zakir Hussein Committee. Segaon (Wardha), Secy. of the Board, 6 as, 1938, pp. 65+207. V

ANDREWS, C. F. - To the Students. Madras, S. Ganesan, Re. 1/-, 1921, pp. 75. V

ARMSTRONG, SAMUEL CHAPMAN - Ideas on Education for Life. Hampton, Hampton Normal and Agricultural Institute, 1/-, 1926, pp. 54. V

Indian Ed. Ahmedabad, Navajivan, 1927, 3 as, pp. V

AUDHOLIA, B. S. - Education through the Mother Tongue. Wardha B. S. Audholia, Rs. 2/-, 1946, pp. x+88. V  
 Introduction by Vinoba Bhave.

AUNDH PUBLISHING TRUST (Pub.) - Education of Women in Modern India. Aundh, Rs. 2/8, 1946, pp. vi+87. V  
 A Symposium. Foreword by Sarojini Naidu.

BASU ANATHNATH - Education in Modern India: A Brief Review. Calcutta, Oriental Book Co., 1 ed. 1946; 2 ed. revd. and enlarged 1947, Rs. 4/-, pp. vii+184. V

Basic Education discussed from pp. 119-134.

BHATIA, H. R. - Craft in Education. A study in Ideals and Methods. Pilani (Jaipur), H. R. Bhatia, Rs. 5/-, 1944, pp. vii+222. V

- BOARD OF NATIONAL EDUCATION - National Education : A Symposium. Adyar, The Commonweal Office, 8 as, 1918, pp. 55. V
- BOMBAY, GOVERNMENT OF - Report on the Public Instruction in the Bombay Province 1937-38, 1938-39, 1939-40 with their Supplements. Bombay, Government Central Press. V
- Report on the Vocational Training in Primary and Secondary Schools and Consequent Reorganization. Bombay, Govt. Central Press, 4 as, 1938, pp. vii+125. V
- CHATTOPADHYAY, K. P. - Our Education. Calcutta, National Council of Education, Bengal, Rs. 3/-, 1948, pp. 156.
- EXPERIENCE - Educational Reformation in India. Calcutta, J. C. Basak, Re 1/8, 1st ed. pp. xii+271.
- FERRIERE, ADOLF (Ed. and Tr. : Saiyidin, K. G.) - The Activity School. Allahabad, Kitabistan, Rs. 6/4, 1938, pp. xvi+272. V
- GANDHI, M. K. - Constructive Programme : Its Meaning and Place. see Section on Sociology
- (Ed. A. T. Hingorani) - To the Students. Karachi, A. T. Hingorani, Rs. 4/8, 3 ed. 1941, pp. xvi+344. V
- GREGG, RICHARD B. - A Preparation for Science. Ahmedabad, Gujarat Vidya-pith, 12 as, 1928, pp. vi+141. Foreword by Kalelkar. V
- GREGG, RICHARD B. AND GANDHI, MAGANLAL K. - The Takli Teacher. Sabarmati, A. I. S. A. Technical Department, 6 as, 1926, pp. 72. V
- GUPTA, BABULAL - An Intelligent Man's Guide to the Wardha Scheme of Education (Containing Gandhiji's Latest Doctrine of Education in Correlation of Studies). Aligarh, The National Literature Publishing Society, Re. 1/12, 1939, pp. xiv+224. Illustrations. V
- HAMPTON, H. V.; SAIYIDIN, K. G.; JHA, AMARNATH & C. - The Educational System (Oxford Pamphlets on Indian Affairs). London, Oxford Univ. Press, 1943, pp. 64. V
- HARTOG, SIR PHILIP - Some Aspects of Indian Education Past and Present (Being Joseph Payne Lectures for 1935-36). London, Oxford Univ. Press for the Institute of Education, University of London, 4/-, 1939, pp. xvi+109. V

**HINDUSTAN PUBLISHING HOUSE (Pub.)** - Indian Education, Lucknow, Rs. 5/-, 1939, pp. x+319. V

Contains a brief survey of Indian Education, progress of education in the provinces and states of India and the full text of the Report of the Wardha Education Committee and the syllabus prescribed by it, the latter items covering the major part of the book.

**HINDUSTANI TALIMI SANGH**

- Basic National Education: Syllabus recommended by the Zakir Hussein Committee. Sevagram, 1938. V

- Basic National Education: - Revised Syllabus for Grades I to V and also Pre-Basic. Sevagram, H. T. Sangh, Re. 1/-, 1946, pp. 56.

- Educational Reconstruction. Sevagram, H. T. Sangh, 2ed. 1939, pp. vii+296. V

Contains Gandhiji's articles, Proceedings of the Wardha Education Conference, Report of the Zakir Hussein Committee and the proposed syllabus.

- One Step Forward: The Report of the First Conference of Basic National Education, Poona, Octo. 1939. Sevagram, H. T. Sangh, Re. 1/8, 1940, pp. xxiv+292. V

- Third Annual Report, 1940-41. Wardha, H. T. Sangh, pp. ii+70.

- Two Years' Work (Report of the Second Basic Education Conference, Jamianagar, Delhi, April, 1941). Sevagram, Rs. 3/-, 1942, pp. 291. V

- Sixth Annual Report of the Hindustani Talimi Sangh-1938-1944. Sevagram, Re. 1/-, 1944, pp. 57. V

**JESUDASAN, DR. S.** - Ashrams, Ancient and Modern: Their Aims and Ideals. Vellore, Shri Ramachandra Press, pp. vii+58.

Gandhiji's Satyagraha Ashram, pp. 20-33.

**KASHI VIDYAPITH (Pub.)** - Recommendations of the National Education Committee, with a Report of Its Proceedings. Benares, 12 as, 1923, pp. 80.

**KRIPALANI, J. B.** - The Latest Fad: Basic Education. Sevagram, Hindustani Talimi Sangh, 1 ed. 1939; 2 ed. 1946, Re. 1/8, pp. vi+108. V

Foreword by Mahatma Gandhi.

- The New Education (Method and Aim). Sevagram, H. T. Sangh, 2 as, 1939, pp. 24.

Inaugural Address by Shri Kripalani at the Poona Conference, Octo. 1939.

**KUMARAPPA, J. C.**-Education for Life (Mass Education). Rajahmundry, Hindustan Publishing Co., 2 as, 1937, pp. 47. V

**LEGGE, J. G.** - The Thinking Hand or the Practical Education in the Elementary School. London, Macmillan & Co., 7/6, 1914, pp. x+217. V

**LIMAYE, P. M.** - Education in India Today. Poona. D. D. Karwe, Fergusson College, Rs. 2/-, 1945, pp. vii+140.

Report of an Educational Tour 1940-41. The author is severely critical of basic education.

**MACMILLAN AND Co. (Pub.)** - Fundamental Education: Common Ground for All Peoples. (Report of a Special Committee to the Preparatory Commission of the United Nations Scientific and Cultural Organization Paris, 1946). New York, \$ 2.50, 1947, pp. viii+325. V

**MANAGER OF PUBLICATIONS (Pub.)** - Post-War Educational Development in India. (Report of the Central Advisory Board of Education). Delhi, 12 as, 1944. pp. ii+118. V

- Report of the Second Wardha Educational Committee

of the Central Advisory Board of Education 1939, together with the decision of the Board thereon. Delhi, 1940, pp. ii+43. V

**MANSHARDT, DR. CLIFFORD (Chairman)** - Report of the Adult Education Committee 1938. Bombay, Govt. Central Press, 3 as, 1938, pp. iv+86. V

**MAYHEW, ARTHUR** - The Education of India. London, Faber and Gwyer, 10/6, 1926, pp. xii+306. V

**MUKERJEE, S. N.** - Education in India in the XX Century. Baroda, Padmaja Publications, Rs. 2/8, 1945, pp. viii+158.

**MUNSHI, K. M.** - The Creative Art of Life: Studies in Education. Bombay. Padma Publications for the Bharatiya Vidya Bhavan, Rs. 2/8, 1947, pp. 4+92. V

**NAG, D. S. (Ed.)** - Medium of Education; A Symposium. Bombay, National Information and Publications Ltd., Re. 1/8, 1948, pp. x+57. V

Contains answers to over a dozen questions on the subject from a number of well-known educationists of India including Gandhiji; also Gandhiji's speech at the inauguration of the 'Mother-tongue-as-the-Medium-of-Instruction Conference' held



- at the Wardha Sakseria College of Commerce.
- NAG KALIDAS** - International University of Non-violence: Principles and Planning. Calcutta, Vir Sasana Sangh, 1947, pp. 16. V
- NATIONAL PLANNING COMMITTEE** - General Education and Technical Education and Developmental Research (Reports of Sub-committees). Bombay, Vora and Co., Rs. 6/-, 1948, pp. 209. V
- NIVEDITA, SISTER** - Hints on National Education in India. Calcutta, Udbodhan Office, Re. 1/-, 1923, pp. viii+181. V
- PREMCHAND LAL** - Reconstruction and Education in Rural India. London, George Allen, 10/-, 1938, pp. 262. Introduction by Rabindranath Tagore.
- RADHAKRISHNAN, S.** - Education, Politics and War. Poona, International Book Service, Rs. 5/-, 1944, pp. iv+208. V
- Freedom and Culture. Madras, G. A. Natesan, Re. 1/-, 1936, pp. viii+158. V
- RAJENDRAPRASAD, BABU** - Constructive Programme: Some Suggestions. See Sect. on Sociology.
- RANGA, N. G.** - Adult Education Movement. Kovur, The Andhradesh Adult Education Committee, Re. 1/-, 1938, pp. 222+xx. V
- REDDY, M. MUNI** - The Student Movement in India. Lucknow, New Age Office, Rs. 5/-, 1947, pp. x+248+118. V
- ROY, KSHITISH (Ed.)** - Vishwa Bharati Quarterly. See V. B. Quarterly below.
- SARASWATI LIBRARY (Pub.)** - Non Cooperation and Students (Swaraj Series No. I). Calcutta, 4 as, 2 ed, 1921. V
- Speeches and writings of Gandhi, Das etc.
- SINGHA, MADHAVENRA P. N. (Ed.)** - Challenge to Youth (A symposium of messages of the great personalities to the Indian Youth.) Allahabad, Kitab Mahal, Rs. 2/-, 1940, pp. 239.
- Mahatma Gandhi's message, pp. 71 to 79.
- SINHA, LAXMISWARA** - Card-board Modelling (Pt. I of Cardboard, Wood, and Metal Work Series). Sevagram, H. T. Sangh, Re. 1/-, 1939, pp. 108. V
- SOCIETY FOR THE PROMOTION OF NATIONAL EDUCATION** - Reports of the Society. Adyar.
- TAGORE, RABINDRANATH** - The Centre of Indian Culture. Adyar, Theosophical

Publishing House, Re. 1/-,  
1919, pp. 50. V

**TAGORE, RABINDRANATH  
AND OTHERS** (Ed. Tandon)  
- Famous Convocation  
Addresses: Messages to  
Indian Students. Allahabad,  
Students' Friends, Rs. 2/8,  
1936, pp. xxx+238. V

**VARKY, C. J.** - The Wardha  
Scheme of Education:  
Exposition and Examination.  
London, Oxford Univ. Press,  
Re. 1/8, 1939, pp. xviii+  
175. V

**VISHWABHARATI QUAR-  
TERLY**: Education Number.  
(Vol XIII, Pts., I & II, Ed.  
Kshitish Roy. Santiniketan,

Santiniketan Press, Rs. 8/-,  
1948, pp. iv+215+vii. V

Contains among other things  
articles on basic education and  
a detailed bibliography of  
the writings of Rabindranath  
Tagore on education. Edu-  
cation at the basic stage has  
been dealt with in detail.

**VORA AND Co.** (Pub.).  
- Educational Reconstruc-  
tion. Bombay, 1 ed. 1938.

The Second and subse-  
quent editions published by  
the Hindustani Talimi Sangh,  
Sevagram.

**ZAKIR HUSSEIN COMMI-  
TTEE** - Basic National  
Education. See All India  
Education Board.

## VIII. NATIONAL LANGUAGE

**AHMED, Z. A. (COMPILER)**  
- National Language for  
India (A Symposium). Allah-  
abad, Kitabistan, Rs. 2/8,  
1941, pp. 229. V

**CHATTERJI, SUNITIKUMAR**  
- Indo-Aryan and Hindi.  
Eight Lectures on the History  
of the Aryan Speech in  
India and on the Development  
of Hindi. Ahmedabad, Gujarat  
Vernacular Society, Rs. 3/8,  
1942, pp. xiii+158. V

**GANDHI, M. K.** - The  
National Language. Lahore,  
Gandhi Publications League,  
5 as, 1943, pp. 31. V

The title of the booklet  
is misleading. It is simply  
the translation of the presi-  
dential address delivered (in  
Gujarati) at the Second  
Gujarat Educational Con-  
ference held at Broach on  
Octo. 20, 1917.

-(Ed. A. T. Hingorani)  
- Our Language Problem.  
(Gandhi Series-Brochure No.  
2) - Karachi, A. T. Hingorani,  
Re. 1/8, 1942, pp. vi+66. V

**NEHRU, JAWAHARLAL** - The  
Question of the National  
Language (Congress Political

and Economic Studies - No. 6). Allahabad A. I. C. C., 4 as. 1937, pp. 25. V

Foreword by Mahatma Gandhi.

SHARMA, SWAMINATH - Lingua Indiana. Bombay,

Nalanda Publications, Re. 1/-, 1947, pp. iv+58. V

TARACHAND, Dr. - The Problem of Hindustani. Allahabad, Indian Periodicals Ltd., Rs. 2/8, 1944, pp. 124. V

## IX. HEALTH AND DIETETICS

ALL INDIA VILLAGE INDUSTRIES ASSOCIATION - Rice. Wardha, A. I. V. I. A., 12 as, 1941, pp. vi+82. V

- Table of Indian Food Values and Vitamins. Wardha, A. I. V. I. A., 10 as, 2 ed. 1946, pp. iv+27+iii. V

DASGUPTA, SATISH CHANDRA - Cheap Remedies. Calcutta, Khadi Pratisthan, 1 ed. 1940; 3 ed. 1946, Re. 1/-, pp. 103.

- Home and the Village Doctor. Calcutta, Khadi Pratisthan, 1 ed. 1940, Rs. 5/-, pp. xxiii+1416. V

Foreword by Mahatma Gandhi. Second edition Rs. 10

DASTUR, H. P. - Diet. Wardha, A. I. V. I. A., 4 as, 1938, pp. ii+35. V

GANDHI, M. K. (Tr. A. Rama Iyer) - A Guide to Health. Madras, S. Ganesan; 12 as, 1930, pp. viii+132. V

Translated from the Hindi translation of the original Gujarati.

-(Abridged and edited by Dr.

R. R. Pal) - Guide to Health. Allahabad, Ram Mohanlal, 6 as. 1930, pp. vi+93. V

- Key to Health. Ahmedabad, Navajivan, 10 as, 1948, pp. xxvi+84. V

GO-SEVA SANGH - Nakli Ghee (Hydrogenated Oil). Gopuri (Wardha), Go-seva Sangh, 6 as, 1947.

JAGADISAN, T. N. - The Truth about Leprosy. Madras, British Empire Leprosy Relief Association, 3 as, 1945, pp. 16. V

Reprinted from the Indian Journal of Social Work. Vol IV No. 2. March, 1944.

JUST, ADOLF - Return to Nature. New York, American Naturopathic Association. Translated from the original German by Benedict Lust.

PATEL, JHAVERBHAI P. - What Shall We Eat? (Being a Handbook of Dietetics). Wardha, A. I. V. I. A., Rs. 3/-, 1947, pp. viii+131. V

Foreword by Mahatma Gandhi.

VEGETARIAN NEWS (Quarterly Journal of the London Vegetarian Society). Mahatma Gandhi Memorial Number

Vol. xxvii No. 260. Re. 1/-, 1948, pp. 48+xvi. V

Contains Gandhiji's address in the Society on 'the Moral Basis of Vegetarianism' delivered on 20th Nov. 1931, and his views on diet.

## X. LITERATURE.

A. E. (Ed. Monk Gibbon) - The Living Torch. London, McMillan & Co., 12/6, 1937, pp. xii+382. V

Appreciation and criticism of Gandhiji, pp. 169-171.

ABRAMOWITZ, ISIDORE (Ed.) - The Great Prisoners. The First Anthology of Literature Written in Prison. New York, E. P. Dutton & Co., \$ 4.95, 1946, pp. xxxviii+879. V

"The Terrible Meek: M. K. Gandhi", pp. 810-821; "The Pandit Socialist", pp. 822-834.

ANAND, MULK RAJ - Letters to Gandhi and to Others. Ambala.

ANDREWS, C. F. - Rabindranath Tagore (A Lecture). Cape Town, Cape Times Ltd., 6 d, 1914, pp. 41.

CANDLER, EDMUND - Abdication (a novel). London, Constable, 7/6.

Contains a sympathetic picture of a visit paid by Gandhi to a Punjab city.

CHATTERJEE, RAMANANDA (Ed.) - The Golden Book of

Tagore. Calcutta, The Golden Book Committee, Rs. 20/-, 1931, pp. xx+874. V

CHATTOPADHYAYA, HARINDRANATH - Freedom Come. Bombay, Nalanda Publications, 12, as, 1947, pp. 15. V

DESAI, MAHADEO - The Eclipse of Faith. Lahore, Dewan's Publications, 6 as, 1943, pp. 31. V

Contains two articles of M. D. selected at random.

- Unworthy of Wardha. Lahore, Dewan's Publications, 12 as.

Contains seven articles from the pen of M. D., selected at random.

IQBAL SINGH AND RAJA RAO (Ed.) - Wither India? Baroda, Padmaja Publications, Rs. 6/8, 1947, pp. xii+232.

JAG PARVESH CHANDER (Ed.) - Tagore and Gandhi Argue. Lahore, Indian Printing Works, Rs. 3/-, 1945, pp. 181.

Contains articles by Gandhi, Tagore, Andrews, Mahadev Desai and Pyarelal.

JAPETH, M. D. - Fools' Paradise: The Revolt of a Conscience. Bombay, M. D. Japeth, Rs. 3/-, 1944, pp. x+112.

Among other articles the book contains a chapter on Gandhi and Gandhism, pp. 37 to 50.

KOYAL, B. (Ed.) India Speaks. Calcutta, S. K. Lahiri & Co., Re. 1/4, 1939, pp. vii+106. V

MEHTA, GAGANVIHARI L. - From Wrong Angles. Calcutta, G. L. Mehta, Re. 1/8, 1934, pp. iv+158. V

MUNSHI, K. M. - Gujarat and Its Literature. Bombay, Longmans Green & Co., Rs. 6/-, 1935, pp. xxiv+407. V

Foreword by Mahatma Gandhi. Ch. IV of Pt. III, Mahatma Gandhi and the Triumph of Aryan Culture. pp. 306-323.

RAJA RAO AND IQBAL SINGH - Changing India: An Anthology of Writings from Ram Mohan Roy to Jawaharlal Nehru. London, George Allen, 5/-, 1939, pp. 271. V

RAJGOPALACHARI, C. - The Fatal Cart and Other Stories. New Delhi, The Hindustan Times, Rs. 2/-, 1945, pp. vi+140. V

- Jail Diary. Madras, Swarajya Printing and Publishing Co., Re. 1/-, 1922, pp. iv+137. V

RALLIA RAM, B. L. & NAIR, LAJPAT RAI (Ed.) - Wisdom of Modern India (Being Selections from the writings and speeches of representative Indians of the last fifty years). Lahore, Institute of Current Affairs, Rs. 2/8, 1945, pp. viii+135. V

Gandhiji on 'Non-violence', pp. 45-50.

ROLLAND, ROMAIN - Above the Battle. London, George Allen, 3/6, pp. 193. V

- I Will Not Rest. London, Selwyn & Blount, 1937, 3/6, pp. 320. V

SHASTRI, Rt. Hon. V. S. SHRI-NIWAS (Ed. T. N. Jagadishan) - Letters of the Rt. Hon. V. S. Shrinivas Shastri with Some Letters of E. S. Montague and Gandhi - Shastri Correspondence. Madras, Rochoose & Sons, Rs. 6/-, 1944, pp. x+392. V

- The Other Harmony: A Selection from the Writings and Speeches. Madras, S. Viswanathan, Rs. 2/4, 1945, pp. vi+147. V

SINCLAIR UPTON - Mammon-art. \$ 2.00, pp. vi+390. V

SITARAMAYYA, DR. B. PATTABHI - Feathers and Stones - "My Study Windows". Bombay, Padma Publications, Rs. 7/8, 1946, pp. vi+398. V

**TAGORE, RABINDRANATH**  
-Letters to a Friend. London.  
George Allen, 7/6, 1928, pp.  
195. V

The letters are addressed  
to C. F. Andrews who has  
edited them.

**THOMPSON, EDWARD**-Atone-  
ment. A Play of Modern  
India in Four Acts. London,  
Ernest Benn Ltd., 3/6, 1924.

Among the characters is  
'The World-famous Mahatma  
Ranade' described as 'The  
Spinner of a Nation's Destiny'.

**WILLIAMS, L. F. RUSHBROOK**  
- Famous Letters and Spee-  
ches. Bombay, Times of  
India (Home Library Club),  
Rs. 4/8, 1940, pp. 640. V

Gandhiji's speech on "The  
Spirit of the Congress" deli-  
vered at the Second R. T. C.  
on December 1, 1931, pp.  
556 to 567 - "one of the  
most brilliant that he ever  
delivered"; Shastri's appeal to  
the Br. Govt. and Mahatma  
Gandhi, pp. 568 to 574. Also  
a letter from Gandhiji to Gen.  
Smuts, dated. 30-6-'24.

## XI. CURRENT HISTORY

**ABBAS, K. A.** - I Write as I  
Feel. Bombay, Hind Kitabs,  
Rs. 4/12, 1948, pp. xii+340. V

A chronicle of events from  
June 1941 to August 1947.

**ABBAS, K. A. and JOG, N.  
G.** - A Report to Gandhiji.  
Bombay, Hind Kitabs, Re.  
1/8, 1944, pp. 77. V

**ACHARYA, G. N. (Ed.)** - They  
Speak for India: Edgar  
Snow, Pearl Buck &c. Bom-  
bay, Hamara Hindustan, 8  
as, 1943, pp. viii+58. V

**AIYAR, R. P. AND BHAN-  
DARI, C. S.** - The Con-  
gress Caravan 1885 to 1945.  
Bombay, National Youth  
Publications, Rs. 3/8.

**AIYER, H. R.** - The Congress  
and the War. Baroda, C.

S. Raja & Co., 5 as, 1941,  
pp. 40. V

- India and the War. Baroda,  
C. S. Raja, Re. 1/-, 1942,  
pp. 112. V

**ALEXANDER, HORACE G.**

.- Congress Rule in India :  
A Study in Social Reform.  
London, Victor Gollancz for  
New Fabian Research Bureau,  
6 d, 1938, pp. 31. V

- India Since Cripps. London,  
Penguin Books, 1/-, 1944,  
pp. 93. V

- The Indian Ferment. London,  
1929.

**ALI, MOHAMMED** - Freedom  
of Faith and Its Price :  
The Case of Messrs Shaukat  
Ali and Mohammed Ali. Ken-  
sington, 2/-, 1919, pp. 151.

- ALI, MOHAMMED - Speeches. Madras, Ganesh & Co., 1921:
- (Ed. Afzal Iqbal) - My Life : A Fragment. An Autobiographical Sketch of Maulana Mohammed Ali. Bombay, Shaikh Muhammad Ashraf, Rs. 5/4, 1942, pp. xii+273. V
- ALI BROTHERS - For India and Islam : The Karachi Trial. Calcutta, Saraswati Library, Re. 1/12, 1922, pp. 105+120. V
- ALL INDIA CONGRESS COMMITTEE - Congress and War Crisis. Allahabad, Re. 1/-, 1940, pp. ii+179. V
- Congress Bulletin. See section on Journals.
  - Congress Handbook. Allahabad, Rs. 2/8, 1946, pp. iv+294. V
- Besides giving information about the Indian National Congress and its activities, the handbook gives details about other allied institutions like the A. I. S. A., and the constructive activities carried under their auspices.
- The Indian National Congress, 1920-1923 : Collections of Resolutions of the Congress, the A. I. C. C. and the Working Committee. Allahabad, Rs. 2/8. 1924, pp. 351. V
- Similar Reports for the succeeding years upto 1940.
- Reports of the Annual and Special Sessions of the Indian National Congress.
  - Reports of the General Secretary on the Working of the Congress. From 1936 onwards.
- AMERY, L. S - India and Freedom. Bombay, Oxford Univ. Press, Rs. 3/-, 1942, pp. 128. V
- ANAND, MULK RAJ - Letters on India. London, The Labour Book Service, 1942, pp. xii+159. V
- ANDREWS, C. F. - Akali Struggle.
- The Challenge of the North West Frontier. A Contribution to World Peace., London, George Allen, 3/6, 1937, pp. 208. V
  - The Claim for Independence (within or without the British Empire). Madras, Ganesh & Co., 8 as, pp. 68. V
  - How India Can Be Free? Madras, Ganesh & Co., 1921.
  - India and the Pacific. London, George Allen, 3/6, 1937, pp. 224.
  - India and the Simon Report. London, George Allen, 5/-, Cheap ed. 3/6, 1930, pp. 191. Mahatma Gandhi, pp. 51-64; Gandhiji's Letters, 167-185.
  - The Indian Earthquake. London, George Allen, 2/6, 1934, pp. 130. V

Ch. IX Gandhi in Bihar,  
pp. 71-92.

- Indian Independence the Immediate Need. Madras, Ganesh & Co., 1921.
- The Indian Problem. Madras, G. A. Natesan, Re. 1/-, 1923 pp. 128. V
- Indians in South Africa. Madras, Ganesh & Co., 8 as, pp. 88.
- The True India. A Plea for Understanding. London, George Allen, 3/6, 1939, pp. 251. V
- What I Owe to Christ. London, Hodder and Stoughton 1932, pp. 311.

ANDREWS, C.F. AND MUKERJEE, GIRIJA - The Rise and Growth of the Congress. London, George Allen, 7/6, 1938, pp. 304. V

ANUP SINGH - Nehru the Rising Star of India. London, George Allen, 3/6.

ARONSON, DR. ALLEN - Romain Rolland: the Story of a Conscience. Bombay, Padma Publications, Rs. 5/8, 1944, pp. iv+215. V

ASHBY, LILLIAN LUKER (WITH WHATELY ROGER) - My India. London, Michael Joseph, 5/-, 1938, pp. 352.

Gandhiji's visit to Jamshedpur, pp. 337-342. The authoress was Gandhiji's host.

ASIAN RELATIONS ORGANIZATION - Asian Relations,

Being Report of the Proceedings, and Documentation of the First Asian Relations Conference, New Delhi, 1947. New Delhi, Rs. 15/, 1948, pp. viii+314. V

Mahatma Gandhi's address to the Conference, pp. 242-245.

ASSOCIATED NEWSPAPERS LTD. (Pub.) - The Indian Crisis. (The Daily Mail Blue Book). London, 1 d, 1930, pp. 48. V

Contributions by O'Dwyer, Rothermere &c. on the Indian situation — containing all kinds of distortions and lies.

ASVATHANARAYAN RAO, VADIGANAHALLI - What It Cost Me. (Leaves from a Diary). Bangalore City, Swadeshi Bhandar, Re. 1/8, 1942, pp. x+180+4. V

ATHLYE, D. V. - The Life of Lokamanya Tilak. Poona, Annasahib Chiplunkar, Rs. 3/8, 1921, pp. xiv+400. V

BAILLIE, ADRIAN & OTHERS - India from a Back Bench. London, 1943.

BANERJEE, SIR ALBION - The Indian Tangle. London, Hutchinson, 5/-, pp. 255. V

A loyalist anglicized civilian describes the tangle. Ch. VII. The Gandhi Cult and Reaction, pp. 118-133.



- What is Wrong with India. Allahabad, Kitabistan, Rs. 3/-, 1944, pp. 238. V
- BANERJEE, BEJOY - Indian War of Independence with special reference to I. N. A. Calcutta, Oriental Agency, Rs. 4/-, 1946, pp. viii+168. V  
Congress and Gandhi. pp. 35 to 47.
- BANERJEE, D. N. - The Resurrection of the Congress. Madras, Tagore and Co., 1920, pp. 25.
- BANERJEE, NAKULESHWAR - A New Deal in Indian Politics. Calcutta, D. M. Roy, Re. 1/-, 1944. pp. iv+45. V
- BANERJEE, NRIPENDRA C. - Aianism and Other Essays. 1930.
- The Ideal of Swaraj: Madras, Ganesh & Co., Re. 1/-, 1921, pp. xvi+69.
- BANERJEE, SURENDRANATH - A Nation in the Making. London, Oxford Univ. Press, 21/-, 1 ed. 1925, pp. xvi+420. V
- BARNES, MARGARITA - India Today and Tomorrow. London, George Allen, 7/6, 1937, pp. 304.  
The book deals with the period from 1931 to 1937, especially, 'all the R. T. C.s'. 'With Mr. Gandhi', pp. 75' to 89; 'Mr. Gandhi Again', pp. 138 to 142.
- The Indian Press. A History of the Growth of Public Opinion in India, London, George Allen, 21/-, 1940, pp. xvi+491. Bibliography and index. V
- BASU, MAJOR B. D. - India Under the British Crown. Calcutta, R. Chatterjee, Rs. 10/-, 1 ed., 1933, pp. x+570. Illustrated. V
- BESANT, ANNIE - For India's Uplift: Speeches and Writings on Indian Questions. Madras, G. A. Natesan, Re. 1/8, 2 rev. ed. pp. 326.
- India Bond or Free? A World Problem. London and New York, G. P. Putnam's Sons, 12/6, 1926, pp. iv+216. V  
Gandhi's movement of passive resistance and non-cooperation. pp. 188-195.
- The India That Shall Be. Madras, T. P. House, Re. 1/12, 1940, pp. x+265. V
- Speeches and Writings of Annie Besant. Madras, Ganesh & Co., Rs. 3/-, 3 ed. pp. viii+479.
- BEVAN, EDWYN - Thoughts on Indian Discontents. London, George Allen, 6/-, 1929, pp. 178. V
- BHANDARKAR, D. R. (Ed.) - India. Philadelphia, 1924, pp. 203. V

'Backward and Untouchable Classes' by Mahatma Gandhi, pp. 181-182.

BHATTACHARYA, U. C. AND CHAKRAVARTY, S. S. - Pandit Motilal Nehru. His Life and Work. Calcutta, 1934.

BHAVANIDAYAL, SANNYASI AND CHATURVEDI, BENARASI DAS - A Report on the Emigrants Repatriated to India, Under the Assisted Emigrated Scheme for South Africa &c., 15-5-31. Khargash, B. D. Sannyasi, 1931, pp. 70+48.

BIRDWOOD, Lt. COL. C. B. - A Continent Experiments. London, Skeffington & Son, 21/-, 1945, pp. 276. Foreword by Lord Halifax. V

BLACKHAM, ROBERT J. - Incomparable India : Tradition, Superstition, Truth. London, Sampson Low, Marston & Co., 12/6, pp. xviii+302. Illustrated profusely. Foreword by Sir William Birdwood.

BOLTON, GLORNEY - Peasant and Prince. Modern India on the Eve of Reforms. London, George Routledge, 12/6, 1937, pp. xii+296. Index and 8 illustrations. V

Half-naked Fakir pp. 37-52.

BOMBAY PROVINCIAL CONGRESS COMMITTEE - March of Events. (Being the Case of the Indian National Congress vis-a-vis the Present World Crisis). Bombay, B. P. C. C., Re. 1/-, 1940, pp. iv+172.

For Pts. II & III see under Lele, Alva &c.

BOSE, SUBHASH CHANDRA - The Indian Struggle 1920-1934. London, Wishart, 14/-, 1935.

Indian ed. Calcutta, Thacker, Spink & Co., Rs. 10/-, 1948.

- Through Congress Eyes. Allahabad, Kitabistan, Rs. 2/8, 1939, pp. viii+243. V

BRAILSFORD, H. N. - Rebel India. London, Leonard Stein, 2/6, 1931, pp. 183. V

- Subject India. Bombay, Vora & Co., 1 Ind. ed. 1946, Rs. 4/8, pp. 260. V

BRIGHT, J. S. - Frontier and Its Gandhi. Lahore, Allied Indian Publishers, Rs. 3/-, pp. 144.

- The Great Nehrus. Lahore Tagore Memorial Publications, Rs. 6/-, 1947.

- (Ed.) - Important Speeches of Jawaharlal Nehru. Lahore, 1945.

- President Kripalani and His Ideas. Lahore Indian Printing Works, Rs. 4/4, 1947. pp. 218.

BROCKWAY, A. FENNER  
- The Indian Crisis. London,  
Victor Gollancz 2/6, 1930,  
pp. 208. V

'Mahatma Gandhi', pp.  
91-112.

BUCH, M. A. - Rise and Growth  
of Indian Nationalism-Non-  
violent Nationalism: Gandhi  
and his School. Baroda,  
Atmaram Printing Press, Rs.  
5/-, 1939, pp. vi+246+9.  
References and Select Biblio-  
graphy. V

BUCHAN, JOHN (Ed.) - India  
(the Nations of To-day. A  
New History of the World  
Series). Boston and New  
York, Houghton Mifflin, 5.00  
1923, pp. xx+295. index.

From the Rowlatt Bills  
and Jallianwala Tragedy to  
the imprisonment of Gandhiji  
in March 1922, pp. 202 to  
229. An imperialist conser-  
vative approach to the problem  
of Indian politics and especi-  
ally to non-co-operation, 'the  
enemy of Society and Civili-  
zation'.

BUTLER, SIR H. - India In-  
sistent. 1931.

CADOGAN - The India We  
Saw. London, John Murray,  
7/6, 1933, pp. viii+310.

The author was a member  
of the Simon Commission.

CAROLE, JOSEPH - An Open  
Letter to Mr Gandhi.

Allahabad, 1925.

CARTHILL, AL. - The Lost  
Dominion. Edinburgh, Willi-  
am Blackwood, 15/-, 2 impr.  
1924, pp. viii+351. V

CAVEESAR, SARDUL SINGH  
- India's Fight for Freedom:  
A Critical Survey of the Indian  
National Movement since the  
advent of Mahatma Gandhi  
in the field of Indian Politics,  
Lahore, The National Publi-  
cations, Rs. 2/14, 2 ed. 1936,  
pp. ix+480 V

First ed. published under  
the title "Non-violent Non-  
Cooperation". Foreword by  
Kalinath Ray, 8 appendices  
and 2 indexes.

- Non-violent Non-Coopera-  
tion. See 'India's Fight for  
Freedom' above.

CHAKRAVARTY, D. AND  
BHATTACHARYA, C. - Con-  
gress in Evolution. Pts. I  
& II. Being a collection of  
Congress Resolutions from  
1885 to 1940 and other impor-  
tant documents. Calcutta,  
The Book Co., Rs. 4/-, 1940,  
pp. +viii+232; ii+57. V

CHANDER, JAG PARVESH  
- India Steps Forward. The  
Story of The Cabinet Mission  
in India in Words and Pict-  
ures. Lahore, The Indian Prin-  
ting Works, Rs. 6/8, 1946, pp.  
250. Illustrated profusely. V

- CHATTERJEE AND MORELAND - A short History of India. Longmans, 21/-.
- CHINTAMANI, C. Y - Indian Politics since the Mutiny. Waltair, Andhra University, Rs. 2/-, 1937, pp. 179+vii. English edition, London, George Allen.
- CHIROL, SIR VALENTINE - India (The Modern World: A Survey of Historical Forces. Vol. V). London, Ernest Benn, 21/-, 4 impr. 1930, pp. viii+352. V  
Ch. xii. Non-cooperation Movement, pp. 200-224.
- India Old and New. London, McMillan, 10/-, 1921, pp. x+319. V
- CLOSE, UPTON - The Revolt of Asia: The End of the White Man's World Dominance. New York, G. P. Putnam's Sons, 10/-, 1927, pp. xiv+325. V
- CLUME, FRANK - Song of India. Bombay, Thacker, Rs. 12/8, 1 Ind. ed. pp. iv+405, bibliography and illustrations. V  
Gandhi and his entry into Indian struggle for freedom, pp. 177-189; Quit India struggle, pp. 200-203. An Australian visitor's survey of the Indian scene.
- COATMAN, J. - India in 1925-26. Calcutta, Govern-
- ment of India Central Publication Branch, Rs. 2/8, 1926, pp. xviii+463. V
- India in 1926-27. Rs. 2/8, 1928, pp. xvi+377. V
- India in 1927-28. Rs. 2/8, 1928, xviii+462. V
- India in 1928-29. Rs. 2/4, 1930, pp. xviii+416. V  
See also under Govt. of India and Rushbrook Williams.
- India the Road to Self Government. London, George Allen, 5/-, 1941, pp. 146.  
History of the Indian Swaraj Movement from the Morley-Minto Reforms to 1940.
- COELHO, M. A. F. - The Question; Whither India? Bombay, Thacker, Rs. 5/14, 1946, pp. x+185.
- COMMISSIONERS APPOINTED BY THE PUNJAB SUB COMMITTEE OF THE INDIAN NATIONAL CONGRESS - Report of the Commissioners Vols. I & II. Lahore, K. Santanam, Secy. to the Commission. Vol. I - Report. Rs. 2/-, 1920, pp. 160; Vol. II - Evidence. Rs. 5/-, 1920, pp. 946. V
- COUPLAND, R. - Britain and India, 1600-1941. London, Longmans Green & Co., 1941.
- CRADDOCK, SIR REGINALD - The Dilemma in India.

London, Constable, 15/-,  
1929, pp. xx+379.

An imperialist bureaucrat's estimate of Gandhi and non-cooperation, pp. 191-196. Professing 'sympathy for the masses' and bearing bitter hatred of 'political agitators'.

- The Indian Problem. 1931.

CROZIER, BRIG. GENERAL F. P. - A Word to Gandhi, The Lesson of Ireland. London, Williams & Norgate, 4/6, 1931, pp. 142. V.

CUMMING, SIR John (Ed.) - 'Political India 1832-1932: A Cooperative Survey of a Century. London, Oxford, 3/6, 1932, pp. viii+324. V

Ch. XI 'M. K. Gandhi as a Factor in Indian Politics' pp. 203-225.

CURIE, EVE - Journey among Warriors. London, William Heinemann, 15/-, 1943, pp. iv+522. Index. V

Ch. xxv. Mr. Gandhi and the Cripps Proposals, pp. 459-487. The author's visit to and talk with Gandhi, pp. 461 to 476.

CURSONS, WILLIAM E. - Joseph Doke The Missionary Hearted. Johannesburg, The Christian Literature Depot, 1929, pp. viii+248.

Life of probably the first biographer of Gandhiji.

DADABHAI NAOROJI - Speeches and Writings of Dadabhai Naoroji. Madras, Natesan & Co., Rs. 3/-, pp. 686+216. V

DASGUPTA, HEMENDRA NATH - The Indian National Congress Vol. I. Calcutta, J. K. Dasgupta, Rs. 6/-, 1946, pp. x+28+282+vi. Index. V

DEB, J. M. - Blood and Tears. Bombay, Hind Kitabs, Rs. 7/8, 1945, pp. x+291. V

DE MELLO, F. M. - Indian National Congress: A Historical Sketch. Bombay, 1934.

DESAI, BHULABHAI J. - Speeches of Bnulabhai J. Desai. 1934-38. Madras, G. A. Natesan, Rs. 3/8, 1938, pp. 14+615. V

DESAI, MAHADEV - Maulana Abul Kalam Azad, the President of the Indian National Congress. London, George Allen, 3/6, 1941, pp. 191. V

DESAI, VALJI GOVINDJI - Haripura Congress Guide. Vithalnagar, Reception Committee of the Congress, 4 as, 1938, pp. viii+168. V

DHARAM YASH DEO - Our Countrymen Abroad: A Brief Survey of the Problems of Indians in Foreign Lands.

Allahabad, A. I. C. C., 8 as,  
1940, pp. 99. V

- DHARMA TEERTHA, SWAMI**  
- Enemies of Indian Free-  
dom and Other Essays.  
Lahore, Happy Home Book  
Depot, Re. 1/-, pp. iii+56. V  
- The Menace of Hindu Impe-  
rialism. Lahore, Happy  
Home, Rs. 6/8, 2 ed. 1946,  
pp. xvi+354+vi+12. V  
- The Secret of Hindu Sanga-  
than. Lahore, Happy Home,  
Re. 1/-, 1946, pp. 50. V

A passionate protest against  
the prevailing forms of Hindu  
Sangathan.

- DISORDERS INQUIRY COM-  
MITTEE (HUNTER COM-  
MITTEE.) REPORT 1919-20.**  
Calcutta, Supdt. Govt. Prin-  
ting, Re. 1/-, 1920, pp. 275. V  
Report of the Hunter  
Committee. Investigations of  
the disturbances in Bombay,  
Delhi, Ahmedabad and the  
Punjab.

- DUFFETT, W. E.; HICKS, A.  
R.; AND PARKIN, RALEIGH**  
- India Today. The Back-  
ground of the Indian Nationa-  
list Movement. Toronto,  
Canadian Institute of Inter-  
national Affairs, 1941.

- DUMBELL, PERCY H.** - Loyal  
India: A Survey of 70 years  
(1858-1928). Bombay, Oxford  
Univ. Press, 12/-, 1930, pp.  
243.

- DUNCAN, ARTHUR** - India in  
Crisis. London and New  
York, G. P. Putnam, 1931, pp.  
xii+271, bibliography and  
index. V

Ch. IV is devoted to  
Gandhi (pp. 108-118). "With  
the tactics of Congress I have  
no sympathy" says the author  
in his preface.

- DURAI, J. CHINNA** - The  
Choice Before India. London,  
Jonathan Cape 8/6, 1941,  
pp. 225.

The author chooses to call  
himself a liberal and a mode-  
rate, but is a bitter, inimical,  
critic of the Indian National  
Congress, Gandhi and Indian  
Nationalism.

- DURANT, WILL** - The Case  
for India. - See Section I  
- The Story of Civilization-  
Vol. I. Our Oriental Heri-  
tage. New York, Simon and  
Schuster, \$ 4.00, 1935, pp.  
xxxii+1052 V

Mahatma Gandhi, pp. 626-  
632.

- DUTT, R. PALME** - India To-  
day. London, Gollancz, 1940.  
- India Today. Bombay, Peo-  
ples Publishing House, Rs. 7/8  
1947, pp. +532+i. V  
- Modern India. Bombay, Sun-  
shine Publishing House,  
Rs. 2/12, 1926, pp. vi+211  
**EAST INDIA ASSOCIATION**  
- Journal of the East India

Association. Vol. XXXIV, New Series, No. 31. London, 1/-, 1903, pp. 44.

"Indians in the Transvaal: Their Grievances as British Citizens" by Sir W. Wedderburn,

EDIB, HALIDE - Inside India. London, George Allen, 10/6, 1937, pp. 377. V

ELVIN, VERRIER - Truth about India: Can We Get It? London, George Allen, 1/, 1932, pp. 106. V

- What is Happening in the North West Frontier Province? Delhi, 4 as. 1932, pp. 18. V

ELVIN, VERRIER AND WINSLOW, JACK. - The Dawn of Indian Freedom. London, 1931.

American edition published under the title "Gandhi, the Dawn of Indian Freedom."

EMERSON, GERTRUDE - See Sen, Gertrude Emerson.

FIELDEN, LIONAL - Beggar My Neighbour: The Case for India. Bombay, International Book House, Rs. 3/-, 1944, pp. 99. V

FISHER, LOUIS - Empire. London, Dennis Dobson Ltd., 2/6, 1945, pp. 70. V

- Imperialism Unmasked. Bombay, Hamara Hindustan, 8 as, 1943, pp. 53. V

FRIENDS OF INDIA (Pub.) -

India Calling. London, 6 as, 1931, pp. 26. V

FULLER, J. F. G. - India in Revolt. London, Iyre and Spotiswoode, 7/6, 1931, pp. 212. V

Ch VII. Gandhi - The Indian Complem, pp. 148-157.

FULLOP-MILLER, RENE - Leaders, Dreamers and Rebels. An Account of Great Mass Movements of History and of the Wish Dreams That Inspired Them. New York, The Viking Press, 5.00, 1935, pp. x+464.

GANDHI M. K. (Ed. - A. T. Hingorani) - The Dawn of Freedom. Karachi, A. T. Hingorani, Re. 1/-, 1947, pp. 32. V

A Small collection of recent utterances addressed to all sorts of interests in India.

- (Comp. and Ed. R. L. Khipple) - Famous Letters of Mahatma Gandhi. Lahore, The Indian Printing Press, Rs. 3/8. 1947, pp. 148.

- Freedom's Battle. Being a Comprehensive Collection of Writings and Speeches on the Present Situation. Introduction by C. Rajagopalachari. Madras, Ganesh, Rs. 2/8, 1921, pp. xx+342+iv. V

- The Future of India (An address given at the Chatham

House on Octo. 20 th, 1931).  
London, Royal Institute of  
International Affairs, 1931,  
pp. 19. V

Reprinted from Interna-  
tional Affairs, Nov. 1931.  
Vol. X No. 6 (pp. 721-739).

- Gandhi's Letters on Indian  
Affairs.

- Historic Correspondence.  
Lahore, Gandhi Pub. League,  
6 as.

- How Can India Become  
Free? Lahore, R. P: Book-  
wala & Co., Re. 1/-.

- I Ask Every Briton. London,  
Lindsay Drummond, 2/6, pp.  
79.

Recent writings and  
statements of M. K. Gandhi  
including his speeches on  
the eve of his arrest and his  
letter to Chiang Kai Shek.

- In Round Table Conference.  
Lahore, G. P. League, 6 as.

- India and the National  
Congress. London, 1931.

- India on Trial. Madras.

-(Ed. Waman P. Kabadi)

- India's Case for Swaraj.  
(Being Select Speeches,  
Writings, Interviews etc. of  
Mahatma Gandhi in England  
and India (Sept. 1931 to Jan.  
1932'), Full text of Gandhi-

Willingdon Correspondence  
and Leaves from Mahadeo  
Desai's Diary). Bombay,  
Yeshananda & Co., Rs. 3/-,

2 ed. 1932, pp. xii+404.  
Illustrations. V

The book is not quite well  
edited and the numerous  
advertisements in the body  
of the book look ugly and  
prove a veritable nuisance  
to the reader.

- India's Claim for Home-  
Rule. Madras. Ganesh & Co.

-(Ed. A. T. Hingorani) - My  
Appeal to the British.  
Karachi, A. T. Hingorani,  
Re. 1/8, 1942, pp. iv+84. V

This book was banned by  
the British Govt. of India.

- My Appeal to the British.  
London, Longmans Green &  
Co., 1942.

- The National Flag. Lahore,  
Gandhi Pub. League, 6 as.

- Presidential Address: 39th  
Session of the Indian National  
Congress, Belgaum, 1924.  
Belgaum, 4 as, 1924.

-(Ed. R. K. Prabhu & U. R.  
Rao) - Quit India. Bombay,  
Padma Publications, 8 as,  
1942, pp. x+180. V

- The Sound of Swaraj. Lahore,  
Gandhi Publications League,  
6 as, 1 ed. 1943, pp. 23. V

Presidential Address to  
the First Gujarat Political  
Conference held at Godhra  
on Nov. 3, 1917.

- Swaraj in One Year. Madras,  
Ganesh & Co., Rs. 2/-, 2 ed.  
1921, pp. iv+121. V



- GANDHI, M. K. AND M. H. DESAI (Ed. C. Rajagopalachari and J. C. Kumarappa) - The Nation's Voice: Being a Collection of Gandhiji's Speeches in England and M. D.'s Account of the Sojourn. Ahmedabad, Navajivan, 1 ed. 1932; 2 ed. 1947, Rs. 3/-, pp. viii+256. V
- GANESH & CO. (Pub.) - The Pilgrims' March: Their Messages. Madras, Re. 1/8, 1921, pp. xii+136. V
- GANGULEE, DR. N. - India What Now? A Survey of India's Urgent Problems. 7/6.
- GANPATRAI, LALA - Congress Struggle. Lahore, National Publishers and Stationers, Rs. 6/4, 1946, pp. viii+328: Foreword by K. M. Munshi & Introduction by Sardul Singh Caveesar.
- Contains selections from the records of the fateful days from 1939 to the proposals put forth by the Cabinet Mission.
- GARRATT, G. T. - The Indian Commentary. London, Jonathan Cape, 7/6, 1 ed. 1928; 2 impr. 1930, pp. 335.
- GHOSE, AKSHAYA K. - Lord Chelmsford's Viceroyalty. A Critical Survey. Madras, Ganesh & Co., Re. 1/-, 1921, pp. iv+83. V
- GHOSE, DR. PRAFULLA - From Nagpur to Lahore. A Short History of the Congress of the Period. Comilla, Abhay Ashram, Re. 1/-, 1931, pp. xvi+133. V
- GOKHALE, GOPAL KRISHNA - Speeches of G. K. Gokhale. Madras, Natesan & Co., 1 ed. 1908; 2 ed. 1916, Rs. 4/-, pp. viii+1236+xvii. 2 appendices, index and 7 illustrations. V
- GOVT. MONOTYPE PRESS - Report of The Asiatic Inquiry Committee (Union of South Africa). Simla, 12 as, 1921, pp. 79. V
- GOVT. OF INDIA - India in 1929-30. Calcutta, Govt. of India Central Pub. Branch, Rs. 2/4, 1931, pp. xxii+496. V
- India in 1930-31. Calcutta, Rs. 3/14, 1932, pp. xxiv+752. V
- India in 1931-32. Delhi, Manager of Publications, Re. 1/-, 1933, pp. xii+238. V
- India in 1932-33, Delhi, Re. 1/4, 1934, pp. xiv+197. V
- India in 1933-34, Delhi, Re. 1/10, pp. xvi+196. V
- India in 1934-35. Delhi, Re. 1/2, 1937, pp. xiv+145. V
- See also under Coatman, and Rushbrook Williams.
- GRANT, W. J. - The Spirit of India. London, B. T.

- Batsford Ltd., 10/6, 1938, pp. viii+120. V
- Ch. VIII of the book is devoted to Mr. Gandhi's influence and Gandhism (pp. 87 to 92). The author's theme is that Hinduism is a denial of life and Gandhism crucifies itself to defeat Britain and (being one with Hinduism) to deny life.
- GRIFFITHS, P. J. - The British in India. London. Robert Hale, 10/6, 1946, pp. 222. V
- Discusses the question of Complete Independence for India. Ch. xv. Mr. Gandhi, pp. 144-158.
- GUNTHER, FRANCES - Revolution in India. Allahabad, Central Book Depot, Rs. 3/8, 1946, pp. viii+152. V
- Gandhi and the Spinning Wheel, pp. 77 to 91.
- GUNTHER, JOHN - Inside Asia. London, Hamish Hamilton, 12/6, 2 ed. 1939, pp. 659. V
- GUPTA, NAGENDRANATH - Indian Nationalism. Bombay Hind Kitabs, Rs. 2/8, 1946, pp. iv+136. V
- GWYN, J. T. - Indian Politics: A Survey. London, Nisbet & Co., 12/6, 1924, pp. xii+344. V
- Letters on Indian affairs from May 1922 to Dec. 1923.
- HARDINGE, LORD. - Speeches of H. E. Lord Hardinge of Penhurst 1913-1916. Madras, Ganesh & Co., Rs. 3/- pp. xii+600. V
- HAYES, WILL - The Indian Crisis. A Reply to the Daily Mail Blue Book. London, The Free Religious Movement, 3d, pp. 10.
- It condemns the "Daily Mail Blue Book on the Indian Crisis, as the biggest penn'orth of lies on the market today".
- HEARD, GERALD - These Hurrying Years. An Historical Outline 1900-1933. London, Chatto and Windus, 7/6, 1934, pp. viii+364.
- Gandhi and his policy of non-cooperation evaluated and criticized, pp. 227-28.
- HOARE, SIR SAMUEL - Speeches of the Rt. Hon. Sir Samuel Hoare. London, Eyre and Spottiswoode, Rs. 2/-, 1935, pp. iv+145. V
- HOGG, DOROTHY - Challenge to the East. London, Society for Promoting Christian Knowledge, 3/6, 1938, pp. x+144.
- Pt. III. India, pp. 113 to 144.
- India: A Plea for Understanding. Allahabad, Kitab Mahal, Rs. 3/-, 1 Ind. Ed. 1946, pp. 142

- Here an English woman looks at Gandbi the universal man, and pleads with her brothers for an understanding with Indian Nationalism.
- HORNIMAN, B. G.** - Amritsar and Our Duty to India. London, T. Fisher and Unwin, 6/-, 1920, pp. 196. V
- HOUGHTON, BERNARD** - Advance India. Madras, Tagore & Co., 1921, pp. 31. V  
Ch. III. Non-violent Non-cooperation.
- HOWARD, EDWIN** - A Picture of India. Singapore, 1941.
- HOYLAND, JOHN S.** - The Case for India. London, J. M. Dent, 3/6, 1929; pp. viii+173. V
- C. F. Andrews, Minister of Reconciliation. London, Allenson & Co. 1940, pp. 175.
- Gopal Krishna Gokhale: His Life and Speeches. Calcutta, Y. M. C. A. Publishing House, Re. 1/8, 1933, pp. x+200. V
- Indian Crisis: The Background. London, George Allen, 1943.
- HULL, WILLIAM J.** - India's Political Crisis. Baltimore, John Hopkins Press, \$ 2.90, 1930, pp. xviii+190. V
- HUNTER, LORD** (Chairman)  
- Report of the Committee appointed by the Government of India to investigate the Disturbances in the Punjab etc. London, H. M.'s Stationery Office, 3/-, 1920, pp. 166 and map. V
- HUNTINGDON, LORD** - Common Sense about India. London, William Heinemann, 3/6, 1942, pp. iv+76.  
"Plea for winning India's support for the war by granting real power to a National Govt. now."
- HUTCHINSON, LESTER** - The Empire of the Nabobs. London, George Allen, 8/6 1 ed. 1937, pp. 277.  
Socialist viewpoint. Gandhi and Congress criticized for accepting the 1935 Act - "A Charter of Slavery"
- HÜTHEESINGH, KRISHNA** - With No Regrets. Bombay Padma Publications, Rs. 6/8, 1944, pp. xviii+198. V
- HYNDMAN, H. M.** - The Truth about India, Madras, S. Ganesan, 12 as, pp. 53.
- HYPES, JAMES LOWELL** - Spotlights on the Culture of India. Washington D. C., The Daylion Co., \$ 3.00, 1937, pp. 368.  
Ch. XXIV. Contemporary Social Movements and Emergent Leadership in India. pp. 333-356.
- INDIA LEAGUE DELEGATION** - Condition of India. See Section II A

- INDIAN NATIONAL CONGRESS - Reports of Annual and Special Sessions, especially from the 31st session held at Lucknow in 1916, to the last session held at Meerut in 1946.
- INDIAN PRINTING WORKS (Pub.) - Plain Talks with Britain. Lahore, Rs. 2/4.
- 'Quit India' Re-examined. Lahore, Rs. 2/-.
- IQBAL, SIR MUHAMMAD (Compiler - Shamboo) - Speeches and Statements of Iqbal. Lahore, Al-manar Academy, Rs. 4/8, 1944, pp. xii+220. V
- IRVIN (HALIFAX) LORD - Indian Problems: Speeches of Lord Irvin, London, George Allen, 12/6, 1932, pp. 376. V
- IYENGAR, K. R. SRINIVASA-S. Srinivasa Iyengar: The Story of a Decade of Indian Politics. Mangalore, Basal Mission Press; Re. 1/-, 1939, pp. 91. V
- IYER, C. S. RANGA - Father India: A Reply to 'Mother India'. London, Selwyn and Blount, 6/-, 5 impr. 1927, pp. 207. V
- India in the Crucible. London, Selwyn & Blount, 7/6, 192, pp. 336. V
- IYER, S. SUBRAMANIA - Speeches and Writings of Dr. S. S. Iyer. Madras, S. R. Murthy and Co., Rs. 2/8, 1920 (?), pp. viii+xxiv+424. V
- Mrs. and Mr. Gandhi, pp. 290-91
- JAG PARVESH CHANDER - The Congress Case. Lahore, Free India Publications, Rs. 3/-, 1943, pp. xii+124. V
- JAIPRAKASH NARAYAN - Gandhiji's Leadership and the Congress Socialist Party. 1940.
- Towards Struggle. Selected Manifestoes, Speeches and Writings. Bombay, Padma Publications, Rs. 6/8, 1946, pp. 244. V
- JAIRAMBAS DOULATRAM - Revolution and Counter Revolution. Bombay, Vora & Co., 2 as, 1936, pp. 12. V
- JAPETH, M. D. - What I Owe to Congress and Gandhi. Bombay, Hamara Hindustan, 8 as, 1946, pp. ii+28. Foreword by B. G. Kher. V
- JERE, S. A. - India Drifts Away. Kolhapur, Shri Dnyaneshwar Press, pp. 146.
- JOG, N. G. - Churchill's Blind Spot: India. Bombay, The New Book Co., Rs. 5/-, 1944, pp. xvi+228. V
- Ch. xxii. Gandhi and Churchill, pp. 196-208.

JONES, GEORGE E. - Tumult in India. New York, Dodd, Meed and Company, \$ 3.00, 1948, pp. X+277.

Ch. V. The "Practical" Mahatma, pp. 69-91.

KAILESH CHANDRA - The Tragedy of Jinnah. Lahore, Sharma Publications, Rs. 2/8, 1941, pp. xii+280. V

KAMAL-UD-DIN, KHWAJA - The House Divided: England, India and Islam. Woking, The Islamic Review, 7/6, 1922, pp. 149. V

- India in the Balance: British Rule and the Caliphate. Woking, The Islamic Review, 7/6, 1922, pp. 176. V

KANITKAR, M. J. - World Crisis Under Oriental Searchlight. Nagpur, M. J. K., 12 as, pp. viii+90. V

KARAKA, D. F. - I Have Shed My Tears: A Candid View of Resurgent India. New York & London, D. Appleton Century Co., Rs. 12/-, 1947, pp. vi+280. V

KAUSHIK, B. G. The House That Jinnah Built. Bombay, Padma Publications, Rs. 4/8, 1944, pp. vi+148. V

KELKAR, N. C. - A Passing Phase of Politics. See Sect II.  
- Pleasures and Privileges of the Pen. Poona, K. N.

Kelkar, Rs. 5/-, 1929, pp. xii +556. V

KENWORTHY, J. M. - India, A Warning. London, 1931.

KHAN, ABDUL MAJID - Leader by Merit. A Study of the Career and Character of Sardar Patel. Lahore, Indian Printing Works, Rs. 5-8, 1946, pp. 312.

KHANNA, B. N. - India in World Politics. New Delhi, Amrit Books, Rs. 2/-, 1939, pp. viii+227. V

The freedom movement under Gandhi dealt with in 'Freedom of India', pp. 148-172.

KHANNA, R. N. (Ed.) - Gandhi Fights for Freedom. Lahore, Allied Indian Publishers, Rs. 2/8, 1944, pp. 90. V

Articles by various notable persons about the 'Quit India' Struggle.

KHANNA, RADHAKRISHNA - India and the New World Order. Lahore Minerva Bookshop, Rs. 5/-, 1942, pp. viii+304. V

The author is apprehensive of the industrial system and large scale industries.

KINNAIRD, EMILY - My Adopted Country. Lucknow, Emily Kinnaird, Re. 1/8, 1944, pp. iv+224. V

Wardha and its activities described in chapter VIII; Friendship with Mahatma Gandhi, appendix II.

KOHN, HANS - A History of Nationalism in the East. London, George Routledge, 25/-, 1929, pp. xii+476, an exhaustive bibliography and index. V

The last two chapters of the book (Chapter XI and XII) are devoted to India. Gandhi and Indian Nationalism, pp. 398 to 429 of Chapter XII

KOTWAL, JEHANGIR F. - The Indian Charter. Karachi, J. F. Kotwal, Rs. 10/8, 1944, pp. xxxv+459. V

KRIPALANI, J. B. - The Indian National Congress. Bombay, Vora & Co., Re. 1/-, 1946, pp. 65. V

- Our Struggle for Freedom and Democracy. Bombay, B. P. C. C. Publications, 2 as, 1941, pp. 13. V

- Presidential Address at the 52nd Session of the I. N. Congress held at Meerut, Nov. 1946. Delhi, Delhi Printing Works, pp. 59.

KRISHNAMURTI, Y. G. - Back to Sanity: A Study in Human Possibilities. Baroda, Y. G. Krishnamurti, Rs. 5/8, pp. xvi+80.

- Gandhi Era in World Politics. Bombay, Popular Book Depot, Rs. 3/12, 1943, pp. ix+72. V

- Independent India and a New World Order. Bombay, Popular Book Depot, Rs. 10/-, 1943, pp. xxxvi+207. V

- Jawaharlal Nehru. The Man and His Ideas. Bombay, Popular Book Depot, Rs. 4/4, 1942, pp. xxx+174. V

KUMARAPPA, BHARATAN - Indian Struggle for Freedom. Musulipattam, 1938. V

KUMARAPPA J. C. - Europe Through Gandhian Eyes. Wardha, A. I. V. I. A., 8 as, 1948, pp. iv+29. V

- Nationalism. Rajahmundry, Hindustan Publishing Co., 2 as, 1937, pp. 40. V

- Stone Walls and Iron Bars. Allahabad, New Literature, 14 as, pp. ii+25. V

LAJPATRAI, LALA - Call to Young India. Madras, Ganesh & Co.

- India's Will to Freedom. Madras, Ganesh & Co., Rs. 2/-, 1921, pp. vi+188. V

- Unhappy India: A Reply to 'Mother India' Calcutta, Bana Publishing Co., Rs. 7/8, 1928, pp. xxii+536. V

LAKHANPAL, P. L. - History of the Congress Socialist Party. Lahore, National

- Publishers and Stationers, Rs. 3/8, 1946, pp. viii+158. V
- LANKASUNDARAM, DR. - India and World Politics. A Historical Analysis and Approach. Delhi, Rajkamal Publications, Rs. 10/8.
- LATEEF, S. A. - The Great Leader: A Comparative Study of the Political Careers of Mr. Jinnah and Mr. Gandhi. Lahore, Lion Press, Rs. 3/-.
- LAWRENCE, SIR W. - The India We Served. London, Cassell, 1928.
- LEADERS' CONFERENCE-Proceedings of the Leaders Conference Convened at Delhi. Delhi, Rs. 1/8, 1943, pp. 56+54. V
- LELE, P. R. - (Compiler and Editor) - War and India's Freedom. Bombay, Popular Book Depot, Re. 1/8, 1940, pp. ii+230. V
- LELE, P. R.; ALVA, VIOLET; AND DHURANDHAR, M. V. - March of Events (Being the case of the Indian National Congress). Bombay, B. P. C. C., Vol. II. Rs. 5/-, 1945, pp. vi+312; Vol. III. Rs. 2/-, 1946, pp. iv+131. V
- For Vol. I, see under Bombay-P. C. C.
- LINLITHGO, THE MARQUESS OF - Speeches and Statements of the Marquess of Linlithgo (1936-1943). New Delhi, Bureau of Public Information, Govt. of India, Rs. 12/8, 1945, pp. xxiii+467. V
- LOHIA, DR. RAM MANOHAR - India's Stand. Allahabad, A. I. C. C., pp. 16. V
- Mystery of Sir Stafford Cripps. Bombay, Padma Publications, 8 as, 1942, pp. iv+71. V
- LOVETT, Sir VERNEY - A History of the Indian Nationalist Movement. London, John Murray, 12/-, 3 ed. 1921, pp. xiv+303. V
- India. London, Hodder and Stoughton, 1923.
- M. R. T. - Nationalism in Conflict in India. Bombay, Home Study Circle, Malbar Hill, Rs. 3/-, 1942, pp. xvi+310. V
- MAHADEV RAO, D. - The India Round Table Conference and After. London, Heath Cranton Ltd., 3/6, 1932, pp. 94. V
- The author is indignant at Lord Irvin's gestures to Gandhi, whom he calls 'The Super Viceroy', and the Congress.
- MAHOMED, SYED - The Khalifat and England. Patna, Mohammed Imtyaz, Re. 1/8, 1921, pp. 88+4. V
- MALIARIK, KNAZ JAN - Three Words: How to Do India

Free? Re. 1/8, 1935, pp. 110. V

MARRIOTT, SIR JOHN A. R.

- The English in India: A Problem of Politics. Oxford, Clarendon Press, 12/6, 1932, pp. x+322. V

An imperialist approach to the problem evinced throughout.

MASANI, R. P. - Dadabhai Naoroji, The Grand Old Man of India. London, George Allen, 16/-, 1939, pp. 567. V

Foreword by Mahatma Gandhi.

MATHEWS, BASIL AND WILSON, WINFRED - India

Reveals Herself. London, Oxford, 5/-, 1937, pp. viii+192. V

MAYO, KATHERINE - Mother India. New York, Harcourt Brace & Co., 1 ed. 1927, Rs. 10/-, pp. xiv+440. V

Mahatma Gandhi calls this 'A Drain Inspector's Report'. Full of misrepresentations and distortions to suit her sinister theme.

MEHERALLY, YUSUF

- Leaders of India. Bombay, Allied Publishers, 6 as, 1940, pp. 59. V

Reprinted by Padma Publications as Pt. I of the Leaders of India, 8 as, 1942, pp. 59. V

- Leaders of India. Pt. II, Bombay, Padma, Re. 1/-, 1946, pp. 79. V

MEHTA, CHITRA - I Fought for My Country. Bombay, Hamara Hindustan, 8 as, 1946, pp. 48. V

MESTON, LORD, - Nationhood for India. London, Oxford, 5/-, 1931, pp. 112. V

MITCHELL, KATE L. - India Without Fables: A 1942 Survey. New York, Alfred A. Knoff, \$ 2.50, 1942, pp. viii+296+xiii. (English ed. John Lane the Bodley Head, 10/6.) V

"An upto date analysis of the political, social and economic forces which keep India in ferment today". Includes vivid sketches of Gandhi, Nehru, Jinnah etc.

MITCHELL, KATE AND GORHEL, KUMAR - Twentieth Century India. St. Louis, Institute of Pacific Relations and Webster Publishing Co., 35 cents, 1944, pp. ii+94. V

Growth of Indian Nationalism under Gandhi, pp. 69 to 94.

MITRA, K. (Ed.) - Congress Ministries at Work (April 1946-April 1947). Allahabad, A. I. C. C., Rs. 2/-, 1947, pp. xvi+110. V



- MODAK, CYRIL - India's Challenge to Christians. Lucknow, The Upper India Publishing House, Rs. 2/-, 1941, pp. xii+194. V
- Marching Millions. Allahabad, Kitab Mahal, Rs. 2/8, 1947, pp. viii+202. V  
Ramarajya and Lokarajya compared.
- What Price Freedom? The Epic of These Five Memorable Years. Allahabad, Kitab Mahal, Rs. 3/12, 1945, pp. xii+199. V
- MOHAMMED ALI, Maulana - The Key to Yeravda. Madras, Tagore & Co., 8 as, 1924, pp. 131. V  
Presidential address delivered at the Cooanada Session of the Indian National Congress, 1923. See Ali, Mohammed
- MONTAGUE, EDWIN S. - An Indian Diary. London, William Heinemann, 21/-, 1930, pp. xvi+410. V
- MONTMORENCY, SIR GEOFFREY - India Today and Tomorrow. London, The Signpost Press, 6d, 1944, pp. ii+30.  
Indian politics from 1919-1943 dealt with.
- MOON, PENDERELL - The Future of India. London, Pilot Press, 5/-  
- Strangers in India. London, Faber and Faber, 7/6, 4 impr. 1945, pp. 212.
- MORAES, F. R. - The Story of India. Bombay, The Noble Publishing House, 1942, pp. xii+196+iii. V
- MORAES, F. R. AND STIMSON, R. - Introduction to India. Bombay, Oxford Univ. Press, Re. 1/8, 1943, pp. iv+170. V
- MOTA, H. N. - From Bondage to Freedom. Lucknow, Ganga Pustakamala, Rs. 2/8, 1948, pp. 140.
- MUKERJEE, DHAN GOPAL - Disillusioned India. 1930.  
- A Son of Mother India Answers. New York, E. P. Dutton, 1928, pp. 112. V  
Contains the full text of Gandhiji's article on Miss Mayo's "Mother India". (Young India Sept. 15, 1927.) pp. 63-80.
- MUKERJEE, HIRENDRANATH - Indian Struggle for Freedom: A History. Bombay, Kutub Publishers, Rs. 4/-, 6/8, 1946, pp. 223. A note on suggested reading. V
- MUKERJEE, RADHAKUMUD - Akhand Bharat. Bombay, Hind Kitabs, 8 as, 1945, pp. 32. V
- MUNSHI, K. M. - Akhand Hindustan. Bombay, New Book Co., Rs. 4/-, 1942. pp. 273. V

- The Changing Shape of Indian Politics. Poona, Deshmukh & Co., Rs. 5/-, 2 ed. 1946, pp. vi+227. V
- The Indian Deadlock. Allahabad, Kitab Mahal, Rs. 2/-, 1 ed. 1945, pp. vi+152.
- The New Outlook. Lahore, Indian Book Co., Rs. 5/-, 1947, pp. 161.
- NAIDU, C. K. B. (Pub.) - A Nation at Bay, Bombay, Re. 1/-, 1941, pp. xvi+144. V
- NAIDU, SAROJINI - Speeches and Writings of Shrimati Sarojini Naidu. Madras, S. Ganesan, Rs. 3/-, 3 ed. 1925, pp. xxxii+448. V
- NAIK, VASANT N. - Indian Liberalism : A Study. ( Silver Jubilee Volume, 1918-1943 ). Bombay, Padma Publications for the National Liberal Federation of India, Rs. 5/8, 1945, pp. xii+353 +v. V
- Mr. Jinnah (A Political Study). Bombay, Saraswati Publications, Rs. 4/8, 1947, pp. 85.
- NAIR, C. GOPALAN - The Moplah Rebellion 1921. Calicut, C. Gopalan Nair, Rs. 2/-, 1923, pp. vi+127+188. V
- NARIMAN, K. F. - Whither Congress? Bombay, D. R. Dewoolkar, 12 as, 1933, pp. 160.
- ' Criticism of Congress Policy ' as dictated by Mr. Gandhi '.
- NATARAJAN, K. - Miss Mayo's Mother India : A Rejoinder. Madras, Natesan & Co., 12 as, 5 ed. 1930, pp. viii+135. V
- o The Criticisms of Tagore, Gandhi, Besant. etc., are also included.
- NATESAN (G. A.) AND CO. (Pub.) - Congress Presidential Addresses, 2 vols. Madras, Rs. 4/-, each. FIRST SERIES, 1885-1911. 1934; SECOND SERIES. 1912-1934, 1935. V
- EMINENT MUSALMANS. Rs. 3/- 1935, pp. 544. V
- Indian Christians. Rs. 3/-, 1936, pp. iv+360. V
- NATIONAL LITERATURE PUBLISHING CO. (Pub.)
- What Ails India ? ( A Collection of Speeches and Writings of Eminent Leaders of India on the Outstanding Grievances, etc. ). Bombay, Re. 1/-. 1922, pp. 112.
- ' A text-book for a student of Politics. '
- NEHRU, JAWAHARLAL
- China, Spain and the War : Essays and Writings. Allahabad, Kitabistan, Rs. 2/8, 1940, pp. 269. V
- The Discovery of India: Calcutta, The Signet Press, Rs. 11/-, 1946. pp. xvi+711. V

- American and English editions also available at \$ 5.00 and 25/-, respectively
- Eighteen Months in India. Allahabad, Kitabistan, Rs. 2/-, 1936, pp. viii+300. V
  - Glimpses of World History. 1 ed. in 2 vols. Allahabad. Kitabistan, 1935, 1936; Second and further editions - London, Lindsay Drummond, 12/6; American, edition, John Day New York. \$ 5.00. V
  - Important Speeches of J. Nehru, 1922-1945. Lahore, The Indian Printing Works, Rs. 6/8, 1945, pp. viii+243.
  - India and the World and Other Essays. London, George Allen. 5/-, 1936, pp. 262. V
  - Jawaharlal Nehru: An Autobiography. London, John Lane the Bodley Head, Rs. 7/-. 1936, pp. 618. V  
American ed. published by John Day, New York at \$ 5.00. under the title 'Towards Freedom'
  - (Ed. R. Dwivedi) - Life and Speeches of Pt. Jawaharlal Nehru. Allahabad, The National Publishing House, Rs. 2/-, 1929, pp. 227. V
  - (Ed. A Student) - Nehru Flings a Challenge. Bombay, Hamara Hindustan, Re. 1/-, 1943, pp. xxviii+153. V
  - (Compiler : D. R. Bose) - New India Speaks. Calcutta, A. Mukherjee and Co., Rs. 3/-, 1947, pp. viii+184. V  
Recent speeches of Pandit Nehru.
  - Recent Essays and Writings. Allahabad, Kitabistan, Re. 1/12, 1934, pp. vi+148. V
  - Towards Freedom. See above Jawaharlal Nehru: An Autobiography.
  - The Unity of India ( Collected Writings 1937-1940 ). London, Lindsay Drummond, Rs. 5/-, 1941, pp. 432. V
  - Where are We? Allahabad, 1939.
  - Whither India? Allahabad, Kitabistan, 4 as, 2nd enlarged ed. 1933, pp. 42. V
- NENE, M. G. AND BARDE, S. M. - India in Transition. Barsi, Nene and Barde, Rs. 7/8, 1948, pp. xii+400+xxviii. V
- Ch. III. India under Gandhiji's Leadership (1919-1939), pp. 86 to 178.
- NORMANTON, MISS HELENA - India in England. Madras, S. Ganesan, Rs. 2/-, 1921.  
A Survey of the Indian Situation since the Armistice.
- NUNDY, ALFRED - Political Problems and Hunter Committee Disclosures. 1920.

- O'DWYRE, SIR MICHAEL - India As I Knew It. (1885-1925). London, Constable, 18/-, 1925, pp. xii+464. V
- O'MALLEY, L. S. S. - (Ed.) - Modern India and the West: A Study of the Interaction of Their Civilizations. London, Oxford Univ. Press, 36/-, 1941, pp. xii+834. V
- OSBURNE, ARTHUR - Must England Lose India? The Nemesis of Empire. London, Alfred A. Knoff, 7/6, 3 ed. 1930, pp. viii+280. V
- OXFORD UNIV. PRESS (Pub.) - India and the Four Freedoms. (B. B. C. Pamphlet No. 1). Bombay, Re. 1/-, 1944, pp. ii+93. V
- Oxford Pamphlets on Indian Affairs.
- PAL, BIPIN CHANDRA - Presidential Address, Bengal Provincial Conference, Barisal, 1921. Calcutta, S. C. Deb, pp. 124.
- PANDIT, VIJAYALAXMI - So I Became A Minister. Allahabad. Kitabistan Re. 1/8, 1939, pp. 154. V
- PARKINS, RELEIGH - India Today: An Introduction to Indian Politics. London, Longmans; New York, John Day, \$3-75 revd. ed. 1945, pp. xiv+387. Maps, sources, bibliography and index.
- PATEL, VITTHALBHAI J.-The Indian View. London, Friends of India, 3d, 1931, pp. 32. V
- Presidential Address delivered by Mr. V. J. Patel at the Indian National Conference in Great Britain, June 1931.
- PATIL, S. K. - The Indian National Congress. A Case for Its Reorganization. Aundh, Aundh Publishing Trust, Re. 1/-, 1945, pp. iv+71. V
- PAYNE, ROBERT - The Revolt of Asia. New York, John Day, \$ 3.50, 1947, pp. viii+305.
- Rise of the Congress and Gandhi, pp. 97-109.
- PEARSON, W. W. - The Dawn of a New Age and Other Essays. Madras, S. Ganesan, Re. 1/-, 1922, pp. viii+180. V
- M. K. Gandhi - A Study pp. 55-73.
- POLAK, HENRY S. L. - The Indians of South Africa. Helots within the Empire and How They Are Treated. Pts. I-IV and Addenda. Madras, Natesan, Re. 1/-, 1909, pp. viii+96+47+15+iv. V
- POLE, DR. GRAHAM - India in Transition. London, Hogarth Press, 8/6, 1932, pp. xii+395.
- India from 1917 to 1932; mainly Gandhi, Non-Cooperation, etc.

- POWELL, EDMUND (Chairman) - Report of the Select Committee on Asiatic Grievances. Cape Town, Cape Times Ltd., Govt. Printers, 1908, pp. xvi+121+viii.
- PRADHAN R. G. - India's Struggle for Swaraj. Madras, Natesan & Co., 1930, Rs. 1/-, pp. xi+311.
- PRAVASI BHAVAN (Pub.) - Public Opinion on the Assisted Emigration Scheme under Indo-South African Agreement. Khargharh (Bihar), 1921, pp. 108+920. V  
Opinions of distinguished publicists, including Gandhiji, journalists and journals both English and Hindi are given.
- RAJAGOPALACHARI, C. - Reconciliation: Why and How? A Plea for Immediate Action. Bombay, Hind Kitabs, 14 as, 1945, pp. 40. V
- The Way Out. London, Oxford Univ. Press, 8 as, 1943, pp. 32. V
- RAJPUT, A. B. - The Cabinet Mission. Lahore, Lion Press, Rs. 3/-,
- India's Struggle (Complete History of India's Freedom Struggle from 4000 B. C. to Date). Lahore, Lion Press, Rs. 5/-.
- RAMAN, T. A. - India. London, 1 ed 1942; 3 ed. 1944, Oxford Univ. Press, pp. 158, 5/.
- A Report on India. London, Oxford, 1943.  
A propaganda book on behalf of the British vilifying Indian Nationalism, Congress and Gandhi.
- RANGA, PROF, N. G. - Outlines of A National Revolutionary Path. Bombay, Hind Kitabs, Rs. 2/8, 1945, pp. iv+132. V
- RAO, C. V. H. - India's Case for Freedom. Lahore, Lion Press, Rs. 2/-.
- RATCLIFFE, S. K. - The Resurgence of Asia (Conway Memorial Lecture). London, Watts & Co., 1/-, 1946, pp. x+32. V  
Indian Freedom Movement and Gandhi dealt with from pp. 17 to 31.
- RAWLINSON, H. G. - The British Achievement in India: A Survey. London, William Hodge, 15/-, 1948, pp. viii+248. V  
Ch. xiii and xiv (pp. 197-230) are pertinent to our purpose.
- RAY, KALINATH - Gandhi's Suppressed Letter. Lahore, Allied Indian Publishers, 12 as, pp. 48.
- RAY, ACHARYA PRAFULLA CHANDRA - Life and Experiences of a Bengali Chemist - 2 Vols. Calcutta, Chuckeravorthy Chatterjee &

Co., Rs. 5/-, Rs. 4, 1932, 1935,  
pp. x+557, viii+469. V

RAY, PRITHWISH CHANDRA  
- Life and Times of C. R.  
Das. London, Oxford, Rs.  
6/-, 1928, pp. xvi+313. V

RECEPTION COMMITTEE OF  
THE I. N. CONGRESS - The  
Congress and the National  
Movement. Calcutta, 1928,  
pp. 100.

"Historical sketch of the  
Congress upto 1928 from a  
Bengali standpoint."

REED, SIR STANLEY AND  
CADEK, P. R. - India: The  
New Phase. (The West-  
minster Library). 1929.

REYNOLDS, REGINALD -  
White Sahibs in India.  
London, The Socialist Book  
Centre, 1 ed. 1937; 3  
ed. 1946, 10/6, pp. xvi+247. V

ROBERTS, W. H. - Review of  
the Gandhi Movement in  
India. New York, Academy  
of Political Science, 1923.

RONALDSHAY, EARL OF  
(Marquis of Zetland) - The  
Heart of Aryavarta: A  
Study of the Psychology  
of Indian Unrest. London,  
Constable, 14/-.

- Lands of the Thunderbolt:  
Sikkim, Chumbi and Bhutan.  
London, Constable, 16/-,  
1923, pp. xvi+267.

Superstitions current  
about Gandhi pp. 25-31  
(Buddha Gandhi analogy).

RUTHERFORD, V. H. -  
Modern India: Its Problems  
and Their Solution. London,  
Labour Pub. Co., 1927, pp.  
xvi+268.

Ch. 1 devoted to Mahatma  
Gandhi (pp. 1-54). Author  
sympathetic towards Indian  
aspirations.

SAIYID, MATLUBUL HASAN  
- Mohammed Ali Jinnah -  
A Political Study. Lahore,  
Mohammad Ashraf, Rs. 12/8,  
1945, pp. xxii+939. V

SANDFORD, CHARLES - India,  
Land of Regrets. London,  
The Fenland Press Ltd.,  
8/6, 1934, pp. 301. Foreword  
by Robert Bernays M. P.  
(author of the 'Naked Fakir').

Ch. XIII deals with Mr.  
Gandhi and 'Passive Resis-  
tance' (pp. 212-232.)

SARASWATI LIBRARY (Pub.)  
- BEHAVE Like Men (Swa-  
raj Series No. 3). Calcutta  
3 as, 1921.

Some open letters of  
Tagore, Lalaji, Das, etc.

SASTRI, RT. HON. V. S.  
SHRINIVAS - Life of Gopal  
Krishna Gokhale. Bangalore  
City, The Bangalore Press,  
Re. 1/4, 1937, pp. 138. V

-(Ed. T. N. Jagadisan) - My  
Master Gokhale (A Selec-  
tion from the Speeches and  
Writings of Sastri). Madras,

Model Publications, Rs. 5/-,  
1946, pp. viii+282. V

Foreword by M.K. Gandhi.

SATYPAL AND PRABODH  
CHANDRA - Sixty Years of  
Congress. India Lost: India  
Regained (A Detailed Record  
of Its Struggle for Freedom).  
Lahore, The Lion Press, Rs.  
15/-, 1946, pp. viii+384. V

SEN, DHIRENDRANATH - Re-  
volution by Consent. Cal-  
cutta, Saraswati Library, Rs.  
10/-, 1947, pp. viii+345

SEN, GERTRUDE EMERSON  
- Voiceless India. New York,  
John Day, \$ 3.00, 1 ed. 1930;  
Revd. ed. 1944, pp. vi+458. V

Ind. ed. 1946, Benares.  
Rs. 7/8. Introductions by  
Pearl Buck and Rabindranath  
Tagore.

SETALWAD, SIR CHIMANLAL  
- Recollections and Reflec-  
tions: An Autobiography.  
Bombay, Padma Publications,  
Rs. 12/-, 1946, pp. xxxii+530  
and 32 illustrations. V

SEWELL, W. STUART  
- Famous Personalities. New  
York, The New Home  
Library, Rs. 4/8, 1944, pp.  
xx+378. V

Contains short lives of  
400 of the world's greatest  
and most famous men and  
women including a sketch of  
Gandhi.

SHAFAT AHMED KHAN, SIR  
- The Indians in South  
Africa. Allahabad, Kitabistan,  
Rs. 15/-, 1946, pp. xiii+596. V

SHARMA, DIWAN CHAND  
- Our Indian Heritage.  
Bombay, Blackie & Son, 1/6,  
1942, pp. 144. V

Chapter XII devoted to  
Gandhi.

SHARMA, SHRIPAD RAMA  
- Our Heritage and Its  
Significance. Bombay, Hind  
Kitabs, Rs. 6/8, 1947, pp.  
viii+207. V

Gandhiji's views on Art,  
Civilization and Machinery  
cited and evaluated at diffe-  
rent places.

SHELVANKAR, K. S. - The  
Problem of India. Harm-  
ondsworth, Penguin Books,  
6 d, 1940, pp. 254. V

SHRADDHANANDA, SWAMI  
- Inside Congress. Bombay,  
K. B. Dhavle, Rs. 4/-, 1946,  
pp. iv+208. V

SHRIDHARANI, KRISHNA-  
LAL - My India, My Ame-  
rica. New York, Duell  
Sloane & Pearce; Ind. ed.  
Bombay, International Book  
House, Rs. 7/12, 1944, pp.  
xvi+458. V

- Warning to the West. New  
York, Duell Sloane & Pearce,  
\$ 2.50, 1942; pp. xii+274. V

SHRIPRAKASH - Annie Besant  
as Woman and as a

- Leader. Adyar, Theosophical  
Pub. House, Re. 1/12, 1941,  
pp. xxii+255. V
- SINGH, MADHAVENDRA P.  
N. - Challenge to Youth  
(A Symposium of Messages  
of the Great Personalities to  
Indian Youth). Foreword by  
S. Radhakrishnan and Intro-  
duction by Pt. Amarnath  
Jha. Allahabad, Kitabistan,  
Rs. 2/-, 1940, pp. 289. V
- Mahatma Gandhi's Con-  
tribution, pp. 71 to 80.
- SINGH, MUBARAK - Sardar  
Vallabhbhai Patel. The Man  
of Few Words and Many  
Triumphs. Lahore, Sikh Pu-  
blishing House, Rs. 2/4,  
1945, pp. iv+94. V
- SINHA, DR. SACHCHIDA-  
NANDA - A Selection from  
the Speeches and Wri-  
tings of S. Sinha. Calcutta,  
Thacker, Spink & Co., Rs.  
7/-, 1942. pp. xvi+911.  
V
- SITARAMAYYA, B. PATTABHI  
- The History of the Indian  
National Congress (1885-  
1935). Allahabad, A. I. C. C.,  
Rs. 2/-, 1935, pp. xxiv+1038  
+civ. V
- Reprinted as Vol. I by  
Padma Publications, Bombay,  
1947, Rs. 15/-.
- Though merely a reprint  
of the 1st edition it has
- been advertised and sold as  
a new revd. edition by the  
publishing firm!
- Vol. II, 1935-1947. Rs. 25/-,  
1947, pp. xvi+827+cclxxi. V
- Sixty Years of Congress.  
Bombay, B. P. C. C. Publi-  
cations, 8 as, 1945, pp. iv+  
32. V
- Some Fundamentals of the  
Indian Problem. Bombay,  
Vora & Co., Re. 1/12, 1946,  
pp. 104. V
- Why Vote Congress?  
Bombay, Hind Kitabs, 12 as,  
1945, pp. vi+81. V
- SMITH, WILLIAM ROY -  
Nationalism and Reform in  
India. New Haven, Yale  
Univ. Press, 1939.
- SNOW, EDGAR - Glory and  
Bondage. London, Victor  
Gollancz; Ind. ed. Bombay,  
Thacker & Co., Rs. 7/8, 1945,  
pp. 263. V
- Book I (Brown Bondage)  
deals with India and Her  
Struggle for Independence  
and Gandhi.
- SORENSEN, REGINALD - My  
Impressions of India. London  
Meridian Books, 10/6, 1946,  
pp. 224. V
- SPENDER, J. A. - A Short  
History of Our Times.  
London, Cassell & Co., 1934,  
pp. viii+318.
- Gandhi's agitation, pp  
255-56.



SRIVASTAVA, GOPINATH -  
When Congress Ruled.  
Allahabad, 1940.

STAAL, P. - A Foreigner  
Looks at India. London,  
Jonathan Cape, 7/6. 1933,  
pp. 252. V

Hindus vs Moslems, Mar-  
tial Races vs Sheltered Races,  
Princes vs Modern Govern-  
ment - three currents of rivalry  
and the Khyber Pass menace  
emphasized by the author,  
who is an imperialist. Gan-  
dhiji and his politics discussed  
from pp. 193 to 252. 'Gandhi  
has successfully taken the  
Indian situation out of rea-  
lity', opines the author.

STOKES, S. E. - National Self-  
Realization. Madras, S. Gane-  
san, Rs. 3/-, 1921, pp. xx +  
154 + 100 + 56. V

Pt. I. Essays: Political and  
National; Pt. II. National Self-  
Realization; Pt. III. The Fail-  
ure of European Civilization.

- National Self-Realization.  
A reprint of pt. II from the  
Above. Ganesan, Re. 1/8.

- To Awakening Asia. Madras,  
Ganesh & Co., 1922, Re. 1/8.

Foreword by Mahatma  
Gandhi and an appreciation  
of the author by C. F. An-  
drews.

STUDENT OF PUBLIC AFFAI-  
RS, A - Has Congress Failed?  
A Historical Survey of the

Years 1918-1939. Bombay,  
Times of India, 6 as, 1943,  
pp. 83. V

SUBRAHMANYAM, M. - Why  
Cripps Failed? New Delhi.  
Hindustan Times, Re. 1/-,  
1942, pp. x + 106. V

SUNDAY TIMES OFFICE (Pub.)  
- My Motherland Series.  
Madras. The Series contains  
'about 50 pamphlets dealing  
with subjects like Indian  
Nationalism and Gandhiji's  
life and activities.

SUNDERLAND, J. T. - India,  
America and World Bro-  
therhood. Madras, Ganesh  
& Co., Rs. 3 -, 1924, pp.  
xvi + 295 + viii. V

Pt. II deals with India's  
struggle for Swaraj and a  
chapter on 'Gandhi and Non-  
Cooperation' (pp. 220-227).

- India in Bondage. Calcutta,  
R. Chatterjee, Rs. 5/-, 1929,  
pp. 553. V

SYDENHAM, LORD (of Combe)  
- Studies of an Imperialist  
on War, India and Socialism.  
1928.

SYKES, SIR FREDERICK - From  
Many Angles: An Autobiog-  
raphy. London, George G.  
Harrap, 25/-, 1942, pp. 592. V

The author was Governor  
of the Bombay Presidency  
from 1928 to 1933.

TALEYARKHAN, HOMI J. H.  
- I Have It from Gandhiji.

- Bombay, Jame Jamshed, Re. 1/-, 1944, pp. vi+29. V
- They Told Me So. Bombay, Thacker & Co., Rs. 7/14, 1947, pp. xii+222. V
- Ch. I "A Meeting with Gandhi" is a reprint from "I Have It from Gandhiji".
- TANDON, P. D. (Ed.) - Nehru Your Neighbour. Calcutta, The Signet Press, Rs. 7/8, 1946, pp. xiv+178. V
- Introduction by Mahatma Gandhi.
- TENDULKAR, DR. - Nation Betrayed. A Case against the Communists on Their Own Evidence. Bombay, B. P. C. C., 8 as, 1946, pp. iv+26. V
- THOMPSON - The Reconstruction of India. London, Faber and Faber, 1930.
- THOMPSON, EDWARD J. - Enlist India for Freedom. London, Victor Gollancz, 2/6, 1940, 3 impr. pp. 120. V
- THOMPSON, EDWARD J. AND GARRATT, G. T. - Rise and Fulfilment of British Rule in India. London, McMillan, 21/-, 2 ed. 1935, pp. xii+690. V
- TIMES PUBLISHING CO. (Pub.) - India, the Commission and the Conference. A Reprint of Leading Articles in the Times on the Indian Question from the Return of the Statutory Commission from India to the Conclusion of the R. T. C. in London. 6 d, London, 1931, pp. 71. V
- TROTTER, EDITH A. - The Problem of India's Future. New York, 1943.
- UNITED PUBLICATIONS (Pub.) - Indian Studies. Delhi, Rs. 2/8, 1947, pp. 177, index and map.
- VAKEEL, N. H. - Political Insanity of India. Bombay, Thacker & Co., Rs. 4/8, 1943, pp. xii+95. Foreword by Sir Chimanlal Setalwad.
- Author a bitter critic of Congress and Gandhi. Considers Civil Disobedience as pure 'hooliganism!'
- VAN TYNE, CLAUDE M. - India in Ferment. Rs. 6/6, 1923.
- VASWANI, T. L. - Birthright. Madras, Ganesh & C., Re. 1/-, 1922, pp. xxiii+89. V
- Builders of Tomorrow. Madras, Ganesh & Co., Re. 1/8, 1922, pp. vi+151. V
- Creative Revolution. Madras, 1922.
- The Gospel of Freedom. Madras.
- India Arisen. Madras, Ganesh & Co., Re. 1/8, 1922, pp. xii+114. V
- India in Chains. Madras, Ganesh & Co., Re. 1/8., 1922, pp. xx+144. V

- India's Adventure. Madras, Ganesh & Co., 1923.

- Message of the Birds. Madras, Ganesh & Co., Re. 1/-, 1922, pp. iv+78. V

The Great-Souled Gandhi, pp. 11-18

- My Motherland. Madras, Ganesh & Co., Re. 1/8, 1921, pp. viii+168. V

VENKATARAMANI, K. S.  
- Renascent India. 2 ed., Re. 1/-.

VENQUSWAMY, N. S. - Congress in Office. Bombay, The Bharat Publishing Co., Re. 1/8, 1940, pp. viii+207. V

VIDYARTHI, RAMSHARAN - British Savagery in India. Agra, Shivalal Agarwal & Co., Rs. 9/8, 1946, pp. x+333+21. V

WALKER, ERIC A. - The British Empire: Its Structure and Spirit. London, Oxford Univ. Press, 14/-, 1947, pp. vi+250. V

WASHBURNE, CARLETON WOLSEY - Remakers of Mankind. New York, John Day, \$ 2.00, 1932, pp. 349.

The book contains reports of interviews Washburne had, in course of a world tour, with leaders in different countries of the world, including Mahatma Gandhi.

WATSON, SIR ALFRED - If Britain Quit India? London,

Indo-Burma Association, 1944.

WELLOCK, WILFRED - India's Awakening. London, 1922.

WHITEHEAD, BISHOP - Indian Problems in Religion, Education and Politics. London, Constable, 1924.

WHYTE, SIR FREDERICK  
- India: A Bird's Eye View. London, Royal Institute of International Affairs, Rs. 2/-, 1944, pp. 83. V

Deliberate misrepresentation of Gandhiji's actions and the Congress, and an apology for the British stranglehold of India.

WILLIAMS, RUSHBROOK L. F. - India in 1919. Calcutta, Supdt., Government Printing, Re. 1 -, 1920, pp. xiv+281. V  
- India in 1921. Re. 1/-, 1921, pp. xiv+275. V

- India in 1921-22. Re. 1/8, 1922, pp. xvi+368. V

- India in 1924-25. Re. 1/12, 1925, pp. xviii+435. V

See also under Coatman and Govt. of India.

- What about India? London, Thomas Nelson & Co., 2/6, 1939, pp. 176. V

Ch. VII. The New Era in Politics, pp. 125-140.

WILLINGDON, THE EARL OF  
- Speeches of the Earl of Willingdon. Simla, Government of India. Vo. I. 18-4-31.

to 22-3-34; Vol. II. 29-6-34  
to 18-4-36.

WILSON, F. W., - The Indian  
Chaos.

- Some Indian Problems.  
Allahabad, Ram Mohanlal,  
Re. 1/8.

WINSLOW, J. C. AND ELVIN,  
V. - Gandhi, The Dawn of  
Indian Freedom. See Elvin  
and Winslow.

WINT, GUY - The British In  
Asia. London, Faber and  
Faber, 10/6, 1947, pp. 224. V

WOOD, ERNEST - An English-  
man Defends Mother India:  
A Complete Constructive  
Reply to "Mother India".  
Madras, Ganesh & Co., 21/-,  
1929, pp. x+468. V

WOOLACOTT - India on Trial.  
London, McMillan, 1929.

YOGANANDA, PARAMA-  
HANSA - The Autobiog-  
raphy of a Yogi. New  
York, The Philosophical  
Library, \$ 3.50, 1946, pp. xvi+  
498. V

Ch. 44. With Mahatma  
Gandhi at Wardha, pp. 434  
to 453.

YUNUS, MUHAMMAD -  
Frontier Speaks. Lahore,  
Minerva Book Shop, Rs. 6/-,  
1942, pp. xxiv+248. V

YUSUF ALI, A. - A Cultural  
History of India during  
the British Period. Bombay,  
D. B. Taraporewala, Rs. 10/-,  
1940, pp. vi+334.

ZACHARIAS, H. C. E. -  
Renascent India: From  
Ram Mohan Ray to Mohan-  
das Gandhi. London, George  
Allen, 10/6, 1933, pp. 304. V

ZETLAND, THE MARQUIS  
OF - Steps Towards Indian  
Home Rule. London, Hut-  
chinson, 5/-, pp. 128. V

A rough sketch of the  
plan of Self-Government  
(1935 Act) with an account  
of the process of its evolution.

ZIMAND, SAHEL - Living  
India. London and New  
York, Longmans, 1928, pp.  
xvi+281. Illustrations and  
bibliography. Introduction by  
A. E. (George W. Russell). V

Ch. xi. 'The Mahatma  
Comes and New India Comes  
into Being', pp. 199-213.

## XII. COLLECTIONS OF GANDHIJI'S WRITINGS AND SPEECHES.

GANDHI, M. K. - Behind the  
Bars. Lahore, Gandhi Publi-  
cations League, 6 as.

- Famous Letters and Ulti-  
matums to the British

Government. Lahore, Hero  
Publications, Rs. 3/14.

- (Compiler: S. R. Tikekar) -  
Gandhigrams. Bombay, Hind  
Kitabs, Rs 2/-, 1947, pp.

iv+92. Bibliography and  
index. V

- A collection of epigram-  
matical utterances collected  
from the writings of Gandhiji.  
- (Ed. Dewan, R. P.) - Gandhiji's  
Beads of Wisdom. Lahore.  
- (Ed. Dewan, R. P.) - Gandhi's  
Wisdom Box. Lahore, De-  
wan's Publications, Re. 1/8,  
2 impr., pp. 111. V  
- (Ed. N. P. Gune) - Gandhi-  
sm in His Own Words. Poona,  
N. P. Gune, 6 as, 1948, pp.  
31. V  
- (Ed. M. J. Shahani) - Gems  
of Mahatma Gandhi's Wri-  
tings. Ahmedabad, Ahmeda-  
bad Publishing House, 4 as,  
1947, pp. iv+27. V  
- Great Thoughts of Maha-  
tma Gandhi. Madras. Ganesh  
and Co., Re. 1/- 1922, pp.  
viii+119. V  
- (Compiler: R. K. Prabhu)  
- India of My Dreams.  
Bombay, Hind Kitabs, Rs.  
2/-, 1947, pp. viii+129.  
Sources indicated. Foreword  
by Rajendra Prasad. V  
- Mahatma Gandhi: His Life,  
Writings and Speeches.  
Ganesh & Co. See Section I  
- (Ed. P. R. Sen) - Mahatma  
Gandhi's Sayings. Calcutta,  
Orient Book Co., 1 ed. 1931;  
2 ed. 1948, 6 as, pp. 31. V  
- (Ed. R. K. Prabhu and U.  
R. Rao) - The Mind of  
Mahatma Gandhi. Bombay,  
Oxford Univ. Press, Rs. 3/-,  
1945, pp. xii+191. V  
- Sayings of Mahatma Gandhi.  
Bombay, National Youth  
Publications, 4 as, 1944, pp.  
.ii+31. V  
The Sayings are given  
under three heads: political,  
moral, and general.  
- (Ed. Nirmal Kumar Bose)  
- Selections from Mahatma  
Gandhi. 1 ed. Calcutta, Nava-  
vidhan Publication Commi-  
ttee, 1944; 3 ed. Ahmedabad,  
Navajivan, Rs. 4/-, 1948,  
pp. viii+232. Index and  
bibliography. V  
Foreword by Gandhiji  
- Speeches and Writings of  
Mahatma Gandhi. With an  
Introduction by C. F. Andrews,  
a Tribute by Mr. G. A.  
Natesan and a Biographical  
Sketch by Mr. H. S. L.  
Polak. Madras, Natesan and  
Co., 1 ed. 1917; 3 ed. revd.  
and enlarged, 1922, Rs. 3/-,  
pp. xvi+64+848+47+viii.  
Illustrations, index, appen-  
dices and appreciations by  
Tolstoy, Gilbert Murray etc. V  
4 ed. revd. and enlarged  
1934, Rs. 4, pp. 1072.  
- (Ed. Jag Parvesh Chander)  
- Teachings of Mahatma  
Gandhi. Lahore, The Indian  
Printing Works, Rs. 10/-,  
1945, pp. 620. V

- Foreword by Babu Rajendra Prasad.
- Third Class in Indian Railways and Other Articles. Lahore, Gandhi Publications League, 6 as. 2 impr. 1943, pp. 31.  
Contains six articles or extracts from articles selected at random.
  - Thought Currents. Pts. I & II.
  - The Voice of the Autumn Leaf. Bombay, Hamara Hindustan, 4 as, 1943, pp. 28. V
  - (Ed. Mrs. Suraj Harbans Singh Thapar and Mrs. Krishna Hutheesingh) - The Weaponless Warrior. Lahore, Civil and Military Gazette, Rs. 6/8, 1946, pp. vi+68. Foreword by J. S. Hoyland. V
  - (Ed. Roy Walker) - The Wisdom of Gandhi (In His Own Words). London, Andrew Dakers, 2/6, 1943, pp. 65. V
  - Young India Vol. I. (1919-1922). With a Brief Sketch of the Non-Cooperation Movement by Babu Rajendra Prasad. Madras, S. Ganesan, Rs. 4/-, 1922, pp. lxiv+1199. Index and 8 appendices.  
2nd enlarged edition 1924, pp. lxvi+1471. With a chronological index by Miss Elizabeth Kite. V  
A de luxe edition of this book issued in two parts 1922; and a supplement 1924. Rs. 25/-, for the set.
  - Young India Vol. II (1924-26). Madras, S. Ganesan, Rs. 4/-, 1927, pp. xl+1352. V  
Introduction by Babu Rajendra Prasad.
  - Young India Vol. III (1927-28). Madras, S. Ganesan, Rs. 4/-, 1935, pp. xviii+1104. Preface by Rajendra Prasad. V

### XIII. JOURNALS AND PERIODICALS

CONGRESS BULLETIN. Issued from the Central Office of the All India Congress Committee, Allahabad.

Gives reports of the proceedings of the meetings of the Working Committee, of the sessions of the All India Congress Committee, Important Statements on topical subjects, etc.

CURRENT THOUGHT (A Mon-

thly Review). Published by S. Ganesan from Madras. Annual Sub. Rs. 5/-. Now extinct.

DHARMA (A Quarterly Journal). Edited by K. N. Dasgupta and published from New York. First volume published in 1930-31. Now extinct.

GRAMODYOGA PATRIKA (A Monthly). Organ of the All India Village Industries Asso-

ciation, Wardha. Edited by Bharatan and later by J. C. Kumarappa. Started in 1937. Annual Sub. 12 as; now Rs. 2/-

**HARIJAN** (A Weekly). Edited by Mahadev Desai, later by Pyarelal Nayyar and now by K. G. Mashruwala. Published from Poona, Aryabhushan Press from 1933 to 1941 (from Madras for some time during this period.)

From 1942 and onwards the Navajivan Press, Ahmedabad has been publishing it. Annual Subscription Rs. 6/-.

Though started as an organ of the Servants of the Untouchables Society, it developed into a full-fledged political views-paper of Mahatma Gandhi, after the establishment of Responsible Government in the provinces.

**INDIA.** Published by the Government of India annually, to 'report on the moral and material progress' of the dependency under the tutelage of England. The first issue published was for 1919; the last was for 1934-35. Calcutta, Supdt., Government Printing, and later the Manager of Publications, Delhi.

**INDIAN ANNUAL REGISTER:**  
An Annual Digest of Public

Affairs of India recording the Nation's Activities each year in matters Political, Industrial, Educational, Social, etc. Issued in two six monthly volumes. Edited by H. N. and later by Nripendranath Mitra. First issue published in 1921. Annual Sub. Rs. 12/-, later 15/-. Published by the Annual Register Office, Calcutta.

Almost an indispensable reference book for the student of Current Indian History.

**INDIAN OPINION** (A Weekly in English, Gujarati, Hindi, and Tamil Languages). Started in 1904 under the editorship of Shri Nazar and published from the Phoenix, Natal (South Africa). Annual Sub. 12/6.

Right from the start till he left South Africa for India in 1914, it was Gandhiji who was responsible for the policy, finances and the editing of the paper. Gandhiji himself has said that the Satyagraha in South Africa "would probably have been impossible without 'Indian Opinion'."

The Tamil and the Hindi sections of the paper were soon discontinued in the interest of Truth, as they

appeared to be merely a make-believe.

**INDIAN RECORDER** (A Quarterly Register). Published under the auspices of the Indian Journalists' Association from Calcutta. First issue (for April-June 1932) out in September 1932. Rs. 3/8, pp. vi+324. V

**INDIAN REVIEW** (A Monthly). Edited and published by G. A. Natesan from Madras. Started in 1900 and still running.

**INDIAN YEAR BOOK AND WHO'S WHO**. Published by the Times of India, Bombay, annually. Started in 1915 and still running.

**MODERN REVIEW** (A Monthly). Edited by Ramananda Chatterjee and by K. N. Chatterjee after the former's death. Started in 1907 from Allahabad and later taken to Calcutta and published by the Prabasi Press.

**RASHTRA VANI** (A Weekly). Edited by Satis Chandra Dasgupta, Sodepur (Bengal). Annual Sub. Rs. 2/-. Vol. I 1939-40; Vol. II 1940-41.

Conducted especially for the propagation of the Gandhian ideology and constructive activities.

**RECONCILIATION** (A Monthly

Review of the Things Which Belong to Peace). London, Fellowship of Reconciliation. **SOCIAL WELFARE** (A Weekly). Edited by K. M. Munshi and others. Bombay, Vitthal Atmaram Banavalikar. Started in 1940; now turned into the 'New Democrat'.

**TOMORROW** (A Monthly). Edited by A. T. Gidwani, Ahmedabad. Started in 1923, ran only a year's course and then stopped.

**UNITY** (A Weekly). Edited by J. H. Holmes, Chicago (U. S. A.). Unity Special India Number issued on 18-8-1930, giving information about the Civil Disobedience Movement of 1930, was banned by the Government.

**VISHWA BHARATI QUARTERLY**. Founder Editor, Rabindranath Tagore. Started in 1923, and is running still.

**YOUNG INDIA** (A Bi-Weekly published on Wednesdays and Saturdays). Edited by Jambhadas Dwarkadas Dharamsey, Bombay. Annual Sub. Rs. 8/-. New Series Vol. I No. 1 issued on May 7, 1919. Gandhiji's leading article appeared on 5th June under his signature. The last number of this bi-weekly was issued on Octo. 4, 1911.



YOUNG INDIA (Weekly).  
 Edited by M. K. Gandhi.  
 Ahmedabad, Navajivan Press.  
 Annual Sub. Rs. 5/-. Pages  
 annually about 400. Started in

1919. Finally closed in 1932.

Edited by C. Rajgopala-  
 chariar, Kumarappa and  
 others during Gandhiji's  
 absence in jail or in England.

#### XIV. REFERENCE AND ALLIED BOOKS

A. E. - The National Being.  
 London, Macmillan, 5/-, 1920,  
 pp. 176. V

Indian ed. published by  
 Ganesh and Co., Madras.

ALEXANDER, HORACE - Ju-  
 stice Among Nations. Lon-  
 don, Hogarth Press, 2/-, 1927  
 pp. 59. V

BEALES, A. C. F. - The His-  
 tory of Peace. London, 1931.

BORSODI, RALPH - Flight  
 from the City. New York,  
 School of Living, \$ 2.75,  
 1947.

CARPENTER, EDWARD  
 - Civilization: Its Cause  
 and Cure. London, George  
 Allen, 1921, 3/6, pp. 229. V

- The Simplification of Life.  
 London, George Allen, 2/-,  
 viii+125. V

COOMARSWAMY, ANANDA  
 - Art and Swadeshi.

- Message of the East.

DICKINSON, G. LOWES - An  
 Essay on the Civilization  
 of India, China and Japan.  
 London, J. M. Dent, 2/-,  
 1915, pp. 86. V

- Letters of John Chinaman.  
 London, J. M. Dent, 1/9.  
 1928, pp. 63. V

DUTT, ROMESH CHANDRA  
 - A History of Civilization  
 in Ancient India. Calcutta,  
 Thacker, Spink and Co. Vols  
 I-III. Rs. 10/-, each, 1889-90,  
 pp. xxii+390; xiv+363; viii+  
 543. V

English ed. published by  
 Kegan Paul in 2 vols. at  
 10/6 each.

GARRISON, WILLIAM LLOYD  
 - William Lloyd Garrison  
 on Non-Resistance. New  
 York, 1924.

- William Lloyd Garrison: The  
 Story of His Life Told by  
 His Children, Vols. I-IV.  
 London, T. Fisher Unwin,  
 42/-, 1885-90, pp. xx+522,  
 ii+480, xii+590, x+425. V

JACKS, L. P. - Constructive  
 Citizenship. London, Hodder  
 and Stoughton, 8/6, pp. 335. V

Later editions published  
 under the title 'The Art  
 of Living Together.'

- Education of the Whole  
 Man. A Plea for a New Spirit  
 in Education. London, Uni-  
 versity of London Press, 6/-,  
 1931, pp. 255. V

KROPOTKIN, PRINCE - Fields,

Factories and Workshops.

London, T. Nelson, 6/- V

- **Mutual Aid: A Factor of Evolution.** London, William Heinemann, V

**MAINE, SIR HENRY** - Village Communities in the EAST AND WEST. London, John Murray, 12/6, 7 ed., 1918, pp. xii+418. V

**MAUDE, AYLMER** - Family Views of Tolstoy. London, George Allen, 10/6 1926, pp. 220. V

1 - **The Life of Tolstoy - First Fifty Years.** London, Constable, 12/6, 1911, pp. xiv+464. V

- **The Life of Tolstoy - Later Years.** London, Constable, 8/6, 1911, pp. x+712. V

Both these volumes are available in the World's Classics at 3/6 each.

**MAX MULLER, F.** - India: What Can It Teach Us? London, Longmans, 7/6, 1919, pp. xxiv+315. V

**RADHAKRISHNAN, S.** - Eastern Religions and Western Thought. London, Oxford Univ. Press, 15/-, 1939, pp. xiv+396. V

**RUSKIN, JOHN** - The Autobiography of John Ruskin - Praeterita. Vols. I-III. pp. xii+358, xv+362, and viii+328. V

- Fors Clavigera.

- Unto This Last.

All the three books published by George Allen, London, **THOREAU, HENRY DAVID** - Essays and Writings of Thoreau. Various editions available.

**TOLSTOY, COUNT LEO** - Childhood, Boyhood and Youth, 1930, pp. 412

- A Confession, The Gospel in Brief, and What I Believe. Revd. ed., 1940, pp. 402

- The Kingdom of God Is Within You and Peace Essays, 1936, pp. 606.

- On Life and Essays in Religion, 1934, pp. 428.

- Recollections and Essays, 1937, pp. 332.

- What Is Art? and Essays on Art, 1930, pp. 360.

- What Then Must We Do? and A Letter to Engelhardt. Revd. ed., 1936, pp. 432.

All the above books have been translated by Aylmer Maude and published by the Oxford Univ. Press in the Tolstoy Contemprary edition and also in the World's Classics.

- (Ed. Stephen Zweig) - The Living Thoughts of Tolstoy. London, Cassell, 2/6, 1936, pp. iv+124. V

- (Ed. G. H. Perrin) - The Life and Teachings of Tolstoy. A Book of Extracts with an Introduction by G. H. Perrin. London, Grant Richards, 1 ed., 1901, pp. iv+278.

# पूर्ति

## हिंदी पुस्तकें

- "अग्रदूत" (ठाकुर प्रसादसिंह) - महामानव  
[ जनजागरणकी महागाथा ]. काशी, प्रकाश  
मन्दिर, रु. ४-८-०, १९४८, पृ.  
१६८. वि
- कालेलकर, द. वा. - बापूकी झाँकियाँ.  
अहमदाबाद, नवजीवन, १९४८.
- १०१ प्रसंगोंका विवरण
- काशी विद्यापीठ (प्र.) - गांधीजी :  
श्रद्धाञ्जलियाँ - १. (गांधी ग्रंथमाला,  
खण्ड १ ला). रु. १-८-०. १९४८,  
पृ. १६ + १४४.
- भारतीय नेताओंकी श्रद्धाञ्जलियाँ  
भिस खण्डमें दी हैं।
- कुमारप्पा, जे. सी. - कर्मविज्ञान और  
अन्य प्रबंध. वर्षा, अ. भा. ग्रा. अ.  
संघ, १२ आने, १९४८, पृ. ४ + ४६. वि
- ग्रामोंके सुधारकी एक योजना. वर्षा,  
अ. भा. ग्रा. अ. संघ, रु. १-०-०,  
१९४८, पृ. २ + ३३. वि
- पौण्ड पावने अर्थात् हिन्दुस्तान और  
अंग्लैंडकी लेनदेन. वर्षा, अ. भा. ग्रा.  
अ. संघ, ४ आने, १९४७, पृ. २ + १०. वि
- गंगा पुस्तकमाला (प्र.) - गांधी गौरव.  
लखनभू, रु. १-८-०, १९४८ पृ.  
१००. वि
- गांधी, मो. क. - अंग्रेज़ोंसे मेरी अपील.  
[ 'हरिजनसेवक' तथा अन्य पत्रोंमें छपे लेखोंका  
संग्रह ]. नबी दिल्ली, सस्ता साहित्य,  
६ आने, १९४२, पृ. ४ + ८८. वि
- (अनु. सुशीला नय्यर) - आरोग्यकी  
कुंजी. अहमदाबाद, नवजीवन, १० आने,  
१९४८, पृ. ६४. वि
- (योजक - वालजीभाभी देसाओ) - प्रेम-  
पन्थ १. अहमदाबाद, नवजीवन, ४ आने,  
१९४८, पृ. ८ + ८८. वि
- (सं. आनंद हिंगोरानी) - रोज़के विचार  
(ता. १०-११-'४४ से १९-४-'४६)  
खण्ड १. अिलाहाबाद, आनंद हिंगोरानी,  
रु. १०-०-०, पृ. ३२५.
- (अनु. रामनारायण चौधरी) - सत्याग्रह  
आश्रमका इतिहास. अहमदाबाद,  
नवजीवन, रु. १-४-०, १९४८, पृ.  
१६ + ९८. वि
- तिवारी, श्रीभोलानाथ - हे बापू, हे  
राष्ट्रपिता ! (राष्ट्रपिताके निधनपर काव्य).  
लखनभू, गंगा पुस्तकमाला, ५ आने,  
१९४८, पृ. ३६. वि
- भटनागर, श्री संपत्तिराय - बापूका  
महाप्रयाण. लखनभू, गंगा पुस्तकमाला,  
५ आने, १९४८, पृ. ३२
- भार्गव, ज्योतिलाल - अर्चोंके बापू.  
पटना, राष्ट्रीय प्रकाशन मंडल, रु. १-८-०, -  
१९४८, पृ. ११५. वि
- (सं. और अनु.) - श्रद्धाञ्जलियाँ.  
पटना, राष्ट्रीय प्रकाशन मंडल, रु. ३-०-०,  
१९४८, पृ. १६ + ९ से २१२. वि
- रामकृष्ण - नवभारत (गांधीवादका आर्थिक  
स्वरूप : सैद्धान्तिक प्रस्तावना). काशी,

- प्रकाश मन्दिर, रु. ५-०-०, १९४७,  
पृ. १६ + २५०. वि.
- वापूका रामराज्य. काशी, प्रकाश मन्दिर,  
१२ आने, १९४८, पृ. ५२. वि
- हिन्दू-मुस्लिम-हिन्दुस्तानी (समस्याका  
भेक मात्र रचनात्मक हल). काशी,  
प्रकाश मन्दिर, रु. २-०-०, १९४७,  
पृ. ४ + १९६. वि
- युगांतर (ज्योतिः चित्र भेदाप्राण वापूके  
रामराजकी चर्चात्मक अभिव्यक्ति). काशी,

प्रकाश मन्दिर, रु. ३-०-०, १९४८,  
पृ. १२ + १४०. वि

- वीरेन्द्रकुमार - प्रकाशकी खोजमें [ गांधी-  
वाद, साम्यवाद आदि गंभीर विषयोपर  
विचार ]. बम्बई, हिन्दू किताबज,  
रु. ३-०-०, पृ. १६८
- शुक्ल, नरसिंहराम - महात्मा गांधीकी  
नयी विचारधारायें. अिलाहाबाद,  
मनोरंजन पुस्तकमाला, रु. १-८-०,  
सं. २००३, पृ. १४८. वि

## गुजराती पुस्तकें

- कोठारी, वि. म. (सं.) - महासभाना  
ठरावो. अमदावाद, गुजरात विद्यापीठ,  
रु. ६-०-०, १९४८. वि
- खबरदार, अ. फ. - गांधी बापुनो पवाडो  
(३ भागमां). दादर (मुंबयी), अ. फ.  
खबरदार, रु. १-४-०, पृ. ८+३५
- गांधी, मो. क. - आरोग्यनी चावी.  
अमदावाद, नवजीवन, १० आना,  
१९४८, पृ. १६ + ६८. वि
- पट्टेली गुजराती राजकीय परिपदना प्रमुख  
महात्मा मो० क० गांधीनुं भाषण.  
गोधरा, वामन सी० मुकादम, ३ पाथी.  
१९१७, पृ. १६.
- वापूना वाने पत्रो. फीनिक्स (नाताल),  
अंतरनेशनल प्रि. प्रेस, अडी शिल्मि,  
१९४८, पृ. १२ + ३५.
- जावडेकर, शं. द. (अनु. पां. ग. देशपांडे)  
- लोकशाही. अमदावाद. गुजरात  
विद्यापीठ, १९४८. वि
- जुस्ट ओडोल्फ (अनु. चमनलाल वैष्णव)  
- कुदरतमय जीवन. पोरबंदर, भारतीदय  
नेडव, १० आना, २ आ. १९३८, पृ.  
१२ + २६२. वि
- ठाकुर, रवीन्द्रनाथ (अनु. वचुभाओ शुक्ल)

- महात्मा गांधी. मुंबयी, विश्वभारती  
वती टागोर सोसायटी, रु. १-४-०,  
१९४८, पृ. २ + ८६. वि
- देसाओ महादेव (सं. न. द्रा. परीख)  
- महादेवभाओती डायरी - पुस्तक  
१ लुं. अमदावाद, नवजीवन, रु. ४-८-०,  
१९४८, पृ. + ४१६. वि
- नेहरू, जवाहरलाल (अनु. म. भ. देसाओ)  
- मांरं हिन्दुनुं दर्शन. अमदावाद,  
नवजीवन, १९४८.

‘डिस्कवरी ओफ अडिया’नो अनुवाद.  
(छपाय छे)

- मथुरादास त्रिकमजी - वापुनी प्रसादी.  
अमदावाद, नवजीवन, रु. २-०-०,  
१९४८, पृ. ८ + २३२. वि
- महेता, कपिलराय (सं.) - राष्ट्रपितानां  
चरणोमां. अमदावाद, भारती साहित्य  
सेव, रु. १-१२-०, १९४८, पृ. १८०. वि
- महेता, बवलभाओ - रविशंकर महाराज.  
अमदावाद, कमल प्रकाशन, रु. ५-८-०,  
१९४८, पृ. ८ + ४४०. वि
- लोकजीवन (पाक्षिक) अमदावाद, नवजीवन,  
वा. ल. रु. ३-०-०, १९४८, १५मी  
अंगस्थी शरू.

## मराठी पुस्तकें

शिवाजी प्रिन्टिंग वर्क्स (प्र.) - जगला  
आह्वान (ऑगस्ट ८ च्या 'चले जाव')

ठरावावरोल भाषणें). पुणे, १२ आणे,  
१९४८

## वांगला पुस्तकें

खां, श्रो शशी - वापूजी. कलिकाता, प्रफुल्ल

लाबिब्रेरी, रु. १-८-०, १९४८, पृ. ८५

## उर्दू पुस्तकें

आजकल (गांधी नंबर) - सं. रवुनाथ रेना  
और शीशचंदर तालिव. देहली, पब्लि-  
केशन्स डिविजन, मिनिस्ट्री ऑफ  
मिन्फरमेशन अँड ब्रॉडकास्टिंग, १२  
आने, १९४८, पृ. ८८. वि

गांधी मो. क. - मेरी राय. लाहोर,  
पंजाब ग्रामसेवा मण्डल, रु. २-८-०.  
- रियास्ती दुनिया. लाहोर, पंजाब ग्राम  
सेवा मण्डल, रु. १-८-०.

## Supplement

### ENGLISH BOOKS

JAYAPRAKASH NARAYAN  
- In the Lahore Fort. Patna,  
Sahityalaya, Rs. 4/-, 1948,  
pp. viii+199. V

JONES, STANLEY - Mahatma  
Gandhi : An Interpretation.  
London, Hodder and Stoughton,  
8/6, 1948.

MADRAS MAHAJAN SABHA  
- Diamond Jubilee Souvenir,  
1946. Madras, M. M. Sabha,  
1946, pp. viii+64. V

MEHERALLY, YUSUF - The

Price of Liberty. Bombay,  
National Information, Rs. 6/-,  
1948, pp. viii+261. V

SUNDARAM, G. A. - Guru-  
Ka Bag Satyagraha. Madras,  
Swadeshmitram, 12 as, 1923,  
pp. xii+79.

THEOSOPHY CO. (Pub.) - Ref-  
lections on Gandhiji's Hind  
Swaraj. Bombay, Re. 1/-,  
1948.

Reprint of articles in the  
Special Hind Swaraj Number  
of 'Aryan Path' Sept. 1938.

# ग्रंथनाम सूचि

## हिन्दी

अकालियोंका आदर्श सत्याग्रह	६	आधुनिक भारत	२१
अकाली दर्शन	२२	आरोग्यकी कुंजी	१८८
अखण्ड भारत	९	आरोग्य-दिग्दर्शन ( प्रयाग )	१७
अखिल भारत चरखा संघके वार्षिक विवरण	१२	आरोग्य-दिग्दर्शन ( वस्वभी )	१७
अखिल भारत चरखा संघ - मार्गसूचिका	१२	आरोग्य-साधन	१७
अखिल भारतीय खादी समाचार		आश्रम भजनावलि	६
विभागकी पत्रिकायें, १९२३-२४	१२	आश्रम संगीत	७
अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघकी वार्षिक रिपोर्टें १९३५-३९	१४	अँग्लैडमें महात्माजी भितना तो जानो	२ १६
अगस्त क्रान्ति और प्रतिक्रान्ति	२१	अीशु खिस्त	७
अछूतोंद्वारा और महात्मा गांधी	९	अेक कदम आगे	१६
अंग्रेजी राजमें हमारी आर्थिक दशा	१०	अेक धर्मयुद्ध	५
अंग्रेजोंसे मेरी अपील	१८८	अेक मात्र बुद्योग - चर्खा	१२
अनासक्तियोग ( कलकत्ता )	६	अेक सत्यवीरकी कथा	५
अनासक्तियोग ( दिल्ली )	६	अेक-माता-व्रत	५
अनीतिकी राहपर	६	ओटना व धुनना	१६
अमृतवाणी	१८	कताबी गणित - प्रकरण १, २	१५
असहयोग तथा हमारी परिस्थितिका सुधार	१०	कराचीकी कांग्रेस	२२
अहिंसक क्रान्ति	४	कर्मविज्ञान और अन्य प्रबंध	१८८
अहिंसक स्वराज्यसाधना	११	कला : अेक जीवनदर्शन	१८
अहिंसाकी शक्ति	४	कांग्रेसका अितिहास ( कृष्णचन्द्र )	२०
अहिंसाविवेचन	५	कांग्रेसका अितिहास ( सीतारामैया )	२२
आंगाखाँ महलसे गांधीजीका पत्रव्यवहार	१०	कांग्रेसका सचित्र अितिहास ( काशी पुस्तक भण्डार )	२२
आजकाल	२३	कांग्रेसके प्रस्ताव	२०
आजाद हिंदका तिरंगा झण्डा	१९	काशी विद्यापीठ रजत जयन्ती अभिनन्दन ग्रन्थ	१६
आजादोंके रोदे	२२	काशी विद्यापीठके षष्ठ समावर्तके अवसर पर दिया हुआ भाषण	१५
आत्मकथा ( गांधीजी )	१		
आत्मकथा ( राजेन्द्रप्रसाद )	२२		

किसान चरखा	१३	गांधीजी (द्वे)	२
कुत्सित जीवन और दाम्पत्यविमर्श	६	गांधीजी (विद्यार्थी)	३
कुब्जासुंदरी और दूसरी कहानियाँ	१९	गांधीजी कौन हैं ?	२
कीढ़	१७	गांधीजी : अद्वाजालियाँ - १	१८८
क्या करें ?	११	गांधीजीका वयान या सत्याग्रह-मीमांसा	४
क्या कांग्रेस नाकाम रही है ?	९	गांधीजीकी युरोप यात्रा	३
खण्डित भारत	९	गांधीजीके फोटोग्राफ (आल्बम)	१
खतरेकी घड़ी	११	गांधीजीके साथ सात दिन	२
खदर ही क्यों ?	१३	गांधीजीके लेख	१२
खदरका संपत्तिशास्त्र	१३	गांधीजीके संपर्कमें	३
खदर शिक्षक	१३	गांधीजीको अद्वाजलि	२
खादी और गादीकी लड़ायी	१३	गांधी-मार्ग	४
खादी और ग्रामीणोग प्रदर्शनी		गांधी-मीमांसा	५
कार्य विवरण	१४	गांधी-वाणी	१८
खादी और स्वराज्य	१३	गांधीवाद : समाजवाद	४
खादीका अर्थशास्त्र	१३	गांधीवाद और मार्क्सवाद	५
खादीका इतिहास	१३	गांधीवादकी रूपरेखा	३, ५
खादीका महत्त्व	१३	गांधीवादकी शत्रुपरीक्षा	५
खादीके कुछ पहलू	१३	गांधी-विचार-दोहन	५
खादीगीत	१३	गांधी-सिद्धान्त	४
खादी-अगत (मासिक)	१२, २३	गांधी सेवासंघका विधान तथा नियम	४
खादीनिवास, अनन्तपुरकी रिपोर्ट	१२	गांधी सेवा संघके वार्षिक कार्य	
खादीनिवास क्षेत्रदर्शन	१४	विवरण : १९३६-१९४०	४
खादीप्रदर्शक १९२३, (१९२९)	१३	गांधी सेवा संघके वार्षिक संमेलन	४
खादीमीमांसा	१३	गांधीका आर्थिक सवाल	१५
खूनका बदला खूनसे नहीं	४	गीता और कुरान	७
खेतीशिक्षा	१६	गीताप्रवचन	७
गणेश शंकर विद्यार्थी	२१	गीताबोध	६
गतेका काम	१६	गीतामन्थन	७
गांधी अभिनन्दन ग्रंथ	२	गौरक्षा कल्पतरु	११
गांधी और स्टालिन	५	गोसेवा	११
गांधी बनाम साम्यवाद	५	गौरक्षा	१२
गांधीका मौनो राज्य	१०	ग्राम आन्दोलनकी आवश्यकता	१४
गांधीगाथा	२	ग्रामसंजीवन	१४
गांधीगौरव (गंगा पुस्तकमाला)	१८८	ग्रामसेवा	१४
गांधीगौरव (बाघेललाल)	२	ग्रामोंके सुधारकी भेक योजना	१८८
गांधीगौरव (शर्मा)	३	ग्रामीणोग पत्रिका (मासिक)	१४, २३

घरेलू कताभीकी आम गिनतियाँ	१५	देशकी वात	२१
घरेलू कताभीकी आम वार्ते	१२	देशी रंगाभी व छपाभी	१५
चम्पारण्यकी जांच अर्थात् चम्पारण्य		देशी राजाभीका दर्जा	१०
कृषीय कमेटीकी रिपोर्ट	५	दो खुदाभी खिदमतगीर	२१
चम्पारण्यमें महात्मा गांधी	६	धनुष तकुवा	१३
चरखा (नाटक)	१५	धर्मपथ	६
चरखाशास्त्र	१२	धर्मपालन भाग १, २	६
चरखासंघका नवसंस्करण	१२	नभी तालीम (मासिक)	१५, १६, २३
चरखेकी सुपयोगिता	१३	नभी तुनाभी	१३
चावल	१४	नकले धी	१४
चीनकी आवाज	१९	नमक - कर	११
छूत अछूतकी माया	८	नया हिन्द	१७, २३
छूत और अछूत	९	नवभारत	१८८
जगमगाते हीरे	३	नियोजित अर्थव्यवस्थाका गांधीवादी मार्ग	११
जड़की वात	१९	निर्भयता	५
जद अंग्रेज आये	१२	नीतिधर्म अथवा धर्मनीति	६
जद अंग्रेज नहीं आये थे	११	नोआखालीमें (काव्य)	१८
जय हिन्द काव्य	१८	पञ्जरत्न	१८
जिन्दा बनो	२०	पण्डित जवाहरलाल नहेरू	२२
जीवनका काव्य	६, १८	पत्र और पत्रकार	१९
जीवनसाहित्य	१८	पाकिस्तान (नाटक)	१९
टॉल्स्टॉय और गांधी	१	पुण्य स्मृतियाँ	२०
ढायरीके कुछ पन्ने	२	पूज्य बापूजीकी प्रार्थना	७
तकली	१६	पूँजीवाद, समाजवाद और ग्रामोद्योग	११
तकली-शिक्षक	१५	पूर्व और पश्चिम	१८, १९
तरुण भारत	२२	पैसेकी माया	१२
ताडका गुड	१५	पौंड पावने अर्थात् हिन्दुस्तान और	
तीन रत्न	१८	बिगलैंडकी लेनदेन	१८८
तेलवानी	१५	प्रकाशकी खोजमें	१८९
तेलवानीकी पृति	१५	प्रजाद्रीही राजा वेणु	१०
त्यागभूमि	२३	प्रवासी भारतवासी	२२
दक्षिण अफ्रीकाका सत्याग्रह	५	प्रवासीकी कड़ानी	२२
दक्षिण अफ्रीकाके सत्याग्रहका अतिहास	६	प्रेम	२३
दिमारी गुलामी	१९	प्रेमपथ - १	१८८
दिल्ली - डायरी	६	फिजीमें भारतीय प्रतिशाब्द कुलीप्रथा	२०
दुनियाका रंगमंच	२१	बच्चोंके षापू	१८८



बहनोंसे	८	भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलनका इतिहास	२१
बहिष्कृत भारत	८	भारतीय राष्ट्रीय महासभाके	
वापू ( विडलाकृत चरित्र )	२	अधिवेशनोंके कार्यविवरण	२०
वापू ( सुप्तकृत काव्य )	९	भारतीय संस्कृति और नागरिक जीवन	१०
वापू और भारत	१, २१	मगन चरखा	१२
वापू और मानवता	२, २१	मंगल प्रभात	७
वापूका महाप्रयाण	१८८	मध्यम पिंजन	१३
वापूका रामराज्य	१८९	मन्दिर-प्रवेश	९
वापूकी झाँकियाँ	१८८	मंदिर-प्रवेश और अस्पृश्यतानिवारण	८
वापूकी बात	१	मन्दिर-प्रवेश निर्णय	८
वारखोलीका सिंह	२१	मधुमक्खी-पालन ( ग्रा. भु. संघ )	१४
वालदर्शन	२	मधुमक्खी-पालन ( सस्ता साहित्य )	१४
बिखरे विचार	१९	मनन	१८
दुनियादी तालीमकी पद्धति और आदर्श	१५	महात्मा गांधी ( भंडारी )	२
दुनियादी तालीमके दो साल	१६	महात्मा गांधी ( रोलों )	३
दुनियादी राष्ट्रीय शिक्षा	१६	महात्मा गांधी ( वर्मा )	३
ब्रह्मचर्य	६	महात्मा गांधी अभिनंदन ग्रंथ	३
ब्रह्मचर्य और आरंभसंयम	७	महात्मा गांधी क्या हैं ? क्या कहते	
ब्रह्मचर्य पर महात्मा गांधीजीके अनुभव	७	हैं ? क्या चाहते हैं ?	९
ब्रह्मचर्यके अनुभव	७	महात्मा गांधी : विश्वके अद्वितीय पुरुष	३
ब्रिटिश भारतका आर्थिक इतिहास	११	महात्मा गांधीका विश्वव्यापी प्रभाव	२०
भाबियों और बहनों	७	महात्मा गांधीका व्याख्यान	३
भारतका आर्थिक शोषण	१२	महात्मा गांधीका समाजवाद	१२
भारतका सरकारी ऋण	१०	महात्मा गांधीकी नयी विचारधारायें	१८९
भारतकी भाषा	१७	महात्मा गांधीकी नोआखाली-यात्रा	२
भारतके देहात : युनका अतीत और भविष्य	१५	महात्मा गांधीजीके कांग्रेससे अलग होनेका कारण	१०
भारतके प्राण महात्मा गांधीकी जीवनकथा	१	महात्मा गांधीके निजी पत्र	१८
भारतके महापुरुष	३	महात्माजीके पत्र	१८
भारतभक्त अण्डथूज	२२	महान चुनौती	२२
भारतमें अंग्रेजी राज	९	महापुरुष ( काव्य )	१९
भारतवर्षीय अछूतोंद्वारा कमिटीकी रिपोर्ट	८	महामानव ( काव्य )	१८८
भारतीय चिंतन	२०	महाराष्ट्र खादी पत्रिका	१२
भारतीय जागृति	२०	महिला आश्रम पत्रिका	२३
भारतीय नवयुवकोंको राष्ट्रीय सन्देश	१६	मालिक और मजदूर	११
भारतीय राजनीतिके अस्सी वर्ष	२१	मूळ शुद्योग — कातना	१६
भारतीय राष्ट्रनिर्माण	२०	मेरा जीवन या अहिंसाकी परीक्षा	१, ५

मेरी कहानी	२१	वृषभ-सुधार	११
मेरे गुरुजन	१	विचारपोथी	१९
मेरे जेलके अनुभव	१	विजयी वारडोली	६
चंग अण्डिया	२३	विद्यार्थियोंसे	१६
यन्त्रोंकी मर्यादा	११	विद्यापीठ (त्रैमासिक)	२४
थरवडा मन्दिरसे	७	विदेशी कपड़ेका मुकाबला कैसे	
युगधर्म	१८	किया जाय ?	१२
युगाधार गांधी	३	विनाश या भिलाज ?	६
युगान्तर	१८९	विनोवा और बुनके विचार भाग १, २	१९
युद्ध और अहिंसा	४	ग्विहाह-समस्या	७
युद्धयात्रामें प्रवचन	२०	विशाल भारत - गांधी बंक	
युद्धसेकट और भारत	२१	अक्टूबर १९३८	३
युरोपीय युद्ध और भारत	१०	विश्व अतिहासकी झलक भा. १-२	२२
रचनात्मक कार्यक्रम (नवजीवन)	८, १६	विश्वकी विभूतियाँ	१
रचनात्मक कार्यक्रम (सस्तासाहित्य)	८	विश्वसंघकी ओर	१०
राजस्व और हमारी दरिद्रता	११	वेदमें चर्खा	१३
राष्ट्रभाषा	२३	शिक्षामें अहिंसक क्रान्ति (वर्धा	
राष्ट्रभाषाकी समस्या और हिन्दुस्तानी		परिषद् रिपोर्ट)	१६
आन्दोलन	१७	शिक्षामें अहिंसक क्रान्ति	०
राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानी	१७	(तालीमी संघ)	१७
राष्ट्रमाता कस्तुरबा	३	शैतानकी लकड़ी	८
राष्ट्रज्ञानी	२१	श्रद्धाञ्जलियाँ (सं. भार्गव)	१८८
राष्ट्रीय आन्दोलन	२२	श्रद्धास्यद मोहनदास कर्मचंद्र	
राष्ट्रीय गायन	१९	गांधीका जीवनचरित्र	३
राष्ट्रीय पंचायत	१०	श्री जमनालालजी	२२
राष्ट्रीय शिक्षाका अतिहास	१५	श्रीमद् राजचंद्र	७
राष्ट्रीय शिक्षाके आदर्शोंका विकास	१५	संक्षिप्त आत्मकथा	१
राष्ट्रीय साहित्य, खण्ड १ - ४, ५ - ६	१९	संघर्ष या सहयोग	८
रोजके विचार - १	१८८	सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा	१
रुइखड़ाती दुनिया	२१	सत्याग्रह आश्रम-शुयोगमन्दिरकी	
लंदनमें लँगोटीवाला	२	विविध प्रार्थनायें	६
लोकजीवन	८	सत्याग्रह आश्रमका अतिहास	१८८
लोकमान्यकी श्रद्धाञ्जलि	२१	सत्याग्रह आश्रमकी नियमावलि	५
वर्तमान जगत	२०	सत्याग्रह और असहयोग	४
वर्धा गोसेवा कार्यका संक्षिप्त अहवाल	१४	सत्याग्रह : क्यों, कब और कैसे ?	४
व्रतविचार	७	सत्याग्रह युद्ध	४

सत्याग्रही प्रह्लाद	१८	स्वराज्य और साम्राज्य	२२
सत्याग्रही महात्मा गांधी (कनैयालाल)	१	स्वराज्य क्या और कैसे ?	१०
सत्याग्रही महात्मा गांधी (भवानीदयाल)	२	स्वराज्यपर गांधीजी	१०
सन वयालीसका विद्रोह	२१	स्वराज्य-भाषा	१७
सप्त महाव्रत	७	स्वामी श्रद्धानन्द	२२
सबकी बोली	१७, २४	स्वामीजीका वलिदान और हमारा कर्तव्य	९
समग्र ग्रामसेवाकी ओर	८	गिर्वाँकी समस्यायें	१८
समाजवादका पुनर्विचार	११	हजरत मुहम्मद और अिसलाम	७
संभले कैसे ?	१३	हम कहाँ हैं ?	२२
सयानी कन्यासे	१६	हम कैसे लुटे ?	१३
सरल नागरिक शास्त्र	९	हमारा आहार	१८
सरंजाम-परिचय	१३	हमारा कलंक	८
सर्वोदय (मासिक)	२४	हमारा स्वर्ष	२०
सर्वोदय (त्रयभंडार, बनवभी)	११	हमारी वा	२
सर्वोदय (सस्ता साहित्य, दिल्ली)	११	हमारी राजनैतिक समस्यायें	१०
सहजीवनकी समस्या	१५	हमारो राष्ट्रीय समस्यायें	२०
संसारका सर्वश्रेष्ठ पुरुष	२	हमारे किसानोंका स्वाल	११
संसारके चुने हुअे रस्त	१	हमारे गाँव और किसान	१४
साधनके पथ पर	२०	हमारे गाँवका सुधार और संगठन	१४
सावरमतीका संत तथा अन्य गीत	१९	हमारे गाँवोंकी कहानी	१४
सावुन साजी	१५	हमारे राष्ट्र निर्माता	३, २२
सांप्रदायिक विद्वेष पर बापूके विचार	९	हमारे राष्ट्रपति	३, २२
सोमेष्ट घानीको ओखली बनानेका तरीका	१५	हरिजन सेवक	२४
सेठ जमनालाल बजाज	२१	हरिजन सेवक संघ, दिल्लीकी रिपोर्टें	९
सेवाग्राम	१९	हरिपुरा अधिवेशनका अहवाल	२३
सेवाधर्म	८	हाथ कागज	१५
सोनेकी माया	११	हाथकी कताभी बुनाभी	१३
स्वतंत्र भारतके लिये गांधीवादी शासन विधान	९	हिन्द-स्वराज्य	१०
स्वतंत्रताकी ओर	१८	हिन्दी, अुर्दू और हिन्दुस्तानी	१७
स्वतंत्रताके संग्रामके ९० वर्ष	२०	हिन्दी नवजीवन (जयंती अंक)	२४
स्वदेशी और ग्रामोद्योग	१४	हिन्दी नवजीवन (साप्ताहिक)	२४
स्वदेशी और वहिष्कार	११	हिन्दुस्तान और ब्रिटनका आर्थिक लेन-देन	११
स्वदेशी धर्म	११	हिन्दुस्तानका राष्ट्रीय झण्डा	२१
स्वदेशीका नाश	११	हिन्दुस्तानकी कहानी	२२
स्वराज्य और मुसलमान	९	हिन्दुस्तानकी समस्यायें (गांधी)	२१
		हिन्दुस्तानकी समस्यायें (नेहरू)	१०

हिन्दुस्तानी	१७	हिन्दू-मुसलमानोंका तनाजा	९
हिन्दुस्तानी खाद्य पदार्थोंका आहार- तत्त्व और बुनसे प्राप्त जीवनतत्त्व	१४	हिन्दू-मुस्लिम भेकता	९
हिन्दुस्तानीकी नौति	१७	हिन्दू-मुस्लिम भेकताका प्रश्न	९
हिन्दुस्तानीके प्रचारक गांधीजी	१७	हिन्दू-मुस्लिम समस्या और पाकिस्तान	९
हिन्दुस्तानी-गुजराती कीश	१७	हिन्दू-मुस्लिम, हिन्दुस्तानी	१८९
हिन्दुस्तानी-प्रचार क्यों ?	१७	हृदयमन्थनके पांच दिन	७
		हे वापू, हे राष्ट्रपिता !	१८८

## गुजराती

अकबरनी यादमां	३७	आपणा आर्थिक प्रश्नो	४२
अखण्ड हिन्दुस्तान	५२	आपणां कस्तूरवा	२८
अग्निपरीक्षानी पूर्व भूमिका	३८	आपणा गांधीजी	२८
अंगत् विचार	४७	आपणा नेताओ	२८
अनासक्तियोग	३२	आपणी काँग्रेस	५३
अन्त्यज साधु नंद	३७	आपणी महासभा खंड १-२	५१
अन्त्यजस्तोत्र	३७	आपणी विद्यार्थी हिलचाल	४६
अन्य देशोमां असहकार	३१	आपणुं घर	५३
अमारां वा	२७	आपणे पापे	३७
अर्वाचीन गुजरातनु रेखादर्शन, खंड ३जो	२७	आपणो आर्थिक प्रश्न	४१
अर्वाचीन हिन्दू	५२	आपणो धर्म	३३
असहकार (गांधी शिक्षण माळा भाग १-३)	२९, ३८	आवाद हिन्दुस्तान	४१
असहकार (युगधर्म कार्यालय)	२९, ३८	आभडछेट्टुं भूत	३७
असहकार (राष्ट्रीय साहित्य मंडळ)	२९, ३८	आमजनताना संकल्पवळनु प्रदर्शन	४०
असहकार सुपर भाषण	३०, ४०	आरोग्य	४६
अहिंसा	२९	आरोग्य, तननुं, मननुं अने देशनुं	४६
अहिंसानी तालीम	३०	आरोग्य विपे सामान्य ज्ञान	४६
अहिंसानी राह	३१	आरोग्यनो चावी	१८९
आ ने जीवदया ?	२९	आवती कालना प्रश्नो	३४
आखरी फैसलो भाग १थो ४	३८	आश्रमनो प्राण	५१
आचार्य कृपलानीना लेखो	४७	आश्रमभजनावलि	३२
आझादीनां राष्ट्रगीतो	५०	आश्रमवासी प्रत्ये	३२
आझादीनी यज्ञचाला	४९	आहार अने पोषण	४६
आटलुं तो जाणजो-१	४५	आंधळानुं गाडुं	४९
आत्मकथा	२५	अग्निद्वयन ओपीनियन	५४
आत्मरचना अथवा आश्रमनो के.कवणी	४५	अजिजिनो शुद्धारक अथवा मुस्तफा कामेलपाशानुं जीवनचरित्र तथा बीजा लेखो	५०
आधुनिक भारत	५१		

ओशु अने गांधी	२६	खादी-निबंध	४३
ओशुचरित	३३	खादीनी प्रसादी	४३
ओशुतुं वल्द्वान	३३	खादीतुं व्यापक अर्थशास्त्र	४३
ओक धर्मयुद्ध	३१	खादीविद्याप्रवेशिका	४५
ओक सत्यवीरनी कथा अथवा		खादीसमाचार पत्रिका	४२, ५४
ओक्रेटीसनी वचाव	३१	खिस्ताकोश	४५
ओशियाना भीतरमां	५०	खेडानी लडत	३१
क्याकुसुमांजलि	४९	खेडतनी शिकारी अने मध्यमसरनी चाल.	४९
कर्मवीर मोहनदास क. गांधी	२६	खेडतपोथी	४१
कल्की अथवा संस्कृतितुं भावि	३६	गांधी वापु	२७
कल्याणयात्री	२८	गांधी वापुनी पवाडो	१८९
कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुर	५३	गांधी मोहनदास करमचंद्र	२७
कस्तूरवा	२५	गांधीकाव्यसंग्रह	४९
कळा ओटले शुं ?	४८	गांधीकूच (आत्मम)	२७
कागडानी नजरे	४७	गांधीगिरामृत	४७
काठियावाडना घडवैया	५३	गांधीजी (द्रवे)	२६
कायदान्ती सामे पवानो फरज	२९	गांधीजी अने कौंग्रेस प्रत्ये मारुं क्रण	२६
कार्यकर्ताओ अने मतदारोने		गांधीजी: तेमनुं जीवन अने कार्य	२६
ओपयोगी	३९	गांधीजी साथे ओक अठ्ठाडियुं	२७
कालेलकरना लेखो	४७	गांधीजीना अगियार मुद्रा : हथियारबंधीनी	
कालेलकरना लेखो भाग २जी	४७	कायदो तथा लडकरी खर्च अने लडकर	४०
कांतणपोथी (नंदलाल)	४३	गांधीजीना जीवनप्रसंग	२७
कांतणपोथी (पुरातन)	४३	गांधीजीनां वचनामृत	४७
कांतणप्रवेशिका	४३	गांधीजीनां विचाररत्नी	४७
कांतवानी कळा	४३	गांधीजीना समागममां	२९
कुदरतमय जीवन	१८९	गांधीजीना सान्निध्यमां	२८
केळवणीना पाया	४६	गांधीजीनी आखरी हाकल	३८
केळवणीनी पगदंडी	४६	गांधीजीनी जुवानो	३०
केळवणीनी कोयडो	४४	गांधीजीनी दिव्य वाणी	४७
कोडियुं	५४	गांधीजीनी प्रवृत्तिओ	२८, ३६
कौंग्रेस अने कम्युनिस्टी	३९	गांधीजीनी युरोपयात्रा	२९
कौंग्रेसनी केटलीक अराजकीय सिद्धिओ	३६	गांधीजीनी लंडनयात्रा	२६
कौंग्रेसपत्रिका	५४	गांधीजीनी विचारपुष्पमाळा	४८
खरी केळवणी	४४	गांधीजीनी साधना	२७
खादो पहरेओ ?	४३	गांधीजीनी स्वराजसाधना	४०
खादी, स्वदेशी अने ग्रामोडार		गांधीजीतुं नवजीवन खंड १ थी ४	५४
विषयक संवाद	४३	गांधीजीने जगवंदना	२८

गांधीजीનો અગ્નિપ્રવેશ	૩૭	ગુફાનું કમલ	૨૬
ગાંધીજીનો સરકાર સાથેનો પત્રવહેવાર	૩૮	ગૂજરાત વિદ્યાપીઠના મહામાત્રે કરેલાં	
ગાંધી-વાઙ્મીતી	૪૧	વાર્ષિક નિવેદનો	૪૫
ગાંધી-મણિમહોલ્લસવ અંક	૨૭	ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ વિજ્ઞાપક	૪૫
ગાંધી-વાઙ્મિસરોંય પત્રવહેવાર	૩૮	ગોપાલ કૃષ્ણ ગોસલેનાં વ્યાખ્યાનો	૫
ગાંધીવાદી આર્થિક યોજના	૪૦	ગૌરક્ષાકલ્પતરુ	૪૨
ગાંધીવિચારદોહન	૩૦	ગોસેવા	૪૧
ગાંધી-શિક્ષણ ભાગ ૧થી ૧૩	૪૪	ગોક્મ્પેજીમાં ગાંધીજી	૨૬
ગામગોષ્ઠી	૩૦	ગ્રામ આન્ડોલન શા માટે ?	૪૩
ગામઢામાં જમીને શું કરીશું ?	૩૪	ગ્રામ ધુધોગ અને ગ્રામ પુનર્રંચના	૪૩
ગામઢાંની વહારે	૩૪	ગ્રામપંચાયતનો કાયદો	૪૦
ગીતાગીતમંજરી	૩૩	ગ્રામપુનર્રંચના	૪૩
ગીતાધર્મ	૩૨	ગ્રામભજનમંડલ્કી	૪૩, ૪૧
ગીતાધ્વનિ	૩૩	ગ્રામરંચના	૩૬
ગીતાપદાર્થકોષ	૩૨	ગ્રામસંગઠન	૩૫
ગીતાવોધ	૩૩	ગ્રામોદ્યોગ પ્રવૃત્તિ	૪૩
ગીતામંથન	૩૨	ગ્રામોત્તરિત	૩૬
ગીતા સંકલન	૩૩	ચેમ્પારણમાં મહાત્મા ગાંધીજી	૩૨
ગીતાસાર	૩૨	ચામઢાં ફેલ્લવવાની ક્લુમ પદ્ધતિ —	
ગીતાહૃદય	૩૪	ગૃહધુધોગ તરીકે	૪૩
ગુજરાત	૪૧	ચાલ્યા જાવ	૩૮
ગુજરાત સ્વાદી પ્રચાર મંડલ્કનો		ચિરંજીવ સાહિત્ય	૫૦
પ્રથમ વર્ષનો અહેવાલ	૪૩	ચીનનો અવાજ	૩૫
ગુજરાત હરિજન સેવક સંઘના વાર્ષિક		ચૂપ નહીં રહેવાય	૪૮
અહેવાલો	૩૬	ચોવી કાઠિયાવાલ રાજકીય પરિપદના	
ગુજરાતના ક્રાંતિવીરો	૫૨	સ્વાગત મંડલ્કનો તથા તેના કાર્ય-	
ગુજરાતના સેવકો	૫૩	વાહક મંડલ્કનો અહેવાલ અને હિસાવ,	
ગુજરાતનાં ભાંગતાં ગામઢાંમાં	૩૫	રાજકોટના ટાસ અધિવેશનનો	
ગુજરાતની અસ્મિતા	૪૧	અહેવાલ અને ભાવનગરની પરિપદમાં	
ગુજરાતનું નૂર	૫૨	ગાંધીજીએ આપેલું માપણ	૩૭
ગુજરાતનો તપસ્વી	૨૫	છાત્રાલય સંહિતા	૪૪
ગુજરાતમાં સંગીતનું પુનરુજ્જીવન	૪૭	જગતના ઐતિહાસનું રેસાદર્શન	૫૧
ગુજરાતી જોલ્ળીકોષ	૪૫	જગતનો મહાન પુરુષ	૨૮
ગુજરાતી સાહિત્ય સમ્મેલનનું છટ્ટું		જગદંવા વસ્તૂરવા	૨૬
અધિવેશન	૪૮	જપજી	૩૩
ગુજરાતી સાહિત્ય સમ્મેલનનું ઢારસું		જમનાલાલજી	૫૨
અધિવેશન	૪૮		

जवाहर अने विश्वयुद्ध	५१	देशनी आझादी माटे (गांधी-जिना)	
जाग्रत भारत	५३	पत्नी मळो	३९
जाते मजुरी करनाराभोने	४८	देशी राज्योनी लडत	४०
जीवता तहेवारी	३२	देशी राज्योनी प्रश्न	३९
जीवन अने साहित्य भाग १लो	४९	द्रौपदीनां चीर	४३
जीवनचर्चा	२९	धरासणानी काळो केर	३१
जीवनदोरो	४८	धर्म	३२
जीवननां झरणां	५१	धर्ममंथन	३२
जीवनतुं परोढ	२५	धर्मयुद्धतुं रहस्य	३०
जीवनतो आनंद	४७	धर्मसंस्थापन	३६
जीवनभारती	४७	धर्मोतुं मिलन	३४
जीवनविकास	४४	ध्वजारोपण अथवा वारडोलीनी धनुष्यदंकार	३१
जीवनशिल्पीओ	५३	नवजीवन	५५
जीवनसंभारणां	५२	नवजीवन अने सत्य	५५
जीवनसंस्कृति	३४	निर्भयता	३०
टोल्स्टोय अने शिक्षण	४४	नीतिधर्म अथवा धर्मनीति	३२
तपस्वीनां तातां तीर	४८	नीतिधर्म अथवा धर्मनीति अने सर्वोदय	३२
तरुण भारत	५३	नीतिनाशने मार्गं	३४
तारणहार	२८	नीतिनां काव्य	४७
तारुण्यमां प्रवेशतो कन्याने पत्रो	४५	नेताजी श्री नुभायचंद्र बोझ	५०
तीर्थसलिल	२९	नेत्रमणिभाय्नीने	४७
तेजचित्रो	२६	पंचमहाल जंगल सत्याग्रह	३१
तेलघाणी	४३	पंजावमां थयेलो रमखाणोनी	
तेलघाणीनी पूर्ति	४४	तपासनी अहेवाल	५४
त्यागमूर्ति अने बीजा लेखो	३४	पंजाव सव-कमिटी आगळनी जुवानोओ	५२
त्यारे करीशुं शुं ?	३५	पंड्याजीने स्मरणांजलि	५२
दक्षिण आफ्रिकाना सत्याग्रहनी		पथिकनां पुष्पो गुच्छ २जो	४९
अितिहास, खंड, १, २	३१	परदेशी कापड सामे हरीफाभी	
दक्षिण आफ्रिकानी रंगभूमि	५१	केम करवी ?	४३
दयाधर्म	३२	परिपद प्रमुखोनां भाषणो	४८
दारुनिषेध अने स्वराज	३५	पहेली गुजरात राजकीय परिपदना प्रमुख	
दारुनिषेध शा माटे ?	३५	महात्मा मो. क. गांधीतुं भाषण	१८९
दिल्ही डायरी	३२	पुण्यश्लोक गांधीजी	२९
दीनबंधु	५२	पूर्व अने पश्चिम (गांधीजी)	३४
दुनियानी दृष्टिअे	२५	पूर्व अने पश्चिम (ठाकुर)	३५
दुःखी हिन्द	५३	पूर्व अने पश्चिम (डिकिनसन)	३५
		प्यारा वापू	५५

પ્રજાવંધારણ	૩૯	બ્રિટિશ રાજ્યતંત્ર અને આપણી મદદાસભા	૪૦
પ્રથમ ગુજરાત-કાઠિયાવાડ ગોસેવા		બ્રિટિશ હિન્દનો આર્થિક ઇતિહાસ	
સંમેલનનો અહેવાલ	૪૧	ભાગ ૧-૨	૪૧
પ્રવુદ્ધ જૈન	૫૫	મગવાનનાં છોરુ	૩૭
પ્રશ્નોત્તરી અને પ્રાસંગિક	૫૦	ભારત પુણ્યપ્રવાસ	૨૬
પ્રસ્થાન	૫૫	ભારતનો એકતા	૫૧
પ્રહ્લાદ નાટક તથા સહનવીરનાં ગીતો	૪૯	ભારતનું ઘટતર ભાગ ૨ જો	૩૧
પ્રાણપ્રતિષ્ઠા	૩૯	ભારતનો વારસો	૪૬
પ્રેમપન્થ યોજન ૧	૩૦	ભારતમાં અંગ્રેજી રાજ્ય પુ. ૧, ૨	૫૩
પ્રેમપન્થ યોજન ૨ (નવજીવન)	૨૫	ભારત સેવક ગોઝલે	૫૧
પ્રેમપન્થ યોજન ૨ (સસ્તુ સાહિલ્ય)	૨૫	ભારતીય રાષ્ટ્રધ્વજ	૫૪
બહેનોને	૩૪	ભારતીય સંસ્કૃતિ અને વીજા લેખો	૫૦
વા	૨૯	ભીંતપત્રો દ્વારા લોકશિક્ષણ	૪૬
વાપુ	૨૮	મગનરેંટિયો	૪૨
વાપુ. તારે ચરણે	૨૭	મંગલપ્રભાત	૩૨
વાપુજી અને વીજી વાતો	૨૮	મધપૂઢો	૪૯
વાપુનાં પારણાં	૫૦	મધપૂઢો (સામયિક - હસ્તલિખિત)	૫૬
વાપુના વાને પત્રો	૧૮૯	મધુકર	૪૯
વાપુની છાયામાં	૨૮	મધ્યમ પીંજણ	૪૩
વાપુની પ્રસાદો	૧૮૯	મન્દિરપ્રવેશ અને શાસ્ત્રો	૩૭
વાપુને	૨૭	મરુકુંજ	૪૭
વારહોલી ગીતસંગ્રહ	૪૯	મહાત્મા	૨૯
વારહોલી સત્યાગ્રહપત્રિકા	૩૧, ૫૫	મહાત્મા ગાંધી (કેલ્કર)	૨૫
વારહોલોના સત્યાગ્રહનો ઇતિહાસ	૩૧	મહાત્મા ગાંધી (ઠાકુર)	૧૮૯
વારહોલીની હિજરત	૩૧	મહાત્મા ગાંધી (રાધાકૃષ્ણન)	૨૮
વારહોલીનો છેદ્ગૂત	૪૨	મહાત્મા ગાંધી (રમણલાલ શાહ)	૨૯
વાલ્કોના ગાંધીજી	૨૬	મહાત્મા ગાંધી અને શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર	૨૯
વાલ્કોનો પોકાર	૪૨, ૪૬	મહાત્મા ગાંધી અને હિન્દનાં	
વીજી ગુજરાત કેલ્લવણી પરિષદ	૪૫	મહાન નરરતનો	૨૬
દુર્ગમ યુવાન અવવાસ તૈયવજી	૫૨	મહાત્મા ગાંધીજી (ચિત્રલિખ્યા)	૨૬
હલ્દે વચ્ચાવનામું	૩૯	મહાત્મા ગાંધીજીના જીવનના	
વેં સુદામી સ્વિદમતગાર	૫૧	કેટલાક પ્રસંગો	૨૭
વેલગામ મહાસભાના પ્રમુખ તરીકે		મહાત્મા ગાંધીજીના પંજાવના પત્રો	૩૯
ગાંધીજીએ આપેલું આપણ	૩૯	મહાત્મા ગાંધીજીના પત્રો	
વેં વિચારધારા	૩૦	(સાકરલાલ વુલાહીદાસ)	૫૦
વોરસદની વીરાંગનાઓ	૩૧	મહાત્મા ગાંધીજીના પત્રો	
વોલ્કોવિહમ અને વીજી વાતો	૫૦	(સેવક કાર્યાલય)	૪૮



महात्मा गांधीजीना सद्वासमां	२८	मोहनमाळा	४८
महात्मा गांधीजीनी ११ शरतो	४०	मौ. अबुल कलाम आझाद	५१
महात्मा गांधीजीनी लंडनयात्रा	२८	यरवडा चक्र वापरवानी रीत अने	
महात्मा गांधीजीनी विचारसृष्टि	३०	कांतवानी समजूती	४२
महात्मा गांधीजीनुं जीवनरहस्य	२६	यरोडाना अनुभव	२५
महात्मा गांधीजीनुं जीवनवृत्तांत	२८	यंत्रनी मर्यादा	३६, ४२
महात्मा गांधीजीनुं मनोमन्दिर	४८	यंत्र सामे बळ्वो	३५
महात्मा गोखलेनो वारसी	५०	युगधर्म	५३
महात्माजीना सामाजिक लेखो	३४	युगपुस्त्य गांधो	२५
महात्माजीनी भीष्म तपश्चर्या	३६	युगावतार गांधी	२७
महात्माजीनुं आखरी युद्ध भाग १-२	३९	युवानोनी वोज	५१
महादेवभाभीनां विचाररत्नो	४९	युवानोनी संस्कारसाधना	४६
महादेवभाभीनी डायरी-पुस्तक १	१८९	रंगद्वेषनी दुर्ग	५१
महाराज थया पहेलां	५२	रचनात्मक कार्यक्रम : केटलीक	
महाराजनी साथे	५२	सूचनाओ	३६
महासभानां गीतो	४९	रचनात्मक कार्यक्रम : तेनुं रहस्य	
महासभाना ठरावो	१८९	अने स्थान	३४
महासभाना प्रमुखो	२७	रविशंकर महाराज (पुरातन बुच)	५२
महासभाना महारथीओ	२९, ५३	रविशंकर महाराज (बवलभाई महेता)	१८२
महासभानो आदेश	४०	राजकथा	४०
महासभानो इतिहास	५३	राजकोट-सत्याग्रह	३१
माणसाओना दीवा	५३	राजनीति	३९
मातर तालुकानी आर्थिक तपास	४०	राज्य आवकवेरो अने आपणी दरिद्रता	४१
मानव अर्थशास्त्र	४२	राष्ट्रगीत	५०
मानवी खंडियेरो	४७	राष्ट्रपिताना चरणोनां	१८९
मारी जीवनकथा (गांधीजी)	२५	राष्ट्रभाषा विषे विचार	४४
मारी जीवनकथा (नेहरु)	५१	राष्ट्रीय महासभा अने विद्यार्थी-प्रवृत्ति	४५
मारुं गामडुं	३६	राष्ट्रीय वाचनमाळा	४४
मारुं हिन्दुनुं दर्शन	१८९	रेखाचित्रो	५२
मारो जेलनो अनुभव (गांडीव)	२५	रॉलेट विल विषे समजूती	३९
मारो जेलनो अनुभव (राष्ट्रीय साहित्य)	२५	रुडत आवे तो ?	५३
मीटावेरो याने. हिन्दनी पायमालीनी		लालाजीनुं राजकीय तत्त्वज्ञान	४०
करुण कथा	४२	लोकजीवन (कालेलकर)	३४
मूरखराज, वाभिवलरहस्य अने		लोकजीवन (पाक्षिक)	१८९
अेक सत्यवीरनी कथा	४८	लोकपोथी पहेली	४५
मोहनदास करमचंद गांधी (डोक)	२६	लोकमान्य टिळक: बेमनी यादद्रास्त	
मोहनदास करमचंद गांधी (देसाओ)	२६	अने ख्याति खंड १	५२

लोकमान्यने श्रद्धाञ्जलि	५१	सत्याग्रहाश्रमनो चितिहास	४४
लोकशाही	१८९	सत्याग्रही गेरिसन	४९
वणाटशास्त्र	४३	सत्याग्रहीना स्वातंत्र्यमंत्री	३०
वर्णव्यवस्था	३४	संतनां स्मरणो	२७
वर्धा केळवणी प्रयोग	४६	सवरस	४०
वर्धा शिक्षणयोजना	४५	समाजमां स्त्रीभोक्तुं स्थान	३५
वाल्मीकिनो जय	५०	समाजवाद शा माटे ?	४१
विदेशी कापडवहिकार	४१	समूळी क्रान्ति	३६
विद्यार्थी आलमने	४४	संपत्तिशास्त्र	४१
विद्यार्थी श्रीमप्रवृत्ति	४५	संपूर्ण दारूनिषेध	३५
विश्वशान्ति	४८	संविधान	४७
वीरनी हाकल	३१	“ सर्वे शुभोपमायोग्य ” महादेवभाभी	५३
वीरांगनाभोनी वीर हाक	५०	सर्वोदय ( रस्किन-गांधीजी )	४१
व्यापक धर्मभावना	३३	सर्वोदय (मासिक)	५६
व्रतविचार	३३	सर्वोदयनी केळवणी	४४
शिक्षण अने साहित्य	५६	सर्वोदयनी जीवनकळा	४५
शिक्षण व्याख्यानमाळा	४५	सहायवृत्ति	३०
शिवद्रयाळनी शोध अथवा सत्य विना		संसार अने धर्म	३३
बीजुं कशुं नथी	४८	संसारमंथन	४७
शेरथानी आर्थिक तपास	४१	साची केळवणी	४४
श्री गीता संकलन	३३	साची मजूर चळवळनां मूळतत्त्वो	४१
श्रीमद्नी जीवनयात्रा	३३	साची श्रमजीवी	४१
श्रीमद् राजचन्द्र	३३	सावरमती	२५, ५६
श्रीमद् राजचन्द्र : जीवनयात्रा तथा		साम्यवाद अने सर्वोदय तथा	
विचाररत्नो	३३	बीजा लेखो	३६
श्रीमद् राजचन्द्रनां विचाररत्नो	३३	सार्थ गुजराती जोडणीकोश	४५
सत्यना प्रयोगो अथवा आत्मकथा	२५	स्त्रीधां चढाण	५३
सत्यमय जीवन	३०	सुवर्णनी माया	४२
सत्याग्रह	३०	सेवादल पुस्तिकाभो अने पत्रिकाभो	४५
सत्याग्रह अने असहयोग	३०	सो टका स्वदेशी	४१
सत्याग्रह : निष्फळ अने नकामुं शस्त्र		स्त्री अने पुरुष	३५
भा. १-२	३१	स्त्री केळवणी विषयक निबंध	४६
सत्याग्रहनी मर्यादा	३०	स्त्री-पुरुष मर्यादा	३६
सत्याग्रहनी मीनांसा	३०	स्त्रीस्वातंत्र्य	३५
सत्याग्रहनुं रहस्य	३०	स्वदेशी	४१
सत्याग्रहाश्रम नियमावलि	३०	स्वदेशी धर्म	४०
		स्वदेशी समाज	३५
		स्वदेशीनां स्त्रो	४६

स्वदेशीनो घेरो	४१	हिन्दुनी मुस्लिम प्रश्न	७३
स्वर्गस्थ महात्मा गोखलेजोनो जीवनसंदेश	५०	हिन्दुनी हुंकार	२८
स्वराज आव्युं	४०	हिन्दु-ब्रिटननी नाणांवडेवार	४१
स्वराज्यनां गोतो	४९	हिन्दु-स्वराज	३५, ३९
स्वराज्यशास्त्र	४०	हिन्दु-स्वराज (गांधीजीना हस्ताक्षरमां)	३९
स्वाध्याय खंड २जो	४७	हिन्दु-स्वराज, अेक सत्यवीरनी कथा	
स्वामीराव	५१	अने सर्वोदय	३९
हजरत महम्मद अने अिस्लाम	३४	हिन्दु-स्वराजनी दावो	३९
हडधूत हरिजन	३६	हिन्दी राष्ट्रीय काँग्रेसनी अितिहास	
हरिजनवन्दु	५६	ग्रंथ २जो	५३
हरिजन भागवत	३६	हिन्दी राष्ट्रीय महाम्भानो अितिहास	
हरिजन संतो	३७	खंड ३जो	५२
हरिपरं	४९	हिन्दी सरकारनी शिक्षण योजना	४४
हळपति-मुक्ति	३५	हिन्दी संस्कृति अने अहिंसा	२९
हाथवणाट खंड १-२	४२	हिन्दु आचार	३३
हिन्दु कये रस्ते ?	४०	हिन्दु जीवनदर्शन	३४
हिन्दु पायमाल केम थयुं ?	४२	हिन्दु धर्मनी कसोदी	३३, ३६
हिन्दुना आर्थिक विकासनी योजना	४२	हिन्दुधर्मनी बाळ्योथो	३३
हिन्दुना अितिहासमां हिंदु-मुस्लिम अेकता	३७	हिन्दु-मुसलमान	३७
हिन्दुनुं प्रजाकोय अर्थशास्त्र	४१	हिन्दु-मुस्लिम अेकदिलो	३७
हिन्दुनुं भावि वंधारण	३७	हिन्दुस्तानना वेपार शुशोगनी नाश	४२
हिन्दुनुं मुस्लिम राजकारण	३७	हिन्दुस्ताननी गरोदाथी	४२
हिन्दुनी कोमी त्रिकोण	३७	हिन्दुस्तानी व्याकरणप्रवेश	४६
		हूंडियामण	४२

## मराठी

अकरावा अवतार — महात्मा गांधी	५८	अस्पृश्योद्धार विचार	६५
अखंड भारत	६५	अस्पृष्टांचा प्रश्न	६५
अनासक्तियोग	६२	अहिंसक समाजाचें प्रतीक खादी	६८
अभंग व्रतें	६३	अहिंसाच कां ?	६०
अर्थशास्त्र कां अनर्थशास्त्र ?	६७	अहिंसादर्शन	६०
अल्पसंख्यांक	६६	अहिंसेचो साधना	६०
असहकारयोग	६०	अहिंसेचें अर्थशास्त्र	६७
अस्पृश्यता व देवालयप्रवेश	६५	आचारधर्म	६३
अस्पृश्यतानिवारण	६५	आचार्य कृपलानी	७०
अस्पृश्यतेचा शास्त्रार्थ	६५	आजकालचा महाराष्ट्र	७३
अस्पृश्यविचार	६५	आत्मचरित्र (नेहरू)	७३

आत्मोद्धार	६९	खेडेगांवविषयक व्याख्यानें	६३
आधुनिक गीता	६३	खेड्याकरितां कातडें कमावण्याची	
आधुनिक फटके — गांधीवाक्सुधा	७०	क्रोम पद्धति	६८
आधुनिक भारत	७२	खेड्यांत जावून काय करणार ?	६४
आधुनिक भारताचे निर्माते		खिस्त धर्मीयांस गांधींचें आहान	६२
व त्यांचा पार्श्वभूमि	५८	गतगोष्टी अर्थात् माझी जीवनयात्रा	७१
आधुनिक राज्यमीमांसा १-२	६६	गांधी आणि गांधीवाद	६९
आमच्या वा	५८	गांधी-गीता अथवा विसाव्या शतकातील	
आर्यावर्तांतले तेजस्वी रत्ने	७२	कृष्णार्जुन संवाद	६०
आहार आणि पोषण	६९	गांधी-गोधळ	६६
आहान	७३	गांधींचा अहिंसावाद	६०
ओशावास्य वृत्ति	६३	गांधी-जिना पत्रव्यवहार	६६
ओशावास्योपनिषद्	६३	गांधीजी (दवे; अनु. पाटोल)	५८
सुपनिषदांचा अभ्यास	६३	गांधीजी अेक दर्शन	५८
अेक धर्मयुद्ध	६१	गांधीजींच कां ?	५८
औद्योगिक हितसंबंध कायद्याविषयीं		गांधीजींची देशाला देणगी	७१
आमचा दृष्टिकोन	६७	गांधीजींची धर्मनीति	६२
कर्मवीर महात्मा गांधी यांचा पोवाडा	५७	गांधीजींचीं पत्रें (अनु. पटवर्धन)	६२
कला म्हणजे काय ?	७१	गांधीजींची पत्रें (अनु. सहस्रर्मा)	६२
कस्तुरवा	५९	गांधीजींची हांक	७०
काश्चुन्ट टॉल्स्टॉय	७३	गांधीजींचें विद्यार्थ्यांशीं हितगुज	६८
काम आणि कामिनी	७०	गांधीजींचें विविध दर्शन	५९
काळकर्ते शिवरामपंत परांजपे यांचें		गांधीजींचें स्त्रियांशीं हितगुज	६४
जीवनचरित्र	७३	गांधीजींच्या सहवासांत अेक आठवडा	५८
काँग्रेस आणि महासभा	७२	गांधीजींच्या सान्निध्यांत	५८
काँग्रेसकथा	७२	गांधी-जीवनकथा खंड १ ला	५९
काँग्रेसचा इतिहास	७४	गांधीज्ञान	६९
काँग्रेसचा पोवाडा व खादीचा पोवाडा	७०	गांधीज्ञानचें अंतिम स्वरूप	६०
काँग्रेसची अलीकडील कामगिरी	७२	गांधी-टोपी	७१
काँग्रेसची पुनर्घटना	७३	गांधी-तत्त्वज्ञान	६१
खादी : इतिहास व कार्य	६७	गांधीदर्शन	६०
खादी भारताचा जीवनमंत्र	६७	गांधी-प्रणीत अर्थयोजना	६७
खादीकार्यमीमांसा	६८	गांधी-रणगीता	६१
खादीमीमांसा	६८	गांधीवाद	६०
खादीशास्त्र	६७	गांधी-वादावरील आक्षेप व त्यांचीं उत्तरें	६०
खान वंधूंचा अल्प परिचय	५३	गांधी-विचार-दोहन	६१
		गीताभी	६३

गीता-प्रवचनें	६३	दरिद्रनारायणाचे चरणी - १	६७
गीताबोध	६२	दल-उद्योत	७३
गीता-हृदय	६३	दलितसवक	६५, ७४
गेलीं पांच वर्षे	७१	दाम्पत्याचें ब्रह्मचर्य	६४
गोड निबंध भाग १ ते ३	७१	द्विसंड हिन्दुस्तान	६६
गोष्टीरूप गांधोजी	५९	नवभारत	७४
गौळत्र गांधीचें संवर्धन	६८	नवीन शिक्षणाचें अंतरंग	६९
ग्रह आणि तारे	५८	ना खंत ना खेद	७४
ग्रामसफाओ	६९	नामदार गोखले चरित्र	७४
ग्रामसेवावृत्त	७४	नारायण गणेश चंदावरकर	७४
ग्रामोद्योग व ग्रामसंजोवन	६८	नाशिकर्ची द्राक्षे	७०
ग्रामोद्योगाचें अर्थशास्त्र	६८	निःशस्त्रांचें राजकारण	६६
घटना परिपद	६६	नीतिधर्म	६२
चौफुला	७१	नीतिधर्मातील श्रेष्ठ व्रते	६२
जगद्वय महात्मा	५९	पंजाब प्रकरण अर्थात् काँग्रेस	
जगाला आह्वान	२९०	सर्वकमिटीनें तयार केलेला रिपोर्ट	७२
जिवंत व्रतोत्सव	६२	पाकिस्तान	६६
जीवन आणि साहित्य	७१	पाकिस्तानचें संकट	६५
जीवनदृष्टि	७१	पुंजीवाद, समाजवाद कीं ग्रामवाद	६४
जीवनप्रकाशन	६०	पुढारी व अनुयायी	५७
जीवनयोग	७०	पुण्यश्लोक गांधोजी	५१
जीवनशिक्षण अथवा वर्षाशिक्षण योजना	६९	पौरुषपदीप	६८
जीवनसंस्कृति	६३	प्रकाशातील व्यक्ति	५८
जीवनांतील आनंद	७०	वंडखोर महात्मा	६५
टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठ त्रयोदश		वापू	५९
वार्षिक पदवीदान समारंभ प्रसंगीं		वापूजीं अर्थात् मुलांचे महात्मा गांधी	५७
कालेलकर यांचें भाषण	६८	वारडोलीची शिकवण अर्थात्	
टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठ - वार्षिक		वारडोलीचा यशस्वी सत्याग्रह	६१
वृत्तांत व पदवीदान प्रसंगीं		वारडोली-सत्याग्रह इतिहास	६२
केलेलीं भाषणे	६९	वेकारी व तोवर भुषाय	६७
टॉल्स्टॉयचें तत्त्वज्ञान	६१	वेडेंट चरित्र	७३
तांदूळ	६८	वॅरिस्टर गांधी यांचें चरित्र	५९
तेजस्वी तरुणी	६४	भगिनींचा सेवामंत्र	६४
तेरा दिवस	५९	भगवान दरिद्रनारायण	५७
दक्षिण आफ्रिकेतील करारी देशभक्त		भारत-नेते	७३
मो. क. गांधी यांचें चरित्र	५८	भारत-मातेची श्रेष्ठता अर्थात् मेयोच्या	
		असत्य विधानांचें खंडन	७४

भारतीय अर्वाचीन् चरित्रकोश	७२	महात्मा गांधींचे सत्याचे प्रयोग	
भारतीय अस्पृश्यतेचा प्रश्न	६५	अथवा आत्मकथा	५७
भारतीय क्रान्ति आणि राष्ट्रीय महासभा	५२	महात्मा गांधींचे स्वातंत्र्यप्रेरक विचार	७०
भारतीय संस्कृति	६४	महात्मा गांधींच्या ११ मागण्या	६६
मिल्ल साधु आपश्री गुलामहाराज		महात्माजॉची भुत्तरगीता	६०
यांचें चरित्र	५२	महात्माजॉची विलायतची यात्रा	५८
मंगलधाम अथवा सुलभ गांधोवाद	६०	महायुद्ध आणि राष्ट्रसभा	७२
मंगलप्रभात (अनु. पस्ळकर)	६२	महाराष्ट्र खादी पत्रिका	७४
मंगलप्रभात (अनु. सहयर्मी)	६२	महाराष्ट्र खादी पत्रिकेंतील १९३३ ते	
मधुकर	७१	१९३८ पर्यंतच्या निवडक	
मराठी हरिजन	७४	लेखांचा संग्रह	६७
महात्मा (गांधकर)	५७	महाराष्ट्र धर्म (मासिक)	७४
महात्मा (मासिक)	७४	महाराष्ट्र धर्म (साप्ताहिक)	७४
महात्मा गांधी (केळकर)	५७	महाराष्ट्र राष्ट्रीय शिक्षण परिषद-संमेलनांचे	
महात्मा गांधी (टिळ्)	५८	अहवाल व अध्यक्षीय भाषणें	६९
महात्मा गांधी (दामले)	५८	महाराष्ट्र व हिन्दी राजकारण	७२
महात्मा गांधी (फाटक)	५८	महाराष्ट्रांतील कायदेभंगाचा अितिहास	६२
महात्मा गांधी (राष्ट्रसेवक)	५९	महाराष्ट्रांतील शिक्षण शिविरें	६९
महात्मा गांधी (छोटें चरित्र-सीताकान्त)	६०	महारोग	६९
महात्मा गांधी (मोठें चरित्र-सीताकान्त)	६०	माझा कारागृहवास	५९
महात्मा गांधी यांचा कारागृहवास	५७	माझें व्यापक शिक्षण	६९
महात्मा गांधी यांचो पत्रकें	६५	मार्ग व मार्गदर्शक	६१
महात्मा गांधी यांचें आत्मवृत्त		मिरज संस्थानांतोल सारावाढ आणि	
भाग १ ला	५७	रयतांचा सत्याग्रह	६२
महात्मा गांधी यांचें चरित्र (शिखरे)	५९	मूळ शुधोग कांतणें	६९
महात्मा गांधी यांचें चरित्र, अित्यादि			
(अवन्तिकावाधो गोखले)	५७	रचनात्मक कार्यक्रम	६४
महात्मा गांधी यांचें जीवनवृत्त	५९	राष्ट्रमाता कस्तुरबा	५९
महात्मा गांधी यांचे सामर्थ्यवान विचार	७०	राष्ट्रसंवर्धक कार्यक्रम	६४
महात्मा गांधी यांनी लिहिलेला		राष्ट्रीय शिक्षण	६९
स्वतः चा कारागृहवास	५७		
महात्मा गांधी व हिन्दुस्तान सरकार		लाजपतराय यांचें आत्मचरित्र व चरित्र	७३
यांजमधोल समग्र पत्रव्यवहार	६६	लोकमान्य टिळक यांच्या आठवणी व	
महात्मा गांधींची पत्रें (अनु. वसंतमित्र)	७०	आख्यायिका १-३	७३
महात्मा गांधींची भीष्मप्रतिज्ञा	६५	लोकमान्य टिळक व महात्मा गांधी	५७
महात्मा गांधींचें ओझरतें दर्शन	५७	लोकमान्य टिळकांचें चरित्र भाग ३ रा	७२
महात्मा गांधींचें नेतृत्व	५८	लोकशाही	६६
		लोकाशिक्षण	७४

वयांत येणाऱ्या मुलीस	६९	सावली चरखा	६७
वर्षा शिक्षण (मासिक)	६९, ७४	साहित्याची कामगिरी	७०
वस्त्रपूर्णा	६९	मुलभ पेडू	६८
वस्त्रस्वावलंबन मार्गदर्शिका	६७	सुवर्णतुला	७०
वात्सल्याची प्रसाददीक्षा	७०	सेवक	७४
वाल्मीकि आश्रमांतील प्रवचने	७०	सेवाधर्म	६४
वासुकाका जोशी व त्यांच्या काळ	७२	सॅक्रिदोसचें अमर जीवन	६१
विचारपोया	७१	स्थितप्रज्ञदर्शन	६३
विजयी भारत	७१	स्वदेशी व महात्मा गांधींचा चरखा	६८
विद्यार्थी १. संघटनात्मक कार्यक्रम	६८	स्वदेशीचा मीमांसा	६७
विद्यार्थ्यांसाठी विधायक कार्यक्रम	६३, ६८	स्वयंसेवक चक्रवर्ती	७२
विनोबाजी भोंवे	७४	स्वराज्यतपस्या अथवा नत्याग्रह	६०
विभा-सुदर्शन	७१	स्वराज्यशास्त्र	६६
विधायक कार्यक्रम-त्याचें रहस्य व स्थान	६४	स्वराज्यशिष्टाधी	७२
वैभवशाली हिन्दुस्थान	६७	स्वराज्यसोपान	६०
श्रीजवलकरांचे लेख - १	५१	स्वराज्याचा शत्रु	६५, ७३
शेतीशिक्षण भाग १ ला	६९	स्वातंत्र्यदीप अथवा जगांतोल	
सत्यशोधकांना धिपारा अथवा नव्या		असहकारिता	७३
पिढीचें राजकारण	६६	स्वावलंबी ग्रामसंघटना	६३
सत्याग्रह	६०	स्वास्थ्यसंरक्षण	६९
सत्याग्रह व स्वराज्य	६१	हरिजन संत	६५
सत्याग्रही अर्थात जगदंब महात्मा गांधी	५९	हरिजनसेवक संघ - वार्षिक अहवाल	६५
सत्याग्रही महाराष्ट्र	७१	हिंडलग्याचा प्रसाद	६३
सत्याचे पुजारी	५८	हिन्दुस्वराज्य (अनु. तान्हणकर)	६४
संमग्न केळकर - असहकारिता खंड	६६	हिन्दुस्वराज्य (अनु. देशपांडे)	६४
संमग्न केळकर - राजकारण खंड	६६	हिन्दी राजकारणाचें स्वरूप	७२
समाधीक सहकारी स्वराज्य	६६	हिन्दी संस्कृति आणि अहिंसा	६०
समाजवादाचा फेरविचार	६७	हिन्दी स्त्रियांचें जीवन	६३
संपूर्ण स्वदेशी	६७	हिन्दी स्वातंत्र्याच्या योजना	६६
संयम कीं स्वैराचार भाग १-२	६४	हिन्दु धर्माचीं मूलतत्त्वे आणि पुनर्घटना	६३
सरंजाम परिचय	६७	हिन्दुधर्मावरील कलंक	६५
संस्कृतीचें भवितव्य	६४	हिन्दुत्ववाद	६२
सातवी महाराष्ट्र राष्ट्रीय शिक्षण		हिन्दु-मुसलमान	६६
परिषद् - अध्यक्षाीय भाषण	६८	हिन्दु-मुसलमान अन्वय	६५
साधना	७२	हिन्दूचें समाजकारण	६३
ज्ञाने गुरुजी	७१	हुतात्मा महात्मा	७०
सावली कीं माउलो ?	६७		

## बंगाली

अस्पृश्येर मुक्ति	७५	चरकार विप्लव	७८
अहिंसक विप्लव	७५	चरकार व्यवहार	७७
अंतिमे गांधीजी	७७	छात्रदेर गठनमूलक कार्यक्रम	७५
आत्मकथा अथवा सत्येर प्रयोग खण्ड १-२	७५	जागतिक परिवेश ओ गांधीजीर अर्थनीति	७९
आमादेर बापूजी	७८	जातीयतार पथे	७९
आमादेर शिक्षणव्यवस्था	७८	जातीये वरणीर	७८
आरोग्यदहीन	७५	जीवनव्रत वा गांधीवाद	७५
आश्रमभजनावली	७५	तोर्येकर	७९
ऐतिहासिक सत्याग्रह	७८	तुमि महात्मा	७८
कलिकाता - नोआखली - बिहार	७९	तुलसीदासेर रामायण	७७
कलिर दधीचि	७६	दक्षिण आफ्रिकार सत्याग्रहेर अतिहास	७६
कार्पास	७९	नया भारतेर भित्ति	७९
कार्पास शिल्प	७७	नोतिधर्म या गांधीजीर शुपदेश	७६
कॉंग्रेस	७८	नेताजीर पथ ओ गांधीजीर मत	७९
कॉंग्रेसपथ	७६	नोआखलीते गांधीजी	७६
खण्डित भारत	७९	पंडित जवाहरलाल नेहरू-आत्मचरित्र	७८
खेलाफत प्रसंग	७९	पाकिस्तानेर विचार	७९
गांधीकथा	७९	वंदीर डायेरी	७९
गांधो-कोर्तन	७७	वस्तिर गल्प	७७
गांधो गवर्नैट पत्रालाप-१९४२-४५	७५	बापूजी	१९०
गांधीजी की चान	७८	बारडोली सत्याग्रह	७७
गांधीजीके जानते हले	७७	बांसेर चरखा	७७
गांधीजीर अग्निपरोक्षा	७७	बिलाते गांधीजी	७७
गांधीजीर गल्प	७८	बिलाते भारतेर दावो	७६
गांधीजीर जीवनप्रभात	७८	दुनियादी शिक्षार कथा	७५
गांधीजीर परिकल्पना	७५	भारतपथिक	७८
गांधीजीर राष्ट्रपरिकल्पना	७५	भारतपरिचय	७८
गांधीजीर बाणो	७५	भारतमुक्तिसाधक रामानंद चट्टोपाध्याय ओ अर्धशताब्दीर बांगला	७९
गांधीजीर सहित बेक सप्ताह	७८	भारतवर्षीय सभ्यता ओ सांप्रदायिक समस्या	७८
गांधीजीवनेर घटनापत्नी	७५	भारतवर्षेर स्वाधीनता ओ अन्यान्य प्रसंग	७८
गांधीवादेर पुनर्विचार	७७	भारते जातीय आन्दोलन वा जातीय अभिव्यक्ति	७९
गांधीवीणा	७८	भारतेर मुक्तिसंग्राम	७८
गोतादीध	७५		
संग्रामर सत्याग्रह	७९		
चरका ओ निल	७७		



भारतेर मुक्तिसाधक	७८	विष्णुदेर पये काँग्रैस	७७
भारतेर राजकीय ऋण	७७	शिक्षा	७७
भारतेर सभ्यता	७७	शिक्षा ओ सेवा	७३
भारतेर साम्यवाद	७७	शिक्षार वाहन	७५
मनीषी अबुल कलाम आझाद	७८	श्रीमद् भगवद्गीता - गांधीभाष्य	७३
महाजिज्ञासा	७८	सत्याग्रह ओ पाशावकाहिनी	७३
महात्मा गांधी ( चौधरी, मणीन्द्रभूषण )	७१	सत्येर संधाने	७८
महात्मा गांधी ( ठाकुर, रवीन्द्रनाथ )	७२	सभ्यतार संकट	७७
महात्मा गांधी ( मित्र, खणेन्द्र )	७३	समाज	७७
महात्मा गांधी ( मुखोपाध्याय योगेशचंद्र )	७४	सहयोगितावर्जनेन प्रस्ताव	७८
महात्मा गांधी ( मुखोपाध्याय वैद्यनाथ )	७५	संयम वनाम स्वच्छाचार	७३
महात्मा गांधी ( नाटक )		सिंहले गांधीजी	७७
( राय सुबोधकुमार )	७५	सूत्रविज्ञान	७३
महात्मा गांधी ( रायचौधरी )	७७	स्वदेश	७७
महात्मा गांधी ( रोमे रोलां )	७८	स्वराज संगठन	७३
महात्मा गांधीजीर संगे सात मान	७५	स्वराज्य ओ गांधीवाद	७८
महात्मा गांधीर काराकाहिनी	७६	स्वराज्यसाधना	७७
महात्मा गांधीर शान्ति अभियान	७९	स्वाधीनतार अंजलि	७५
महामानव महात्मा	७७	स्वाधीनतार संग्रान	७८
महामानव महात्मा गांधी	७८	स्वास्थ्य खुपाय	७३
मृत्युञ्जय गांधीजी •	७५	स्वास्थ्यरक्षा	७३
यरोडा जेलेर अभिशता	७६	हरिजन पत्रिका	७९
राष्ट्रवाणी	७७	हिन्द स्वराज्य	७३
रिवत भारत	७९	हिन्दुधर्म ओ अस्पृश्यता	७३
वर्तमान भारते महात्मार भावधारा	७८	हिन्दु-मुसलमानेर विरोध	७५
विद्रोही भारत	७६	हिंसा ओ गांधी	७३

## उर्दू

अठारा महीने हिन्दुस्तानमें	८१	औरतोंसे	८०
अंदरूनी हिन्द	८२	कतामीका हिसाब हिस्ता १	८०
आजकल	१२०	कस्तूरबा गांधी	८०
आजाद हिन्द	८०	कौमकी आवाज	८०
आजादीके मंजिल तक	८१	क्या हिंदु जाति महात्मा गांधीके खूनसे	
आपबीती	८०	अपना हाथ रोगी ?	८०
खुशले जन्त या अनीतिकी राहपर	८०	खिलाफत और हिन्दुस्तान	८२
ओटना व धुनना	८१	खुतबाओ आजाद	८०

खुतबाबे सदरत (अजमलखान)	८०	दुनिया-अे-अिसलाम और मस्ले खिलाफत	८२
खुतबाबे सदरत (आजाद, रामगढ)	८०	दुःखी दुनिया	८१
खुतबाबे सदरत (पं. नेहरू)	८१	नओ तालोम (मासिक परचा)	८१
खुतबाबे सदरत (बोस, सुभासचंद्र)	८१	पंजाब हमें क्या सिखाता है	८२
खुराक और सिहत पर मेरे तजरुवात	८०	दुनियादो कौमी तालीम (जाकिर हुसेन	
ख्यालाते महात्मा गांधो	८०	कमेटीकी रिपोर्ट)	८१
गांधी	८१	ब्रह्मचर्य	८१
गांधीजीकी बातें	८०	मजामीने अबुल कलाम आजाद	८०
गांधीहम	८१	मंगलप्रभात	८१
गांधीनामा हिस्सा-१	८१	मुसलमान और कांग्रेस	८०
गीता और कुरान	८१	मुसलमानोंका रोशन मुस्तकविल	८२
जगवीती	८१	मेरी कहानी	८१
जन्ते नफ़स और नफ़सपरस्ती	८०	मेरी राय	१९०
तकली	८१	रियास्ती दुनिया	१९०
तलाशे हक	८१	शाहरा-अे-तन्दुरस्ती	८१
तामीरी प्रोग्राम	८१	हज़रत मुहम्मद और अिसलाम	८२
तामीर जिन्दगी	८१	हमारी कौमी जवान	८१
तोक व कंजोर	८१	हरिजन (साप्ताहिक)	८२
दस्तुरे असादी	८०	हरिजनसेवक	८२
		हिन्दु-मुस्लिम अेकता	८२

## कन्नड

अन्तहकारद मीमांसे	८३	गांधीजियवर आत्मकथे	८३
अस्पृश्यते याके अख्यियवेकु ?	८३	गांधीजीय हास्य प्रकृति	८३
अस्पृश्यतेय कलंक	८३	गांधी दर्शन	८४
अहिसाधर्मद परमावधि	८४	गांधीवाद	८४
आदिजनसुधारणे	८४	गांधीविचार दोहन	८४
फ़तर सनातनी गळिगे केलवु प्रश्नेगळु	८४	गांधीसाहित्य भाग १, २	८३
कर्नाटकद बलिदान	८४	गोरक्षणे	८४
कर्मवीर	८३	ग्रामोद्योग आंदोलन	८४
कांग्रेस चुनावणेय जाहिर पत्रिका	८४	दक्षिण आफ्रिकदल्लि सत्याग्रह	८३
कांग्रेस भारत	८४	निर्भाग्य वीर गौडा	८३
कांग्रेसिन संक्षिप्त इतिहास	८३	नोतिधर्म	८३
खादिय अर्थशास्त्र	८४	पर्णकुटी	८३
खादी-दर्शन	८४	प्रान्तभाषे राष्ट्रभाषे	८४
खादीशास्त्र	८४	वृत्तर भाग्य	८४
गांधियवर चरित्रे	८३	बापू	८४

ब्रह्मचर्ये वो कामसाधने	८३	राष्ट्रीय शिक्षण	८४
भारतद राजनीतिय समस्ये	८४	रैतर प्रपंच	८३
भारतवु भेत्त सगिदे ?	८४	रैतर भाग्योदय	८३
भारतीय स्वातंत्र्यद हेज्जिगळु	८४	वर्धोयात्रे	८३
मकळ गांधी	८३	वर्धो योजने मत्तु न्त्रो शिक्षण	८४
मकळ महात्मा गांधी	८४	वर्धो शिक्षण योजने	८३
मधवानंद दुर्परिणामगळु	८४	वर्धो शिक्षण समितिय वर्दि	८४
महात्तर पत्रगळु, भाग २	८३	सत्याग्रह ( गांधी )	८३
महात्तर मन्तोरंग	८३	सत्याग्रह ( दिवाकर )	८४
महात्मा गांधीयर अनासमितयोग	८३	सान्यवाद वं भेके	८४
संगलप्रभात	८३	स्वातंत्र्य संग्राम	८४
संजीवदद तोडकु	८४	हळ्ळियार कैपिडि	८४
राजकीय विचारतरंग	८३	हिन्द स्वराज्य	८३

### संस्कृत

अहिंसायोग अथवा श्रीमोहनगीता	८५	मोहनपन्नाध्यायी	८५
गांधोप्रवणहम्	८५	वर्णव्यवस्था	८५
गांधीसूत्राणि	८५	विश्वभूति-स्वर्गारोहः	८५
गीतापदार्थकोष	८५	व्रतविचार	८५
पारिजातापहार	८५	श्रीगान्धिचरितम्	८५
भारतपारिजातम्	८५	सत्याग्रहगीता	८५

### सिन्धी

आश्रमवासी	८६	गीताबोध	८६
ओश्वर आहे ? हा, आहे	८६	यरवदा मन्दिर मान	८६

# TITLE-INDEX

## ENGLISH BOOKS

Abdication	149	Annual Report of the	
Above the Battle	150	A. I. C. K. Dept., 1924	138
Activity School	143	Annual Reports of the	
Addendum to the first edi-		A. I. S. A.	138
tion of India Divided	125	Annual Reports of the	
Adult Education Movement	146	A. I. V. I. A.	140
Advance India	164	Annual Reports of the	
Agrarian Distress in the		Harijan Sevak Sangh	120
United Provinces	137	Annual Reports of the Textile	
Ahimsa and World Peace	108	Labour Association	137
Akali Struggle	152	Appeal to Gandhiji	120
Akhand Bharat	170	Are We Two Nations?	126
Akhand Hindustan	170	Art and Swadeshi	186
All about the Khilafat	122	As an Untouchable Feels	
All Parties' Conference		Untouchability	120
1928	126	Ashrams—Ancient and	
All Parties' National		Modern	144
Convention	127	Asian Relations	153
Along the Indian Road	112	Asianism and Other Essays	154
Alternative to Pakistan	122	Assam Congress Opium	
Ambedkar Refuted	120	Enquiry Committee	
Ambedkar's Attack	121	Report, 1925	114
Among the Great	98	At the Feet of the	
Anritsar and Our Duty		Mahatma or the Joys of	
to India	164	Renunciation	105
Annexure to the Report		At the Point of the Spindle	138
on the Financial Obliga-		Atonement	151
tions between Great		Atonement and Non-	
Britain and India	136	Resistance	108
Annie Besant as Woman		Autobiography	
and as Leader	176-77	(M. K. Gandhi)	90
Annihilation of Caste and		Autobiography (Pt. Nehru)	172
a Reply to Mahatma		Autobiography of a Yogi	181
Gandhi	116, 119	Autobiography of John	
		Ruskin - Praeterita	187

Awakening Asia	178	Cabinet Mission	174
Back to Sanity	167	Cabinet Mission and After	127
Bapu Gandhi	96	Cabinet Mission in India	127
Basic National Education :		Call to Young India	167
Revised Syllabus for		Capitalism, Socialism and	
Grades I—IV and also		Villagism	117
Pre-Basic	144	Card-board Modelling	146
Basic National Education :		Case for India (Durant) 90,	159
Syllabus Recommended		Case for India (Hoyland)	164
by the Zakir Hussein		Case for Mulshi Peta	
Committee	142, 144, 147	Satyagraha	110
Bee-Keeping	140	Caste and Outcaste	121
Beggar My Neighbour	160	Cent Per Cent Swadeshi	140
Behave Like Men	175	Centre of Indian Culture	146
Behind the Bars	181	Challenge of the North West	
Bengali-Bihari Question	126	Frontier	152
Birthright	179	Challenge to the East	163
Black Regime at Dharasana	109	Challenge to Women	116
Bleeding Wound	119	Challenge to Youth	146, 177
Blood and Tears	158	Changing India	150
Blood Money	134	Changing Shape of Indian	
Bone Meal Fertilizer	140	Politics	171
Britain and India, 1600-1941	157	Charkha Marxism and Indian	
British Achievement in India	174	Socialism	133
British Empire	180	Charkha Shastra	138
British in Asia	181	Charkha Yarn or the Superiority	
British in India	163	of Handspun Yarn etc.	140
British Propaganda in		Cheap Remedies	148
America	127	Childhood, Boyhood and	
British Savagery in India	180	Youth	187
Brotherhood of Religions	114	Children's Gandhiji	87
Builders of Tomorrow	179	China, Spain and War	171
Burden of Swaraj	131	Chirala Perala Tragedy	109
C. F. Andrews: Minister of		Choice before India	159
Reconciliation	164	Christ and Labour	137
C. P. Ministerial Crisis		Christ and Satyagraha	102
(A. I. C. C.)	126	Christ of Today	92
C. P. Ministerial Crisis		Christian Missions and	
(S. C. Bose)	127	Their Place in India	111

Christian Proselytism in India	113	Congress Golden Jubilee Brochures Nos. 1 - 11	116
Christianity : Its Economy and Way of Life	112, 113	Congress Handbook	152
Chrome Tanning for Cottages	140	Congress in Evolution Pts. I-II	156
Churchill's Blind Spot: India	165	Congress in Office	180
Civil Dis-obedience Movements in India or the Indian Struggle for Freedom	110	Congress in Power	127
Civilization at Bay	118	Congress Ministries at Work	126, 169
Civilization : Its Cause and Cure	134, 186	Congress Political and Economic Studies	116
Claim for Independence	152	Congress Presidential Addresses	171
Clive to Keynes	134	Congress Responsibility for the Disturbances 1942-43	130
Commonsense about India	164	Congress Rule in India	151
Communal Settlement	122	Congress Struggle	162
Communal Triangle in India	124	Conquest of Self	114, 115
Communal Unity	123	Conquest of Violence	102
Communalism in India	122	Conscience of a Nation or Studies in Gandhism	105
Complete Record of the Unity Talks	123	Constituent Assembly of India	127
Condition of India	109, 164	Constitution and Bye-laws of the Gandhi Seva Sangh	103
Confession, The Gospel in Brief and What I Believe	187	Constitutional History of India 1600-1935	130
Congress and the Labour Movement in India	135	Constitutional Proposals of the Sapru Committee	131
Congress and the Masses	118	Constructive Citizenship	186
Congress and the National Movement	175	Constructive Non-Cooperation	101
Congress and the War	151	Constructive Programme for Students	142
Congress and War Crisis	152	Constructive Programme : Its Meaning and Place	117 143
Congress at a Deadlock and the Way Out	129	Constructive Programme : Its Perspectives and Dynamics	117
Congress Bulletin	152, 183		
Congress Caravan 1885-1945	151		
Congress Case	165		

Constructive Programme :		Currency and Exchange	136
Some Suggestions	146	Currency Inflation : Its	
Contemporary Immortals	92	Cause and Cure	134
Contemporary Indian		Current Thought (Monthly)	183
Philosophy	107	Cutting Ice	101
Continent Experiments	155	Dadabhai Naoroji	169
Controlling Minds of Asia	93	Dangers of Obedience	
Correspondence between		and Other Essays	105
Mahatma Gandhi and		Dare You Face Facts?	105
P. C. Joshi	131	Daridranarayana	138
Correspondence between		Daridranarayana or	
Mahatma Gandhi, the		Gandhian Economics	136
Bombay Government and		Dawn of a New Age and	
the Govt. of India	129	Other Essays	173
Correspondence on the		Dawn of Freedom	160
Temple Entry Question	120	Dawn of Indian Freedom	160
Correspondence with Mr.		Dead Animals and	
Gandhi	130	Tanned Leather	140
Cottage Industries and		Decentralization of	
Their Place in National		Khadi Work	138
Economy	140	Delhi Diary	111
Cottage Industries and		Dharma (Journal)	183
Their Role in National		Diamond Jubilee Souvenir	
Economy	140	of the Madras Mahajana	
Cottage Industry and Indian		Sabha	190
Economy	141	Diet	148
Cow in India Vols I-II	133	Dilemma in India	157
Cow Protection	133	Direct Action	105
Cow Protection in India	133	Discipline for Non-violence	103
Craft in Education	142	Discovery of India	171
Creative Art of Life	145	Disillusioned India	170
Creative Revolution	108, 179	Disorders Inquiry Com-	
Cripps Mission	128	mittee (Hunter Commi-	
Critical Note on Hindu		ttee) Report 1919-20	159
Temple Entry Bill	120	Divine Music before	
Cross Moves East	112	Divine Mosques	126
Cult of Ahimsa	107	Drink and Drug Evil in	
Cult of Violence	106	India	114
Cultural History of India	181	Early History of Satyagraha	103

Eastern Religions and Western Thought	187.	Education, Politics and War	146
Eclipse of Faith	149	Education through the Mother Tongue	142
Economic Background	136	Educational Recon- struction	144, 147
Economic Conquest of India	136	Educational Reformation in India	143
Economic Freedom and Economic Planning	136	Educational System	143
Economic History of India	133	Eighteen Months in India	172
Economic Results of Prohibition in the Salem District	115	Elements of Village Administration and Law	131
Economic Structure of Free India	133	Eleven Points of Mahatma Gandhi	131
Economic Survey and Planning	134	Eminent Asians	92
Economics of Khaddar	139	Eminent Indians (Brown)	88
Economics of Khadi (Gandhiji)	138	Eminent Indians (Dhangopal)	89
Economics of Khadi (Rajendraprasad)	139	Eminent Musalmans	171
Economics of Non- violence	135-36	Empire	160
Economics of Perma- nence (Article)	134	Empire of the Nabobs	164
Economics of Permanence Pts. I-II	134	Encyclopædia of Pacifism	104
Economics of Shipping	134	Ends and Means	104
Education for Life	145	Ends are Means	107
Education in India in the XXth Century	145	Enemies of Indian Freedom and Other Essays	159
Education in India Today	145	English in India	169
Education in Modern India	142	Englishman Defends Mother India	181
Education Number (Vishwabharati)	147	Enlist India for Freedom	179
Education of India	145	Entertaining Gandhi	94
Education of the Whole Man	156	Epic Fast	120
Education of Women in Modern India	142	Epic of Travancore	119
		Essay on Gandhian Economics	132
		Essay on the Civilization of India, China and Japan	186
		Essays and Writings of Thoreau	187
		Essentials of Gandhism	107



Ethical Ideals in India		For India and Islam	
Today	114	(Reza ul Karim)	125
Ethical Religion	111	Foreigner Looks at India	178
Ethics of Cottage Industries	141	For India's Uplift	154
Ethics of Destruction	108	Fors Clavegira	187
Ethics of Fasting	111	Foundations of Indian	
Ethics of Passive		Swaraj	132
Resistance	103, 105	Four Crore Artisans Hail	
Europe through		the Gandhian Plan	136
Gandhian Eyes	167	Freedom and Culture	146
Faith That Matters	114	Freedom Come	149
Family Views of Tolstoy	187	Freedom of Faith and Its	
Famous and Historical		Price	151
Trials	91	Freedom's Battle	160
Famous Convocation		From Bondage to Freedom	170
Addresses	147	From Many Angles	178
Famous Letters and		From Nagpur to Lahore	162
Speeches	151	From the Yeravda Mandir	112
Famous Letters and Ulti-		From Wrong Angles	150
matums to the British		Frontier and Its Gandhi	155
Government	181	Frontier Speaks	181
Famous Letters of Mahatma		Fundamental Education	145
Gandhi	160	Futility of the Khaddar	
Famous Personalities	176	Cult	139
Fatal Cart and Other		Future of India (Gandhi)	160
Stories	150	Future of India (Moon)	170
Father India	165	Gandhi (Carl Heath, Onslow)	92
Feathers and Stones	150	Gandhi (Carl Heath, George	
Fields, Factories and		Allen)	92
Workshops	186-87	Gandhi (Sharga)	99
Fifth Annual Report		Gandhi (Weber)	100
— Harijan Sevak Sangh	120	Gandhi: A Biographical	
First Annual Report		Study	93
— Harijan Sevak Sangh	120	Gandhi: A Portrait from Life	89
Flight from the City	186	Gandhi Against Fascism	128
Fool's Paradise	150	Gandhi-Album Pts. I-III	97
For Every Thinking Indian	124	Gandhi and Anarchy	95
For India and Islam		Gandhi and Gandhism	
(Karachi Trial)	152	(Gupta)	92

Gandhi and Gandhism (Sitaramaiyya)	107	Gandhi or Ambedkar	120
Gandhi and Indian Regene- ration	94	Gandhi or Aurobindo	89
Gandhi and Kasturba	91	Gandhi or Cæsar ?	93
Gandhi and Labour	137	Gandhi Seva Sangh	102
Gandhi and Non-violent Resistance	100, 108	Gandhi Sutras	85, 107
Gandhi and Stalin	90	Gandhi the Apostle	95
Gandhi and Tagore	99	Gandhi, the Dawn of Indian Freedom	181
Gandhi and the Anglican Bishops	112	Gandhi—the Greatest Man of the World Vols. I-III	97
Gandhi and the Indian Problem	92	Gandhi thé Holy Man	90
Gandhi and the Indianization of the Empire	88	Gandhi the Internationalist	93
Gandhi and the Youth	97	Gandhi the Mahatma (J. C. Rowe)	98
Gandhi as I Know Him Pts. I-II	100	Gandhi the Master	95
Gandhi as We Know Him	99	Gandhi : The Saint as Statesman	93
Gandhi before Pilate	92	Gandhi the Saviour	87
Gandhi : Champion of the Proletariat	89	Gandhi Triumphant	95, 110
Gandhi Diamond Jubilee Number (S. Ganesan)	91	Gandhi Versus Lenin	89
Gandhi Diamond Jubilee Number (Janmabhumi)	93	Gandhi Versus the Empire	95
Gandhi Era in World Politics	167	Gandhi : World Citizen	94
Gandhi Fights for Freedom	166	Gandhian Constitution for Free India	126
Gandhi Greetings	99	Gandhian Economics	136
Gandhi in Arms	92	Gandhian Economy and Other Essays	134
Gandhi Is India (J. S. Bright)	88	Gandhian Institutions of Wardha	119
Gandhi Is India (V. V. M.)	100	Gandhian Non-Cooperation or Shall India Commit Suicide ?	106
Gandhi-Jinnah Talks	123	Gandhian Plan	132
Gandhi-Mahatmya Vol. I	91	Gandhian Plan Re- affirmed	132
Gandhi-Muslim Conspiracy	123	Gandhian Rambles in the Realm of the New Testament	113
Gandhi : Nationalist or Internationalist	99	Gandhian Way	105

Gandhigrams	181	Gandhism: An Analysis	107
Gandhiji after Release	94	Gandhism and Socialism	103
Gandhiji in England	96	Gandhism: A Review	101
Gandhiji in Indian Villages	89	Gandhism: A Socialist	
Gandhiji in the Battlefield	99	Approach	101
Gandhiji on Communal		Gandhism as I Understand	
Disorders	123	It	108
Gandhiji on Hinduism or		Gandhism in His Own Words	182
Varnashramadharma	114	Gandhism in Theory and	
Gandhiji the Master	95	Practice	101
Gandhiji Through Foreign		Gandhism or Socialism	108
Eyes	94	Gandhism or the Royal	
Gandhiji Through Indian		Road to Happiness	106
Eyes	94	Gandhism Reconsidered	133
Gandhiji's Beads of Wisdom	182	Gandhism vs. Socialism	103
Gandhiji's Birth Control	114	Gems of Mahatma Gandhi's	
Gandhiji's Correspondence		Writings	182
with the Government		General Education and Tech-	
1942-44 .	129	nical Education and	
Gandhiji's Do or Die		Developmental Research	146
Mission	123	Gita the Mother	112
Gandhiji's Fast Diary	88	Glances at Islam	111
Gandhiji's Great Fast-1932	119	Glimpses of World History	172
Gandhiji's Leadership and		Glory and Bondage	177
the Congress Socialist		God's Lenses	115
Party	165	Golden Book of Tagore	149
Gandhiji's Reasons for His		Golden Number of 'Indian	
Proposed Retirement from		Opinion'	93
the Congress	128	Good Life	112
Gandhiji's Satyagraha or		Gopal Krishna Gokhale:	
Non-Violent Resistance	103	His Life and Speeches	164
Gandhi's Challenge to		Gospel of Freedom	108, 179
Christianity	112	Gospel of Gandhi	105
Gandhi's Great Fast	88	Gospel of Selfless Action	
Gandhi's Letters on Indian		or the Gita according	
Affairs	161	to Gandhi	102
Gandhi's Non-Violence	103	Gospel of Swadeshi	134
Gandhi's Suppressed Letter	174	Government of India's	
Gandhi's Wisdom Box	182	Despatch on the	

Proposals for Constitutional Reforms	129	Hindu-Muslim Unity (Alivi and Jaisinghani)	122
Gramodyoga Patrika	183	Hindu-Muslim Unity (Bapat)	122
Great Challenge (Fischer)	128	Hindus and Musalmans of India	122
Great Challenge (Sitharam)	132	Hints on National Education in India	146
Great Contemporaries	88	Historic Correspondence	161
Great Leader	168	Historical Trial of the Ali Brothers and Five Others	126
Great Men of India (Home Library Club)	100	History of Civilization in Ancient India	186
Great Nehrus	155	History of Nationalism in the East	167
Great Prisoners	149	History of Peace	186
Great Thoughts of Mahatma Gandhi	182	History of the Congress Socialist Party	167
Great Trial of Mahatma Gandhi and Mr. Shankarlal Banker	95	History of the Indian National Congress vols I-II	177
Guide to Health	148	History of the Indian Nationalist Movement	168
Guide to the Communal Problem in India	124	History of Wage Adjust- ment in the Ahmedabad Industry Vols III & IV	137
Gujarat and Its Literature	150	Homage to Gandhi	95
Guru-Ka Bag	110	Home and Village Doctor	148
Guru-Ka Bag Satyagraha	190	House Divided	166
Hand-made Paper	140	House That Jinnah Built	166
Hand-Spinning and Hand- Weaving	139, 140	How Can India Become Free?	161
Harijan (Weekly)	184	How Christ Met Aggression?	104
Harijans Through the Ages	121	How Does Mahatma Gandhi Live at Sevagram?	89
Haripura Congress Guide	158	How India Can Be Free?	152
Has Congress Failed?	178	How to Compete with Foreign Clcth?	139
Heart of Aryavarta	175		
Heart of Hindustan	113		
He Followed Christ	92		
Heritage of Asia	98		
Heroes of the Hour	91		
Hind Swaraj or Indian Home Rule	117		
Hindu-Muslim Problem	122		
Hindu-Muslim Questions	122		
Hindu-Muslim Tension	123		

I Ask Every Briton	161	India, America and World	
I Follow the Mahatma	95	Brotherhood	178
I Fought for My Country	169	India and Democracy	132
I Have It from Gandhiji	178	India and Freedom	152
I Have Shed My Tears	166	India and Its Government	127
I Lived with Gandhi	90	India and the Four	
I Meet Gandhi	92	Freedoms	173
I too Have Spun	139	India and the National	
I Will Not Rest	150	Congress	161
I Write as I feel	151	India and the New World	
Ideal Swaraj	154	Order	166
Ideals of Non-Cooperation	105	India and the Pacific	152
Ideas on Education		India and the Simon Report	152
for Life	142	India and the War	151
If Britain Quit India?	180	India and the World and	
Impending Fast of		Other Essays	172
Mahatma Gandhi	121	India and World Politics	168
Imperialism Unmasked	160	India: A Re-Statement	128
Important Speeches of		India Arisen	179
Jawaharlal Nehru	155, 172	India as I Knew it	173
In Round Table Conference	161	India at War	128
In Search of Truth	94	India: A Warning	166
In the Lahore Fort	190	India Bond or Free?	154
In the Path of Mahatma		India Calling	160
Gandhi	88	India Divided	125
Incomparable India	155	India Drifts Away	165
Indentured Labour	136	India from a Back Bench	153
Independent India and a		India, Gandhi and World	
New World Order	167	Peace	97
India (Ed. Bhandarkar)	154	India in Bondage	178
India (Buchan)	156	India in Chains	179
India (Chirol)	157	India in Crisis (Brockway)	156
India (Coatman)	184	India in Crisis (Duncan)	159
India (Hodder and		India in England	172
Stoughton)	168	India in Ferment	179
India (Ramàn, T. A.)	174	India in 1919	180
India—A Bird's Eye View	180	India in 1921	180
India—A Plea for Under-		India in 1921-22	180
standing	167	India in 1924-25	180

India in 1925-26	157	India Today ( Gollanez )	159
India in 1926-27	157	India Today (Parkins )	173
India in 1927-28	157	India Today ( Sunshine )	159
India in 1928-29	157	India Today and Tomorrow	
India in 1929-30	162	( Barnes )	154
India in 1930-31	162	India Today and Tomorrow	
India in 1931-32	162	( Montmorency )	170
India in 1932-33	162	India Under the British	
India in 1933-34	162	Crown	154
India in 1934-35	162	India Unreconciled	129
India in Revolt	160	India We Saw	156
India in the Balance	166	India We Served	168
India in the Crucible	165	India: What Can It	
India in Transition	173	Teach Us ?	187
India in World Politics	166	India, What Now	162
India Insistent	156	India Without Fables	169
India Land of Regrets	175	Indian Annual Register	184
India of My Dreams	182	Indian Chaos	181
India Old and New	157	Indian Charter	167
India on the Brink	94	Indian Christians	171
India on Trial	161	Indian Commentary	162
( Gandhiji )		Indian Commercial and	
India on Trial	181	Press Opinions on the	
( Woolscott )		Bill for Reservation of	
India Reveals Herself	169	Coastal Traffic of India	134
India Round Table Con-		Indian Constitutional	
ference and After	168	Documents	127
India Since Cripps	151	Indian Crisis ( Hayes )	163
India Speaking	118	Indian Crisis ( The Daily	
India Speaks	150	Mail Blue Book )	153
India Steps Forward	156	Indian Crisis: The Back-	
India That Shall Be	154	ground	164
India, the Commission		Indian Culture, Its Strands	
and the Conference	179	and Trends	116
India: The New Phase	175	Indian Deadlock	171
India the Road to		Indian Diary	170
Self-Government	157	Indian Earthquake	152
India Today ( Dufett and		Indian Education	144
Others )	159	Indian Ferment	151

Indian Foreign Policy	130	Indian Shipping	135
Indian Home Rule	117	Indian Shipping Pamphlets	136
Indian Independence the Immediate Need	153	Indian Socialism	133
Indian Liberalism: A Study	171	Indian States' Problem	128
Indian Nation Builders Pt. III	91	Indian Struggle 1920-1934	155
Indian National Congress (De Mello)	158	Indian Struggle for Freedom, A History	167, 170
Indian National Congress (Kripalani)	167	Indian Studies	179
Indian National Congress (Patil)	173	Indian Tangle	153
Indian National Congress (Dasgupta)	158	Indians in Foreign Lands	130
Indian National Congress 1920-1923 (A. I. C. C.)	152	Indians in South Africa (Andrews, C. F.)	153
Indian National Trade Union Congress — Constitution	137	Indians in South Africa (Shafaat Ahmed Khan)	176
Indian Nationalism	163	Indians of South Africa	173
Indian Opinion	184	Indian View	173
Indian Parties and Politics	131	Indian War of Independence	154
Indian Politics	129	Indian White Paper	130
Indian Politics: A Survey	163	Indian Womanhood Today	116
Indian Politics since the Mutiny	157	Indian Year Book and Who's Who	185
Indian Press	154	India's Adventure	180
Indian Problem (Andrews)	158	India's Awakening	180
Indian Problem (Craddock)	158	India's Case for Freedom	174
Indian Problems	165	India's Case for Swaraj	161
Indian Problems in Religion, Education and Politics	180	India's Challenge to Christians	118, 170
Indian Prohibition Manual	115	India's Challenge to Civilization	117
Indian Recorder	185	India's Charter of Freedom	127
Indian Review	185	India's Claim for Home Rule	161
Indian Revolution and the Constructive Programme	116	India's Constitution at Work	127
Indian Rural Problem	141	India's Fight for Freedom	156
		India's Outcastes: A New Era	120
		India's Political Crisis	164
		India's Problem Can Be Solved	130

India's Problem of Her Future Constitution	125	Journal of the East India Association	159
India's Social Heritage	118	Journey Among Warriors	159
India's Stand	168	Justice Among Nations	186
India's Struggle	174	Justice in War Time	107
India's Struggle for Swaraj	174	Kalki or the Future of Civilization	119
India's Will to Freedom	167	Kasturba Gandhi (Miss Dhanachandra)	90
Indo-Aryan and Hindi	147	Kasturba Gandhi (Thomas)	99
Indo-Muslim Culture	125	Kasturba Gandhi's Last Hours	94
Inequality of Man	117	Key to Health	148
Inside Asia	163	Key to Yeravda	170
Inside Congress	176	Khaddar Under Searchlight	139
Inside India	160	Khaddar Work in India	138
Inside Pakistan	123	Khadi Bulletins	138
Intelligent Man's Guide to the Wardha Scheme of Education	143	Khadi Centres	138
Intelligent Man's Way to Prevent War	101	Khadi Guide 1930-31 (A. I. S. A.)	138
International University of Non-violence: Principles and Planning	146	Khadi Guide 1925 (Khadi Information Bureau)	139
Introduction to India	170	Khadi in Kashmir	139
Introduction to Pacifism	106	Khadi Manual Pts. I & II	138
Is India Different?	102	Khadi Tour	138
Is Mahatma Gandhi the Greatest Man of the Age?	96	Khaksar Movement Under Searchlight	125
Is Pakistan Necessary?	124	Khilafat and England	168
Is This Peace?	107	Kill or Cure?	105
Islamic Culture	111	Kingdom of God Is Within You and Peace Essays	187
Jai Hind Pamphlets 1-10	130	Labour in India	137
Jail Diary	150	Lands of the Thunderbolt	175
Jawaharlal Nehru	167	Latest Fad	144
Jesus Christ and the Present Situation in India	112	Law and Order in Midnapur	110
Jinnah Sahib, 'Please!'	123	Leader by Merit	166
Joseph Doke the Missionary- Hearted	158	Leaders' Correspondence with Mr. Jinnah	124



Leaders, Dreamers and Rebels	160	Living India	181
Leaders of India (Alva)	87	Living Thoughts of Tolstoy	187
Leaders of India (Mehorally)	95, 169	Living Torch	149
Leading Political Parties in India	128	Loin Cloth Laid Bare	115
League Demand	125	Lord Chelmsford's Vice-Royalty	162
Left Wing and Right Wing	105	Lost Dominion	156
Lenin and Gandhi	90	Loyal India	159
Letters of Iqbal to Jinnah	123	M. K. Gandhi (Oxford)	96
Letters of the Rt. Hon. V. S. Shrinivas Shastri	150	M. K. Gandhi (Ram Mohanalal)	97
Letters of John Chinaman	186	M. K. Gandhi and the South African Indian Problem	95
Letters on Imperial Rela- tions, Indian Reforms, Constitutional Law	130	M. K. Gandhi: The Man of the Moment	90
Letters on India	152	Mahatma and the World	99
Letters to a Friend	151	Mahatma Gandhi (Aiyer)	87
Letters to Gandhi and to Others	149	Mahatma Gandhi (Akkad)	87
Life and Experiences of a Bengali Chemist Vols I-II	174	Mahatma Gandhi (Baros)	87
Life and Speeches of Pt. Jawaharlal Nehru	172	Mahatma Gandhi (Bookwala)	88
Life and Teachings of Tolstoy	188	Mahatma Gandhi (Dara)	89
Life and Times of C. R. Das	175	Mahatma Gandhi (Holmes and Herrington)	93
Life of Gopal Krishna Gokhale	175	Mahatma Gandhi (Natarajan)	96
Life of Lokamanya Tilak	153	Mahatma Gandhi (National Literature Publishing Co.)	96
Life of Mahatma Gandhi	87	Mahatma Gandhi (Polak)	96
Life of Tolstoy: First Fifty Years	187	Mahatma Gandhi (Ed. Radhakrishnan)	97
Life of Tolstoy: Later Years	187	Mahatma Gandhi (Ramulu)	97
Lingua Indiana	148	Mahatma Gandhi (Veillier)	100
Little Known Facts about Well-Known People	88	Mahatma Gandhi (Wadia)	100
		Mahatma Gandhi: A Study (Jaisinghani)	93
		Mahatma Gandhi: A Study (Kaila)	93

Mahatma Gandhi : An Essay in Appreciation	91	Mahatma Gandhi's Reply (with appendices) to "Congress Responsibility for the Disturbances, 1942-43"	128
Mahatma Gandhi : An Interpretation	190	Mahatma Gandhi's Sayings	182
Mahatma Gandhi and His Significance	96	Mahatma Gandhi's Warning and Flashes in Harijan Tour	120
Mahatma Gandhi and India's Struggle for Swaraj	99	Mahatmaji and the Depressed Humanity	121
Mahatma Gandhi and the Modern World	89	Makers of India	97
Mahatma Gandhi as Viewed by Eminent Men	88	Making of the Indian Constitution	127
Mahatma Gandhi at Work	87	Mammonart	150
Mahatma Gandhi : Builder and Liberator	91	Man Gandhi	97
Mahatma Gandhi : His Life, Work and Influence	89	March of Events Pt. I	155
Mahatma Gandhi : His Life, Writings and Speeches	92, 182	March of Events Pts. II & III	168
Mahatma Gandhi : His Own Story	87	Marching Millions	170
Mahatma Gandhi Memorial Number (Vegetarian News XXVII)	149	Match Manufacture in Cottages	140
Mahatma Gandhi : Sketches in Pen and Pencil	89	Maulana Abul Kalam Azad	158
Mahatma Gandhi : Superman of the Age	99	Meaning of Life	102
Mahatma Gandhi : the Grea- test Rogue of India	89	Meaning of Non-Co- operation	101
Mahatma Gandhi : The Man and His Mission	96	Meaning of Pakistan	123
Mahatma Gandhi : The Man Who Became One with the Universal Being	98	Medium of Education : A Symposium	145
Mahatma Gandhi's Arrest	96	Medium of Instruction	142
Mahatma Gandhi's Confessions	91	Memorandum Submitted to the Rent Inquiry Committee in August 1938 and to the Textile Labour Inquiry Committee 1939	137
Mahatma Gandhi's Ideas	101	Memories of Bapu	92
		Men and Machines	116
		Menace of Hindu Imperialism	159

102	Non-Violent Coercion	102	Non-Violence the Invisi-
103	Non-Violent Non-Coopera-	103	ble Power
156	tion	106	Non-Violence in Peace
105	Non-Violent Revolution	106	and War
105	Of Use to Workers and	109	Aggressive World
128	Voters	109	Non-Violence in an
142	Oil Extraction	110	Lands
140	On Khaddar	110	Non-Cooperation in Other
187	On Life and Essays in	106	Non-Cooperation in Egypt
187	Religion	146	Congress Week
94	On Tour with Gandhiji!	146	Non-Cooperation in
100	One Hundred Great Lives	101	Students
144	One Step Forward	101	Non-Cooperation and
156	Open Letter to Mr. Gandhi!	108	Other Writings
124	Open Letter to the	139	Non-Cooperation and
124	Muslim League	139	National Idealism
129	Ordeal Begins	171	Work in Kerala
150	Other Harmony	171	Nine Years of Khadi!
158	Our Countrymen Abroad	172	New Outlook
137	Our Economic Problem	144	New India Speaks
143	Our Education	136	New Education
118	Our Fault	136	India
176	Our Heritage and Its	154	New Economic Menace to
176	Significance	154	New Deal in Indian Politics
176	Our Indian Heritage	124	Communal Problem
147	Our Language Problem	124	New Approach to the
167	Our Struggle for Freedom	106	on Earth
94	Out of Dust	179	Neo-Gandhism or Heaven
174	Outlines of a National	153	Nehru Your Neighbour
174	Revolutionary Path	96	India
134	Overall Plan for Rural	172	Nehru the Rising Star of
173	Development	172	Nehru on Gandhi
103	Pacifism as a Principle and	106	Nehru Things a Challenge
103	Pacifism as a Dogma	106	Necessity of Pacifism
101	Pacifism in the Modern	162	Nation's Voice
	World	169	Nationhood for India
		132	Nationalists vs. Moderates
		168	India
			Nationalism in Conflict in

Nationalism in Conflict in India	168	Non-Violent Coercion	102
Nationalists vs. Moderates	132	Non-Violent Non-Cooperation	156
Nationhood for India	169	Non-Violent Revolution	105
Nation's Voice	162	Of Use to Workers and Voters	128
Necessity of Pacifism	106	Oil Extraction	142
Nehru Flings a Challenge	172	On Khaddar	140
Nehru on Gandhi	96	On Life and Essays in Religion	187
Nehru the Rising Star of India	153	On Tour with Gandhiji	94
Nehru Your Neighbour	179	One Hundred Great Lives	100
Neo-Gandhism or Heaven on Earth	106	One Step Forward	144
New Approach to the Communal Problem	124	Open Letter to Mr. Gandhi	156
New Deal in Indian Politics	154	Open Letter to the Moslem League	124
New Economic Menace to India	136	Oppression of the Poor	116,137
New Education	144	Ordeal Begins	129
New India Speaks	172	Other Harmony	150
New Outlook	171	Our Countrymen Abroad	158
Nine Years of Khadi Work in Kerala	139	Our Economic Problem	137
Non-Cooperation and National Idealism	108	Our Education	143
Non-Cooperation and Other Writings	101	Our Fault	118
Non-Cooperation and Students	146	Our Heritage and Its Significance	176
Non-Cooperation in Congress Week	106	Our Indian Heritage	176
Non-Cooperation in Egypt	110	Our Language Problem	147
Non-Cooperation in Other Lands	109	Our Struggle for Freedom and Democracy	167
Non-Violence in an Aggressive World	106	Out of Dust	94
Non-Violence in Peace and War	103	Outlines of a National Revolutionary Path	174
Non-Violence the Invisible Power	102	Overall Plan for Rural Development	134
		Oxford Pamphlets on Indian Affairs	173
		Pacifism as a Principle and Pacifism as a Dogma	105
		Pacifism in the Modern World	101

Men and Supermen of India	87	Must England Lose India ?	173
Message of the Birds	180	Mutual Aid	187
Message of the East	186	My Adopted Country	166
Mind of Mahatma Gandhi	182	My Appeal to the British (Pub. Hingorani)	161
Miss Mayo's Mother India — A Rejoinder	171	My Appeal to the British (Pub. Longmans)	161
Modern India (Dutt)	159	My Early Life	91
Modern India (Rutherford)	175	My Host the Hindu	94
Modern India and the West	173	My Impressions of India	177
Modern Islam in India	125	My India	153
Modern Review	185	My India, My America	176
Mohammed Ali Jinnah	175	My Jail Experiences	91
Monograph on Common Salt	134	My Life : A Fragment	152
Moplah Rebellion, 1921	171	My Master Gokhale	175
Moral Challenge of Gandhi	92	My Motherland	180
Moral Equivalent of War	104	My Motherland Series	178
Moral Man and Immoral Society	106	My Religion	112
Moral Rearmament	101	My Soul's Agony	119
Mother India	169	Mystery of Sir Stafford Cripps	186
Mother Kasturba Gandhi	98	Naked Fakir	88
Mr. Gandhi (Satyendra Ray)	97	Nakli Ghee	148
Mr. Gandhi : An Indian Patriot in South Africa	90	Nation at Bay	171
Mr. Gandhi and the Emancipation of the Untouchables	119	Nation Betrayed	179
Mr. Gandhi as I Know Him (Part I)	100	Nation in the Making	154
Mr. Gandhi : The Man	96	National Being	186
Mr. Jinnah	171	National Education : A Symposium	143
Muslim Demand for Pakistan	123	National Flag (M. K. Gandhi)	161
Muslim Problem of India	124	National Flag (Rajagopalachariar)	110
Muslim Politics	124	National Language	147
Muslims and the Congress	125	National Language for India	147
		National Self-Realization	178
		Nationalism	167
		Nationalism and Reform in India	177

Nationalism in Conflict in India	168	Non-Violent Coercion	102
Nationalists vs. Moderates	132	Non-Violent Non-Cooperation	156
Nationhood for India	169	Non-Violent Revolution	105
Nation's Voice	162	Of Use to Workers and Voters	128
Necessity of Pacifism	106	Oil Extraction	142
Nehru Flings a Challenge	172	On Khaddar	140
Nehru on Gandhi	96	On Life and Essays in Religion	187
Nehru the Rising Star of India	153	On Tour with Gandhiji	94
Nehru Your Neighbour	179	One Hundred Great Lives	100
Neo-Gandhism or Heaven on Earth	106	One Step Forward	144
New Approach to the Communal Problem	124	Open Letter to Mr. Gandhi	156
New Deal in Indian Politics	154	Open Letter to the Moslem League	124
New Economic Menace to India	136	Oppression of the Poor	116, 137
New Education	144	Ordeal Begins	129
New India Speaks	172	Other Harmony	150
New Outlook	171	Our Countrymen Abroad	158
Nine Years of Khadi Work in Kerala	139	Our Economic Problem	137
Non-Cooperation and National Idealism	108	Our Education	143
Non-Cooperation and Other Writings	101	Our Fault	118
Non-Cooperation and Students	146	Our Heritage and Its Significance	176
Non-Cooperation in Congress Week	106	Our Indian Heritage	176
Non-Cooperation in Egypt	110	Our Language Problem	147
Non-Cooperation in Other Lands	109	Our Struggle for Freedom and Democracy	167
Non-Violence in an Aggressive World	106	Out of Dust	91
Non-Violence in Peace and War	103	Outlines of a National Revolutionary Path	174
Non-Violence the Invisible Power	102	Overall Plan for Rural Development	134
		Oxford Pamphlets on Indian Affairs	173
		Pacifism as a Principle and Pacifism as a Dogma	105
		Pacifism in the Modern World	101

Pacifism Today and Tomorrow	103,108	Planned Economy — A Gandhian Approach	134
Pacifist Programme in Time of War, Threatened		Pleasures and Privileges of the Pen	166
War and Fascism	103	Pledge of Peace	106
Pakistan (Allied Publishers)	125	Plighted Word	121
Pakistan: A Hindu View	124	Political Gita	132
Pakistan: A Nation	123	Political India	158
Pakistan and National Unity	122	Political Insanity of India	179
Pakistan Examined	125	Political Philosophies since 1905	131
Pakistan Issue	124	Political Philosophy of Mahatma Gandhi	102
Pakistan the Problem of India	122	Political Philosophy of Mr. Gandhi	107
Palm Jaggery	141	Political Problems and Hunter Committee Disclosures	172
Pandit Motilal Nehru	155	Politics of the Charkha	130
Paper Making (Joshi)	141	Poona Statements	126
Paper Making by Hand in India (Hunter)	141	Portraits and Personalities	89
Parliamentary Government in India	132	Post-War Educational Development in India	145
Passing Phase of Politics	104,166	Poverty and Un-British Rule in India	133
Peace and Prosperity	118	Power of Non-Violence (Gandhiji)	103
Peasant and Prince	155	Power of Non-Violence (Gregg, Navajivan)	103
Peshawar: Men vs. Machine Guns	110	Power of Non-Violence (Gregg, Revd. American ed. 1944)	104
Philosophy of Non-Cooperation	101	Practical Non-Violence	105
Philosophy of the Village Movement	141	Practice and Precepts of Jesus	113
Philosophy of Work and Other Essays	118	Prayer and Other Sketches of Mahatma Gandhi and the Moods of the Mahatma	90
Pictorial Life Sketch of Gandhiji, the Living Saint of India	95	Prayers, Praises and Psalms	113
Picture of India	164	Preparation for Science	143
Pilgrim's March	162		
Plain Talk with Britain	165		
Plan for the Economic Development of the North West Frontier Province	134		

President Kripalani and His Ideas	155	Pros and Cons of Council Controversy	131
Presidential Address of Gandhiji, Belgaum Congress	161	Prosperous British India	133
Presidential Address of Kripalani, Meerut Congress	167	Psychology and Strategy of Gandhi's Non-Violent Resistance	104
Presidential Address of B. C. Pal, Bengal Provincial Conference 1921	173	Psychology of Gandhi	91
Price for Liberty	190	Public Finance and our Poverty	135
Problem of Aborigines in India	121	Public Opinion on the Assisted Emigration Scheme Under Indo- South African Agreement	174
Problem of Democracy in India	132	Question of the National Language	147
Problem of Hindustani	148	Question : Whither India	157
Problem of India (Shelvankar)	176	Questionnaire for the Survey of Village Industries	135
Problem of India's Future	179	Quintessence of Gandhism	108
Problem of the Minorities or Communal Represen- tation in India	124	Quit India	161
Proceedings of the Federal Structure Committee	129	Rabindranath Tagore	149
Proceedings of the Indian Round Table Conference Ist. Session	130	Ramanama the Infallible Remedy	112
Proceedings of the Indian Round Table Conference 2nd. Session	129	Ranade, Gandhi and Jinnah	87
Proceedings of the Leaders' Conference convened at Delhi	168	Rashtra Vani	185
Prohibition: The Dawn of a New Era	115	Rational Life and Non- Cooperation	104
Property or Peace ?	101	Rationale of Untouchability	121
Prophets and Patriots	87	Rebel India	155
Proposals for Indian Consti- tutional Reforms	130-131	Recent Essays and Writings	172
		Recollections and Essays	187
		Recollections and Reflections	176
		Recommendations of the National Education Committee	144



Reconciliation	185	Committee of the Congress	157
Reconciliation : Why and How?	174	Report of the Committee Appointed by the Cawnpore Harijan Sevak Sangh in May 1933	120
Reconstruction and Rural Education in India	146	Report of the Committee Appointed by the Government of India to Investigate the Distur- bances in the Punjab etc.	164
Reconstruction of India	179	Report of the Disorders Inquiry Committee (Hunter Committee) 1919-20	159
Reflections on Gandhiji's Hind Swaraj	190	Report of the Economic Programme Committee	132
Reflections on the Gandhian Revolution	105	Report of the Enquiry into the Alleged Police Oppressions at Char Minar	109
Religion and Society	113	Report of the Financial Obligations between Great Britain and India	133
Religion of Jesus	113	Report of the Fundamental Rights Committee	128
Religion of Man	114	Report of the Guruka Bag Congress Inquiry Committee	109
Remakers of Mankind	180	Report of the Indian Statutory Commission Vols. I-II ( His Majesty's Stationery Office)	129
Renascent India (Venkata- ramani)	180	Report of the Indian Statutory Commission Vols. I-II (Govt. of India)	129
Renascent India (Zacharias)	181		
Replies to the Question- naire of the Textile Labour Inquiry Committee	137		
Report of the Administra- tion of the Excise Department of the Government of Bombay	114		
Report of the Adult Education Committee 1938	145		
Report of the All Parties Conference 1928	131		
Report of the Asiatic Inquiry Committee	162		
Report of the Civil Disobedience Inquiry Committee	108		
Report of the Commis- sioners Appointed by the Punjab Sub-			

Report of the Industrial Survey Committee, Government of C. P. and Berar	135	Report on the Emigrants Repatriated to India	155
Report of the Joint Committee on Indian Constitutional Reform : Session 1933-34. Vol. I, Pt. I	131	Report on the Public Instruction in the Bombay Province 1937-38, 1938-39, 1939-40	143
Report of the Non-Official Public Inquiry on Police Excesses in Madras	110	Report on the Vocational Training in Primary and Secondary Schools and Consequent Re-organization	143
Report of the Peasant Enquiry Committee of the Maharashtra P. C. C.	135	Report on the Working of Prohibition in the Salem District	151
Report of the Peshawar Enquiry Committee	110	Report to Gandhiji	151
Report of the Royal Commission on Agriculture in India	135	Reports of Annual and Special Sessions of the I. N. Congress	165
Report of the Royal Commission on Labour in India	137	Reports of the General Secretary on the Working of the I. N. Congress	152
Report of the Second War-dha Educational Committee of the Central Advisory Board of Education 1939	145	Reports of the Society for the Promotion of National Education	146
Report of the Select Committee on Asiatic Grievances	174	Representative Indians	89
Report of the Special Enquiry into the Second Revision Settlement of the Bardoli and Chorasi Talukas	133	Resurgence of Asia	174
Report of the Temple Entry Committee	121	Resurrection of the Congress	154
Report of the Vocational Education in India	142	Return to Nature	148
Report of What Happened at Borsad	109	Review of the Gandhi Movement in India	175
Report on India	174	Revolt of Asia (Close, Upton)	157
		Revolt of Asia (Payne, Robert)	173
		Revolt of the East	117
		Revolution and Counter Revolution	165
		Revolution and Evolution	106
		Revolution in India	163
		Rice	48

Rise and Fulfilment of British Rule in India	179	Satyagraha in South Africa	109
Rise and Growth of the All- India Muslim League	124	Satyagraha : Its Technique and History	102
Rise and Growth of the Congress	153	Sayings of Mahatma Gandhi	182
Rise and Growth of Indian Nationalism—Nonviolent Nationalism : Gandhi and His School	102,156	Sayings of Muhammad	113
Road to Peace and Pakistan	126	Science and Progress	118
Romain Rolland : The Story of a Conscience	153	Science, Liberty and Peace	104
Romance of Scientific Bee Keeping	140	Searchlight on Gandhi	93
Round Table Conference	131	Secret of Hindu Sangathan	159
Round Table Conference : India's Demand for Dominion Status	131	Secular State for India	130
Rowlatt Bills and Satyagraha	103	Selections from Mahatma Gandhi	182
Ruin of Indian Trade and Industries	133	Selections from the Speeches and writings of S. Sinha	177
Ruin That Britain Wrought	118	Self-Restraint vs. Self- Indulgence	115
S. Srinivasa Iyengar	165	Sermon on the Mount,	111
Sabarmati 1928	111	Sermon on the Sea	117
Salute the Mahatma	94	Seven Months with Mahatma Gandhi Vols. I-II	94
Santiniketan Pilgrimage	97	Sex and Culture	115
Sardar Vallabhbhai Patel	177	Sex Sermons from the Loin Cloth	115
Sati Kasturba	96	Shastras on Untouchability	119
Satyagraha ( Home Rule Series )	103	Sheaf of Gandhi Anecdotes	97
Satyagraha 1910-35 ( Gandhiji )	103	Short History of India	157
Satyagraha and the Potentialities of the Congress	107	Short History of Our Times	177
Satyagraha Ashram ( Rules and Regulations )	106	Simla Triangle	124
Satyagraha in Champaran	110	Simplification of Life	186
		Sixth Annual Report of the Hindustani Talimi Sangh	144
		Sixty Years of Congress ( Satyapal and Probodh- chandra )	176
		Sixty Years of Congress ( Sitaramayya )	177

Smuts-Gandhi Agreement of 1914	109	Speeches and Statements of the Marquess of Linlithgo (1936-43)	168
So I Became a Minister	173	Speeches and Writings of Annie Besant	154
Soap Making	141	Speeches and Writings of Dadabhai Naoroji	158
Social Back-ground of Indian Nationalism	116	Speeches and Writings of Dr. S. S. Iyer	165
Social Problem	118	Speeches and Writings of Mahatma Gandhi	182
Social Welfare	135	Speeches and Writings of Shrimati Sarojini Naidu	171
Socialism and Gandhism (Mehta, Ashok)	105	Speeches of Bhulabhai J. Desai	158
Socialism and Gandhism (Sitaramayya)	107	Speeches of G. K. Gokhale	162
Socialism in India	136	Speeches of H. E. Lord Hardinge of Penhurst	163
Socialism Reconsidered	135	Speeches of the Earl of Willingdon	180
Some Aspects of Indian Education — Past and Present	143	Speeches of the Rt. Hon. Sir Samuel Hoare	163
Some Aspects of Khadi	139	Spinning and Khadi	138
Some Fundamentals of the Indian Problem	177	Spirit and Struggle of Islam	126
Some Indian Leaders	99	Spirit of India	162
Some Indian Problems	181	Spiritual Basis of Social Service	119
Some Non-Political Achievements of the Congress	118	Spiritual Swadeshi and Huma- nitarian Nationalism	134
Son of Mother India Answers	170	Spiritual Triumph of Gandhi Maharaj	88
Song of India	157	Spotlights on the Culture of India	164
Songs from Prison	112	Status of Indian Princes	131
Sound of Swaraj	161	Steps Towards Indian Home Rule	181
Soya Bean	140	Sterling Securities	135
Special Hind Swaraj Number of the 'Aryan Path', Sept. 1938	101		
Speeches of Maulana Mohammed Ali	152		
Speeches and Statements of Iqbal	165		

Stone Walls and Iron Bars	167	Sword of Gold: A Life of	
Story of a Satyagraha in a		M. K. Gandhi	100
South Indian Village	110	Table of Indian Food	
Story of Bardoli	109	Values and Vitamins	148
Story of Civilization Vol. I.		Tagore and Gandhi Argue	149
—Our Oriental Heritage	159	Tagore, Gandhi and Nehru	94
Story of India	170	Takli Teacher	143
Story of Peace Negotiations	131	Teachings of Mahatma	
Story of Simla	128	Gandhi	182
Story of the Human Race	99	Telegraphic Correspondence	
Strange Little Brown Man,		Regarding the Situation	
Gandhi	90	in India	132
Strangers in India	170	Testament of India	98, 176
Struggle for Freedom of		Textile Policy of the Madras	
Religious Worship in		Government	331
Jaito	110	Theosophy and Untoucha-	
Student Movement In India	146	bility	121
Studies in Gandhism	101	These Hurrying Years	163
Studies in the Renaissance		They Speak for India	157
of Hinduism in the Nine-		They Told Me So	179
teenth and Twentieth		Thinking Hand	145
Centuries	98, 113	Third Annual Report of the	
Studies of an Imperialist		Hindustani Talimi Sangh	144
on War, India and		Third Class in Indian Rail-	
Socialism	178	ways and Other Articles	183
Subject India	155	Thirty Questions on Indian	
Suggestion No. 4 to		Village Industries	141
Mahatma Gandhi	113	Thought Currents Pts. I-II	183
Supplement to Oil		Thoughts on Indian	
Extraction	142	Discontents	154
Survey of the Matar		Thoughts on Pakistan	122
Taluka	135	Thoughts on the War,	
Swadeshi Movement	136	Peace and Prison	106
Swadeshi True and False	134	Three Trumpets Sound :	
Swaraj in One Year	161	Kagawa, Gandhi and	
Swaraj Shastra	127	Schweitzer	93
Swaraj Through		Three Wise Men of the	
Charkha	138, 139	East and Other Lectures	100

Three Words: How to do	Truth and the War	106
India Free	Tumult in India	166
Three Years' Report of the	Twentieth Century India	169
Harijan Sevak Sangh	Two Lectures on Mahatma	
Through Congress Eyes	Gandhi	99
Through Pakistan to	Two Years' Work	144
Freedom	Unemployment	135
Thumbnail Sketches	Unhappy India	167
Thurston's Philosophy of	Unique Christ and the	
Marriage	Mystic Gandhi	91
Tilak and Gandhi	Unity	185
To the Hindus and Muslims	Unity of India	172
To the Princes and Their	Unseen Power	112
People	Unto This Last	136, 187
To the Protagonists of	Untouchability	119
Pakistan	Untouchables and the	
To the Students (Andrews)	Indian Constitution	119
To the Students (Gandhiji)	Unworthy of Wardha	149
To the Women (Gandhiji)	Victories Without	
To Women (Amrit Kaur)	Violence	109
Tomorrow	Village Communities In	
Towards Dry India	the East and West	187
Towards Freedom	Village Industries and	
Towards Moral Bankruptcy	Reconstruction	141
Towards Struggle	Village Industries in the	
Tragedy of Gandhi	United Provinces	142
Tragedy of Jinnah	Village Republics	132
Training for Peace	Vishva-Bharati	
Trial of Mahatma Gandhi	Quarterly	146, 185
Tribunes of the People	Voice of the Autumn	
Tributes to Gandhiji	Leaf	183
True India	Voiceless India	176
True Takli	War 'a Factor of	
Truth About Gandhi	Production	135
Truth About India (Elvin)	War and India's Freedom	168
Truth About India	War and the Psychological	
(Hyndman)	Condition of Peace	101
Truth About Leprosy		

War Its Causes, Consequences and Cure	106	What Then Must We Do? and a Letter to Engelhardt	187
War or Peace?	107	Wheel of Fortune	139
War Without Violence	107	When Congress Ruled	178
Wardha Scheme of Education	147	Where Are We?	172
Warning to the West	176	Where We Differ	130
Washing Soap and Fountain Pen Ink	140	Which Way to Peace?	107
Way out	174	White Sahibs in India	175
We say "No"	107	Whither Asia?	98
Weaponless Warrior	183	Whither Congress?	171
Week with Gandhi	90	Whither India?	172
What About India?	180	Whither Minorities?	
What Ails India?	171	Who Is the Greatest Man in the World To-day?	93
What are you going to do About It?	104	Why Cripps Failed?	178
What Congress and Gandhi Have Done to the Untouchables	119	Why Musalmans Should Oppose Pakistan?	126
What Congress Fights for?	130	Why Pakistan and Why Not?	125
What Does Gandhi Want?	97	Why Socialism? (Jayaprakash)	134
What Gandhi Has Done For India	93	Why Socialism? (Satyanarayan)	136
What Gandhi Might Do For America	93	Why the Village Movement?	141
What I Owe to Christ	153	Why Vote Congress?	177
What I Owe to Congress and Gandhi	165	Why War?	104
What Is Art? and Essays on Art	187	William Lloyed Garrison on Non-Resistance	186
What is Happening in the North West Frontier Province?	160	William Lloyed Garrison: The Story of His Life	186
What is Wrong with India?	154	Wisdom of Gandhi	183
What It Cost Me	153	Wisdom of Modern India	150
What Price Freedom?	170	With Gandhiji in Ceylon	89
What Shall We Eat?	148	With No Regrets	164
		With Romain Rolland on Gandhism	108
		Whither India?	149
		Wives of Famous Men	99

Woman behind Gandhiji	88	Yogi and the Commissar	
Women and Social		and Other Essays	104
Injustice	117	Young India (Collections	
Word to Gandhi	158	of Writings) Vol. I—III	183
World Crisis under		Young India (Bi-Weekly)	185
Oriental Searchlight	166	Young India (Weekly)	186



## हमारे हिन्दुस्तानी प्रकाशन

	कीमत
दिल्ली-डायरी	३-०-०
भीशु खिस्त	०-१४-०
भेक धर्मयुद्ध	०-८-०
गोसेवा	१-८-०
मरुकुंज	१-४-०
हमारी वा	२-०-०
रचनात्मक कार्यक्रम	०-६-०
हिन्द और ब्रिटेनका आर्थिक लेन-देन	०-८-०
जीवनका काव्य	२-०-०
राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानी	१-८-०
गांधीजी	०-१२-०
हिमालयकी यात्रा	२-०-०
आरोग्यकी कुंजी	०-१०-०
वर्णव्यवस्था	१-८-०
प्रेमपन्थ - १	०-४-०
हिन्दुस्तानी बालपाठावलि	०-५-०
हिन्दुस्तानी पाठावलि ( नागरी )	०-६-०
हिन्दुस्तानी पाठावलि ( अर्दू )	०-११-०
हिन्दुस्तानी कहानी-संग्रह ( नागरी )	०-४-०
हिन्दुस्तानी कहानी-संग्रह ( अर्दू )	०-५-०
बापूकी झाँकियाँ	१-०-०
सयानी कन्यासे	छपता है
निर्भयता	”

नवजीवन प्रकाशन मन्दिर  
अहमदाबाद





